

अकाशक

गोविन्द भवन कार्यालय
गीताप्रेस, गोरखपुर

सवत् २०२४ से २०२५ तक २२,०००

सवत् २०४१ तीसरा संस्करण २०,०००

कुल ४२,०००

मूल्य चार रुपये पचास पैसे

मिलने का पता—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)
मुद्रक—भार्गव प्रेस, अमीनाबाद लखनऊ ।

भूमिका

हम महकते फूलकी तरह जिये जयपुर

हमारा जीवन सुगन्धित फूलोंकी तरह महकता रहे, अपनी सुवाससे दूसरोंके जीवनको निरन्तर महकाता रहे, उन्हें प्रेमकी पुचकार और साहसका प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाता रहे। मनुष्यको एक सीमित और अनजान अवधिका जीवन-रूप, अवसर मिला है, उसके जीवन-पुष्पमें कुछ दिनके लिये ही महक है; अतः उसे सबसे सुन्दर ढंगसे व्यतीत करना चाहिये। उलझन, अशान्ति और परेशानीमें ज़िदगी बिताना मानवता नहीं है। हर व्यक्ति हर आदमको अच्छेसे अच्छा जीवन व्यतीत करनेमें मदद देता हुआ स्वयं भी फलात्मक सौरभ-युक्त ढंगसे जिये, तभी मानव-जीवनका उद्देश्य सफल और ईश्वरकी सृष्टिको मन्तव्य पूर्ण होगा, अन्यथा नहीं।

मनुष्यका व्यक्तित्व सफुद्रसे भी गम्भीर, निश्चल और प्रशान्त है। उसमें सूर्य-जैनी प्रतिभा, प्रखरता और तेजस्विता है। उसके बुद्धिशल, आत्मबल और कला कौशिकी कोई थाह नहीं। वही सबसे अधिक विकसित जीव है। यदि उसकी सब शक्तियाँ किसी प्रकार एकाएक प्रकट हो जायँ, तो वह संसारमें उथल-पुथल मचा सकता है, चाहे तो समग्र संसारको सद्ज्ञानके प्रकाशसे जगमग-जगसग कर सकता है। सर्वाङ्गीण समृद्धि और विकासको विपुल सम्भावनाएँ मनुष्यके शरीर, मन और आत्मामे विद्यमान हैं, पर वह उन्हें सतत पुरुषार्थ और प्रयत्नके बलपर ही प्राप्त करता है। हमें मनुष्य-जीवन इसलिये मिला है

कि हम अपने व्यक्तित्वका पूर्ण विकास करें और अपनी महकसे इस संसाररूपी उद्यानको सुवासित कर दें ।

जीवन एक संग्राम है, इसमें विजय केवल उन्हीं 'वीरों'को मिलती है, जो अपने पराक्रम और पौरुषकी उत्कृष्टता सिद्ध करते हैं । नदीको समुद्रतक पहुँचनेकी सफलता तब मिलती है, जब वह घटानालि टकराली हुई अपने प्रवाहको अप्रगामी बनाये रखनेकी क्षमता अक्षुण्ण रखती है । जिस पानीमें यह शक्ति नहीं होती वह टालाब या झीलकी तरह अवरोध बना पड़ा रहता है । प्रगतिका स्वप्न साकार करनेका अवसर उसे कहाँ मिलता है ?

मनुष्यको सफलतारूपी अमृत-फल तोड़नेके लिये कठिनाइयोंके ऊँचे शृङ्गोंपर चढ़ना होता है । परेशानियों और भाँति-भाँतकी मुसीबतोंके ऊँचे पर्वतोंपर चलना होता है । जो उनकी ऊँचाई देखकर हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें खाली हाथ वापिस जाना पड़ता है; लेकिन जो पुरुषार्थी आदमी खतरोंको ललकारते, विरोध और कष्टोंको पाँवोंतले रौंदते हुए पैर आगे बढ़ाते हैं उन्हे इसी शरतीपर बहुत कुछ मिलता है । विश्वके सफल लोगोका स्वर्णिम इतिहास उनके बड़े हुए साहसके आधारपर ही विकसित हुआ है ।

ईश्वरकी यह इच्छा है कि हम वे तन्मय गुण धारण करें, जो स्वयं उनमें हैं । हमें अपने अंदर ईश्वरत्वके गुणों (देवी सम्बद्) को विकसित करना चाहिये, जिन्हें नैतिकता और मानवताके नामसे पुकारते हैं । धर्म एवं संस्कृतिका विशाल दर्शन इसलिये बनाकर खड़ा किया गया है कि उनसे प्रभावित

मस्तिष्कमें संयमसे रहने और सव्यवहार करनेको आस्था-
 उत्पन्न हो। आस्तिकता और ईश्वरीय शक्तिका मूल प्रयोजन यह
 है कि 'मनुष्य अपने ऊपर अदृश्य ^{जयपुर} नियन्त्रण अनुभव करे
 और गुप्तरूपमें भी—शरीरसे ही नहीं, मनसे भी दुष्कर्म-दुर्विचार
 करनेक —दुष्टप्रवृत्तियाँ अपनातेका साहस न करे।' आत्मनियन्त्रण
 ही सज्जनताका मूल है। यह आत्मनियन्त्रण और आत्मपरिष्कार
 इसलिये आवश्यक है कि मनुष्य सज्जनता सीखे और सब बन्धु-
 बान्धवों तथा बाहरवालों तकसे पूर्ण उदारता बरसे। यही वह
 राजमार्ग है, जिससे हम सच्चे अर्थोंमें सामाजिक प्राणी बनते
 हैं। सामाजिकताके नियमोंका पालन ही व्यक्तिगत और
 सम्मिलित सुख-शान्तिको सुरक्षित रखनेका—प्रगतिशील बनाये
 रखनेका एकमात्र उपाय है। आत्मनियन्त्रण ही सज्जनताका
 मूल है।

मनुष्यने जीवनमें सुख-सुविधा बढ़ानेके लिये ही समाजकी
 व्यवस्था की है; न कि इसलिये कि उसका जीवन भयानक
 कष्टोंसे भरपूर हो जाय। जब मनुष्यने पहले-पहल समाज
 बनाकर रहना प्रारम्भ किया, तब वह एक दूसरेसे सहयोग
 करनेको मदेव तत्पर रहता था। वह अधिकसे अधिक निःस्वार्थी
 और निःस्पृह हो रहा करता था। उसके हृदयमें एक दूसरेके
 लिये सहानुभूति और सह-अस्तित्वका भाव रहा करता था।
 इन्हीं आधारोंपर वह अधिकसे अधिक सुखी जीवन व्यतीत
 करना था। यह उस समयकी बात है जब वह आज-जैसा समृद्ध
 और सुशिक्षित न था।

तब क्या कारण है कि आजका मानव सामाजिक विचारोंके

इतना आगे बढ़ा होनेपर भी भयभीत और दयनीय जीवन व्यतीत रहा है ? वह ऐसा क्यों हो गया है कि उसमें मानव-धर्मकी ही कमी दिखायी देने लगी है ? एक ही समाजके लोग एक दूसरेका शोषण और उत्पीड़न करनेमें क्यों लगे हुए हैं ?

इसका कारण है—'आजके मनुष्यका स्वार्थपूर्ण सच्य ।' आधुनिक आदमी संसारका सब कुछ केवल अपने लिये ही बटोरकर रख लेना चाहता है । समाजमें यदि सबके लिये सुख-सुविधा और समृद्धिकी सुखद परिस्थितियाँ लानी हैं, तो सभ्य कहलानेका दम्भ भरनेवाले आजके मनुष्यको अपनी यह क्षुद्र स्वार्थ-लिप्सा छोड़नी होगी । इस लिप्साके त्यागसे ही पूर्ण और सबका सुख सम्भव है । स्वार्थपरतासे ही विश्वपर सकट आ गया है ।

मनुष्य अपने भाग्यका निर्माण स्वयं करता है

भगवान्ने बड़ी कारीगरीसे मनुष्यके शरीर, मस्तिष्क और आत्माको गढ़ा है । एक-एक अवयव, नस और नाड़ियों बड़ी सावधानीसे लगाया है । उसने उसके हर अङ्गमें अन्त शक्तियाँ छिपाकर रख दी हैं । बस, इन्हें जानने और धैर्यपूर्वक विकास करनेका काम हमारे ऊपर है । हमारे विचारोंमें जीवन्तो स्मृत और गौरवशाली बनानेकी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है । ग्राहस, शौर्य, उद्यम, परिश्रम, उद्योग, धैर्य और सघर्षकी अद्भुत शक्तियाँ हम अपने सृजनात्मक विचारोंसे उत्पन्न करते हैं और इनका प्रयोग जीवनके क्रियात्मक क्षेत्रमें करके लाभ उठाते हैं । इन गुप्त बौद्धिक और आत्मिक शक्तियोंकी ओर ध्यान न दें, तो दीन-दुर्बल और दुखी ही बने रहेंगे ।

घरतीके भोग वीर पुरुषोंके लिये बने हैं, पर इसके लिये मनुष्यको कर्मठता भी तो जागे ? पौरुष न जागा तो हाथ कुछ न लगेगा ।

वेद भगवान्का कथन है—

कृत मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहित ।

गोजिद् भूयासमश्वजिद् घनजयो हिरण्यजित् ॥

(अथर्व० ७ । ५० । ८)

‘मनुष्य ! तू अपने दाहिने हाथसे पुरुषार्थ कर, बायेंमें सफरता निश्चिन है । गोधन, अश्वघन, स्वर्ण आदि सब सप्तादाओंको तू अपने खुदके परिश्रमसे प्राप्त कर ।’

सच बात है, दृढ़ प्रयत्न और सतत उद्योग करते रहनेवाले पुरुष-निर्होने ही इस संसारमें विलक्षण क्रान्तियाँ की हैं । पारस्यतिपाँ उन्हें किसी प्रकार भी नहीं दबा पायीं ।

कठिनाइयाँ आपके पुरुषार्थको जाँचती हैं

पुरुषार्थी मनुष्यको कठिनाइयोसे खबरानेके स्थानपर उनका स्वागत करना चाहिये । उन्हें जीवनरूपी पाठशालाका आदरणीय अध्याय मानना चाहिये । संसारके सब उन्नतिशील मनुष्य कठिनाइयोको शिक्षासे ही शिक्षित हुए हैं । उन्हींके द्वारा उनका मस्तिष्क विकसित होकर ज्ञान-विज्ञानकी इस सीमातक पहुँच सका है । यदि जीवनमें कठिनाइयाँ न हो, आपत्तियाँ न आवें, मुसीबतें न पड़ें, आदमीको जी-तोड़ मेहनत न करनी पड़े तो मनुष्यका जीवन निरान्त निष्क्रिय तथा निरुत्साहपूर्ण बन जाय ।

भला निरुत्साहिन, निष्क्रिय एवं नीरस जीवन जीनेमें क्या आकर्षण रहता है ?

संसारमे जो कुछ चहल-पहल, हलचल और कोलाहल दिखायी दे रहा है, जो गति और प्रगति है, जो जीवन है वह सब कठिनाइयोसे बचने, उन्हें दूर हटाने और उनसे लड़नेके ही कारण है ।

आप अपने जीवनकी कठिनाइयोंको जीवन-विकासका एक अनिवार्य उपाय मानकर उनका स्वागत करें—उनकी चुनौती स्वीकार करें और हर प्रकारकी आपत्तिको संकड़ों कष्ट सहकर भी दूर करें । यही आपका पुरुषार्थ है, यही सफलता तथा उन्नतिका एकमात्र उपाय है । कठिनाइयाँ आपकी प्रतिद्वन्द्वी नहीं, मित्र भी हैं; वे आपको विकासके मार्गपर आगे बढ़ानेमें कारण होती हैं । आपत्तिके एक थपेड़ेले बड़े-बड़े बिगड़े हुए लोग सुधर जाते हैं । कठिनाइयोंकी पाठशालामे शिक्षित और गुजरे हुए मनुष्यके अनुभव बड़ेही असूत्य एवं उपयोगी होते हैं ।

जिदगीको उल्लासपूर्ण ढंगसे जियें

आप बीजकी तरह उगें और बेलकी तरह निरन्तर बढ़ते और ऊँचे उठते ही रहे । याद रखिये, मनुष्य-जीवन उल्लास और उत्साहसे जीनेके लिये है ।

यो जिदगी तो सभी जीते हैं, किंतु क्या कोई कह सकता है कि वह वास्तवमें ठीक ढंगसे जीता है ? जीनेसे हमारा मतलब उल्लासपूर्ण जीवनसे है ।

एक जिदगी, एक उत्साहवर्द्धक आशापूर्ण जीवन, एक प्राणपूर्ण जीवन । वह जिदगी जियें जो न केवल अपने लिये ही

प्यारी हो, बल्कि और सबके लिये भी दुःखी हो, बेशकीमती हो, हर प्रकार आदर्श और प्रेरक हों।

किंतु वह कौन सी कला है कि इस प्रकारकी उल्लासपूर्ण जिंदगी जी सके ? वह कला एक बहुत ही साधारण-सी कला है। उसके लिये न किसी तपकी जरूरत है और न योग-साधना आदिकी। जीवनकी सामान्य गतिमें ही उल्लासपूर्ण जिंदगीकी कला स्वयं सिद्ध हो जायगी।

और वह कला है, दूसरोंके लिये जीना, गरीबों और निर्बलके लिये जीना, मानव-मात्रके हित और मानवताकी समृद्धिके लिये जीना, संसारके लिये जीना। जब हम दूसरोंके लिये जियेंगे, तो हमारी जिंदगी दूसरोंकी हो जायगी और सब उसको प्यार करने लगेंगे, जिसमें आत्मसंतोषके सारे द्वार खुल जायेंगे।

सफल जीवनका यह मतलब है कि इसे योजना या किसी निश्चित फायदेके साथ जियो। जितना काम अपने लिये करो, उससे अधिक काम दूसरोंके लिये करो। जिंद्गीकी फजूलके अनर्थकारी कार्योंसे मत भरो। जिंदगीपर जितनी गहराईसे सोचा जायगा, यह उतनी ही उलझती जायगी। सोचना तो यह चाहिये कि हमने अभी तक कार्य क्यों किया ? कहीं काम, करो ज्यादा। यही सबसे बड़ी सफलताका उपाय है।

नयापुरा, कोटा
(राजस्थान)

—डॉ० रामचरण महेन्द्र
एम०ए०, पी-एच०डी०

वाह !,

—कुछ राहपर चलते हैं, तो उनकी डगमग चालसे धरती दोभ अनुभव करती है ।

कुछ अपनी राह बढ़ते हैं तो पाँवकी गतिमें लक्ष्यतक पहुँचनेकी सूक्ष्म प्रेरणा होनेके कारण राह उन्हें आवाज लगा उठती है, 'ओ बटोही ! तुम्हारा प्रतीक्षामे मैं पलक-पाँवड़े बिछाये हूँ ।'

प्रोफेसर रामचरण महेन्द्र ऐसे ही बटोही हैं । वे साहित्यकी डगरपर बढ़े, तो सफ़लता उनके पीछे-पीछे आवाज लगाती दौड़ी; क्योंकि उनका साहित्य-पिटारा आकाश-कुसुमका वास अथवा फलपना-विलासका लास नहीं है । उनसे जीवनकी परखनेकी अचूक दृष्टि है । यों, उनका साहित्य, जीवनके स्पन्दनसे ओतप्रोत, जिसे जो भी पढ़े, तो पढ़कर 'बुक शैल्फ'में न रख दे—जितना पढ़े, उसे गुननेके लिये ललचाये ।

गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित उनकी 'स्वर्ण-पथ', 'आरम्भय जीवन', 'अमृतके घूँट', 'आशाकी नयी फिरणों', 'जीवनमे नया प्रकाश' आदि पुस्तकोके बाद उनकी 'महकते जीवन-फूल' पुस्तक पढ़िये । यह जिंदगीकी खुशहूसे सर्वत्र सहक रही है ।

यो अभिनन्दनीय है प्रोफेसर महेन्द्रकी कलम, जिसने जीवनके ऐसे उजले चित्र अङ्कित किये हैं, जिन्हे देखें तो बरबस होठ फरक उठें—'वाह !'

—'नया जीवन' मासिकसे—प्रकाशक

श्रावणः

विषय सूची क्रमांक

जयपुर

पृष्ठसंख्या

विषय

१—आध्यात्मिक दृष्टिकोण धारण करनेसे सुख, प्रसन्नता और मृत्यु	१
२—आजका तनावपूर्ण जीवन और मानसिक रोग	१२
३—उद्विग्नतासे अकाल-मृत्यु	२२
४—हरी आँखोंवाले इस देवसे वचिये ।	३५
५—मनके ये राक्षस भी मृत्युका कारण बन सकते हैं ।	४१
६—किसी विषम स्थितिसे परेशान न हों !	५३
७—व्यर्थ घबराया न कीजिये	६१
८—सकटकी भीषण घडीमे रक्षा करनेवाले स्वर्णसूत्र	७०
९—समाजका पतन इस प्रकार रुक सकता है ।	७५
१०—ये हमसे सदा दूर रहे ।	८९
११—प्रफवाहोसे वचिये	९७
१२—अवविश्वास धर्मके लिये कलक	१०२
१३—आयुमे बडे होकर भी क्या आप मनसे बच्चे तो नही है ?	१०७
१४—उन्नतिकी गुप्त साधना	११०
१५—कठिनाइयोंके लाभ भी होता है	११६
१६—स्वभावका छुईमुईपन जीवनके लिये अत्यन्त हानिकारक है	१२४
१७—मनसे मिथ्या भय निकाल दीजिये	१३२
१८—शौर्य, माहम और पराक्रम आज भी कम नही	१३८
१९—आप वीर हैं इसलिये शत्रुओमे डरें नही	१५४
२०—स्वच्छ वस्त्रोका आध्यात्मिक प्रभाव होता है	१५७
२१—हिंदू वेश-भूषण और हिंदी भाषाको अपना नेमे गर्वका अनुभव करें	१७१
२२—सकटके समय आशा नही छोडनी चाहिये	१७५
२३—अनुभवकी अमूल्य निधियाँ	१८८
२४—वे उनमे थे, जो जन्मते है, पर मरते नही	१८८
२५—मनुष्यमे ईश्वरकी झाँकी	१९८
२६—दूसरोके लिये प्राण न्यौछावर करनेवाला युवक ।	२०२
२७—परिश्रम और पुरुषार्थके सहारे मजदूरका पुत्र विद्वान् बना	२०६
२८—मनुष्यके भीतरसे ईश्वरकी झलकियाँ ।	२१२

२६—त्याग और अनुराग	२२५
६०—अपना हाथ जगन्नाथ ।	२३८
३१—आप एक महान् व्यक्ति हैं	२४२
३२—शुभ विचारोंमें नवनिर्माणकी शक्ति है	२५०
३३—विश्वास रक्षिये, आपका सर्वोत्तम समय भविष्यमें आनेवाला है	२५८
३४—आत्मशक्तिका अक्षय भण्डार	२६३
३५—आप क्या एकत्रित करेंगे, विप या शहद ?	२६७
३६—अपना दृष्टिगोण आशावादी बनाइये	२७१
३७—तीस वर्ष की उम्रमें मरा, साठ वर्षमें दफनाया गया	२७६
३८—हमें फूलोंकी तरह मुस्कराते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिये	२८१
३९—मनुष्य जितना अधिक काममें व्यस्त रहता है, उतना ही अधिक जीवित और स्वस्थ रहता है ।	२८७
४०—बस, तनिक-सी देर हो गयी थी ।	२९७
४१—हम मानसिक चोर न बनें !	३०४
४२—मयूर जीवनके लिये यह सर्वोत्तम उपाय है ।	३०७
४३—हिंदूधर्म उपयोगी जीवन-तत्त्वोंको महत्त्व देता है !	३११
४४—आपके हाथों माता लक्ष्मीका अपमान नहीं होना चाहिये	३२१
४५—वर्माचरणद्वारा उपाजित धन ही समृद्धि देता है !	३३३
४६—आपके हाथों दानकी परम्परा चलती रहे !	३३६
४७—आप देवत्वकी ओर ब्रह्म ।	३४५
४८—दया, क्षमा और दण्डका यथार्थ उपयोग सीखिये	३६२
४९—आत्म-संयमसे मनुष्य देवता बनता है	३६७
५०—गायत्री और गौरी महत्त्व	३७२
५१—जीवनका अमृत	३७५
५२—मसारका वह अद्भुत ग्रन्थ, जो कभी पुराना नहीं पडा	३८१
५३—भगवन्दर्पण—गीताका प्रेरक आदर्श	३८६
५४—झूठी भूख छोड़िये	३८८
५५—स्वर्ग और मृतिका सुख यही प्राप्त हो सकता है	३९०
५६—सच्चे सुख-शान्तिका आवार यह है	३९६
५७—जी, मेरी उम्र अस्सी नहीं, सिर्फ चार साल है !	४००

श्रीहरिः

महकते जीवन-फूल

आध्यात्मिक दृष्टिकोण धारण करनेसे
सुख, शान्ति और समृद्धि

एक महात्मा राजाके एक मनोरम उद्यानमे आनन्दमुद्रामें बैठे वातावरण, प्रकृति तथा पुष्पोंका आनन्द ले रहे थे । राजकीय उद्यान बड़े व्ययसे सजाया गया था । हरित लतिकाएँ और नाना रंग-बिरंगे बिहँसते पुष्प, मादक सुगंध, हरी-भरी घास, शीतल-मंद समीर तथा समीप ही प्रवाहित जलकी सुषमा महात्माजीको आनन्दविभोर कर रही थी । वे तन-मन विस्मृतकर बेसुध प्रकृतिकी रूपमाधुरीका पान कर रहे थे ।

म० जी० फू० १—

राजाको उनकी यह निश्चिन्तता अखरी । उनके उद्यानमे कोई साधारण व्यक्ति क्यों ऐसे आ बैठे ? वे कुछ क्रुद्ध होकर महात्माके समीप आये और बोले—

‘जानते हो, यह किसका उद्यान है ?’

महात्मा वैसे ही निश्चिन्त बैठे रहे । उनके मुखपर शान्ति और आनन्द अब भी पूर्ववत् खेल रहे थे । उन्होने उत्तर दिया—

‘यह उद्यान मेरा है । मैं ही इसका आनन्द ले रहा हूँ ।’ यो कहकर वे और भी फैलकर बैठ गये और शान्त एव मनोरम प्रकृतिको निहारते रहे ।

राजा—‘क्या तुम नहीं जानते ‘हो कि यह राजकीय उद्यान है ? मैं राजा हूँ, इस प्रदेशका स्वामी । यह मेरा उद्यान है । इसपर मेरा अधिकार है । इसके पुष्प, वेल, पौधे, वृक्ष तथा अन्य सुन्दर वस्तुएँ सब मेरी हैं । मेरे आनन्दकी वृद्धिके लिये राज्यकी ओरसे इनपर असाधारण व्यय किया गया है । इसमे एक-एक वृक्ष बहुमूल्य है । दूर-दूरसे उन्हे मँगवाया गया है । उन्हे लगाने और पुष्पित करनेमे राज्यका अमित व्यय हुआ है । इतने सबपर तुम-जैसा गेहूँ वस्त्र पहिने अधनंगे शरीर और दो पसलियोवाला निर्धन, निराश्रित व्यक्ति कहता है कि यह उद्यान मेरा है । जो व्यक्ति अपने पेट और शरीर की मामूली-सी आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं कर सकता, वह भला, क्या इस उद्यानका मालिक हो सकता है ?’

महात्मा शान्तभावसे राजाकी मदभरी गर्वोक्ति सुनते रहे । फिर मधुर मुसकान बिखेरते हुए बोले—

‘राजन् ! इस उद्यानकी हरी-भरी लतिकाओं, पुष्पों, वृक्षों तथा अन्य सामग्रीका जितना आनन्द मैं ले रहा हूँ, उतना आप अपनी तमाम राजसी मुविधाओके बावजूद भी नहीं ले रहे हैं । इसपर इतना व्यय करने, अनेक नौकरोद्वारा इसकी देख-भाल, संरक्षण आदि करानेके बाद भी मेरे जितना आनन्द न ले पाना इस बातका द्योतक है कि यह उद्यान वस्तुन आपका नहीं है । यहाँ प्रकृतिका सुन्दर स्वरूप खुला पडा है । जिसकी इन्द्रियोमे उसका सुख भोग करनेकी शक्ति है, जिसकी संवेदना प्रकृतिके रसपानके लिये सूक्ष्म है, जो तन्मयतापूर्वक अपना प्रकृतिसे तादात्म्य कर सकता है, वही उसका मालिक है । सुन्दरता और आनन्द हृदयके विषय हैं । केवल सहृदय व्यक्ति ही इनका रसास्वादन कर सकते हैं । अन्य व्यक्ति इनपर चाहे कितना ही धन व्यय करें, इनके मालिक नहीं हो सकते । सुन्दर और आनन्ददायक वस्तुएँ वास्तवमे उन्ही सहृदय संवेदनशील व्यक्तियोंकी सम्पत्ति हैं, जो उनसे सुख और आह्लाद प्राप्त करते हैं । मैं इस उद्यानके सौन्दर्यका रसपान कर रहा हूँ । अतः यह मेरा ही है ।’

यह सुनकर राजा सोचमे पड गया । महात्माकी उक्तिमे गहरी सत्यता छिपी थी । यह सत्य था कि उसने उद्यानकी सजावट और संरक्षणमे अनगिनत धन व्यय किया था । वह पौधोंकी देख-भाल तथा संग्रहमे उदारतापूर्वक व्यय करता था । परंतु प्रकृतिकी उस

चित्रशालाका आनन्द लेनेके लिये उसके पास उन्मुक्त हृदय नहीं था। वह उद्यानमें टहलते हुए भी राज्यकी नाना चिन्ताओंमें डूबा रहता था। उसका मन अनेक गुत्थियोंमें उलझा रहता था। प्रकृतिके उस सुन्दर वातावरणमें भी उसे राजनीतिकी उखाड़-पछाड़ अशान्त रखती थी। उद्यानमें टहलना उसके लिये वैसा ही था, जैसे दरवारमें बैठकर राज्यकी समस्याएँ सुलझाना। दरवारमें नाना व्यक्ति इसके समक्ष प्रस्तुत होते, बागमें ये सब उसके मानस-नेत्रोंसे दिखायी देते रहते। उस सुन्दर उद्यानका होना, न होना राजाके लिये बराबर था।

वास्तवमें उक्त दृष्टान्तमें आनन्दका एक महान् रहस्य निहित है। आनन्द और सुन्दरताकी अनुभूतियाँ हमारे हृदयकी वस्तुएँ हैं। एक गुलाबका पुष्प या रगीन बादल, उगता हुआ बालरवि या सर्गीतकी मञ्जुल ध्वनि, मनोहर चित्र, जिसे हम सुन्दर समझते हैं, सम्भव है दूसरे व्यक्तिकी दृष्टिको उसमें कुछ भी सौन्दर्य प्रतीत न हो, उसे देखकर वह आनन्दकी उपलब्धि न कर सके। पर यदि आपके पास सौन्दर्यके पारखी नेत्र, मधुर ध्वनिका रस लेनेवाले कान, सहानुभूति और प्रेमसे सराबोर हृदय है तो निश्चय जानिये, दूसरोकी वस्तुओंमें उनकी अपेक्षा आपको अधिक आनन्द प्राप्त होगा।

आनन्द और सौन्दर्य व्यक्तिगत भावनाएँ हैं। प्रत्येक व्यक्तिकी सवेदना-शक्ति और आनन्द प्राप्त करनेकी सूक्ष्मता पृथक्-पृथक् है। किसी सुन्दर वस्तुको समीप रखनेका तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति उससे उसी अनुपातमें आनन्द और प्रेरणा भी प्राप्त कर रहा है, जितना सहृदय कर सकता है।

इसके विपरीत एक सवेदनशील व्यक्ति केवल अपने दर्शनकी सूक्ष्मता, अनुभूतिकी गहराई और उदार दृष्टिकोणकी शक्तिसे दूसरोंकी अनेक वस्तुओंका आनन्द ले सकता है। जो व्यक्ति बाग लगाते हैं, आप उनके बागमे जाकर प्रकृतिका आनन्द ले सकते हैं। घनी-मानी सज्जनोंके मकानोमें बने हुए चित्रोकी कलाको परखकर आप कलाके भव्य प्रदेशमे प्रवेश कर सकते हैं। उनके घरमे बजनेवाले वाद्य-संगीतका आनन्द ले सकते हैं। दूसरोकी पुस्तके लेकर पढ सकते हैं और आनन्द लाभ कर सकते है। दूसरोके हर्षमे हर्षित और दुःखमें सम्मिलित होकर अपनी आत्माकी परिधिका विस्तार कर सकते हैं। दूसरोके बाल-बच्चे आपके बाल-बच्चे हैं ! प्रत्येक व्यक्ति आपसे सम्बन्धित आपका मित्र एव हितैषी है।

वास्तवमे आनन्द और सौन्दर्य वस्तुओमे नहीं है, देखनेवालेके मनमे है। हमारे आनन्द और सौन्दर्यका मापदण्ड हमारे मनकी ऊँचाई और चौडाईपर निर्भर है। जिसकी रुचि जितनी परिष्कृत है, हृदय जितना सवेदनशील और उदार है, वह उतना ही आनन्द और सौन्दर्यका पान करता है। मनुष्यका दृष्टिकोण ही आनन्द देनेवाला है। ससार जिस भौतिक आनन्दके लिये अशान्त है, उसमे आनन्द लेशमात्र भी नही है। वास्तविक आनन्द तो हमारे अदर हमारी आत्मामे है।

यह सोचकर मत विक्षुब्ध हूजिये कि आप बड़े-बड़े उद्यानो, महलो अथवा विशाल अट्टालिकाओंके मालिक नही हैं। कल्पना कीजिये कि यदि ये वस्तुएँ आपकी होती भी, तो भी आप इन्हे

कही उठाकर नहीं ले जा सकते थे । उनका मालिक होनेपर भी ये आपसे दूर-दूर ही रहती । केवल मनके अंदर एक स्वार्थमयी भावना यह रहती कि हम इन वस्तुओके स्वामी हैं, दूसरोका इनपर अधिकार नहीं है । आप कल्पनाद्वारा इन सब वस्तुओको अपना मानकर उस ममतामयी भावनासे मुक्त रह सकते हैं, जो इन वस्तुओके मालिकोके हृदयको संकुचित कर देती है ।

प्रत्येक सांसारिक वस्तुको अपना ही मानकर आनन्द लीजिये । परमेश्वरने सब कुछ आपके लिये ही, आपकी आत्माको सुख-शान्तिमें निमग्न करनेके लिये, आपकी सहायताके लिये विरचित किया है । हरे-भरे उद्यान, असीम उल्लाससे कलकल बहती हुई सरिताओके तट, वृक्षोंकी शीतल छाया, पुष्प, स्निग्ध सुखद समीर, सार्वजनिक स्थान, मठ-मन्दिर—सब आपके हैं । आप जिस मन्दिरमें पूजन, चिन्तन, भजन इत्यादिके लिये प्रविष्ट होते हैं, उसे अपना ही मानकर चलिये । यदि आप ही उसके मालिक होते तो कैसे उसे स्वच्छ-सुन्दर रखते, कितनी देख-भाल करते, सावधानियाँ रखते—यह आप अब भी कर सकते हैं । आप सार्वजनिक धर्मशाला अथवा पुस्तकालयमें जाते हैं । प्रत्येक धर्मशालाके जिस कमरेमें आप ठहरते हैं, उसे अपना ही समझकर स्वच्छ रखिये । पुस्तकालयकी पुस्तक अथवा समाचार-पत्रको इस सावधानीसे पढिये मानो आपकी ही हों । जैसे आप अपनी वस्तुको सावधानीसे काममें लेते हैं, वैसा ही आत्मभाव इनमें रखिये ।

आप जितना इनसार्वजनिक वस्तुओ से तादात्म्य करेंगे ही

उतना ही आनन्द प्राप्त होगा। आत्मभावका दायरा विस्तृत हो जानेसे अनेक जड वस्तुओं, पशु-पक्षियों, पुष्प-वृक्षों, उद्यानों तथा सार्वजनिक स्थानोंमें अपनत्वकी सरसता प्राप्त होगी। प्रत्येक वस्तु आपकी ही है, परमेश्वरने आपके लिये ही निर्मित की है, आप उसका आनन्द प्राप्त कर सकते हैं—यह भाव मनमें रखिये। एक पग और आगे रखिये और सोचिये कि इस असत् जगत्के आनन्दोंसे भी ऊँचा, अधिक परिष्कृत पूर्ण एक और आनन्द स्रोत है। वह अनन्त आनन्द और सुख-सागररूप आपकी आत्माका आनन्द है। उस आत्मिक जगत्में प्रवेश करनेसे परम शान्ति और सुखका अनुभव होता है। यह वह दिव्य आनन्द है, जहाँ मृत्युकी कुटिल छाया-तक प्रविष्ट नहीं हो सकती। इस क्षेत्रके आनन्दोंमें रमण करने से हम मृत्युतकसे अभय हो जाते हैं और उस अनन्त जीवन और अनन्त शक्तिमय ईश्वर तत्त्वमें तन्मय हो जाते हैं। इस निर्विकार अवस्थाको प्राप्त कर लेनेपर हमें प्रतिकूल प्रसङ्ग और प्रतिकूल परिस्थितियाँ अशान्त नहीं कर सकती।

मत समझिये कि आप दीन-हीन हैं या अनेक वस्तुओंके स्वामी नहीं हैं। अभाव-जैसी कोई वस्तु आपकी चिन्ताका विषय नहीं बननी चाहिये। ईश्वरकी इस परम समृद्ध विपुला सृष्टिमें अभाव नहीं है। सर्वत्र आपके लिये समृद्धि है। अनेक प्रकारकी वस्तुएँ भविष्यमें आपके लिये भरी पडी हैं। आज नहीं तो कल, ये समृद्धियाँ आपको प्राप्त होनेवाली हैं। विपुलताकी अभावपर, पुण्यकी पापपर, सत्यकी झूठपर अवश्य विजय होगी। सकुचितता सृष्टिमें नहीं, स्वयं आपकी

मानसिक दृष्टिमें है। उसके स्थानपर अपनी आत्माके विपुल विस्तारपर चिन्तन करना चाहिये।

आपकी आत्मामें अभाव-जैसी कोई वस्तु नहीं है। उसमें सर्वत्र विस्तार है। जो तत्त्व परमेश्वरसे आपको प्राप्त हुआ है, इस समग्र सृष्टिमें जिसका प्रकाश दृष्टिगोचर हो रहा है, वह आपके अंदर रहनेवाला आत्मतत्त्व ही है। मनुष्यको अपने महान् तेज एवं सामर्थ्यका तबतक ज्ञान नहीं होता, जबतक उसे आत्मभावकी चेतना अथवा आत्मतत्त्वका बोध न हो जाय। जीवनमे आध्यात्मिक दृष्टिकोण ग्रहण कर लेनेके उपरान्त मनुष्यके जीवनमें एक महान् परिवर्तन होता है। सर्वत्र उसे अपनी दिव्य आत्माके अंश दिखायी देने लगते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जड़ पदार्थोंतकमे वह अपनत्वकी झलक देखता है। संकुचितता छूट जाती है और उदारता उसके मनमें प्रविष्ट हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनानेसे उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अन्धकारसे दिव्य प्रकाशमें आ गया हो, अथवा स्वप्नावस्थासे जागृतिके राज्यमें आ गया हो। जिन क्षुद्र अभावोपर सांसारिक व्यक्ति नित्यप्रति दुःख-क्लेश भोगते हैं, वे आत्मवादी सिद्धको वस्तुतः अत्यन्त तुच्छ, क्षुद्र तथा सारहीन प्रतीत होते हैं। कारण, वह अपनी सत्-चित्-आनन्दमयी आत्माके विकासके कारण विक्षेपरहित, शान्त तथा उद्वेगसे मुक्त रहता है और अपने ईश्वरत्वके वातावरणमें निवास करता है।

आध्यात्मिक दृष्टिकोणको सिद्ध करने और सवातन सुख प्राप्त करानेवाला एक संक्षिप्त साधन है—वह है अपनी आत्माको पहचान-

कर विश्वमे उसकी छाया देखना । हममें वे सब दैवी सिद्धियाँ हैं, जो ईश्वरमे हैं । सासारिकता, तृष्णा और तुच्छ स्वार्थको तिलाञ्जलि देकर अपनी आत्माकी दिव्य शक्तियोंकी अभिवृद्धि करनेका प्रत्येक व्यक्तिको पूर्ण अधिकार है । मैं वास्तवमें आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ । मेरी इन्द्रियाँ मेरे मनके अधीन रहती हैं । मैं निर्भय होकर ससारमे विचरण करता हूँ । चाहे कैसा भी बाह्य सघर्ष हो, विपदाएँ या विरोध हों, प्रतिकूल प्रसङ्ग हो, मेरी आत्माको उनसे कोई हानि होनेवाली नहीं है । मैंने अपने मनकी बागडोर अपने मनके हाथमे दे दी है । स्वार्थ, संकुचितता, निर्धनता, अभाव—मेरे आत्म-राज्यमे विद्रोह नहीं खड़ा कर सकते । मेरा मन दृढ आत्मसंकल्पयुक्त हो गया है ।—इस प्रकारके विचार मनमे रखनेसे हमे अनुभव होने लगता है कि परमात्माने अपने पुत्रोको किसी भी वस्तुसे वञ्चित नहीं किया है, जो वास्तवमे उनके लिये उपयोगी हो ।

आप अनन्त सामर्थ्योंसे भरे पड़े हैं । ज्यो-ज्यो अन्तरात्मामे स्थित सामर्थ्योंको प्रकट करेंगे, आत्मभावका अभ्यास करेंगे, अपने-आप पैदा की हुई संकुचित मन स्थितिसे मुक्त होते जायँगे, त्यों-त्यों विकारमय जीवन दूर होता जायगा और इन्द्रियाँ उच्च प्रकारके आनन्दोंका पान करने लगेंगी । विश्वास कीजिये—सब अभाव, पाप, दुःख, क्लेश, भय और सासारिक चिन्ताएँ स्वयं आपकी ही पैदा की हुई हैं । आपकी आत्मामे ये बन्धन नहीं हैं । इन्हे छोड़कर पृथक् हो जाइये और उस आत्मप्रदेशमे प्रविष्ट हूजिये, जहाँ पूर्ण सुख, परम आनन्द और परम शान्ति मिलती है ।

आपके प्रेमकी शक्ति, परोपकारकी शक्ति, सहानुभूति, दया, करुणाकी नाना शक्तियाँ, भगवत्प्रेमकी अनेक दिव्य शक्तियाँ आपके अन्तर्मनमे सुप्त पडी हैं। आपने अज्ञानवश उनका विकास नहीं किया है। अखण्ड विश्वास और सतत अभ्यासद्वारा उन्हें जाग्रत् भर करनेकी आवश्यकता है। ध्यान तथा मननसे इनको दृढ किया जा सकता है। परम प्रभुका ध्यान, उसीमे एकाग्रता, जपद्वारा पुन-पुन. स्मरण करके हम अपनी आत्माकी शक्तियाँ बढा सकते हैं।

कितने ही व्यक्ति अज्ञानवश यह समझ बैठे हैं कि हम सुख-शान्ति या दिव्यता नहीं प्राप्त कर सकते। प्रतिभा, सिद्धियाँ और शक्तियाँ ईश्वरदत्त प्रसाद हैं। क्या आप भी यही सोचते हैं? यदि ऐसा है तो यह भ्रम मनसे आज ही निकाल दीजिये। प्रकृतिने आपको भी यथेष्ट साधन और सामर्थ्य प्रदान किये हैं। ज्यो-ज्यो विशुद्ध आत्मिक भाव तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण बढता जायगा, त्यो-त्यो ज्ञानरूपी दापकका प्रकाश, दिव्य सामर्थ्य और मनोबल भी बढते जाते हैं। भौतिक क्षणिक सुख और विकारजनित मोह-तिमिर नष्ट हो जाता है। मनकी वृत्तियोंका भयकर उत्पात, निरन्तर चापल्य, दारुण प्रहार—ये सब शान्त हो जाते हैं। बाह्य जगत्के मिथ्या प्रपञ्चो, थोथे प्रतिबन्धोसे मुक्त होकर मनुष्य अलभ्य दैवी सामर्थ्य प्राप्त करता है।

आप निज आत्मामे प्रवेश कीजिये। वही आपका वास्तविक सत्-चित्-आनन्द, परम विशुद्ध स्वरूप है। वह ऐसा प्रदेश है जहाँ पूर्ण सुख, परम आनन्द एवं परम शान्ति प्राप्त होती है। भ्रान्तियों

आध्यात्मिक दृष्टिकोण धारण करने में सुख-शान्ति क्रमांक 106, 88

तथा अज्ञान-जन्य निश्चयोंसे मुक्ति दिलाने वाली अन्तःसत्त्व ही है।
उसीमें वृत्तियोंको अन्तर्मुख करनेपर शान्ति प्राप्त होती है।

आत्मदृष्टिकी प्राप्तिपर रोग, दुःख, शोक, अभाव, जय, पराजय, मान, अपमान, तृष्णा, क्षुधा, हर्ष, शोक हमें परेशान नहीं कर सकते। हमारी आत्माको ये सब बन्धनमें नहीं बाँध सकते। आत्माको जान लेनेपर जाननेके लिये और कुछ भी शेष नहीं रह जाता।

जो सनातन सुख है, जो समग्र विश्वमें प्रतिच्छाया रूपसे वर्तमान है, जो अपनी उन्मुक्ततासे सर्वत्र प्रशान्त प्रकाश विकीर्ण करता है, जो अन्धकारके गहन कूपसे निकालकर हमें अद्वितीय परम आत्माका दर्शन कराता है, वह मन स्थिति प्राप्त कर लेना ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। यही परम शाश्वत एव अटल सत्य है। आत्मामें प्रवेश करनेसे ज्ञानचक्षु खुलते और समस्त बन्धन और अभाव दूर हो जाते हैं।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥

(कठोपनिषद्)

‘तू आत्माको रथका स्वामी जान, शरीरको रथ जान और बुद्धिको सारथि जान और मनको लगाम जानकर व्यवहार कर।’

एक ही देव सब भूतोमें छिपा हुआ है, सबमें व्यापक है, सब भूतोका अन्तरात्मा है, कर्मोंका अधिष्ठाता है, सब भूतोका वास-स्थान है, साक्षी है, चेतन है, अकेला है और निर्गुण है।

आजका तनावपूर्ण जीवन और मानसिक रोग

एक साधारण-सी हैसियतके क्लर्क महोदय तने हुए, कुछ उद्विग्न-से मेरे पास आये और उन्होंने पाँच सौ रुपये उधार माँगे। मैंने आश्चर्यसे पूछा, 'क्या किसी कन्याके विवाह इत्यादिके लिये प्रबन्ध कर रहे हैं या पुत्रको उच्च शिक्षाके लिये कहीं बाहर भेज रहे हैं ? रुपयेको क्या कीजियेगा ?'

वे उच्च स्वरमे कुछ आँखे तरेरते हुए बोले, 'अजी, क्या बताऊँ, पिछले तीन महीनेसे बड़ा उद्विग्न जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मनपर बड़ा भारी बोझ है। सदा तनाव बना रहता है।'

'आखिर बात क्या है ?' मैंने समवेदनाभरे स्वरमे पूछा।

'बात भी छोटी-सी है और फिर बढ़कर तिलका ताड़ हो गयी है। मेरे घरके सामनेवाला शराबी पड़ोसी तनिक-सी बातपर मुझसे लड़ बैठा। पहले आवेशमे जोर-जोरसे बोला, फिर हाथापाईकी नौबत आ गयी। मार-पीट हो गयी। उसने मुझपर फौजदारीका मुकदमा दायर कर दिया है, पर उसका पक्ष कमजोर है। मैंने प्रसिद्ध वकील किया है और अभी जीत रहा हूँ। भला, उस छोटे-से आदमीसे मैं कैसे नीचा देख सकता हूँ? मेरी भी इज्जतका सवाल है। अब थोड़ा-सा पैसा तो खर्च होगा, देखना, कैसा नीचा दिखाता हूँ। बस, आप पाँच सौ रुपयेका इतजाम कर दीजिये। रुपया तो आता-जाता रहता है, पर एक बार उस दुष्टको हराना जरूर है।' यह कहते-कहते वे आवेशमे आ गये। उनकी भींहे तन गयी और नेत्र कुछ लाल हो गये।

स्पष्ट था कि वे बदला लेनेके लिये तने बैठे थे। तीन महीने होनेपर भी उनकी उत्तेजना और आवेश शान्त नहीं हुए थे। मन तनावसे भरा हुआ था। उनका दिमाग थका-माँदा-सा मालूम हो रहा था। यह तनावपूर्ण अवस्था ही मानसिक अस्वस्थताकी सूचक है।

x

x

x

हालकी ही बात है, एक व्यक्तिको इतना भयानक क्रोधका दौरा उठा कि उसने अपनी पत्नीकी नाक काट डाली और इस गुस्सेका कारण साधारण ही था। उसकी पत्नी जब-तब अपनी माँके घर जानेकी जिद किया करती थी। पति महोदय क्रोधसे सदा तने रहते

थे । यह तनाव दिमागमें बढ़ता रहा, पनपता रहा ; आखिर बढ़कर उसका भयानक दुष्परिणाम निकला । पतिको सजा मिली होगी और पत्नी हमेशाके लिये कुरूप हो गयी !

✘

✘

✘

मेरे एक मित्र हैं । हिंदीके उच्चकोटिके कवि हैं । प्रोफेसर हैं । उनकी लेखनीमे जादू है । उनकी एक समस्या है कि रात्रिमें उन्हे नीद नहीं आती । चारपाईपर पडे करवटें बदलते रहते हैं । कई बार नीद लानेवाली दवाइयोका प्रयोग करके सोते हैं, लेकिन डाक्टर कहता है कि इन बेहोशी लानेवाली दवाइयोमे खतरा है । बार-बार निद्रा लानेवाली ओषधियाँ नहीं लेनी चाहिये । अब बिना उस दवाईके दो-दो दिन नहीं सो पाते है । अनिद्रा रोगसे परेशान हैं । उन्होने एक बार मुझे अपने मानसिक अस्वस्थ्यकी सूचना देते हुए लिखा था, 'मेरे शिक्षक प्रो० बोरगाँवकर ३० वर्ष इसीसे बीमार रहे और अन्तमे आन्तरिक तनावपूर्ण मानसिक अवस्थाके कारण मरे ।' मैंने नीद न आनेके अनेको रोगियोको देखा है, जो थोड़ी-सी नीदके लिये सब कुछ बलिदान करनेको तैयार रहते हैं । दिल्लीमें एक अठारह सालकी युवती एक सालतक न सोयी । एक ६० वर्षकी वृद्धा पुत्रशोकमे उद्विग्न होकर १२ वर्षतक पूरी न सोयी । यह अनिद्रा रोग बहुत दिनोंतक तनावपूर्ण जिदगी जीने और व्यर्थकी चिन्ता और गुप्त भयको मनमे स्थायीरूपसे बसा लेनेका दुष्परिणाम है ।

राँचीका एक समाचार है—

'पता चला है कि राँची जिलाके लोहरदगा थानाके अन्तर्गत

दूरगाँव नामक ग्राममें एक उराँव युवकने अपने पिताकी हत्या लाठीसे मारकर कर दी। पिताने अपने युवक पुत्रको गाली दी थी। इसपर वह बुरा मान गया और इतना उत्तेजित हुआ कि पिताकी हत्या कर दी।'

इतने छोटे कारणपर ऐसा महापाप-काण्ड कर डालना गुप्त मनमे जमे हुए तनावके कारण ही हुआ।

✘

✘

✘

एक युवक विद्यार्थी सिनेमाके ससारसे आकर्षित होकर बम्बई भाग निकला। वहाँ अध-पगला-सा फिरता रहा। कई सिनेमा बनानेवाली कम्पनियोंकी खाक छानता रहा। उसके गुप्त मनमे फिल्मी कलाकार बननेकी अदम्य और उत्कट इच्छा थी। दुर्भाग्यसे आजकल जो सस्ती फिल्मे बनती हैं, उनमे काम-क्रीड़ा, उच्छृङ्खलता, एव अनैतिक कृत्योंकी भरमार रहती है। इन्हे देख-देखकर युवक स्वप्नके ससारमे विचरण किया करते हैं। वासनाद्वारा उत्पन्न तनावसे भरे रहते हैं। इस विद्यार्थीको जब कुछ न मिला, तो आत्महत्या कर ली। जेबमे जो कागज मिला, उसमे लिखा था—'मैं सिनेमाका हीरो बनना चाहता था। ऐसी कुरूप दुनियामे मैं जीना नहीं चाहता, जिसमे मेरी कलाको समझनेवाला कोई न हो।' मानसिक तनावसे अकाल मृत्यु हो गयी !

✘

✘

✘

एक नववधूने सासके व्यङ्ग्य बाणोंसे तग आकर आत्महत्या की

है। उसने जो अन्तिम पत्र लिखा था, उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि वह घुटन और तिरस्कारसे तग आ गयी है और इस प्रकार अपने दुःखमय जीवनका अन्त कर रही है। स्त्रियोमें तनाव बहुत अधिक रहता है, जिसके कारण वे मानसिक नरकमें रहती हैं !

X

X

X

हालकी ही बात है कि एक पेन्शन लेने आये हुए वृद्ध बैंकमें ही गिरकर मर गये। एक अध्यापक कक्षामें कुर्सीपर बैठकर पढाते-पढाते ही चल बसे। अध्यापको तथा विद्यार्थियोको उनके शवका दाह-सस्कार करना पडा।

ऐसे व्यक्ति हरदम मनमें कुछ-न-कुछ तनाव या चिन्ताकी स्थिति बनाये रहते हैं। काल्पनिक भय तथा मानसिक बीमारियोसे परेशान रहा करते हैं। परिवारकी छोटी-बड़ी अनेक चिन्ताएँ उन्हें सदैव घेरे रहती हैं। यही जीर्ण चिन्ताएँ बढ़कर मानसिक रोग बनते हैं और अन्तमें उनकी मृत्युके कारण बनते हैं।

तनावके कारण क्या हैं

प्रश्न उठता है, मानसिक तनाव क्यों उत्पन्न होता है ?

आजकल लोग तनिक-सी बातपर क्रुद्ध हो जाते हैं। बुरा मानने और ईर्ष्या-वैर करनेकी दुष्प्रवृत्ति इतनी उग्र हो उठी है कि अहंपर तनिक-सी चोट लगते ही नाराज हो उठते हैं। उनकी पाशविक वृत्तियाँ उच्छृङ्खल हो उठती हैं। दूसरोसे अनबन होनेपर

चिन्ता और फिर उससे मानसिक तनाव पैदा होता है। उनकी स्थिति नर-शरीरवाले एक पिशाच-जैसी हो जाती है।

पशुओंका स्वभाव है, बिना बात नाराज या असंतुष्ट हो बैठना, सींग या लातोसे मारना या फिर दाँतोसे काट लेना।

साँपको चाहे भूलमे ही या अनजानमे किसीने छेड़ दिया हो, पर वह कुत्सित स्वभाववश अपने-आपको थोड़ा-सा आघात लगनेमात्र-से ही इतना क्रुद्ध होकर तन जायगा कि सामनेवालेके प्राण ही लेकर छोड़ेगा।

कहते हैं कि सिंह, बाघ, तेंदुआ आदि हिंस्र पशु केवल इतनी-सी बातपर नाराज हो जाते हैं कि हमसे किसीने आँख ही कैसे मिलायी। नीची आँखें करके भले ही कोई निकल जाय, पर दूसरेके द्वारा उनका सामना किया जाना वे अपना अपमान समझते हैं। लोग बताते हैं कि भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षस भी ऐसे ही असहिष्णु होते हैं। अपने विरुद्ध जरा-सी बात सुनते ही आवेशमे भर जाते हैं।

सर्प, बाघ और भूत-पिशाच मनुष्ययोनिमे तो नही माने जाते पर मनुष्योंकी आकृतिमें भी बहुत-से पाये जाते हैं। जिन्होंने अपनी हिंस्र प्रवृत्तियो, अपने क्रोध, उत्तेजना, उन्माद और आवेशको वशमें करना नही सिखा है, वे हिंस्र पशु ही तो हैं।

आजका कानून फौरन बदला लेनेमें बाधा डालता है। इस-लिये दूसरोके प्रति क्रोध, उत्तेजना और आवेश हमारे गुप्त मनमें जमे रह जाते हैं। आज मुकद्दमेबाजी तेजीसे चल रही है और

म० जी० फू० २--

वकील लोग अनाप-शनाप कमा रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोग मुकद्दमे लड़-लडाकर मनके तनावको किसी प्रकार निकालना चाहते हैं।

उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मेरी मान-हानि की, उसने मुझे पराजित किया और उसने मेरा धन हरण किया—ऐसे विचार जब गुप्त मनमें जमा हो जाते हैं, तब मन तनावकी स्थितिसे भर जाता है। मनुष्य किसी-न-किसी तरह बदला लेनेकी योजनाएँ बनाता रहता है। वैर बढ़ता ही जाता है। वैरसे वैर कभी शान्त नहीं होता। प्रेम, दया, करुणा, ममता, स्नेह, सहानुभूति आदि कोमल प्रवृत्तियोंके द्वारा ही वैर-भाव शान्त होता है और तनाव कम होता है।

कहा भी है—

अक्रोशदयधीन्मां स ह्यजयदहरच्च मे ।
ये च तन्नोपनह्यन्ति वरं एषूपशाम्यति ॥

अर्थात् उसने मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, मुझे पीटा, उसने मुझे पराजित किया और उसने मेरे धनका हरण किया—जो व्यक्ति ऐसे तनावपूर्ण विचारोंको मनमें स्थान नहीं देते, उनमें वैर शान्त हो जाता है। तनावपूर्ण स्थिति कम हो जाती है।

न हि वरेण वैराणि शाम्यन्तीह कदाचन ।

अवरेण हि शाम्यन्ति केषु धर्मः सनातनः ॥

याद रखिये, वैरभाव रखनेसे वैर कभी शान्त नहीं हो सकता। अवैर अर्थात् प्रेममय क्षमाशील भाव रखनेसे ही वैरभाव (सब प्रकारका तनाव) शान्त होता है। यह सनातन धर्म है।

व्यर्थके झगडो और उत्तेजनासे कोई समस्या सुलझती नही, वरं लडाई-झगडे बढते ही जाते हैं । मुकद्दमेबाजीसे कुछ हाथ नही आता, दीर्घकालीन वैर चलता रहता है । मुकद्दमेमे विरोधी पक्ष भी अपना पक्ष न्यायपूर्ण ही बतलाता है । अत वे जीत या हारकर भी अपने पीछे सताप, पश्चात्ताप, दु खद बेबसीकी एक लम्बी शृङ्खला छोड देते हैं ।

तनावपूर्ण स्थिति भयकर है । उससे बचनेके लिये मानसिक उद्वेगोको गुप्त मनमे स्थान न दिया जाय । उद्वेगोंसे सावधान रहे । आवेश और उत्तेजना, घबराहट और हडबडी, क्रोध और असतुलनके क्षणोमे अपनेको काबूमे रक्खा जाय और धैर्य तथा शान्तिसे काम लिया जाय ।

यदि आप मानसिक सतुलन बनाये रहें, तो कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति ऐसी नही है कि उसका हल न निकल सके । आप केवल अपने मानसिक सतुलनको सुरक्षित रखें । अपनी सूझ-बूझ, बुद्धि और दूरदर्शितासे समस्याका हल निकाले ।

हम कैसे सुखी रह सकेंगे ?

हमारे वेदोमे मनकी तनावपूर्ण स्थितिको हटानेके अचूक उपाय दिये गये हैं, देखिये—

सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः ।

अन्यो अन्ययभि हर्यत दत्सं जातमिवाध्न्या ॥

(अथर्ववेद ३ । ३० । १)

अर्थात् हम पारस्परिक वैर-भावको त्यागकर सहृदय, मनस्वी

तथा उत्तम स्वभाववाले हों; एक दूसरेको सदैव प्यारकी दृष्टिसे देखे ।
तभी हम सुखी रह सकेंगे ।

ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट

संराघयन्तः साधुराश्चरन्तः ।

अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत

सध्रीचीनान् वः संमनसस्कृणोमि ॥

(अथर्ववेद ३ । ३० । ५)

अर्थात् जीवनको सशोधित करते हुए, ज्ञानमें वृद्धि करते हुए,
परस्पर एक दूसरेकी सेवा-सहायता करते हुए, सदा-सर्वदा मीठी
वाणीका उच्चारण करते हुए हम सब लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार करें ।
सबके मन समान हों । (प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, आनन्दकी
दैवी स्थितियोंसे भरे रहे ।)

अनमित्रं नो अघरादनमित्रं न उत्तरात् ।

इन्द्रानमित्रं नः पश्चादनमित्रं पुरस्कृषि ॥

(अथर्ववेद ६ । ४० । ३)

अर्थात् हे देव ! मेरे नीचे ऊपर तथा आगे-पीछे ऐसे ही पुरुषको
प्रस्तुत करो, जो शत्रुभावसे रहित एवं मैत्रीभावनासे परिपूर्ण हो ।

आपकी यही आकाक्षा सदा रहनी चाहिये—

यद् वदामि मधुमत् तद् वदामि यदोक्षे तद् वदन्ति मा ।

त्विपीमानस्मि जूतिमानवान्यान् हन्मि दोषरः ॥

(अथर्ववेद १२ । १ । ५८)

अर्थात् मैं सदैव अपने मुखसे मीठे वचन बोलूँ । (मनमें
दैवी गुण धारण करता रहूँ) सभी मुझसे प्यार करें । मैं दिव्य

प्रकाशको अपने हृदयमें धारण करूँ । जो बुरे तत्त्व मेरे समीप
आयें, उनसे मैं सदा सुरक्षित रहूँ ।

बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः
सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः ।
अभिवीरो अभिषत्वा सहोजि-
ज्जंत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोविदन् ॥

(अथर्ववेद १९ । १३ । ५)

बन्धुओ ! जीवनमे पूर्ण सफलता और मानसिक सुख प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी दैवी शक्तियो (दैवी सम्पदा) को पहचानो और आसुरी दुष्प्रवृत्तियोसे बचो । जीवनमे अनेकों विघ्न-बाधाएँ तो सदा आती ही रहेगी । उनसे कभी मुक्ति नही होगी, पर उनसे संघर्ष करनेके लिये आपको अपने उज्ज्वल भविष्य और दैवी स्वरूपमे विश्वास होना चाहिये ।

परमात्माके भजन, कीर्तन, धार्मिक ग्रन्थोके अध्ययन, श्रवण इत्यादिसे मानसिक तनाव दूर होता है । छोटे बच्चोसे खेलनेमे मन प्रसन्न रहता है । सगीतका बडा ही स्वास्थ्यदायक प्रभाव होता है । आप धार्मिक सगीत सुनें और थोडा-थोडा स्वयं गाया करें । धार्मिक गायन, भजन, तुलसीकृत रामायण, भक्तप्रवर सूर और मीराबाईके भजन तन्मयतापूर्ण स्वरमे गानेसे मनका तनाव दूर होता है । यथासम्भव मनमे किसीके प्रति वैरभाव, गुप्त भय अथवा चिन्ता न रखें । प्रतिदिन भगवान्का पूजन किया करें ।



उद्विग्नतासे अकाल-मृत्यु

एक रिपोर्टसे पता चला है कि अमेरिकामें पिछले वर्षोंकी अपेक्षा रक्तचाप, हृदयके रोगो, आत्महत्याओ और मानसिक व्याधियो-मे भारी वृद्धि हुई है। हाई ब्लड-प्रेसरसे आठ लाख अट्ठासी हजार, मानसिक रोगोसे नौ लाख, कैंसरसे लगभग तीन लाख व्यक्तियोंकी मृत्यु हुई है। यह संख्या पिछले वर्षोंकी अपेक्षा दूनी है। ये सब लोग उद्विग्न जीवनसे इस भयानक मृत्युको प्राप्त हुए हैं।

इस प्रकारकी असख्य मृत्युएँ प्रत्येक देशमे हर वर्ष होती रहती हैं, जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता और बहुत सी तो पत्रोमे छपती-तक नहीं हैं। अकाल-मृत्युको प्राप्त होनेवाले लोगोमे अधिकांश लोग ऐंमे हैं जो नशा, व्यभिचार, व्यापारकी छोटी-बड़ी चिन्ताएँ, अनुचित प्रेम-सम्बन्धो, व्यर्थकी निराशाओ और मानसिक उत्तेजनाके

कारण अपनी जीवनीशक्तिको खो बैठनेसे बीमार हुए हैं। उनका मानसिक सतुलन ऐसा बिगडा कि वे फिर कभी अच्छे न हो सके।

उद्विग्न जीवन क्या है ?

आपको कोई मानसिक कष्ट, परेशानी या क्रोध आया और आपकी इच्छा-पूर्ति न हुई, तो आप मन-ही-मन जले-भुने-से रहते हैं। क्रोधकी स्थितिमे मनमे एक तनावका अनुभव करते हैं और अदरसे उखड़े-उखड़े परेशान बेचैन-से रहते हैं, बार-बार चिन्तित होते हैं, किसीपर गुस्सा उतारनेको मन चाहता है। इन लक्षणोसे मालूम होता है कि आप मनमे उद्विग्न हैं। यह मानसिक असंतुलन अकाल-मृत्यु या हृदयरोगका कारण बन सकता है।

मनकी अशान्ति हमारे स्वास्थ्यके लिये सर्वथा अहितकर है। मनुष्यका हर मनोविकार सीमासे बाहर होकर उद्विग्नता और मानसिक रोग उत्पन्न कर सकता है।

उद्विग्न रहनेवालेको रातमे नीद नही आती। वह सारी रात बिस्तरपर करवटें बदलता रहता है। कभी किसीके द्वारा किये गये अपमानकी बात सोचता है, कभी समाजमे होनेवाली अपनी बुराई, कटु आलोचना या विरोधसे भयभीत होता है। झूठी निन्दा-से डरता रहता है। अपनी तनिक-सी निन्दा सुनते ही वह विक्षुब्ध हो उठता है और उसे सहन नही कर पाता।

प्रायः घरेलू कलह और पारिवारिक झगड़े उद्विग्नताके कारण

होते हैं। औरतोंमें तनिक-तनिक-सी बातोंपर कहा-मुनी, कट्टता और टीका-टिप्पणी होती रहती है। वे तनिक-तनिक-सी परेशानियोंकी तिलका ताड बना देती है और घरभरको सिरपर चढ़ा लेती हैं। यह तू-तू मैं-मैं कोमल वृत्तिके आदमियोंको परेशान किये रहती है। वच्चोंकी आवारागर्दी, कन्याके विवाहोकी चिन्ता, पति-पत्नीमें मतभेद, हाथकी तगी, नशा, बढ़ते हुए मूल्य और अफसरोंद्वारा किया गया अपमान या अत्याचार आदि सैकड़ो कारणोसे उद्विग्नता या मानसिक बेचैनी पैदा हो सकती है। घूटन और तिरस्कारका फल उद्विग्नता है।

स्नायुमण्डलका खिंचाव

इस सम्बन्धमें अमेरिकाके सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्सकी राय बहुमूल्य है—

‘वर्तमान और भविष्यकी निरर्थक और काल्पनिक चिन्ताओं, गुप्त छिपे हुए भय और नाड़ियोके अनावश्यक खिंचावसे मनुष्यकी कार्यक्षमता निश्चित रूपसे घटती है और उसकी तरक्कीकी राहमें रोड़े अटकाती है। अकाल-मृत्युका वा हृदयगतिके रुकनेका मुख्य कारण स्नायुमण्डलका तनाव है।’

बहुत अधिक कठिनाइयो तथा झंझटोंमें फँसा हुआ व्यक्ति स्नायविक तनावसे ग्रसित रहता है। हर समय मानसिक तनाव बनाये रखनेसे स्नायविक विकार उत्पन्न हो जाते हैं और चेहरा भावहीन हो जाता है। अमेरिकन लोगोके भावहीन होनेका यह एक कारण है। यदि आप सदा चिन्तित रहते हैं या कोई गुप्त

भय छिपा हुआ है, भविष्यके विषयमे आशंकित हैं तो जान लीजिये आपके मनमे खिंचाव है। आपकी मासपेशियाँ और नाड़ियाँ हर समय तनी रहेगी।

मान लीजिये, आप साधारणतः कुर्सीपर बैठे हुए एक बारमे १६ बार साँस लेनेके स्थानपर १८-१९ बार साँस लेते हैं और हर साँस निकलनेके पहले ही साँस लेना प्रारम्भ कर देते हैं, तो आपके स्नायुमण्डलपर व्यर्थ ही तनाव पडता है। आप हर समय हाँफते रहेगे, आपका मन भविष्यकी चिन्ताओसे परेशान रहेगा।

दूसरी ओर यदि आपके ललाटपर चिन्ताकी सिकुड़ने नही रहतीं, आप शान्तिपूर्वक धीरे-धीरे पूरी साँस लेते हैं, आपकी सब मासपेशियाँ ढीली रहती है, तो ये चिन्ताएँ आपके मनमे प्रवेश ही नही कर पायेंगी।

आजके मानवकी आन्तरिक विक्षुब्ध स्थिति

आजके सभ्य और सुशिक्षित कहलानेवाले मानवका मन बुरी तरह विक्षुब्ध है। वह हर समय तनावकी मन स्थितिमे रहता है। मन-ही-मन आर्थिक या सामाजिक परेशानियोसे डूबा रहता है। वह पर्वत-जैसी इन विषमताओसे हारकर स्नायविक दुर्बलता अथवा हीनत्वकी कल्पित भावनासे दुखी रहता है। ये परेशानियाँ प्रायः कल्पित और कृत्रिम होती हैं।

स्नायविक दुर्बलताका एक कारण आजके मनुष्यका गिरा हुआ स्वास्थ्य भी है। उसे पौष्टिक अन्न, घी, दूध या तरावटकी शुद्ध

वस्तुएँ नहीं मिलती हैं। वह मस्तिष्कमें खुशकी उत्पन्न करनेवाले शराब, चाय, कहवा, बीड़ी-सिगरेट या और मादक द्रव्योंके बलपर शरीरकी मशीन खीचता है। इन कृत्रिम उत्तेजक तत्त्वोंसे कुछ दिन शरीररूपी मशीन चल तो जाती है, पर अन्तत वह टूट-फूट जाती है और अकाल-मृत्यु होती है। इसलिये स्नायविक रोगोंकी शारीरिक चिकित्सा होनी चाहिये। स्वास्थ्यके लिये प्राकृतिक भोजन और प्राकृतिक उपचार ही काममें लाने चाहिये।

मनुष्यके अच्छे स्वास्थ्यका बीजारोपण माताके गर्भमें ही हो जाता है। जबतक माता-पिता अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यका पूरा ध्यान नहीं रखते, तबतक आनेवाली पीढ़ी मानसिक रोगोंसे नहीं बच सकती।

आजकल एक दूसरेकी कटु आलोचना, परच्छिद्रान्वेषण, खराबियाँ निकालना, शिकायतें, ईर्ष्याका प्रदर्शन बहुत अधिक हो रहा है। राजनीतिमें तो त्रुटियाँ निकालनेकी गद्दी आदतें विशेष देखी जाती हैं, किंतु इनसे कदापि विक्षुब्ध नहीं होना चाहिये।

संकटके समय मानसिक संतुलन बनाये रहे

किसी भी आपत्तिके अवसरपर आपको चाहिये कि सबसे पहले उस दूषित प्रभावसे अपने मस्तिष्ककी शान्तिकी रक्षा करे। मनको ठंडा रखे और ठंडे दिलसे छुटकारेका कोई उपाय सोचकर कार्यान्वित करे। उद्विग्नतासे बचे रहे।

यदि आपका मस्तिष्क प्रभावित हो गया, तो समझ लेना

चाहिये कि आपके सारे अस्त्र-शस्त्र छिन गये, टक्कर लेनेके सारे साधन समाप्त हो गये ।

मस्तिष्कको बचानेका सबसे सरल उपाय है तटस्थता । पर तटस्थतासे क्या मतलब है ?

अपनेपर आयी आपत्तिसे अपनेको अलग कर उसका इस प्रकार अध्ययन कीजिये, जैसे उस आपत्तिसे आपका कोई सम्बन्ध ही नहीं है; मानो वह आयी ही नहीं है; यदि आयी है तो आप उसके दर्शकमात्र हैं ।

विरोध और आलोचनाके समय चट्टानकी तरह अडिग रहे

आप सत्पथपर चलते हुए दूसरोकी व्यर्थकी टीका-टिप्पणीसे कदापि परेशान न रहे । विरोध बड़े-से-बड़े महापुरुषोका हुआ है और उन्होने अपनी मन स्थितिको ठडा और शान्त बनाकर उसका सफलतापूर्वक सामना किया है ।

एक बार महर्षि दयानन्दजी सरस्वतीका कुछ लोगोनेजान-बूझकर बड़ा गदा विरोध किया । पूनाकी घटना है । गधेपर उनका बुत बनाकर उसे जूतोकी माला पहिनाकर जलूसके रूपमे सरे बाजार निकाला गया । बुतका मुँह काला कर दिया गया । इसकी सूचना जब स्वामीजीको दी गयी तो उन्होने कहा—

‘नकली दयानन्दकी ऐसी हालत होती है । वह नकली दयानन्द है तो उसकी ऐसी दुर्गति होनी ही चाहिये । मैं असली दयानन्द आपके सामने शान्त स्थिर बैठा हूँ । इस आलोचनासे मुझपर किञ्चित् भी प्रभाव पडनेवाला नहीं है ।’

वस, वे विरोधकी वात सुनकर भी उसी प्रकार शान्त और स्थिर बने रहे । तनिक भी उद्विग्न न हुए । परेशानीकी किञ्चित् भी झलक उनके मस्तकपर नहीं थी ।

इसी प्रकार कर्णवास (यू पी) का एक उत्तेजक पण्डित स्वामीजीको रोज गाली सुनाया करता था, पर वे सुनी-अनसुनी कर दिया करते थे । संयोगसे एक दिन वह वीमार पड़ गया और गाली न देने आया । इसपर स्वामीजीने उस पण्डितके लिये फल-फूल भेजे । इस सद्भावपर वह बड़ा लज्जित हुआ और उसकी गाली देनेकी आदत छूट गयी ।

एक व्यक्ति महात्मा बुद्धको प्रतिदिन कटु वचन, तिरस्कार और गालियाँ सुनाया करता था । चार दिन बराबर वह उन्हे गाली दे-देकर परीशान करता रहा, पर महात्मा तो सदैव शान्त स्थिर रहते हैं, विक्षुब्ध नहीं होते । महात्मा बुद्धकी मानसिक शान्तिपर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ ।

वह बोला, 'आपपर मेरे कटु वचनोका कोई असर नहीं है ।' महात्मा बुद्धने उत्तर दिया, 'जो किसीकी भेंट स्वीकार न करे, तो वह भेंट किसके पास रहती है ?'

उसने कहा, 'वह तो देनेवालेके ही पास रहती है ।'

बुद्ध बोले, 'तुमने मुझे गालियाँ दी, जिन्हे मैंने स्वीकार नहीं किया । इसलिये वे सब कटु वचन, तिरस्कार और गालियाँ स्वयं तुम्हारे पास ही रही ।'

वह निरुत्तर हो गया । वास्तवमे यही शान्त और मनकी पूर्ण स्थिर अवस्था है जिसका अभ्यास करनेसे चित्तकी उद्विग्नता नष्ट होती है ।

उद्विग्नतासे बचनेका नया उपाय

इंगलैंडके एक मानसिक-रोगविशेषज्ञ डा० हैनरी रोलिनका अनुभव है कि मानसिक परेशानियों, तनाव और उद्विग्नताको दूर करनेमे सगीत, भजन, कीर्तन तथा काव्यके पाठसे बहुत सहायता मिलती है । डा० हैनरी रोलिनके पास मानसिक रोगोका एक बहुत बड़ा अस्पताल है ।

उन्होंने बताया है कि लगभग दस वर्ष पहले जब मानसिक रोगियोंको संगीत-उपचारमे लाया गया था, तो कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था । बादमे ऐसे कुछ रोगियोंको, जो सगीत जानते थे, गानेके लिये प्रेरित किया गया और अन्य ऐसे रोगियोंको उसमे शामिल होनेका प्रोत्साहन दिया गया, जो सगीत नहीं जानते थे ।

इन लोगोको छोटे-छोटे दलोमे ऐसे कमरोमे एकत्रित किया गया, जहाँ प्यानो, बायलिन, बैजो तथा अन्य वाद्य-यंत्र थे । जब सगीत शुरू किया गया और रोगियोंको भी उसमे शामिल होनेके लिये प्रेरित किया गया तो लाभ-ही-लाभ हुआ । यह प्रयोग काफी सफल रहा है ।

डा० हैनरीका कहना है कि सगीतद्वारा चिकित्साके लिये यह जरूरी है कि रोगियोंको अलग-अलग दलोमे रक्खा जाय ।

मानसिक परेशानीसे पीड़ित व्यक्ति इस आश्वासनकी खोजमें रहता है कि उसकी दूसरोको आवश्यकता है। उसको गानेके लिये प्रेरित करना एक आश्वासन सिद्ध हुआ है। बहुत-से मानसिक रोगियोको इस परीक्षणसे लाभ हुआ है।

सगीत सुनने और गानेसे मनका तनाव दूर होता है और ईर्ष्या, वैर, क्रोध तथा चिन्ताओको वह जानेके लिये एक स्वस्थ-प्रसादमयी धारा मिल जाती है।

सब प्रकारके तनाव और विक्षोभका प्रारम्भ मनसे होता है। आपके जीवनमे सर्वत्र मनकी ही प्रधानता है। आपकी सब प्रवृत्तियाँ मनोमय होती हैं। यदि मनुष्य शान्त और संतुलित मनसे आचरण करता है, तो सुख और सफलता उसका ऐसे अनुसरण करते हैं, जैसे छाया मनुष्यका अनुसरण करती है। याद रखिये—

अक्रोशदवधीन्मां स ह्यजयदहरच्च मे ।

ये च तन्नोपनह्यन्ति वैरं तेषूपशाम्यति ॥

अर्थात् उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे पराजित किया, उसने मेरे धनका हरण किया—जो व्यक्ति ऐसे विचारोको मनमे नही गाँठते, उनका वैर-भाव दूर हो जाता है। मनका उद्वेग दूर हो जाता है।

न हि वैराणि शाम्यन्तीह कदाचन ।

अवैरेण हि शाम्यन्ति एष धर्मः सनातनः ॥

याद रखिये, मनमे वैर रखनेसे वह शान्त नही होता। अवैर

(प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा, उत्फुल्लता) से मन शान्त होता है । यह सनातनधर्म है ।

आध्यात्मिक उपायोसे मनको शान्ति मिलती है और संतुलन ठीक रहता है । जब डाक्टरी चिकित्सा कुछ कार्य नहीं करती, तब आध्यात्मिक दवाई मनको स्वस्थ कर देती है । आध्यात्मिक उपायो द्वारा मनुष्यके मनकी व्याधियाँ दूर की जा सकती हैं दुःख, व्याधि, क्लेश और निराशाओसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ।

जहाँ मनुष्यके ज्ञान-विज्ञानकी चिकित्सा-पद्धति हारती है, वहाँ ईश्वरीय शक्तिको सहायतासे अद्भुत लाभ उठाये जा सकते हैं । आप चाहे कैसे ही दुःखी क्यों न हो, मनमे उद्वेग भरा हो, निराश हो रहे हो, आध्यात्मिक तरीकोका भी जरा प्रयोग करके देखें । आप उनसे हर दिशामे लाभ उठा सकते हैं ।

एक आध्यात्मिक उपाय

प्रार्थना वह आध्यात्मिक उपाय है जिससे मनुष्य प्रत्यक्ष ईश्वरसे निकट सम्बन्ध जोडता है और सीधी ईश्वरीय सहायता प्राप्त करता है । जो आर्त भावसे भगवान्को पुकारते हैं, वे निश्चय ही सहायता पाते हैं । आस्तिक भाव ही मनुष्यको उत्साहित करनेवाला है ।

आन्तरिक विक्षोभ और बाह्य सकट तभी आते हैं, जब मनुष्य आनन्दकन्द परम शान्तस्वरूप ईश्वरसे दूर रहता है । ईश्वर अनन्त सुखका स्रोत है । निर्मल शीतल जलके झरनेके पास रहनेवाला प्यासा क्यों रहेगा ?

जो ईश्वरसे जितना दूर होगा, उसे उतनी ही आन्तरिके अशान्ति विक्षुब्ध करेगी और उसे बाह्य जीवनमे दूख-दारिद्र्य, कष्ट-कलह और शोक-सताप सता रहे होंगे । सच्ची प्रार्थनाके द्वारा मनुष्य परमात्माकी इस सत्तासे प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडकर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है ।

युद्ध-कालकी एक घटना है

एक सैनिकके मुंहपर गोली लगी और वह पीडासे बुरी तरह तड़फने लगा । डाक्टरने गोली निकालनेके लिये उसे आपरेशनकी सलाह दी । लोगोका अनुमान था कि वह आपरेशनमे मर जायगा ।

लेकिन उस सैनिकको ईश्वरकी शक्तिमे परम विश्वास था । वह प्रार्थनाद्वारा उसी विशाल शक्ति-स्रोतसे शक्ति खींचने लगा । पूरी निष्ठासे उसने प्रभुसे प्रार्थना की—

‘हे शक्तिस्रोत ! मुझे इतनी शक्ति दीजिये कि इस विकट आपरेशनके कष्टको सफलतापूर्वक सहन कर सकूं । मुझमे अपना कष्टनिवारक आत्मबल भर दीजिये । मैं अपने-आपको आपके हाथोमें सौंप रहा हूँ ।’

उसने अनुभव किया कि गुप्त आत्मिक शक्ति उसे कष्टके लिये मजबूत कर रही है । उसके शरीरमे शक्तिका संचार हो रहा है । परमात्माकी शक्ति उसे सम्हाले हुए है । उस शक्तिमे विश्वास लिये वह धीरे-धीरे सो गया ।

प्रातः उठा तो उसमे नयी शक्ति थी । लोग समझते थे कि वह मर चुका होगा, पर वह प्रसन्नतापूर्वक बोला, 'डाक्टर ! मैं आपरेशनके लिये तैयार हूँ ।'

सभी उसके साहसपर चकित थे । उसके आत्मविश्वासके कारण वास्तवमे वह आपरेशन पूर्ण सफल रहा और वह सिपाही जीवित रहा । उसने बताया कि यह सब ईश्वरीय गुप्त सहायताका अद्भुत प्रभाव था । सच्ची श्रद्धापूर्ण प्रार्थनाके द्वारा उसके समस्त शारीरिक दुःख दूर हुए थे और वह मौतके कराल दुःखसे बचा था ।

आप ईश्वरमें विश्वास रखें । आस्तिकताका मतलब है, यह सोचना कि मैं एक ही श्रेष्ठ तत्त्वसे ओत-प्रोत हूँ । वह श्रेष्ठ तत्त्व हर वस्तुमे विद्यमान है ।

सच्ची ईश्वर-प्रार्थना, भजन, पूजन, कीर्तन, भक्तिसे हमारे शोक संताप, अभाव और कष्ट कटते हैं । आस्तिक मनुष्यको तो आन्तरिक विक्षोभका कष्ट उठाना पडता है और न बाह्य जीवनमें कष्ट सहने पडते हैं । वह हर परिस्थितिको हँसी-खेल समझता हुआ अपने सद्गुणो और सद्भावोके सहारे अपना जीवन आनन्दमय बनाये रहता है और जीवनमे प्रतिक्षण ईश्वरीय सुखकी अनुभूति करता रहता है ।

मानसिक तनावसे मुक्त रहनेका अभ्यास डालें

ऐसा प्रयत्न करें कि मनमे किसी प्रकारका तनाव या घबराहट न रहे । संसारके सब कार्य प्रभुक्रपासे स्वयं ही पूर्ण हो जाते हैं । आप व्यर्थ ही उनके विषयमें परेशान रहते हैं और मनको विक्षोभ-

की स्थितिमें रखकर अस्वस्थ रहते हैं। आपकी समस्याएँ भी एक-एक कर स्वयं हल होती जा रही हैं। आप अपना कर्तव्यभर कर दिया करे और फलके लिये ईश्वरपर विश्वास रखे।

मानसिक तनावसे परेशान व्यक्ति धीरे-धीरे अकाल-मृत्युकी ओर अग्रसर होता है। ऐसा अम्यास डालें कि आपकी आवश्यकताएँ कम-से-कम रहे। जिस आवश्यकताकी पूर्ति नहीं होती, वह अपूर्ण अवस्थामे मानसिक तनाव पैदा करती है। थोड़ी आवश्यकताओंवाला व्यक्ति आसानीसे शान्त मन-स्थितिका आनन्द ले सकता है। जिनको भोग-विलास, आरामतलबी, जिह्वाका स्वाद या इन्द्रियलोलुपता, नशेबाजीकी गदी आदतें पड़ गयी हैं, वे कृत्रिम आवश्यकताओंके पूर्ण न होनेसे मानसिक तनावसे परेशान रहते हैं। आप ऐसे न रहे। हमारे शास्त्रोंमें कहा है—

वि यात विश्वमत्रिणम् । (ऋग्वेद १ । ५६ । १०)

चटोरे लोग वेमाँत मरते हैं। जीभपर काबू रखो। स्वादके लिये नहीं, स्वास्थ्यके लिये खाओ।

व्यर्थके अपथ्य खाद्य-पदार्थोंको खानेसे उत्तेजना होती है और मानसिक तनावसे परेशानी होनी है।

सुखी रहना है, शान्त और स्थिर रहना है तो उन विचारोंको त्याग दीजिये जो आत्माको कष्ट देते हैं।

अर्नाति, अधर्म चिन्ताके कुविचार तो सर्वथा त्यागने योग्य ही हैं।

हरी आँखोंवाले इस दैत्यसे बचिये !

एक कुबड़ी बुढियाको देखकर नारदमुनि कृपालु हुए । बोले—‘बुढिया ! मेरे पास आ, मैं योगबलसे तेरा कूबड़ दूर कर दूंगा ।’

बुढियाने हाथ जोडकर कहा—‘नारदबाबा ! कृपालु ही हुए हो, तो मेरा कूबड़ तो ज्यों-का-त्यों रहने दो, पर मेरे पडोसियोंकी कमरमे कूबड़ कर दो ।’

आश्चर्यचकित हो नारदमुनिने पूछा—‘बुढिया ! दूसरोके कूबड़से तुझे क्या लाभ होगा भला ?’

बुढियाने कहा—‘मैं उन्हे कमर झुकाकर चलते देखकर सुख पाऊँगी ।’

यह है ईर्ष्या कि बुढिया अपने सुखको भूलकर दूसरोके दुःखमें दिलचस्पी लेती है । इसका अर्थ है कि ससारमे ईर्ष्याका भाव प्रबल हो, तो वह सुखका स्वर्ग नहीं, दुःखका रौरव ही हो जाय ।

ईर्ष्या क्या है ?

ईर्ष्या एक कुत्सित भाव है, जो दूसरेके गुण, सुख, उन्नति और विकासको देखकर मनमे पीड़ा और जलन उपजाता है। यह एक आन्तरिक आग है, जो दूसरेकी बढ़ती देखकर भीतर-ही-भीतर हमे जलाता है।

यह भाव कुत्सित क्यों है ? इसलिये कि यह अपना सुख नहीं चाहता, अपनी उन्नतिके लिये प्रेरित नहीं करता बल्कि दूसरेका दुःख चाहता है, दूसरेको गिरानेकी प्रेरणा देता है।

ईर्ष्या एक सकर मनोविकार है, जो आलस्य, अभिमान और नैराश्यके सयोगसे उपजता-बढ़ता है। अपने आपको दूसरेसे ऊँचा माननेकी भावना अर्थात् मनुष्यका 'अहं' पुष्ट करता है।

ईर्ष्या मनुष्यकी हीनत्व-भावनासे सयुक्त है। अपनी हीनत्व-भावना-ग्रन्थिके कारण हम किसी उद्देश्य या फलके लिये पूरा प्रयत्न तो कर नहीं पाते, उसकी उत्तेजित इच्छा करते रहते हैं। हम पहले सोचते हैं—काश, हमारे पास अमुक चीज होती ! फिर सोचते हैं—हाय, वह चीज उसके पास तो है, हमारे पास नहीं ! तब सोचते हैं—वह वस्तु यदि हमारे पास नहीं है, तो उसके पास भी न रहे।

स्पर्धा ईर्ष्याकी स्वस्थ अवस्था है। स्पर्धामे किसी सुख, ऐश्वर्य, गुण या मानसे किसी व्यक्तिविशेषको सम्पन्न देख अपनी त्रुटिपर दुःख होता है, फिर प्राप्तिकी एक प्रकारकी उद्देगपूर्ण इच्छा उत्पन्न

होती है। स्पर्धा वह वेगपूर्ण इच्छा या उत्तेजना है, जो दूसरेसे अपने आपको बढ़ानेमे हमे प्रेरणा देती है। स्पर्धा बुरी भावना नहीं। इसमे हमे अपनी कमजोरियोंपर दुःख होता है। हम आगे बढ़कर अपनी निर्बलताको दूर करना चाहते हैं।

स्पर्धामे दुःखका विषय होता है—‘मैंने उन्नति क्यों नहीं की?’ और ईर्ष्यामे दुःखका विषय होता है—‘उसने उन्नति क्यों की?’ स्पर्धा ससारमे गुणी, प्रतिष्ठित और सुखी लोगोंकी सख्यामे कुछ बढ़ती करना चाहती है और ईर्ष्या कमी।

स्पर्धा व्यक्तिविशेषसे होती है। ईर्ष्या उन सबसे होती है, जिनके विषयमे यह धारणा हो कि लोगोकी दृष्टि उनपर अवश्य पड़ेगी या पड़ती है। ईर्ष्यामे क्रोधका भाव किसी-न-किसी प्रकार मिश्रित रहता है। ईर्ष्यालुके लिये कहा भी जाता है कि अमुक व्यक्ति ईर्ष्यासे जल रहा है। साहित्यमे ईर्ष्याको सचारीरूपमे समय-समय-पर व्यक्त किया जाता है, पर क्रोध बिल्कुल जड़-भाव है। जिसके प्रति हम क्रोध करते हैं, उसके मानसिक उद्देश्यपर ध्यान नहीं देते। निर्धन ईर्ष्यावाला केवल अपनेको नीचा समझे जानेसे बचने-के लिये आकुल रहता है, पर धनी व्यक्ति दूसरेको नीचा देखना चाहता है।

ईर्ष्या दूसरेको असम्पन्न—हीन देखनेकी इच्छाके अपूर्ण रहनेसे उत्पन्न होती है। यह अभिमानको जन्म देती है, अहंकारकी अभिवृद्धि करती है और क्रुद्धनका तावा-बाना बुनती रहती है।

अहंकारसे आहत होकर हम दूसरेकी भलाई नहीं देख सकते और अभिमानमें फँसकर हमें अपनी कमजोरियाँ नहीं दीखती। अभिमानका कारण अपने विषयमें बहुत ऊँची मान्यता बना लेना है। ईर्ष्या उसीकी सहगामिनी है—जो हूँ, मैं हूँ, जो कुछ मिले, मुझ ही मिले।

ईर्ष्याद्वारा हम मन-ही-मन दूसरेकी उन्नति देखकर मानसिक दुःखका अनुभव किया करते हैं। अमुक मनुष्य ऊँचा उठता जा रहा है! हम यों ही पड़े हैं, उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। फिर वह भी क्यों इस प्रकार उन्नति करे। उसका कुछ बुरा होना चाहिये। उसपर कोई दुःख, रोग, शोक, कठिनाई अवश्य पड़नी चाहिये। उसकी बुराई हमें करनी चाहिये। यह करनेसे उसे अमुक प्रकारसे चोट लगेगी। इस प्रकारकी विचारधारासे ईर्ष्या निरन्तर मनको क्षति पहुँचाती है। अशुभ विचार करनेसे सत्प्रवृत्तियोंका, हमारी प्राणशक्तिका धीरे-धीरे ह्रास होने लगता है।

ईर्ष्यासे उन्मत्त हो मनुष्य धर्म, नीति तथा विवेकका मार्ग त्याग देता है। उन्मत्तावस्था—सी उसकी साधारण अवस्था हो जाती है और दूसरे लोगोंकी साधारण अवस्था उसे अपवादके सदृश प्रतीत होती है। मस्तिष्कमें ईर्ष्याके विकारमें नाना प्रकारकी विकृत मानसिक अवस्थाओंकी उत्पत्ति होती है। भय, घबराहट, भ्रम—ये सब दोष ईर्ष्या और उससे उत्पन्न विवेक-बुद्धिके अपकर्षसे उत्पन्न होते हैं।

प्रत्येक क्रियासे प्रतिक्रियाओकी उत्पत्ति होती है। ईर्ष्याकी

क्रियासे मनके बाह्य वातावरणमे जो प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न होती हैं, वे विषैली होती हैं। मनुष्यकी अपवित्र भावनाएँ उसके ईर्द-गिर्दके वातावरणको दूषित कर देती हैं। वातावरण विषैला होनेसे सबका अपकार होता है। ईर्ष्याकी जो भावनाएँ हम दूसरोके विषयमे निर्धारित करते हैं, सम्भव है दूसरे भी प्रतिक्रियास्वरूप वही ही धारणाएँ हमारे लिये मनमे लायें।

जो लोग यह समझते हैं कि वे ईर्ष्याकी कुत्सित भावनाको मनमे छिपाकर रख सकते हैं और यह मानते हैं कि दूसरा व्यक्ति उसे जान न सकेगा, वे बड़ी भूल करते हैं। प्रथम तो यह भावना छिप ही नहीं सकती, किसी-न-किसी रूपमे प्रकट हो ही जाती है, दूसरे दुराचार और उसे छिपानेकी भावना मनोविज्ञानकी दृष्टिसे अनेक मानसिक रोगोकी जननी है। कितने ही लोगोमे विक्षिप्त-जैसे व्यवहारोंका कारण ईर्ष्याजन्य मानसिक ग्रन्थि होती है। ईर्ष्या मनके भीतर-ही-भीतर अनेक प्रकारके अप्रिय कार्य करती रहती है। मनुष्यका जीवन केवल उन्ही अनुभवो, विचारो, मनोभावनाओ संकल्पोंका परिणाम नहीं जो स्मृतिके पटलपर हैं, प्रत्युत गुप्त मन मे छिपे हुए अनेक गुप्त सस्कार और अनुभव जो हमे खुले तौरपर स्मरण भी नहीं हैं, वे भी हमारे व्यक्तित्वको प्रभावित करते हैं। हमारे गुप्त मनमे रही हुई गुप्त ईर्ष्या हमारे जीवनमे निरन्तर क्रियाशील होती रहती है। ईर्ष्या, क्रोध, कामभाव, द्वेष, चिन्ता, भय और दूर्व्यवहार का प्रत्येक अनुभव अपना कुछ संस्कार हमारे

अन्तर्मनपर अवश्य छोड़ जाता है। ये संस्कार और अनुभव सदैव सक्रिय और पनपनेवाले कीटाणु हैं। इन्हींके ऊपर नवजीवनके निर्माणका कार्य चला करता है।

ईर्ष्याके विकार अन्तर्मनमे पैठ जानेपर आसानीसे नहीं जाते। उससे स्वार्थ और अहंकारके तीव्र होनेपर सुप्त और जाग्रत् भावनाओमे संघर्ष और द्वन्द्व होने लगता है। निद्रा-नाश, घबराहट, प्रतिशोष लेनेकी भावना, हानि पहुँचानेके अवसरकी प्रतीक्षा, विमनष्कता इत्यादि मानसिक व्यथाएँ ईर्ष्यापूर्ण मानसिक स्थितिकी द्योतक हैं। यदि यह विकार बहुत तेज हुआ तो मनपर एक अव्यक्त चिन्ता हर समय बनी रहती है। जल, अन्न, व्यायाम, विश्रामका ध्यान नहीं रहता। शयनके समय, घातप्रतिघातका संघर्ष और अव्यक्तकी अद्भुत वासनाएँ आकर विश्राम नहीं लेने देती। अतः मनुष्यकी पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ विगड़ जाती हैं। रुधिरकी गतिमे रुकावट होने लगती हैं। शारीरिक व्याधियाँ भी फूट पड़ती हैं। सम्पूर्ण शरीरमे व्यवधान उपस्थित होनेसे मस्तिष्कका पोषण उचित रीतिसे नहीं हो पाता।

ईर्ष्या और क्रोधको मनमे स्थान देना अनेक मानसिक क्लेशों तथा रोगोंको मोल लेना है। इसलिये सदा सावधान रहिये और ईर्ष्यासे बचिये। इस दुष्ट भावको 'हरी आँखोवाला' दैत्य ठीक ही कहा गया है।



मनके ये राक्षस भी मृत्युका कारण बन सकते हैं !

अपेहि मनसस्पतेऽपक्राम परश्वर ।

(अथर्ववेद २० । ६६ । २३)

अर्थात् मानसिक कमजोरियोंको दूर कीजिये । मनकी दुर्बलता घातक है !

इतना हँसा कि मर गया !

जोधपुर, २३ अक्टूबर ६५ का एक समाचार है—यहाँसे प्राप्त एक सूचनाके अनुसार एक जनसघी कार्यकर्ता चुनाव जीतनेकी खुशीसे इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि उसे जानसे हाथ धोना पडा ।

बताया जाता है कि अपने दलके चुनाव जीतनेपर वह इतना ज्यादा खुश हुआ कि बस नाच उठा । उसके रोम-रोमसे प्रसन्नता फूटी पड़ रही थी, अणु अणुसे आनन्द-उल्लास छूट रहा था, उसका अङ्ग-प्रत्यङ्ग नाच रहा था । बढ़ते-बढ़ते उसकी खुशी अपनी चरम सीमापर पहुँच गयी । जैसे कोई बड़ी तेज रफ्तारसे सरपट भागने-वाली मोटरको ब्रेक लगाकर रोक न पाये, वैसे ही वह अपनी खुशीकी तीव्र गतिको चेक नहीं कर पाया । बस, हँसता ही गया । हँसता-खिलखिलाता रहा । यह खिलखिलाहट क्रमश बढकर एक ऐसी स्टेजपर पहुँची कि एकाएक दिलका दौरा पड़ गया । देखते-देखते वह वही गिर पड़ा और उसके प्राण-पखेरू उड़ गये ।

उसके शरीरमे कुछ नहीं बिगड़ा था, वह वैसे-का-वैसे ही मजबूत दीख रहा था, पर उसकी हँसीने ही उसके मस्तिष्कका

सतुलन नष्ट कर दिया था, जिसके मानसिक आघातसे वह प्राण खो बैठा था ।

इसी प्रकारका एक और समाचार पत्रोमे इस प्रकार छपा है—

मनीला, २२ नवम्बर १९६५ । बयालीस वर्षीय बेन्तुरा कारवेलिस फिलिपाइन्सके चुनावोमे एक शर्त जीत जानेपर इसी प्रकार सीमासे बाहर हँसनेके कारण मर गया । बात यह हुई कि वह अपने परिवारको खूब आह्लादपूर्ण स्वर और प्रसन्न मुखमुद्रामे हँस-हँसकर बता रहा था कि किस प्रकार उसने दस बंदोरे चावलकी एक शर्त जीती थी । तभी उसके सीनेमे दर्द महसूस हुआ । अंदर-से कुछ खिंचाव, कुछ तनाव-सा प्रतीत हुआ और तुरंत मानसिक आघातसे उसकी मृत्यु हो गयी ।

एक तीसरा समाचार सुनिये—

शिवहर (मुजफ्फरपुर), २ जुलाई १९६५ की घटना । इस गाँवकी एक बारातकी महफिलमे नृत्य और सगीतका समाँ बँधा हुआ था । चारो ओर आनन्दका स्रोत प्रवाहित हो रहा था । मस्तीका आलम था । सभी हँस-खेल रहे थे । वह किसी बातपर हँसने लगा और हँसते-हँसते मर गया ।

बताया जाता है कि वह व्यक्ति शामियानेके एक बाँसके सहारे खड़ा होकर मस्तीसे नाच देख रहा था । इतना तन्मय था कि जैसे सब कुछ भूल गया हो । एकाएक नाचके एक मजारसे उसे कुछ ऐसी हँसी छूटी कि वह उसे रोक नहीं पाया । वह हँसी धीरे-धीरे बढ़ती गयी ! उत्तरोत्तर सहनशक्तिका अतिक्रमण कर

गयी । जहाँतक वह सहन कर सकता था उस सीमासे बाहर निकल गयी । वह इतना हँसा कि वह वही गिर गया तथा तत्क्षण मर गया । इस दुखद घटनासे रगमे भग हो गया । लोग इतने चकित और विस्मित हुए कि समझ नहीं पा रहे थे कि हँसीसे भी कोई व्यक्ति मर सकता है !

मनकी कोई भी प्रवृत्ति जब सीमासे अधिक बढ जाती है और हमारा मन उसपर नियन्त्रण नहीं कर पाता, तो वही मृत्युका कारण बन सकती है ।

अब क्या होगा ?

बुलन्दशहर, ३ जुलाई १९६५ का एक समाचार है—

‘अब क्या होगा ? अब क्या होगा ?’—यह था एक दुर्बल-हृदय किसानका वाक्य, जिसने उसके हृदयकी गतिको बद कर दिया और मृत्युके द्वारतक पहुँचा दिया ।

पूरी घटना इस प्रकार है कि वहाँसे छ मील दूर ग्राम सिखैडाके एक किसान मलखानसिंहकी भयकर वर्षा एव बाढमे सब फसल नष्ट हो गयी और उस दुर्बलहृदयको यह मानसिक आघात लगा कि ‘हाय ! अब क्या होगा ? कैसे रक्षा होगी ? कौन सहायता करेगा ? किस प्रकार भोजन-वस्त्र मिलेंगे ?’ उसके मनमे ऐसा गुप्त भय बैठा कि उसके अदरके पुर्जे इस आघातको न सम्हाल पाये । इस डरावनी चिन्ताने जैसे उसके भविष्यको ही अन्धकारमय बना दिया । वह हिम्मत और धैर्य खो बैठा । सर्वत्र उसे निराशा ही दिखायी दी । नतीजा यह हुआ कि वह अपने अन्तर्द्वन्द्वोको काबूमे न

कर सका और एकाएक हृदयगतिके बंद होनेपर इसससारसे चल बसा!

ऐसे व्यक्तियोंको दृष्टिमें रखकर ही हमारे यहाँ वेदमें कहा गया है—

अपवक्ता हृदयाविधश्रित् । (ऋग्वेद १ । २४ । ८)

अर्थात् समझदार व्यक्तिको चाहिये कि वह उन विचारोको तुरत त्याग दे जो आत्माको कण्ट दे ! मनुष्यकी चाहिये कि संकट, खतरा, हानि, मृत्युका शोक सबल हृदयसे सहन करे । पूर्ण धैर्य रखे और संतुलन बनाये रखे ।

अत्यधिक क्रोध करनेका यह घातक नतीजा

मोदीनगर—१ जून १९६५ का एक समाचार है । यहाँसे ४ मील दूर ग्राम भोजपुरसे समीप स्थित एक भट्टेपर ठेकेदार एवं ईंटें पाथनेवाले मजदूर पथेरीमें मजदूरीके लेन-देनमें कुछ झगड़ा हो गया । एक ओर गरमीका मौसम, दूसरी ओर क्रोधके भयकर आवेशके कारण पथेरा मूर्च्छित हो गया और तत्काल ही घटनास्थल-पर उसकी मृत्यु हो गयी । पुलिसने मामला दर्जकर शव परीक्षणके हेतु भेज दिया । अत्यधिक क्रोध करने और उसपर काबू न करनेका यह भयानक दुष्परिणाम निकला था !

दूसरा समाचार इस प्रकार है—

कानपुर, ५ जुलाई १९६५ । शिवली पुलिस-क्षेत्रके ग्राम निगोह-निवासी एक व्यक्तिको अपनी छ. महीनेकी कन्याकी हत्या करनेके आरोपमें गिरपतार किया गया है । बताया जाता है कि नन्ही बच्चीके लगातार रोनेके कारण क्रुद्ध होकर उक्त कोधी

आदमीने उसे उठाकर जोरसे पटक दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह वही मर गयी ।

इसपर घबराकर वह व्यक्ति स्वयं भी आत्महत्या करनेके लिये कुएँमें कूदने दौडा, किंतु लोगोंने उसे पकडकर पुलिसके हवाले कर दिया ।

विवादमें 'मृत्यु

कानपुरका एक समाचार है । 'कुम्भस्नानसे लाभ होता है या नहीं ?' इस विवादके पीछे उन्नाव जिलेमें बीघापुर स्टेशनपर भयकर विवाद छिड़ गया । दोनो पक्षवाले क्रोधमें उग्र होते गये । क्रोधके आवेशमें उत्तेजना फैली और उत्तेजनामें मारपीट हो गयी । एक व्यक्ति मर गया तथा दूसरा घायल हो गया ।

इस प्रकारके समाचारोंसे स्पष्ट है कि मनुष्यके मनोविकार बढ़कर नियन्त्रणसे बाहर हो जाते हैं और फिर वे महान् उत्पात और संकटका कारण बनते हैं ।

गजब हो गया !

लिस्बन ३१ जुलाई १९६५ । पुर्तगाली समाचारसमिति लूसी टानियाने भारतस्थित पुर्तगाली बस्ती गोआसे दो व्यक्तियोंके भयभीत होकर लारीसे कूद पडने तथा इनमेंसे एककी मृत्यु हो जानेका समाचार दिया है ।

घटना इस प्रकार हुई बताते हैं—दो व्यक्तियोंको उनकी प्रार्थनापर एक लारीमें बिठा लिया गया । जब इन लोगोंने अपने पास ही रक्खे एक ताबूतका ढक्कन धीरे-धीरे उठते देखा, तो ये

भयभीत होकर उसे देखते रहे; लेकिन जब ताबूतके अंदरसे उनींदे स्वरमे आवाज आयी, 'क्या वर्षा बंद हो गयी है?' तो ये बहुत ज्यादा डर गये और डरके मारे लारीसे कूद पड़े। इनमें एक व्यक्ति मर गया और दूसरा सख्त घायल हो गया। बादमे मालूम हुआ कि इनका यह सब भय निराधार था। वह आवाज, जिसके कारण ये लोग बहुत डर गये थे, उस आदमीकी थी जो ताबूतके साथ पोंडा नामक नगरको जा रहा था। यह व्यक्ति भारी वर्षासे अपनेको बचानेके लिये ताबूतके अंदर घुस गया था और वही सो गया था।

बाइमेरका एक समाचार है—एक व्यक्ति पहली बार मुर्देके दाह-सस्कारमे गया। मरे हुए व्यक्तिको पहली बार देखकर उसे इतना डर लगा कि वह कई रात सोते-सोते जगा, डरावने स्वप्न देखता रहा। उसे डरका बहम ही गया। अन्तमे यह डर ही उसकी आत्महत्याका कारण बना।

केवल भयके कारण !

जौन नामक एक व्यक्ति कई बार असफलताके कारण जीवनसे निराश हो गया। उसके जीवनमे एकके बाद दूसरा-कई बड़े मानसिक आघात लगे थे। वह चिन्ता और उद्विग्नतासे अस्त-व्यस्त होकर नाना शंकाओसे भर गया। उसका मन उधेड-बुनमे लगा था। उसने मन-ही-मन सोचा—

'अब जीवनमे शेष ही क्या रह गया है? सारे दिन निराशा-ही-निराशा! मैं बेवसीका जीवन जीकर क्या कहूँगा? मैं इस दुनियामे अब रहना नहीं चाहता। परमात्मा मुझे दुनियासे बुलाये,

या न बुलाये, मैं आज ही कैमिस्टके यहाँसे जहर लाकर इस कष्टमय चिन्ताका अन्त कर दूँगा। मुझे आत्महत्या ही सब सासारिक सकटोंसे बचनेका उपाय सूझता है।'

ऐसा सोचते-सोचते वह मुहरंमी सूरत बनाये गमगीन मुद्रासे एक दवावालेके यहाँ विषकी शीशी खरीदने गया।

मनुष्यका चेहरा उसकी आन्तरिक मन स्थितिको स्पष्ट कर लेता है। गुप्त भावनाएँ छिपाये नहीं छिपती। चतुर व्यक्ति मुखमुद्रासे मनकी बात जान लेते हैं। फिर दूकानदार तो दिनभर ग्राहकोंके चेहरे पढ़ते रहते हैं। इस कैमिस्टको शक हो गया कि 'हो न हो, दालमे कुछ काला है। यह व्यक्ति विष खाकर जीवनका अन्त कर देना चाहता है।'

'मुझे खटमल मारनेवाले विषकी शीशी खरीदनी है'—उसने कैमिस्टसे कहा।

'क्या कीजियेगा ? आप तो कभी विषैली दवाई खरीदते नहीं ?' कैमिस्ट बोला।

'अजी क्या बताऊँ ! खटमल सारी रात परेशन करते हैं। तग आ गया हूँ उनसे। इस विषसे उन्हें समाप्त कर दूँगा। चैनकी नीद सोऊँगा।'

'देखिये बन्धु, यह शीशी विषसे भरी है। सम्हालकर प्रयोगमे लाइयेगा। इधर-उधर रखनेसे किसी बच्चेके हाथ पड जाय, तो मृत्युतक हो सकती है।'

ऐसा कहकर कैमिस्ट अंदर गया और जहरवाली शीशीमें रगीन हानिरहित दवाई भरकर उसने जौनको दे दी ।

कैमिस्टका अनुमान अक्षरशः सत्य निकला । जौन कायर था । उसकी आत्महत्याकी योजना पक्की थी । वह जिदगीसे पलायन कर रहा था ।

उसने अपनी पत्नीके नाम अन्तिम पत्र लिखा और उस विषैली दवाको गलेके नीचे उतार लिया । मौतके स्वप्न देखने लगा—अब मरा अब मरा ।

फिर स्वयं कह भी दिया कि मैंने जहर पी लिया है और कुछ देर बाद मैं मर रहा हूँ ।

फिर क्या था, चारो ओर शोर मच गया ।

‘जौनने विष खा लिया है ! जौन आत्महत्या कर रहा है !! दौड़ो इसे किसी तरह बचाओ । डाक्टर बुलाओ । इसे वमन कराओ । जौनको बचाओ ।’ रोगीकी हालत विगड़ती चली जा रही थी ।

मानसिक असंतुलन और उद्विग्नताके कारण उसके ‘हाथ-पाँव शिथिल हो रहे थे । उसका हृदय बुरी तरह धड़क रहा था । अब मरा ! अब मरा !!

सब लोग उसकी निढाल होती, क्षण-क्षण विगड़ती दशापर दुःख प्रकट कर रहे थे ।

जौनको फौरन एक कुशल चिकित्सकके पास अस्पताल पहुँचाया गया और उसकी चिकित्सा तुरंत प्रारम्भ हो गयी !

मनके ये राक्षस भी मृत्युका कारण बन सकते हैं ! ४६

डाक्टरने बड़ी सावधानीसे उसकी नब्ज देखी, हृदयकी परीक्षा की; मल-मूत्र, वमन इत्यादि सबका रासायनिक विश्लेषण किया। सब लोग उसकी मृत्युके समाचारकी प्रतीक्षा कर रहे थे।

पर आश्चर्य ! वह न मरा। यो ही मृत्युक्षय्याप पड़ा-पड़ा आखिरी सांसे गिनता रहा। उसकी जान ही नहीं निकलती थी।

डाक्टरने उस शीशीमें लगे हुए रगीन तरल पदार्थकी परीक्षा की और अन्तमे रहस्यका उद्घाटन करते हुए बतलाया—

‘जो दवाई जौनने पी थी, वह कोई भी विष नहीं था। कोई हानिरहित दवाई थी। उसके शरीरमे कोई विकार नहीं है।’

कैमिस्टको बुलाया गया, तो उसने भी इसी बातकी पुष्टि की। उसने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि ‘मैंने तो जौनकी जान बचानेके लिये हानिरहित दवाई दी थी, वह विष नहीं था।’

बादमे रोगीको यह बात खूब समझायी गयी, पर वह मानता ही न था। वह अब भी मानसिक असतुलनका शिकार था। मृत्युका भय उसे चिन्तित किये हुए था।

वह बार-बार यही कहता था, ‘मैंने विष पी लिया है। अब मैं नहीं बचूंगा।’

भय तथा मृत्युकी चिन्ता उसके गुप्त मनमे जड़ पकड़ गयी थी। वह उसे खा रही थी। इस विषैली भावनाने उसके मस्तिष्कको शिथिल कर दिया था। यही भय उसकी नस-नसमे फैल गया था। मृत्युका भय उसके गुप्त मनमेसे निकलता ही न था। अपनी क्लृप्तना और उद्विग्नतासे वह मृत्युका इन्तजार कर रहा था।

म० बी० पू० ४—

फल यह हुआ कि वह महीनो शक-ही-शकमे अस्पतालमे पड़ा रहा । रोगीको अच्छा होनेमे बहुत समय लगा ।

बिना जहर लिये, केवल मिथ्या भय और मानसिक असंतुलनने यह सब उपद्रव किया था ।

डाक्टरोका कहना था कि सिर्फ जहर पीनेके भयने उसे जीते-जी मौतके समीप पहुँचा दिया था । इस प्रकारकी चिन्ताओं और संदेहोसे न जाने कितने व्यक्ति मानसिक दृष्टिसे बीमार हैं ।

इस उदाहरणसे यह स्पष्ट होता है कि हमारे मस्तिष्कमे जमे हुए भय, चिन्ता, उद्वेग, अंधविश्वास, मानसिक दबाव हमारे दैनिक स्वास्थ्यपर बड़ा असर डालते हैं ।

यही बात डाक्टर विलियम एडलरने इन शब्दोंमे प्रकट की है—

‘मानसिक भाव-प्रक्रियाएँ मनुष्यकी शारीरिक क्रियाओको बड़ा प्रभावित करती हैं । अगर मन बीमार है, तो शरीर निश्चय ही बीमार होकर रहेगा । यदि रोगीके मनमे भय, आशका और मृत्युकी चिन्ता हो, तो उसे स्वस्थ करनेमे डाक्टरको बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता है ।

सच मानिये, एक नही असंख्य व्यक्ति शरीरसे पूर्ण स्वस्थ दौखनेपर भी मनमें गुप्त सदेह, बहम, चिन्ताएँ, तनाव, आकस्मिक मनोवेग लिये मानसिक बीमारी भोग रहे हैं ।

मानसिक कमजोरीसे मृत्यु

लन्दनका एक समाचारहै—एवरडीन विश्वविद्यालयके एक कालेजका चपरासी केवल सड़कोंके गालीगलौज और श्लोघमें चीखनेकी

मनके ये राक्षस भी मृत्युका कारण बन सकते हैं ! ५१

आवाजोंसे ही अपने प्राण खो बैठा था। बात यह थी कि वह चपरासी छात्रोंके दुर्व्यवहारकी सच्ची-झूठी शिकायतें अधिकारियोंको किया करता था। चूगली खानेकी इस मानसिक कमजोरीकी वजहसे वह लडकोंकी आँखोंमें खटकने लगा था।

दुष्प्रवृत्तियोंका शमन करें, ठंडे और शान्त रहें

मनुष्यको चाहिये कि इस प्रकारके नाना उद्वेगों और उत्तेजनाओंसे वह सदा खूब सावधान रहे। जब कभी इन मानसिक शत्रुओंका आक्रमण हो, तब मनको ठंडा करे, शान्त—संतुलित रहे और धैर्यपूर्वक परिस्थितिपर काबू करे।

हमारे मनके भीतर राक्षस (कुप्रवृत्तियाँ, वासनाएँ और विकार) तथा देवता (सत्-प्रवृत्तियाँ, शील, सद्गुण) सोये पड़े हैं। यदि राक्षस जग उठें, तो आत्मसयमद्वारा उनपर काबू करना चाहिये।

पिनेश नाकं स्तृभिर्दमूनाः ।

(ऋग्वेद १ । ६८ । १०)

अर्थात् याद रखिये, सयमी मनुष्य स्वर्गको भी जीत लेते हैं। सुख-शान्तिमय रहनेका उपाय अपनी कुप्रवृत्तियोंको सयममें रखना है।

अपवक्ता

हृदयाविषश्रित् ।

(ऋग्वेद १ । २४ । ८)

अर्थात् उन कुवासनाओं और मानसिक पापोंको त्याग दीजिये, जो आत्माको कष्ट दे। काम, क्रोध, भय, चिन्ता इत्यादिके कुविचार सदैव त्यागने योग्य हैं।

आपके गुप्त मनमें जो व्यर्थकी चिन्ताएँ इकट्ठी हो गयी हैं, वे मनमें तवाव और दुःखकी स्थिति उत्पन्न करती हैं। ये कुविचार

मानसिक असंतुलन पैदा करते हैं। मानसिक बीमारियाँ फूटकर निकलती हैं। मनमे व्यर्थके कटु अनुभवोंको स्थान न दीजिये। मनमे जमी हुई वासना ही सब दुष्कर्म कराती है।

मानसिक संतुलन बनाये रहें

याद रखिये, मानसिक असंतुलन आपके ऊपर भयानक संकट ना सकता है। चिन्ता, भय, क्रोध और उद्विग्नता मनुष्यके सर्वोपरि शत्रु हैं। सदैव मनको ठंडा रखिये और संकटके समय धैर्य तथा सहनशीलताका परिचय दीजिये।

मनको शान्त करनेमे धर्म आपकी सहायता कर सकता है। जीवन में आस्तिक दृष्टिकोण रखनेसे सहायकके रूपमे हमे परमात्माकी शक्ति मिल जाती है जो सदा मानसिक संतुलन बनाये रखती है।

मर्त्या हवाश्रमे देवा आशुः ।

(शत० ब्रा० ११।१।२।१२)

मनुष्य शुभकार्य करके शुभ चिन्तनद्वारा ही देव बनते हैं। शुभ चिन्तन, शान्त-संतुलित मन और अच्छे कर्मोंद्वारा शरीरसे भूसुर-पद प्राप्त कीजिये।

आर्या व्रता विसृजन्तो अघि क्षमि ।

(ऋग्वेद १०।६५।११)

धर्म—कर्तव्योका पालन करनेवाले ही देव हैं। वे प्रत्यक्ष देवता हैं जो संकटमे, विपत्तिमे, बड़ी-से-बड़ी प्रतिकूलता और मुसीबत मे शान्त-संतुलित बने रहते हैं।

=★□★=

किसी विषम स्थितिसे परेशान न हों !

एक मनुष्य मरता है, तो मनमे डर लगता है, शरीर कांप उठता है, मौतका दुःखद समाचार नहीं सुना जाता। श्मशानमें एक मृतकका दाह-सस्कार करके लौटते हैं, तो कई दिनोंतक चित्त व्याकुल रहता है।

एक-दो, दस-बीस, हजार दो हजार व्यक्ति नहीं, बीस हजार व्यक्ति यदि प्रतिवर्ष आत्महत्याएँ करने लगे, तो स्थिति संगोन होनी चाहिये।

ऐसी विषम स्थिति दुनियामे है।

अमेरिकाके प्रसिद्ध समाचारपत्र 'न्यूयार्क टाइम्स'ने अभी गत दिनोकी एक 'सर्वे रिपोर्ट' प्रकाशित की है, जिसमे बताया गया है कि प्रतिवर्ष बीस हजार अमेरिकन आत्महत्याएँ करते हैं। इस सर्वे रिपोर्टसे अमेरिकामे चिन्ताकी लहर दौड़ गयी है।

रिपोर्टमे बताया गया है कि मृत्युके बहुत-से ऐसे मामले हैं, जिन्हे आत्महत्या नहीं माना जा सकता, जब कि वे आत्महत्याके सिवा कुछ नहीं होते।

रिपोर्टके अनुसार अमेरिकामे आत्महत्या मृत्युके प्रथम दस कारणोमेसे एक है और युवकोके लिये प्रथम पाँच कारणोमें एक।

कारणोंपर. एक दृष्टि

किस महीनेमे सबसे अधिक लोग मरते हैं ?

अमेरिकन सर्वे विभागने पता चलाया है कि सर्वाधिक आत्महत्याएँ दिसम्बरमे और वह भी क्रिसमसके दिनोमे होती हैं।

यह बड़े आश्चर्यकी बात लगती है ? किसमस तो अग्रेज लोगोका खुशीका त्योहार है । भला खुशीके महीनेमें ये मौतें क्यों ?

कारण सुन लीलिये—

उस महीनेमे अमेरिकन लोग वर्षभरके अपने कार्योंका सिंहावलोकन करते हैं । वर्षभरमें क्या-क्या किया ? कितनी सफलता और कितनी असफलता मिली ? कितनी सुविधाएँ या आर्थिक कठिनाइयाँ रही ? व्यापारमे कितना हानि-लाभ रहा ? यह सब लेखा-जोखा मालूम करते हैं । वे लोग भौतिकवादी हैं । 'खाओ, पिओ, मौज उड़ाओ, पता नही कब मर जायँ'—यह उद्देश्य रखकर वे जीवन जीते हैं । अधिकांश अपने भौतिकवादी उद्देश्योमे निष्फल और निराश हो जाते हैं । कितनोके दिखावटी मित्र, यहाँतक कि पत्नियाँ उन्हे अकेला छोड़ जाती हैं । वे ऐसे व्यक्तियोके पास मँडराने लगते हैं, जिनके पास भौतिक जीवनकी सुख-सुविधाएँ हैं । अधिकांश अमेरिकन इसी निराशा और एकाकीपन से त्रस्त होकर आत्महत्याएँ किया करते हैं ।

कुछ और कारण इस प्रकार हैं—

१—अपने अस्तित्वमें अदिश्वास

आत्महत्याके मानसिक रोगी जीवनको क्षणिक, उद्देश्यचून्य, व्यर्थ मानते हैं । वे समझते हैं कि सासारिक परिस्थितियाँ उन्हे आसानीसे पस्त कर मिट्टीमे मिला सकती हैं । स्वयं उनका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । मनुष्य भाग्यके हाथोमे खिलौना है । यह अविश्वास उनमे कायरता पैदा करता है ।

२—उत्साह-भङ्ग

इन व्यक्तियोंका तनिक-सी विरोधी स्थितिसे जीवनका उत्साह टूट जाता है। पहले तो वे प्रयत्न ही ढीला-ढाला करते हैं, फिर धैर्य धारण नहीं करते। व्यर्थके कारणोंको अपनी असफलतासे जोड़ लेते हैं, जब कि कोशिशकी कमी ही उनकी असफलताका मुख्य कारण होती है।

३—घरेलू परेशानियाँ

स्त्रियोमे परस्पर झगड़े, सास-बहूके झगड़े, पिता-पुत्रमें मतभेद, नशाखोरी, कामलोलुप्ता, मनोविकारोसे सहज ही विचलित हो जाना, स्नायविक तथा मानसिक विकार, बच्चोंके ठीक तरह विवाह न कर पाना, पुत्रकी नोकरी न लगना, अधिक बाल-बच्चे और समाजकी रुढ़ियाँ आत्महत्याओंके कारण हैं।

४—आर्थिक कठिनाइयाँ

आजके बड़े हुए खर्चे, बाहरी टीपटाप, फैशन-परस्ती, झूठा दिखावा करनेके लिये इतनी आयकी जरूरत होती है, जो पूरी नहीं हो पाती। झूठी आवश्यकताओंकी पूर्ति न होनेकी वजहसे परेशानियाँ बढ़ती हैं और ज़िदगी भार-स्वरूप लगती है।

५—युद्धोन्माद

आज पाश्चात्य देशोंके निवासियोंको युद्धका पागलपन सवार है। वे शान्तिके बजाय मारपीट और सघर्षसे समस्याएँ सुलझानेका प्रयत्न करते हैं। नतीजा यह है कि वे तनावकी स्थितिमें रहते हैं।

६—जातीय भेद-भाव

गोरी और काली जातियोंमें ऊँच-नीचका भेद-भाव, बड़े-

छोटे, अमीर-गरीबके भेद मनको ईर्ष्या-द्वेषसे परिपूर्ण रखते हैं।

७—मानसिक तनाव

मनमें तनाव रखना, तुच्छ विषयोंको लेकर व्यर्थ ही सोचते रहना, मस्तिष्कका संघर्ष और अन्तर्द्वन्द्वसे भरे रहना जीवनको अत्यन्त अमान्त और अस्थिर बना देता है ।

८—शराबखोरी और नशीली दवाओंकी लत

अपनी परेशानियों और चिन्ताओंको भूलानेके लिये लोग नशीली दवाओंका बहुत प्रयोग करने लगे हैं । इससे दिमागमे गरमी पैठ जाती है और मनुष्य उत्तेजनमें कुछ-का-कुछ कर बैठते हैं ।

९—सबसे प्रधान कारण है—

ईश्वर तथा परलोकपर अविश्वास, जीवनमें केवल भौतिक सुख-सुविधाकी चाह और अपनी प्रत्येक परिस्थितिमे नित्य असंतोष ।

आप शक्ति-केन्द्र हैं

उपर्युक्त कोई भी कारण आपके मनमे उत्पन्न हो, तो तुरत सावधान हो जाना चाहिये । कौन जाने कब बढ़कर यह विपैली स्थिति आत्महत्याका रूप धारण कर ले ।

प्रातः शान्तिसे बैठकर निम्न विचारपर बार-बार सोचिये और उसे गुप्त मनमे बैठाइये—

‘अहमिन्द्रो न परा जिग्ये ।’ (ऋग्वेद १० । ४८ । ५)

अर्थात् मैं शक्तिकेन्द्र हूँ । जीवनमें कही मेरी पराजय नहीं हो सकती ।

‘मैं थोड़ी सी परेशानियोंसे कभी घबराने या पथसे विचलित

होनेवाला नहीं हूँ । मैं विकट प्रसंगोंसे कभी भी परास्त नहीं होता हूँ । विपत्तियाँ आकर उसी प्रकार चली जाती हैं, जैसे तूफान । मैं तूफानोंमें अविचलित रहनेवाला अडिग, स्थिर चट्टान हूँ । विकट प्रसंग या विपत्तिसे मेरा कुछ भी बिगड़नेवाला नहीं है । ये मेरी परीक्षा लेने आती हैं, पर मैं इनसे कभी परास्त नहीं होता हूँ ।

‘मेरा आत्मविश्वास महान् है । वह कभी भी साधारण अभावोंसे तथा छोटी-मोटी विपत्तियोंसे अस्त-व्यस्त होनेवाला नहीं है । मैं मङ्गलमय ईश्वरकी शक्तिमें अखण्ड विश्वास रखता हूँ । ईश्वरकी शक्ति सदा मेरे साथ है । वह कबचकी तरह सदा मेरी सहायता करता है । मैं अपनी परेशानियोंसे घबराता नहीं, एक-एककर उन्हें हल करनेकी युक्ति सोचता हूँ । समस्याओंका विवेकपूर्ण हल निकालता हूँ ।

‘मेरा जीवन सुरक्षित है । मुझमें ईश्वरकी महान् शक्ति प्रकट हो रही है । मैं वीरात्माकी तरह समस्त विपत्तियोंका सामना करूँगा ।’

प्रतिदिन इसी सकल्पकी बार-बार सिंह गर्जना किया कीजिये । प्रातः तथा सायंकाल सोते समय इन अमृतमय विचारोंसे आपका आत्मविश्वास दृढ़ होता जायगा । आत्मविश्वासको सदा बढ़ाते रहिये । आपका आत्मविश्वास आपको सब प्रकारकी विपत्ति, भय तथा शोकसे बचानेवाला है । बुद्धिमान्को चाहिये कि वह अपनी योग्यताओं, विशेष गुणों, ऐश्वर्य और साहसपर ही सदा चिन्तन करे ।

आकाशमें जैसे काले बादल अधिक देरतक नहीं टिक सकते, उसी प्रकार जीवनकी परेशानियाँ भी क्षणिक हैं। जिस व्यक्तिको मञ्जुलमय ईश्वरमें विश्वास है, उसका जीवन नाना प्रकारके क्लेश, अविद्या, राग-द्वेष तथा चिन्ताओंसे सुरक्षित रहेगा।

कष्ट किसे नहीं है ? रोगी कौन नहीं है ? परेशानीने किसे तंग नहीं कर रक्खा है ? मृत्यु, रोग, शोक किसके यहाँ नहीं हुआ ? यदि आप देखें, तो ऐसी परेशानियाँ हर किसीको हैं।

किंतु साहसी कभी इन मुसीबतोंकी परवा नहीं करते। वे सबमें धैर्य और उन्नतिके लिये सत्-प्रयत्न सदैव चालू रखते हैं।

उज्ज्वल भविष्यकी ओर दृष्टि लगाये रखना और उम्मे लानेके लिये लगातार कोशिश करना विकट प्रसंगोंको दूर करनेका उपाय है।

जब कोई डरपोकपन, कायरता, पराजयका अवाञ्छनीय विचार आपके मनमें आये, तो उसके विपरीत साहस, हिम्मत, वीरता और संघर्षमें विजयी होनेका विचार लाकर प्रतिकूल मन स्थितिको हटाना चाहिये।

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वास्त नः पूषा विश्ववेदाः ।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

(ऋग्वेद १ । ८६ । ८, ६)

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

हे देवगण ! हम कानोसे कल्याणकारी वचन सुने।

हम नेत्रोंसे सदा कल्याणका ही दर्शन करें ।

हमारा शरीर और उसके अवयव सुदृढ और पुष्ट हों, जिससे हम भगवान्‌का कार्य सम्पन्न करते रहे ।

देवगण ! इन्द्र, जिनका सुप्रश सर्वत्र फैला है, हमारा कल्याण करें । अरिष्टिनिवारक तार्क्ष्य और बृहस्पति हमारा कल्याण करें । हम शान्त रहे । हमारे चारों ओर शान्ति रहे । हम शान्तिपूर्वक अपनी समस्याओंको हल करनेमें स्वस्थचित्तसे लगे ।

जीवनका अन्ततक आनन्द लें

यह जीवन बहुमूल्य है । सघर्ष और निरन्तर उन्नतिके लिये बना है । डरपोक और कायरताके विचार आपको किसी प्रकार शोभा नहीं देते हैं । कहा है—

उत्क्रामातः पुरुष माव पत्यः । (अथर्ववेद ८।१।४)

अर्थात् सदा ऊँचे उठनेकी बात कीजिये । नीचे गिरनेकी बात न कभी सोचिये, न गिरिये ।

मित्रो ! जीवनरूपी इस सघर्षमे निराशा और पराजयकी नहीं, सदा-सर्वदा आशा और सफलताकी भावना किया कीजिये । अबकी बार हम अवश्य विजयी होने जा रहे हैं । भविष्यमे हमारी शत-प्रतिशत-सफलता निश्चित है—यही अमृत भाव मनमे रखिये ।

उद्यानं ते पुरुष नावयानम् । (अथर्ववेद ८।१।६)

अर्थात् बन्धुओ ! सदैव उन्नति कीजिये । अवनति भूलकर भी मत होने दीजिये । गिरानेवाले नहीं, जिदगीको उत्तरोत्तर उठाने-वाले पुष्ट विचारों और सत्कार्योंको अपनाइये ।

मात्र तिष्ठः पराङ्मनाः । (अथर्ववेद ८ । १ । ६)

अर्थात् जीवनके किसी भी क्षेत्रमें शिथिलता और अनुत्साह ठीक नहीं । याद रखिये, अकर्मण्यता और निराशा एक प्रकारकी नास्तिकता है ।

वीरयध्वं प्र तरता । (अथर्ववेद १२ । २ । २६)

अर्थात् संसार-सागरमें उद्योगी ही पार होते हैं । पुरुषार्थविहीन व्यक्तियोंकी नाव बीचमें ही डूबती है ।

जीवनके लिये सोचिये । जबतक जीवित है, स्वस्थ और पूर्ण आनन्दकी ही कल्पनाएँ मनमें रखिये—


अमृतं विवासत । (ऋग्वेद)

उत्साही और आशावादीका ही साथ कीजिये । उन कार्यरोंको दूर रखिये जो आपको डरपोक बनाते हैं और भविष्यको निराशाजनक बनाते हैं ।

धर्ममें पूर्ण आस्था रखिये । आपके आजके इस जीवनके पुण्य दूसरा जीवन भी सुधारनेवाले है । ईश्वर सदा आपके साथ है ।

शुचिं पाशुपं ध्रुवम् । (ऋग्वेद)

अर्थान् उनकी प्राप्ता कीजिये जो धर्मपर दृढ़ हैं । आप भी उन-जैसा साहस प्राप्त करें, दीर्घजीवी और स्वस्थ रहे, आत्मगौरव प्राप्त करें ।



व्यर्थ घबराया न कीजिये

आपको रेलगाडीसे जाना है । गाडीमे अभी एक घटा देर है, पर आपके मनमे यह धुकधुकी कैसी ? चिन्ता और घबराहट आपको अस्तव्यस्त किये हुए हैं । आपको एक घंटासे पहलेसे ही गाडी छूट जानेका गुप्त भय है । आप तबतक इस चिन्ता और भयसे मुक्ति नहीं पाते, जबतक रेलके डिब्बेमे पैर नहीं रख लेते, आपके दिमागमे हर प्रकारकी चिन्ताएँ घर बनाये रहती हैं, जैसे टिकट खरीदनेकी चिन्ता, जेब कट जाने या माल चुराये जानेका भय, रेलमे स्थान न पानेका डर, गाडीके समयसे पहले आ जानेका भय, अपनी ही घडीके पीछे हो जानेका भय, कुली न मिलनेकी शका, अगले कनेक्शनपर गाडो छूट जानेकी चिन्ता आदि ।

इसी प्रकारकी न जाने कितनी चिन्ताएँ आपको अस्तव्यस्त कर देती हैं । आप जल्दी-जल्दी चलते हैं, दो-चार वस्तुएँ मार्गमे ही भूल जाते है, रुपये गिरा देते है या किसीको कुछ आवश्यक

सूचना देना भूल जाते हैं। जब स्टेशन पहुँचते हैं तो मालूम होता है कि अभी गाड़ी आनेमें देर है। फिर घबराहट शुरू ! क्या हमें अच्छी सीट मिलेगी ? क्या यह सारा सामान डिब्बेमें चढ जायगा ? क्या सामानका बोझ टिकटोपर ले जा सकनेके भागसे अधिक तो नहीं है ? आपका छोटा बच्चा जिसका टिकट आपने उसे छोटा समझकर नहीं खरीदा है, चेकरद्वारा पकड तो नहीं लिया जायगा।

गाड़ी आती है और आप आश्चर्यसे देखते हैं कि आपकी सब चिन्ताएँ फिजूल थी। सारी घबराहट व्यर्थ ! आप मिथ्या काल्पनिक भयमें डूबे हुए व्यर्थ ही मनको अस्तव्यस्त कर रहे थे।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, जिन्हें गाड़ी पकड़नेकी कभी चिन्ता नहीं होती। जिस गाड़ीमें जायँगे, उसके वारेमें सूचनाएँ प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जब उस गाड़ीको पकड़नेका समय समीप आता है, तो ऐसे शान्त और चिन्तामुक्त बैठे रहते हैं, जैसे उन्हें स्टेशनपर जाना ही नहीं है। ऐसा लगता है कि यदि वे नीदमें भी हों, तब भी गाड़ी पकड लेंगे। ऐसे व्यक्तियोंका मानसिक सतुलन इतना मजबूत होता है कि उनकी दिनचर्या तथा विविध कामोंमें किसी प्रकारकी गडबडी नहीं होती, यह एक दृष्टान्तमात्र है।

घबराहटके अनेक स्थान हैं। परीक्षार्थियोंके लिये परीक्षा-भवनमें अनेक विद्यार्थी आधा पर्चा तो गुप्त भयके कारण भूल जाते हैं। जैसे ही इम्तहानके भवनमें दाखिल हुए कि मनमें धुकधुक हो जाती है। जो याद किया है, उसका आधा हिस्सा भूल

जाते हैं । घबराहटमे जो जानते हैं उसे भी गलत लिखते हैं । डाक्टरके लिये घबराहट खतरनाक है । यदि आपरेशन करते समय रोगीकी गिरती हुई अवस्था देखकर कही वह घबरा उठे, तो रोगीकी मृत्यु ही निश्चित है । रेलगाडी, मोटरगाडी या मोटर साइकिल, रिक्शा आदिके चालक यदि कही घबरा उठे, तो न जाने कितनोके टक्करे लग जाया करें । वक्ता जब बोलने या अभिनेता जब अभिनय करनेको खड़ा होता है, घबरा उठे तो बुरी तरह फेल होता है ।

जीवनके हर क्षेत्रमे घबराहट हानिकारक और घातक है । घबराना भी एक प्रकारकी मानसिक कमजोरी है । अतः मनुष्यको इसके स्वरूपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिये और बचनेका प्रयत्न करना चाहिये ।

जगत् तथा समाजमे भयानक परिस्थितियाँ आती हैं । उनपर नही, बल्कि घबराहटकी जड मनुष्यके गुप्त मनमे मौजूद रहती है । अस्थिरता, असतोष, रोग, चञ्चलता इत्यादि बाह्य जगत्पर निर्भर न होकर अस्वस्थकर वातावरणपर निर्भर है ।

एक व्यक्ति एक भयानक स्थिति देखकर घबरा उठता है, जबकि दूसरा अपने मनके सतुलन और सामर्थ्यके कारण वीरतासे उसका सामना करता है । पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकोके सिद्धान्तोके अनुसार मनुष्यकी जितनी बाहरी क्रियाएँ हैं, उनकी जडें मनुष्यके गुप्त मनमे रहती हैं । यह गुप्त मन सक्रिय, सतेज, सशक्त और बड़ी प्रबल सामर्थ्यवाला है । अदरसे यह ब्रह्म मन तथा शरीरको चलाया करता है । यदि गुप्त मनमे (प्रायः वचनमे) कोई भय

बैठ जाय तो उसके फनस्वरूप बुरी सूचनाएँ और बुरे विचार, डर उत्पन्न होते रहते हैं। भयका गुप्त घातक प्रभाव शरीरपर पड़ता है। हममे हानिकारक परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। हम खतरनाक फलोंकी कुकल्पनाएँ किया करते हैं। दूसरे जो व्यक्ति घबराते हैं, उन्हें देखकर छूतके रोगकी तरह हमे भी घबराहट उत्पन्न होती है। घबराहट गुप्त मनमे बनी हुई जटिल भयकी मानसिक ग्रन्थिकी दूषित प्रतिक्रिया है। इस आदतकी जड़ मनुष्यके प्रारम्भिक जीवन, घरकी परिस्थितियाँ और भावात्मक अनुभवोमे पायी जाती है।

विचार करके देखिये कि घबराहटकी डरपोक आदत आपको कैसे पडी ? बाल्यावस्थामे आपको कौन-कौनसे भय दिखाये गये ? किस-किसने तग किया, डराया, धमकाया या परेशान किया ? शिक्षकोने कितनी बार डाँटा-डपटा और बुरा-भला कहा। सौतेलो माँने कैसा कुव्यवहार किया। किन-किन कार्योंमे आपको असफलता मिली।

यदि आप किसी मनोविश्लेषण करनेवाले विद्वान्से अपना मनोविश्लेषण करावे, तो वह आपको आपके मनमे बनी हुई जटिल कटु और निराशावादी भावना-ग्रन्थिका कारण बतलायेगा। जिस बच्चेको आप बार-बार बुरा कहते हैं, ताडते-धमकाते या निरुत्साहित करते हैं, उसकी समस्त उत्पादक शक्तियाँ पंगु हो जाती हैं। वह बचपनसे ही सुस्त और निराशावादी बन जाता है। उसको लज्जा और हीनत्वकी भावना बुरी तरह आ घेरती है। वह तनिक-सी बातमे लजा जाता है तथा दूसरोके समक्ष अपनी

सच्ची बात भी कहते हिचकता है। बुरे व्यवहारसे उसका आत्म-विश्वास नष्ट हो जाता है। यहीसे उसकी घबरानेकी आदत निकलती है। विषम और प्रतिकूल परिस्थितियोंसे युद्ध करनेकी शक्ति उसमें नहीं रह जाती।

अतः माता, पिता, अभिभावक और अध्यापकका कर्तव्य है कि अनुचित डाँट-फटकार बच्चोंपर कभी न करें। उनकी गलतियों और भूलोंको प्यारसे ही सुझावें। ऐसी ताडना न दें कि बच्चेकी महत्त्वकाक्षा ही नष्ट हो जाय और वह सदाके लिये निकम्मा ही हो जाय। विषम परिस्थितियोंसे लड़नेकी आदत उसमें न रहे।

इसके विपरीत बच्चेमें नेतृत्वके गुणोंको प्रोत्साहित करना चाहिये। उसके आत्म-विश्वासको पुष्ट करनेवाले पुराने वृत्तान्त, उसकी छोटी-छोटी विजयके रहस्य, उसकी शानदार सफलताओं, विषम परिस्थितियोंमें भी हिम्मतके कार्योंकी भरपूर सराहना तथा दिल खोलकर मुवतकण्ठसे प्रशंसा करनी चाहिये।

प्रसिद्ध मनोविज्ञानके शास्त्री श्रीलालजीरामजी शुक्लने तो लिखा है कि 'छोटे बच्चेको किसी कामके लिये लज्जित कर देना उसमें घबरानेकी मनोवृत्ति पैदा कर देना है। ऐसा बालक जन्मभर दूसरोंके द्वारा लज्जित किये जानेसे डरता है। अतएव उसमें नया काम करनेकी अथवा नये लोगोंसे मिलनेकी हिम्मत ही नहीं होती। हम देखते हैं कि कभी-कभी बड़े लोग बालककी किसी बात-पर हँस देते हैं। कक्षामें यदि कोई प्रश्न पूछे तो बालककी उपेक्षा कर देते हैं। इस प्रकार बालक लजा जाता है। फिर उसमें दूसरों-

के सामने मुँह खोलनेकी हिम्मत नहीं रहती । कभी-कभी बालक अपनी किसी भूलके लिये सब लोगोके सामने लज्जित हो जाता है । इसके अनुभव भी बड़े अप्रिय होते हैं । वह कटु अनुभवको भूलनेकी चेष्टा करता है और इन्हे भूल भी जाता है । परन्तु ऐसे अनुभव उसे सदाके लिये निर्वल कर देते हैं । परीक्षाके समय वह ऐसा घबरा जाता है कि प्रश्नोका उत्तर ही नहीं लिख पाता । यह उसके मनकी घबराहटका ही दुष्परिणाम है । इससे स्पष्ट है कि हमें बच्चेको अधिक डाँट-फटकार और विपरीत सकेत कभी नहीं देने चाहिये । उसकी भूलोकी लवी-चौड़ी आलोचना नहीं करनी चाहिये । कटु अनुभवको बार-बार उसके सामने पेश नहीं करना चाहिये ।

अपने मनका विश्लेषण कर अपनी घबराहटका वास्तविक कारण जानिये । बार-बार पुरानी स्मृतियोंका स्मरण कीजिये । अपनी घबराहटका कारण मालूम होनेपर विवेकबुद्धिसे उसे दूर किया जा सकता है ।

आप गम्भीर दृष्टिसे इन कारणोको देखेंगे तो पायेंगे कि वास्तवमे ये आपकी कल्पित भावनाएँ ही थी, इनमे सचाई बहुत कम है । जिन कारणोको व्यर्थ सोच-सोचकर आप घबरा जाते हैं, वे वास्तव में होनेवाले नहीं हैं । आप इतने बड़े हो गये, पर वे आपके जीवनमे कभी नहीं घटे हैं ।

वर्तमान विवेकपूर्ण विचार, गुप्त मनको दिये जानेवाले स्वस्थ सकेत या सजेशन और आत्मविश्वासपूर्ण आचारण—ये तीन ऐसे अमोघ उपाय हैं, जो हमारी घबराहटकी आदतको दूर कर सकते हैं ।

इन तीनोंसे मनुष्यका आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है । ज्यों-ज्यों आत्मविश्वास बढ़ता है, घबराहटकी आदत छूटती है ।

आप इसलिये घबरा जाते हैं, क्योंकि कार्यकी तैयारी पूरे सामर्थ्य और पूरी ताकतसे नहीं करते हैं । ससार बड़ी तैयारी और गहराई चाहता है । अचूरे मनसे किया हुआ काम असफल होकर आपके आत्मविश्वासको तोड़ डालता है । घबराहट होने लगती है । जो भी कार्य हाथमें लें, उसे शुरू करनेसे पूर्व पूरी तरह जो कुछ भी हो सकती हो, मानसिक और बौद्धिक तैयारी कर डालिये । पूरी तैयारी घबराहटको कभी उत्पन्न न होने देगी । जो व्यक्ति हर अच्छी-बुरी परिस्थितिके लिये तैयार है, उसे क्यों घबराहट होगी ? चोर लोग घबराते हैं, बचते हैं, डरते हैं, लज्जित होते हैं । आप जब अच्छी तैयारी कर लेते हैं, तो तमाम कमजोरी समाप्त हो जाती है । जो भी कार्य आप हाथमें लें, उसकी पूरी-पूरी तैयारी कर लिया करें । आपकी घबराहटकी विरोधी भावना 'शान्त भावना' है । जो शान्त अविचलित मन स्थितिको धारण कर लेता है, वह घबराहटका अन्त कर डालता है । हमें शान्त और स्थिर मन-स्थितिमें विकासकी मानसिक आदत डालनी चाहिये । हर कार्य करते समय मनमें शान्ति धारण कर रखनी चाहिये । शान्तिके ही गुप्त आत्मनिर्देश गुप्त मनको देने चाहिये । आप सदा यही सोचा कीजिये—

'मैं सब काम शान्तिसे करता हूँ । व्यर्थके कल्पित भयोंमें आकर जल्दबाजी नहीं करबैठता हूँ । मैं शान्त हूँ, परम शान्त और स्थिर हूँ । मेरा मानसिक संतुलन सदा ठीक रहता है । मैं जानता हूँ कि चञ्चलतासे

मुक्त रहकर ही मैं उन्नति कर सकता हूँ। मुझे कभी कोई घबराहट नहीं होती; क्योंकि मैं भगवान्की शक्तिमें स्वस्थ, प्रसन्न एवं निश्चिन्त हूँ। भगवान्की शक्ति और प्रेरणासे मेरे लिये जो शुभ और स्थायी है, वही होगा। कोई तूफान या परेशानी मेरी शान्त मन स्थितिको भङ्ग नहीं कर सकती।

इस प्रकारकी गुप्त प्रेरणा बार-बार अपने गुप्त मनको देते रहिये। दिन-रात इसी भावनाको मनमें जमानेसे मनकी स्थिति सतुलित हो जायगी। आप ऐसे शान्त व्यक्तियों, मुनियों, विद्वानों, विचारकोके मानसचित्र मनमें लाइये, जैसे शान्त आप स्वयं होना चाहते हैं। इन्हीं बड़े व्यक्तियोंकी मूर्तियाँ आपको घबराहटमें प्रेरणा देती रहेगी।

अपनी कल्पनाका प्रयोग सही दिशामें कीजिये; अर्थात् कल्पना-द्वारा ऐसे शुभ और पौरुषपूर्ण मानसचित्र बनाइये, जिनमें आप अपना पूर्ण सफल रूप देख सकें। सफलता और शान्तिपूर्वक रहनेके जो चित्र आप कल्पनामें देखते हैं, वे निश्चय ही आपके जीवनमें प्रत्यक्ष होंगे। मान लीजिये, आपको भाषण देनेमें घबराहट महसूस होती है। अब आप मनमें बड़ी सभाका चित्र बनाइये और अपनेको उसके सामने धाराप्रवाह बोलते हुए कटिपत कीजिये। सफलता और शान्त रहनेका मानसिक अभ्यास करते-करते आप निश्चय ही उन्हें बाह्य जीवनमें भी पा सकेंगे।

कामको शान्त, स्थिर और प्रसन्न मनसे किया कीजिये। पहले ही यह न मान बैठिये कि आप अमुक कार्य न कर सकेंगे।

धीरे-धीरे बोलिये । एक काम ही एक वार पूर्ण कीजिये । सम्भव है, बहुत-से कार्य एक साथ सामने आते देख आप गडबडा जायँ और गुप्त भयसे थकावट अनुभव करने लगें । धीरे-धीरे कार्य निपटानेसे घबराहट कम होती है ।

मनमे कार्यकी सफलताका पूरा-पूरा विश्वास और सकल्पको दृढ़ रखिये । आप जिस कामको हाथमे ले रहे हैं, उसमे जरूर सफलता प्राप्त करेंगे, यह भाव रखनेसे मनुष्यकी तमाम शक्तियाँ जाग्रत् होकर सफलताके लिये प्रयत्नशील बनती हैं । अपनी विशेषताओ, अपनी शक्तियो, अपने ईश्वरीय गुणोका ही विचार लगातार कीजिये । भूलकर भी अपनी निर्बलताओ या कमियोको मनमे मत लाइये, अन्यथा घबराहट बढेगी । निर्बलताओकी बात सोचनेसे आत्मग्लानिका थोथा विचार मनमे आता है और वह कमजोरी पैदा करता है । पहले ऐसे छोटे-छोटे काम हाथमे लीजिये, जिनमे आप सफल हो सकते हैं । फिर इनसे कठिन और कष्टसाध्य कार्य हाथमे लेकर उनमे सफलता प्राप्त कीजिये । इससे आपका आत्म-विश्वास बढ जायगा ।

आपकी घबराहटका कारण गुप्त मनमे सचित भय है अतः जिन बातोको करनेमे डर लगता है, उन्हे अवश्य करना चाहिये । आपको जिन व्यक्तियोसे मिलनेमे सकोच या लज्जा आती है, उनसे जरूर मिलना चाहिये । ऐसा अभ्यास करते-करते मनका छिपा हुआ डर निकल जाता है । अतः सहर्ष मनसे निडर होकर आपत्तियो और कठिनाइयोका स्वागत कीजिये ।

संकटकी भीषण धड़ीमें रक्षा करनेवाले स्वर्णसूत्र

जीवनमें कभी-कभी बड़े भूचालके समान कठिन समय आते हैं। आकस्मिक विपत्ति, मृत्यु या दुःखद समाचार आते ही बहुत-से व्यक्ति बुरी तरह विचलित हो उठते हैं। कभी भयका भूत दिखायी देता है। जिंदगी बुरी तरह खतरेमें फँसी हुई दीखती है। ऐसा मालूम होता है कि जीवन सदाके लिये नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा।

ऐसे खतरेके समय मनुष्य भौंचक्का-सा रह जाता है। बुद्धि साथ नहीं देती। वह किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है। वह निराशा-सा हो जाता है या उत्तेजित होकर ऐसी बात कह बैठता है जिसके लिये वह वादमें पछनाता रहता है।

कभी-कभी हम ऐसी बात आवेशमें कर बैठते हैं, जो वास्तवमें हम करना नहीं चाहते थे, या दरअसल हमारा मतलब नहीं था। एक वार एक अफसरने क्लर्कको कुछ कड़वी बात कह दी। क्लर्क इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने फाइलें अफसरके मुँहपर दे मारी। नतीजा यह हुआ कि नौकरी छूट गयी और उम्रभर पछताते रहे।

विलियम लेयन फेलप्सने सत्य ही कहा है—

‘संकटके समय मनको शान्त और चित्तको ठंडा रखना मनुष्यके लिये बड़ा उपयोगी है। इससे बड़े-बड़े कुफल बच जाते हैं।’

हम अपने चारों ओरके सफल और समृद्धिशाली व्यक्तियोंको

देखें और दुःख तथा उद्वेगसे पीडित जीवनको परिस्थितिके अनुसार नुरंत बदल दें ।

कुछ व्यक्तियोंने संकटसे बड़े धैर्यपूर्वक सघर्ष किया है । अपने-अपने तरीके निकाले हैं । कुछ उपाय यहाँ दिये जाते हैं—

नियम १—मानसिक दुःखके तनावको कम करनेके लिये फील्ड मार्शल वाइकाउण्ट स्तिमका प्रयोग देखिये । एक बार उन्हे युद्धमे बड़ी भारी हार उठानी पड़ी थी । वे कोई ऐसा उपाय ढूँढ रहे थे जिससे अपने सिपाहियोमे बल और उत्साहका संचार कर सकें । उन उन्होने कुछ इस प्रकार कहना प्रारंभ किया—

‘नतीजा और भी भयकर हो सकता था’; वे बोले ।

‘किस प्रकार ?’ एक सिपाहीने प्रश्न किया ।

‘हो सकता था कि वर्षा भी हो जाती ।’ वे हँसते हुए बोले । इस हास्यमय उत्तरको सुनकर सब हँस उठे । तनाव कम हो गया ।

आप भी जब कभी संकटमे हो, तो मुसकुराकर मानसिक तनाव कम करे । हँसी स्वयं एक अमृतोपम औषधि है जो शरीरमे फैलकर पूरे शरीरको हलका कर देती है । सजीव बना देती है ।

आप भी मुसकुराहट या हास्यका प्रयोग किया करे ।

नियम २—एक प्रोफेसर साहब उच्च कक्षामे भाषण दे रहे थे । मनमे घबराहट थी । जल्दी-जल्दी अपनी बातें कहते चले जा रहे थे । सयोगसे जल्दीमें वे जिस नाटककी आलोचना कर रहे थे, उसके लेखकका नाम भूल गये । बहुतेरी कोशिश की, परंतु

नाम याद न आया । कक्षाके चतुर विद्यार्थी उनकी भूलको ताड़ रहे थे । उन्हे एकाएक याद आया कि सकटमे जल्दवाजी नही करनी चाहिये । अतः बिना ढरे ही वे वादविवाद करते रहे । जैसे-जैसे उन्हे समय मिला और माथा कुछ ठंडा हुआ कि उन्हे नाटककारका नाम याद आ गया—नाम था सर जेम्स बेरी । अब क्या था, हिम्मतसे उन्होने लेखकका नाम बता दिया । झेप मिट गयी । उनकी बड़ी मानहानि होते-होते बची ।

अत कुछ समय रुकिये । मनको तनिक ठंडा और संतुलित होने दीजिये । जल्दवाजीमे सम्भव है आप कुछ ऐसी गलती कर बैठें, जो बादमें दुरुस्त न हो सके । उत्तेजनासे जल्दीसे कर बैठनेकी जो मनोवृत्ति है, उसे दबाइये । आप मूर्खतासे अवश्य बच सकेंगे ।

अत कुछ समय बीतने दीजिये । बातको ठंडा पडने दीजिये ।

नियम ३—दूसरोसे बातें करते हुए यह जी चाहता है कि हम अपनी बात या दृष्टिकोणसे चिपटे रहे । उसपर वादविवादमे बुरी तरह अड़ जायँ । विचलित न हों । दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति भी अपनी जिद या तर्कमे पीछे नही हटना चाहता । नतीजा यह होता है कि तनाव बना रहता है ।

दूकानदार ग्राहकको पटाना चाहता है, किंतु ग्राहक अपनी हठ नहीं छोडना चाहता । कोई भी अपनी बातको दबवाकर हेठी नही कराना चाहता । किंतु आप ऐसा करेगे, तो दूसरेको शत्रु बना लेंगे ।

एक सफल व्यापारीने मुझे बताया कि 'मेरी सफलताका रहस्य यह है कि मैं ग्राहकको अपना दृष्टिकोण खूब कह लेने देता हूँ। मैं उसे दबाता नहीं हूँ। उसके अहकी तृप्ति करता हूँ। मैं अपने सकेत मात्र करता हूँ और फिर उन्हे सोचनेका काफी अवसर देता हूँ। ऐसा करनेसे मैं कभी अपने ग्राहकको नहीं खोता हूँ।'

आप दूसरोपर हावी न हो। उनके अहको कदापि न दबावें।

नियम ४—अपनी कटु-आलोचना या बुराईको सुनकर हम आगबबूला हो उठते हैं। कुछको तो इतनी उत्तेजना होती है कि मस्तिष्कका सतुलन ही नष्ट हो जाता है।

मैं हालहीमे एक मानसोपचारकसे मिला। उनसे पूछा— 'आपको तो अनेक पागलों और असतुलित दिमागवालोसे मिलना पड़ता है। आप भला क्या करते हैं ?'

वे बोले—'अपनी ही बुराई सुन सकता सम्भव है। यदि मनमे यह मानलें कि वे हमार लिये नहीं कही गयी हैं। इस तौरपर मानसिक रोगी किसी दूसरी बातपर और किसीसे नाराज होता है—अपने किसी मित्रसे, परिवारके किसी सदस्यसे या दफ्तरके हाकिमसे। वह उन सबका गुस्सा उतारनेके लिये हमे तो एक-मात्र आधार ही बनाता है।

आप भी यही समझे कि दुनियाके आधे व्यक्ति, विशेषतः स्त्रियाँ, पागल या अविकसित होती हैं। वे हमे विचित्र लगती हैं। हम उन्हे विचित्र प्रतीत होते हैं। फिर हम व्यर्थ ही उनकी बातको बुरा मानकर क्यो परेशान हो ?

नियम ५—गोर्डन कूपर आकाशमे उड रहे थे कि उनका वायुयान खराब हो गया । वे लिखते हैं कि मैंने हर सम्भव कोशिश की, आटोमैटिक कण्ट्रोल लगाये, पर वायुयान वज्रमे न आया । मैंने पहले अपने मनको शान्तिसे संतुलित किया । फिर बाहरके मैन्युअल कन्ट्रोल लगाये । यह हम सदा शुरूमे लगाते ही है । मैंने पाया कि वायुयान सँभल गया । मैं सही-सलामत उतर आया । तबसे मुझे यह अनुभव हुआ कि मामूली बातों, वस्तुओं तथा विधियोंसे कभी-कभी बड़े शानदार फल प्राप्त किये जा सकते हैं ।

संकटकी घडीमे आप पूर्ण रूपसे धैर्य धारण करें और ठडे मस्तिष्कसे कठिनाईसे बचनेकी युक्ति सोचे । सच मानिये, यदि आप घबराहटसे बचे रहे, तो समस्याओका कुछ-न-कुछ निदान निकल ही आयेगा ।

कोई कठिनाई ऐसी नहीं है कि आप उससे न बच सके । जीवनमे कभी भी हार मत मानिये । कठिनाईकी उलझी हुई गुत्थियोंको सुलझाइये । अपनी हीनता या पराजयकी बात मत सोचिये—

अनुवृत्तः X X X X X

आरोग्यमाक्रमणं जीवतो जीवतऽयनम् ।

(अथर्व० ५ । ३० । ७)

-तुम (माँतकी ओर जा रहे हो ?) मैं तुम्हे पीछे बुला रहा हूँ । वापिस लौटो । जीवनके मार्गको पहचाननेवाले (बनो) । उन्नति और वृद्धिको जाननेवाले (बनो)'

समाजका पतन इस प्रकार रुक सकता है !

देशमें स्थान-स्थानपर नैतिक पतनको लेकर दुःख प्रकट किया जा रहा है। कहीं खाद्यान्नोमें मिलावट, कहीं रिश्वत, कहीं ब्लैकमार्केट है, तो कहीं पक्षपात, झूठे विज्ञापन, चोरी, छल, कपट या धोखेबाजीके नये-नये ढंग देखनेमें आ रहे हैं।

बाजारमें शुद्ध दूध, घी, आटा, दही, दवा मिलना असम्भव-सा हो गया है। सर्वत्र निम्नकोटिकी वस्तुओंकी मिलावट है। हमारे देशके व्यापारी यह नहीं समझते कि व्यापार ईमानदारी और शुद्ध वस्तुओंको बेचनेसे ही पनपता है। चोर-बाजारी, बिक्री-कर न चुकाना, पाकिस्तान आदि विदेशोसे अवैध व्यापार करना, कम तौलना, मूल्य अधिक बताकर फिर हुज्जत करके कम करना,

अच्छा नमूना दिखाकर घटिया माल देना, असलीमे नकली मिला देना, ग्राहकको ठगनेका प्रयत्न—ये व्यापारिक पतनके अनेक रूप हैं !

समाचारपत्रोमे आये दिन नैतिक पतनके समाचार छपते रहते है । एक वर्षमे बम्बई-राज्यमे भ्रष्टाचार-विरोधी व्यूरोने भ्रष्टाचार और दुर्वर्तनके २४३ मामले पकड़े, जिनमें ६७ सरकारी लर्मचारी भी सम्मिलित थे । इनमे २६ मामलोमे ६५ सरकारी कर्मचारियोको रिश्वत, गवन या किसी गैर-कानूनी ढंगसे रुपये ऐठनेके अपराधमे पकड़ा गया है ।

सहारनपुर-पिछले ११ दिसम्बर ५८ का समाचार है कि यहाँके १४ गल्ला-व्यापारियोको, एक रेलवे वुकिंगक्लर्क और चार दलालोंको चोरीसे दो लाखका चावल राज्यसे बाहर भेजनेके कथित अभियोगमें गिरफ्तार किया गया । नशीली चीजोंका अवैध व्यापार घड़ल्लेसे चल रहा । अवैधरूपसे शराब बनाना या चोरीसे अफीम लाना, गाँजा बेचना आदिके अनेक समाचार छपते रहते है ।

बम्बई-राज्यके पुलिस-विभागके एक मासके अपराधोकी तफसील देखिये । मासके अन्ततक १०३ मामले पकड़े गये । इनमें २९ मद्यनिषेधके अपराध, ३ जुएके मामले, ६१ बिना परमिटके मोटर चलानेके अभियोग और १० विविध अपराध थे; जैसे सिनेमा-टिकटोकी चोरबाजारी, घोखादेही, सरकारी सम्पत्तिका उपयोग, इमारतके सामानकी चोरी, औरतोको बेचने या वेश्यावृत्ति करवानेके मामले ।

ये सब आसानीसे और बिना ठोस श्रम किये धन कमानेके चसकेके कारण हुए है । बहुत-से व्यक्ति ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, ऐश-आरामकी वस्तुएँ तो चाहते हैं, पर मेहनत और ईमानदारीसे नहीं कमाना चाहते । फलत घोखेबाजीके नये-नये तरीके सोचा करते हैं ।

लोग पतित क्यों होते हैं ?

बिना मेहनत रुपया बना लेनेका व्यसन या चसका बुरा है । एक बार जिस व्यक्तिको मुफ्तखोरी, कामचोरी घोखेबाजीकी लत पड़ जाती है तो उसका मन फिर किसी स्थायी काममे नहीं लगता । वह मुफ्तमे ही रुपयेका मालिक बनकर गुलछर्रे उडाना चाहता है ।

कुछ व्यक्ति अपनेको अपनी हैसियत या सामाजिक स्तरसे ऊँचा दिखानेमे शान समझते हैं । अदरसे खोखले रहते हुए भी बाहरसे ऐसा लिफाफा बनाये रखना चाहते हैं कि समाज घोखेमे रहे । कुछ ऐसे हैं जिनकी नशेबाजी, कामुकताकी तृप्ति, फँशन, बिलासिता आदिकी आदते अनियन्त्रित रूपसे बढी हुई है । नैतिक आमदनी तो सीमित रहती है । कुछ ऊपरी आमदनी पैदाकर इन बढे हुए खर्चोंकी पूर्तिके लिये उनका मन कुलबुलाया करता है । वे सदा ऐसी तरकीबें सोचा करते हैं कि आमदनीके नये जरिये निकाल लें, जिनसे उनकी टीपटाप और बढी हुई इच्छाओंकी पूर्ति होती रहे ।

नैतिक और ईमानदारीसे आयवृद्धि करना आजके बेरोजगारीके

युगमें बड़ा कठिन है। फिर मनुष्य थमसे जी चुराता है और बिना मेहनत आनन्द लूटना चाहता है। वह अपनी बुद्धि उन उपायोंकी खोज करनेमें लगता है कि श्रम कम से-कम करना पड़े, या हो सके तो विल्कुल ही मेहनत न पड़े, पर आय द्गुनी हो जाय। इस कार्यमें वह मर्यादा और औचित्यकी सीमाओंको पार कर जाता है। क्षणिक भोग और लालचसे उसकी विवेक-बुद्धि भ्रमित हो उठती है।

नैतिक पतनका सामाजिक कारण मिथ्या प्रदर्शनकी भावना, झूठी शान, वासनापूर्ति या फैशनकी सनक और अनावश्यक तृष्णा हैं। भ्रष्टाचारीके मनमें अनावश्यक लोभ बना रहता है, जो उसे अवैध तरीकोकी ओर ढकेलता है। कुछमें चोरीकी अपराधवृत्ति स्वाभाविक होती है। कुछ आनन्दो जीव होते हैं, जो शराब-पान, वेश्यागमन और होटलके वासनामूलक पदार्थोंके इच्छुक होते हैं। कुछ अनाप-शनाप खर्चमें ही अपनी अह-तुष्टि कर पाते हैं। ये सब मानसिक दृष्टिसे रोगी होते हैं।

फजूलखर्ची, विलासिता और आरामतलबी हमारे इस दिखावटी समाजका एक बड़ा दुर्गुण है। यह केवल अमीर और पूंजीवादीवर्ग-तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत मध्यवर्ग, और मजदूरवर्ग, क्लर्क और बाबूवर्ग तकमें पाया जाता है।

जितनी आज अपने-आपको अमीर दिखानेकी थोथी प्रवृत्ति पायी जाती है, उतनी पहले कभी नहीं पायी गयी। लोग अपनी ईमानदारीकी कमाईसे संतुष्ट नहीं; वे तो एकाएक कम-से-कम

समयमे अमीर बन जानेके उपाय (जो प्रायः अनैतिक होते हैं) सोचा करते हैं। वे सट्टा करते हैं, जुआ खेलते हैं, दूसरोको तरह-तरहसे धोखा देते हैं, ठगते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और रिश्वत उड़ानेका प्रयत्न करते हैं।

शहरोमे दिखावा और झूठी शान दिखानेकी दुष्प्रवृत्ति सर्वत्र पायी जाती है। आप उसे सड़कोपर, गलियोमे, पार्कोमे, मन्दिरोमे और सबसे अधिक विवाह-शादियोके अवसरपर देख सकते हैं। पोशाकका दिखावा और शान कदाचित् सबसे अधिक बढ़ी हुई है। युवक और युवतियोमे अपने-आपको सजाने, विविध शृङ्गार करनकी भावना अनियन्त्रित रूपसे बढ़ती ही चली जा रही है। लोग अपनी आयसे बहुत अधिक व्यय कर दूसरोपर शान जमाते हैं और उसका दुष्परिणाम व्यावसायिक दिवालियापन, धोखेबाजीके अनेक मुकदमे, विविध अपराध मिल रहे हैं, जिनमे लोगोको बेईमानी और दूसरोको ठगनेपर भारी सजाएँ होती हैं।

हमारा बाहरी लिफाफा अच्छा रहे। हम अमीर और पूंजीवाले दिखायी दे, यह बहुरूपियापन आज हमारे समाजको भ्रष्टाचारकी ओर आकृष्ट कर रहा है। धोखेबाज दूसरोपर झूठी शान जमानेमें लगे हुए हैं। वे एक खास किस्मके स्टाइलसे रहना चाहते हैं, खूबसूरत कोठियोमे निवास करते हैं, दावतें देते हैं, पान-सिगरेटका दौर-दौरा रखते हैं और इन सबके खर्चे पूरे करनेके लिये भ्रष्टाचार ही उन्हें एक सीधा-सा रास्ता दिखायी देता है।

एक वर्ग अंदरसे गरीब है, पर दिखाता है अमीरी। यह

निम्न मध्यवर्ग हर तरीकेसे अपनी गरीबीको छिपानेका उपक्रम करता है। वे व्यक्ति कमानेसे पूर्व ही अपनी आमदनी खर्च कर चुकते हैं। उनपर कभी पसारीका तो कभी कपड़ेवालेका कर्ज घड़ा ही रहता है। विजलीके बिल जमा नहीं हो पाते। मकानका किराया चढ़ा रहता है, किंतु फिर भी वे मित्रोकी दावते करेंगे और लेन-देनमे कभी कभी कमी न करेगे। वे मित्र और सम्बन्धी कबतक ऐसे व्यक्तिके साथ रहते हैं? केवल तभीतक, जबतक वह ऋण इतना नहीं हो जाता कि अदायगी सीमसे बाहर हो जाय। जहाँ वह ऋणमे फँसा कि ऐसे 'खाऊ-खड़ाऊ' व्यक्ति उड़ जाते हैं और इस ऋणग्रस्त व्यक्तिके घृणा करत हैं। फिर उसे कोई नहीं पूछता। कर्ज उसे पेटमे रख लेता है।

हम फैशनके दास बन गये हैं। हम दूसरोके नेत्रोसे देखते हैं। दूसरो के दिमागोसे सोचते हैं। जैसा दूसरोको पसंद है, हम वही करते हैं। हम वह नहीं करते जो वास्तवमे हमारी सच्ची स्थिति है, हैसियत है या जो हमारी आमदनी है। हम अन्धविश्वासोके गुलाम हैं। जैसा देने-दिलानेका रिवाज है, हम वैसा ही करनेपर तुल जाते हैं, जब कि हमारे पास पैसा होता ही नहीं और हम अपना घर भी दूसरोके यहाँ गिरवी रख देते हैं। हम स्वतन्त्ररूपसे विचार नहीं करते, अपना आगा-पीछा नहीं सोचते। हम जिस वर्गमे हैं, उससे इस वर्गकी बड़ी हैसियतका अन्धानुकरण करते हैं। समाज तो दो दिन बाहवाही करके अलग हो जाता है। हम उम्रभर कर्जमे डूबे रहते हैं। हमारे मनमे यह गलत धारणा बन

गयी है कि हम यदि ऐसे कपडे पहनेगे, ऐसा बनाव-श्रुगार करेगे, सोसाइटीके रस्मो-रिवाजोका पालन करेंगे, तभी हमे सम्मान्य समझा जायगा। हम मूर्खतामे फँसकर अपनेसे ऊँची आय, हैसियत, संचित पूंजी और ऊँची स्थितिवाले लोगोके समान जीवन बितानेकी इच्छा करते है।

इस प्रकार अनेकानेक समझदार और पढे-लिखे व्यक्तितक कर्ज, दु ख, बेवसी, आत्महत्या, उत्तेजना, अपराध और भ्रष्टाचारकी ओर बढ़ते है। खानेकी वस्तुओमे मिलावट, दूसरोसे रिश्वत, भोली-भाली जनताको धोखेबाजीसे छलते है। अनेक तरीकोसे ठगते है। झूठे विज्ञापन करते, है, डकैनी और हत्यासे भी नही चूकते। बार-बार चोरी करनेसे वह हमारी आदतमे शुमार हो जाता है। एक भ्रष्टाचारी को बने ठने-देखकर दूसरे भी वैसा ही रग बदलते है। वे भी उन्ही अनैतिक तरीकोको अपनाते है। एक भ्रष्टाचारी दूसरेको भ्रष्टाचारी बनाता है।

पापीका अनैतिक घन आठ-दस वर्ष ठहरता है, ग्यारहवाँ वर्ष लगते ही समूल नष्ट हो जाता है।

अन्यायोपार्जित घन विषके समान होता है। जो अनैतिक और गदे तरीकोसे घन कमाते है, उनके चारो ओर विष-ही-विष है।

सत टाल्सटाय घनके साथ जुड़ी हुई अनेक बुराइयोके कारण घनको पाप मानते थे। उनकी पत्नी खाने, उड़ाने, चाटने और दिखावटी जीवनको पसद करती थी। वह हमेशा नये-नये फैशन और नयी-नयी माँगें पेश किया करती थी। इस तरह दोनोके

स्वभावकी असमानताके कारण उनका जीवन कलुषित बन गया था। यदि और कोई कम आत्मविश्वासका व्यक्ति होता तो पत्नीको खुश करनेके लिये वह भी भ्रष्टाचारी बन सकता था। दुनियाको छल, कपट और धोखेबाजीसे लूटनेका षड्यन्त्र कर सकता था; किंतु टालसटायको भ्रष्टाचारसे बड़ी घृणा थी। उन्होंने सत्य और नैतिकताका सन्मार्ग न छोड़ा। बयासी वर्षकी उम्रमें पत्नीके बलहसे तंग आकर गृह-त्याग किया।

सच है, धन जिनका चाकर है, वे बड़भागी हैं। जो धनके चाकर हैं, वे अभागे हैं !

तमाम पवित्र चीजोंमें धन कमानेकी पवित्रता सर्वोत्तम है।

नैतिक गिरावटका जिम्मेदार हमारा समाज है

भ्रष्टाचारके लिये किसे दोष दे ? व्यक्तिको या समाजको ? आप कहेगे व्यक्ति ही मिलावट करता है, रिश्वत लेता है, चोरी, छल, ठगी, धोखेबाजी करता है। इसलिये व्यक्ति ही इस अपराधका जिम्मेदार है, व्यक्तिका ही दोष है।

हम कहते हैं कि भ्रष्टाचारका दोषी व्यक्ति उतना नहीं है, जितना समाज है। समाज व्यक्तिको निरन्तर प्रभावित किया करता है। प्रत्येक समाजमें कुछ निश्चित कायदे-कानून और बँधी हुई रस्में हैं। व्यक्तिको उन्हीका पालन करना पडता है। जिन रस्म और रिवाजोका समाजमें मान होता है, जिन बातोको अच्छा और बुरा माना जाता है, समाजका प्रत्येक व्यक्ति उन्हीको स्वभावतः ग्रहण करना चाहता है। उन्हीको धारण करनेमें गौरवका अन्तर्भाव करता है।

समाजमें कुछ व्यक्ति तो सादा जीवन व्यतीत करते हैं, पर कुछ दम्भी ऐसे भी होते हैं, जिनके घरमें तो भूजी भाँग नहीं होती, पर वे अपने आपको बड़ी टीपटापसे दिखाते हैं, कृत्रिम बनाव-शृङ्गार रखते हैं; बाहर कुछ, अंदर कुछ और रहते हैं। ये साज-शृङ्गार करते हैं, तो समाज इन्हे मान देता है। समाजमें ये लम्बी नाक निकालकर चलते हैं। इनकी टीपटाप और विलास को देखकर साधारण स्तरके व्यक्ति भी इनकी नकल करते हैं। लुभावने जीवनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। समाजमें सब कुछ अनुकरणसे ही चलता है। एकके बाद दूसरा, बस, यह लुभावना जीवन ही सर्वत्र परेशान कर रहा है।

समाजमें टीपटापसे रहनेवाले बड़े आदमियोंका विलासिता और फैशनसे भरा हुआ जीवन कम आयवालोंके मनमें ईर्ष्या उत्पन्न करता है। वह अपनी सीमित आमदनीमें अपने खर्चे पूरे कर नहीं पाता। अतः उसके मनमें अतृप्ति बनी ही रहती है। आज जिसे देखिये, वही आय कम होनेकी शिकायत इसीलिये करता है; क्योंकि वह अपनी हैसियत तथा सामाजिक स्तरमें नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनेसे बड़ों, अमीरों, जागीरदारों, सामन्तों या राजाओंके जीवनका असफल अनुकरण करता है।

नैतिक गिरावट रोकनेके लिये सुझाव

नैतिक गिरावट एक सामाजिक रोग है समाज ही इस रोगका निराकरण कर सकता है। यदि समाज प्रयत्न करे तो बहुत जल्दी भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है।

समाजमें ऐसे अवसर बंद कर देने चाहिये, जिनमें कम

द्वारा दिये गये इस सम्मानको देखती है, तब कन्याएँ स्वयं भी वैसे ही बनना चाहती हैं। इन्हे गुमराह करनेका अपराध उन लोगोका है, जिन्होंने गलत मान दे-देकर कच्चे दिमागोको बुरे रास्तेपर डाल दिया है।

समाजने सिनेमाको सार्वजनिक जीवनमे बहुत मान दिया। सिनेमा हमारे दैनिक जीवनका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग बन गया। कच्चे दिमागोके विद्यार्थियोने सिनेमामे रोमांस और एडवेन्चरके चित्र देखे। उन्हीका अनुकरण किया। फलस्वरूप यह वर्ग कामुक और रोमांटिक बन गया। विद्यार्थियोमे अनुशासनहीनता, फैशनपरस्ती, कामुकता और गुडागर्दीकी भावना फैल गयी।

आवश्यकता यह है कि सिनेमाको घृणाकी दृष्टिसे देखा जाय, अभिनेत्रियोको मान न दिया जाय। मनुष्यकी सच्चरित्रता, विद्वत्ता, भलमनसाहत, उद्योग आदिको ही मान दिया जाय। जो-जो व्यक्ति जीवनमे सदाचार, सयम, सद्व्यवहार, त्याग, तपस्या, सादगी और सरलतासे जीवन-यापन करके ऊँचे उठे हैं, उन्हीको समाजकी ओरसे सम्मान दिया जाय। इस प्रकार सही दिशाओमे सोचने-विचारने और चलनेको प्रोत्साहित किया जाय। यदि समाज सत्यता और शीलगुणको सम्मान देगा तो जनता रुपयेके मोहसे हटकर मानवोचित सद्गुणोंके विकासकी ओर ही श्रम करेगी। उसकी विचारधारा उच्च नैतिक आदर्शोंकी ओर चलेगी; हमे समाजको नयी शिक्षा देनी होगी।

समाजके स्वस्थ कार्योंको ही मान्यता दी जाय
सच्ची शिक्षाका समूचा उद्देश्य समाजको ठीक कार्योंमें रत

कर देना ही नहीं, बल्कि उन्हें ठीक कार्योंमें रस लेने लायक बना देना है। समाजको शुद्ध बना देना है।

सब शुद्धताओंमें धनकी शुद्धता सर्वोत्तम है; क्योंकि शुद्ध वही है, जो धनको ईमानदारीसे कमाता है, वह नहीं, जो अपनेको केवल मिट्टी और पानीसे शुद्ध करता है।

एक विचारकने लिखा है, 'निस्सदेह ऐसे बहुत आदमी हैं जो अन्यायी, बेईमान, घोखेबाज, अत्याचारी, फरेबी, झूठे, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी बनकर धनवान् हुए हैं और आज समाजमें सम्मानके पात्र बने हुए हैं। सच जानिये, ऐसे व्यक्ति सुखी और तृप्त नहीं हो सकते। क्या वे इस दौलतके अत्यल्पांशका भी आनन्दसे उपभोग कर सकते हैं ?

'नहीं, कदापि नहीं। उनकी अन्तरात्मा उन्हें दिनभर और रातभर झिडकी, पीड़ा, सताप और यन्त्रणा देती रहती है।'

विद्वान् उचित दिशा सुझाएँ

सामाजिक वातावरण बदलनेकी जिम्मेदारी विद्वानो, विचारकों, लेखको, सम्पादको, कवियो, समाज-सुधारको, राजनीतिक नेताओं और संतोंकी है। ये लोग अपने विचारो, पत्रो और लेखोद्वारा समाजमें नयी-नयी विचारधाराएँ फैलाते हैं और जनताको विचारकी नयी विधियाँ सिखाते हैं, उचित-अनुचितका विवेक सिखाते हैं। अपने तर्कोसे कुछ विशेष निष्कर्षोपर पहुँचते हैं। विवेक कुछ खास व्यक्तियोंका गुण है, चंद बुद्धिशालियोकी निजी सम्पत्ति है। यदि यह उपदेशकवर्ग समाजके मूल्योंको सासारिकतासे हटाकर नैतिकताकी ओर ले जाय तो बड़ा लाभ हो सकता है।

आयवालोको बडोके अनुकरण और ईर्ष्याके अवसर मिलते हैं, या अनावश्यक मिथ्या प्रदर्शनके खर्चे बढ़ते हैं। विवाहोमे अनाप-शनाप दिखावा, लेन-देन ठहराव, दहेजका प्रदर्शन आदि दूसरोंकी और भी अधिक व्यय करनेको प्रेरित करते हैं। एक दस हजार व्यय करता है, तो दूसरा उसे नीचा दिखानेके लिये पंद्रह हजारकी योजनाएँ बनाता है। तीसरा कुछ और टीपटाप और प्रदर्शनकी तरकीबे सोचता है। लानत है. उस सामाजिक अनुकरणपर, जो हमें सजीव सत्यसे वचित रखे। अपनी असलियत न प्रकट करने दे, अथवा वास्तविकता खोलते हुए मनमे लज्जाका भाव पैदा कर दे।

दहेज या तो दिया ही न जाय, अथवा चेकद्वारा दिया जाय, जिसका प्रदर्शन तनिक भी न हो। विवाहमे कन्याकी शिक्षा, योग्यता, सच्चरित्रता और स्वास्थ्य ही मुख्य है। धन तो नितान्त गौण है। दहेजका प्रदर्शन ही न क्रिया जाय, तो फिर उसके देनेमें कौन गर्वका अनुभव करेगा ?

सौन्दर्य-प्रसाधनोंको सहत्त्व न दिया जाय

आज हम नारी-जीवनको देखते हैं, तो उसमे भी समाजका ही कसूर पाते हैं। हर एक युवती बढिया-बढिया राजसी वस्त्र, अधिकाधिक नवीन रंग तथा आकर्षक प्रिंट्स, नाइलोन साडियाँ और नयी डिजाइनोंके आभूषण क्यो चाहती है ? नये फैशन क्यो बनाती है ? मुँहपर क्रीम, पाउडर, सुर्खी इत्यादि क्यो लगाती है ? अपनेको सुन्दर दिखानेमें क्यो इतनी तल्लीन है ?

इसका कारण वह यह समझती है कि समाजमे इन्ही वस्तुओके प्रयोगसे वह सम्माननीय समझी जायगी। वह यही समझती है कि

पत्नीका सजी-धजी फैशनमे हीना ही सौभाग्यकी बात है। वह बेचारी ऐसे समाज मे रहती है, जिसमे अधिक-से-अधिक फैशन बनाना उत्तम समझा जाता है और अर्द्धनग्न रहनेमे पाश्चात्य देशोकी अधाधुध नरुल की जाती है। समाज इन फैशनो, इन सौन्दर्य-प्रसाधनोको महत्व देता है। सम्मानसे देखता है।

समाजका सम्मान पानेकी भूखमे वह बेचारी जीवनकी अनेक उपयोगी और आवश्यक वस्तुओका प्रयोग बंद कर देती है। शुद्ध घीके स्थानपर डालडा और दूधके स्थानपर चायका प्रयोग करती है, पर सौन्दर्य-प्रसाधनो, वस्त्रो, फैशनोमे दिल खोलकर व्यय करती है। दोष उस समाजका है जो गलत मूल्योसे व्यक्तियोंको नापता है और मिथ्या-प्रदर्शनकी ओर गुमराह करता है।

जनताका मन चीजोको गहराईसे नहीं सोचता। वह तो कच्चा मन रखता है। ऊपरी दिखावेसे ही प्रभावित हो जाता है। वह भी व्यक्तिका मूल्याङ्कन बाह्य प्रदर्शनसे ही करने लगता है। अतः जरूरत इस बातकी है कि समाज ऐसे मिथ्या-प्रदर्शनपर रोक लगाये।

सिनेमाको घृणाकी दृष्टिसे देखा जाय

युवक-युवयिाँ समाज और सरकारद्वारा सिनेमा-अभिनेता और अभिनेत्रियोको सम्मानित होते देखती हैं। अभिनेत्रियोके सजे हुए फोटो बड़ी शानसे छपते हैं। अखबार उनके रोचक वृत्तान्त छाप-छापकर जनताका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करते हैं। युवक अभिनेत्रियोके चित्रोसे सुसज्जित अखबारोको लिये फिरते हैं। घर तथा दफ्तरोमे दीवारोपर उनके चित्र या कैलेंडर सजावट और सम्मानके लिये लगाये जाते हैं। जब युवक या युवती जनता-

द्वारा दिये गये इस सम्मानको देखती है, तब कन्याएँ स्वयं भी वैसे ही बनना चाहती हैं। इन्हे गुमराह करनेका अपराध उन लोगोका है, जिन्होंने गलत मान दे-देकर कच्चे दिमागोको बुरे रास्तेपर डाल दिया है।

समाजने सिनेमाको सार्वजनिक जीवनमे बहुत मान दिया। सिनेमा हमारे दैनिक जीवनका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग बन गया। कच्चे दिमागोके विद्यार्थियोने सिनेमामे रोमास और एडवेन्चरके चित्र देखे। उन्हीका अनुकरण किया। फलस्वरूप यह वर्ग कामुक और रोमांटिक बन गया। विद्यार्थियोमे अनुशासनहीनता, फैशनपरस्ती, कामुकता और गुडागर्दीकी भावना फैल गयी।

आवश्यकता यह है कि सिनेमाको घृणाकी दृष्टिसे देखा जाय, अभिनेत्रियोको मान न दिया जाय। मनुष्यकी सच्चरित्रता, विद्वत्ता, भलमनसाहत, उद्योग आदिको ही मान दिया जाय। जो-जो व्यक्ति जीवनमे सदाचार, संयम, सद्व्यवहार, त्याग, तपस्या, सादगी और सरलतासे जीवन-यापन करके ऊँचे उठे हैं, उन्हीको समाजकी ओरसे सम्मान दिया जाय। इस प्रकार सही दिशाओमे सोचने-विचारने और चलनेको प्रोत्साहित किया जाय। यदि समाज सत्यता और शीलगुणको सम्मान देगा तो जनता रूपयेके मोहसे हटकर मानवोचित सद्गुणोंके विकासकी ओर ही श्रम करेगी। उसकी विचारधारा उच्च नैतिक आदर्शोंकी ओर चलेगी; हमें समाजको नयी शिक्षा देनी होगी।

समाजके स्वस्थ कार्योंको ही मान्यता दी जाय

सच्ची शिक्षाका समूचा उद्देश्य समाजको ठीक ढाँचोंमें रत

कर देना ही नहीं, बल्कि उन्हें ठीक कार्योंमें रस लेने लायक बना देना है। समाजको शुद्ध बना देना है।

सब शुद्धताओंमें धनकी शुद्धता सर्वोत्तम है; क्योंकि शुद्ध वही है, जो धनको ईमानदारीसे कमाता है, वह नहीं, जो अपनेको केवल मिट्टी और पानीसे शुद्ध करता है।

एक विचारकने लिखा है, 'निस्सदेह ऐसे बहुत आदमी हैं जो अन्यायी, बेईमान, घोखेबाज, अत्याचारी, फरेबी, झूठे, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी बनकर धनवान् हुए हैं और आज समाजमें सम्मानके पात्र बने हुए हैं। सच जानिये, ऐसे व्यक्ति सुखी और तृप्त नहीं हो सकते। क्या वे इस दौलतके अत्यल्पांशका भी आनन्दसे उपभोग कर सकते हैं ?

'नहीं, कदापि नहीं। उनकी अन्तरात्मा उन्हें दिनभर और रातभर झिडकी, पीडा, सताप और यन्त्रणा देती रहती है।'

विद्वान् उचित दिशा सुझाएँ

सामाजिक वातावरण बदलनेकी जिम्मेदारी विद्वानो, विचारको, लेखको, सम्पादकों, कवियो, समाज-सुधारको, राजनीतिक नेताओं और संतोंकी है। ये लोग अपने विचारो, पत्रों और लेखोद्वारा समाजमें नयी-नयी विचारधाराएँ फैलाते हैं और जनताको विचारकी नयी विधियाँ सिखाते हैं, उचित-अनुचितका विवेक सिखाते हैं। अपने तर्कोंसे कुछ विशेष निष्कर्षोंपर पहुँचते हैं। विवेक कुछ खास व्यक्तियोंका गुण है, चद बुद्धिशालियोंकी निजी सम्पत्ति है। यदि यह उपदेशकवर्ग समाजके मूल्योको सासारिकतासे हटाकर नैतिकताकी ओर ले जाय तो बड़ा लाभ हो सकता है।

वे सम्पादक, जो फिल्मोके माध्यमसे कामुकता और शृङ्गारका प्रचार कर रहे हैं, जनताके शत्रु हैं । जो उच्छृङ्खल स्त्रियोके आकर्षक-आकर्षक चित्र पत्रोमे मुखपृष्ठोपर छाप-छापकर युवकोको विषय-वासनाकी ओर ढकेल रहे हैं, समाजका बडा अहित कर रहे हैं । अपने पत्रोद्वारा वे जिस व्यक्तिको मान देगे, शेष आदमी भी वैसे ही बनेंगे । अत उन्हे चाहिये कि मानव-जातिके नैतिक जीवन-स्तरको ऊँचा उठानेवाले आदर्श पुरुष और नारी-रत्नोको सम्मान दें । अपने पत्रोमे उन आदर्श व्यक्तियोके ही वृत्तान्त, घटनाएँ, कहानियाँ छापे, जिनमे दूमरोको ऊँचा उठानेयोग्य आदर्श बाते हों । गंदे साहित्य, रोमाटिक किस्से-कहानियो और निम्न कोटिके साहित्य पढ-पढकर जनता भ्रष्टाचारकी ओर भटक गयी है !

साहित्यका पतन राष्ट्रके पतनका द्योतक है । सच्चा साहित्य वही है जो मनुष्यका हित करे अर्थात् उसका नैतिक उत्थान करे । विवेकको जाग्रत् करे । मानसिक स्वास्थ्यके लिये विवेक वैसाही है, जैसा शरीरके लिये स्वास्थ्य । विवेक जाग्रत् होनेसे मनुष्य उचित-अनुचितका अन्तर स्वतः समझने लगता है । सम्पादकोको ऐसा साहित्य प्रकाशित करना चाहिये, जिससे विवेक जाग्रत् हो और जनता देवत्वकी ओर चले । लेखक ऐसे सात्त्विक साहित्यकी रचना करें, जिससे मनुष्य समयका पाठ पढ़े, अपनी सीमित आयमे अपना गुजारा करें और संतुष्ट रहना सीखे । अपनी आवश्यकताओ, वासनाओ और तृष्णाओको न बढ़ने दें । इस प्रकारकी विचारधारा फैलानेसे सात्त्विक वायु-मण्डल बनेगा और उसमे निवास करनेसे समाज भ्रष्टाचार स्वतः त्याग देगा ।



ये हमसे सदा दूर रहें !

हमारे पास कौन रहे ? हमसे क्या दूर रहे ? प्रश्नो-ने भारतीय विचारकोको सदा उलझनमें डाला है ।

हमसे क्या दूर रहे ? इस प्रश्नपर हमारे मनीषियोने बहुत सोचा है, भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणसे विचार किया है, विषयके हर पहलूपर मन्थन किया है । यह उत्तर मानव-जीवनकी प्रगति और विकासके लिये उपयोगी है ।

हमसे दूर वे चीजें रहे, जो हमारा अहित करती हैं, वे दुर्गुण दूर रहे, जो हमारे मन, शरीर और आत्माको हानि पहुँचाते हैं; वे व्यक्ति दूर रहे, जो अपने सङ्गसे हमारे अदर दोष उत्पन्न करते हैं । हमारी खराब आदतें, बुरा स्वभाव, क्लेश, रोग, शोक, चिन्ता और द्वेष हमसे दूर रहें, क्योंकि ये सब अस्वास्थ्यकारी और हानिकारक हैं । वे कौन-कौन-से विषैले विषय हैं जो हमसे दूर रहे ? हमारे शास्त्र कहते हैं—

हमसे वे लोग दूर रहे !

ससारमे असख्य व्यक्ति हैं, भिन्न-भिन्न रंग, रूप, रुचि, स्वभाव और मानसिक विकासके हैं, पृथक्-पृथक् आदर्श और उद्देश्यवाले हैं, रहन-सहन और आदतोमे अलग-अलग हैं । ये व्यक्ति बाहरसे सब एक-से ही लगते हैं, पर मन, बुद्धि और स्वभावसे बिल्कुल भिन्न हैं । इनके आचरणमे जमीन-आसमानका अन्तर है । कुछसे आपके जीवनमे नया उत्साह और उन्नतिके लिये नवप्रेरणा मिलती है, दूसरोसे कोई कुरुचि या विषैली आदत मिल सकती है । अत

अच्छे-बुरे, ऊँचे-नीचे, उन्नतिशील और पतनोन्मुख आदमियोंकी पहचान बड़ी जरूरी है। आप अच्छे विचार और शुभ संकल्पोंवाले व्यक्तियोंके सत्संगमे रहे और इनसे बचें—

उत वा यः सहस्य प्रविद्वान् मर्तो मर्त मर्चयति द्वयेन ।

अतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने साकिनोदुरिताय धायीः ॥

(ऋग्वेद १ । १४७ । ५)

अर्थात् आप उन व्यक्तियोंसे सदैव दूर रहे, जो दूसरोकी निन्दा और परच्छिद्रान्वेषणमे ही लगे रहते हैं; क्योंकि उनके साथ रहनेसे अपना स्वभाव भी वैसा ही त्रुटिपूर्ण बन जाता है।

ऐसे व्यक्ति सदा सदा दूसरोकी कटु आलोचना और खराबियाँ निकालनेमे ही लगे रहते हैं। उनमे नैतिक, सासारिक, व्यापारिक और आत्मिक कोई भी लाभ नहीं होता। उनके सङ्गसे पर-दोष-दर्शनकी क्षुद्र तथा नीच प्रवृत्ति बढ़ती है।

हम जैसे लोगोके साथ दिन-रात रहते हैं, गुप्तरूपसे उनके विचार और आदतें भी ग्रहण करते जाते हैं। गुण-अवगुण सब संक्रामक हैं। इसलिये निन्दा करनेकी क्षुद्र प्रवृत्तिवाले व्यक्तियोंसे सदा बचना चाहिये।

अज्ञानियों और मूढ़ जनोसे दूर रहें !

दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान् दशमे युगे ।

अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः ॥

(ऋग्वेद १ । १५८ । ६)

अर्थात् अज्ञानी व्यक्ति (अपनी मूढ़ता, अज्ञानता, सकुचितता और अल्पज्ञताके कारण) लोभातुर होकर रोग-शोकसे दुःख पाते हैं,

किंतु घर्मनिष्ठ पुरुष ज्ञान और विज्ञान बढ़ाकर स्वयं बन्धनमुक्त रहते हैं तथा दूसरोको भी संसार-सागरसे पार ले जाते हैं ।

अज्ञानसे अदूरदर्शिता उत्पन्न होती है । अविकसित व्यक्तिकी दर्शन-पद्धति संकुचित रहती है । वह उन चीजोको अनावश्यक महत्त्व देता है, जिनका वास्तवमे साधारण-सा स्थान है । अज्ञानी लोग गुण, कर्म और स्वभावके स्थानपर पूर्वपुरुषों और माता-पिताके द्वारा अर्जित सम्पत्तिसे मनुष्यकी उच्चता-नीचता परखते हैं । वे अपनी भेड़ चालसे समझदार आदमियोको भी गुमराह करते हैं ।

नादान दोस्तसे समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा है; क्योंकि हमे सदा उससे चौकन्ना रहना पडता है ।

हम साधु पुरुषोंके ही साथ रहे !

आप समझदार, विद्वान्, शान्त और सतुलित रहनेवाले व्यक्तियोंके ही साथ रहे, जिससे आपको सुरुचि और सद्ज्ञान मिले, उसीका सत्संग करें । झगड़ालू और उत्तेजक स्वभाववालोसे दूर रहे ।

मा नो अग्नेऽव सृजो अघायाऽविष्यवे रिपवेदुच्छुनये ।

मा दत्वते वशते मादते नो मा रीषते तहसावन् परा दाः ॥

(ऋग्वेद १ । १८६ । ५)

याद रक्खिये, इस समाजमे आपके चारो ओर अच्छे-बूरे सभी प्रकारके आदमी हैं । यहाँ मङ्गल मृदु स्वभाववाले सज्जन पुरुष भी हैं और बाघ, सर्प, बिच्छू आदि हिंसक विषैले जीव-जन्तु भी बडी सख्यामे छिपे हुए हैं । बल्कि ये दूसरी कोटिमे विषैले व्यक्ति अधिक हैं और आपको परेशान करनेका मौका ढूँढते रहते हैं ।

इसलिये समझदार मनुष्यको चाहिये कि इन असाधुओसे वचकर साधु-पुरुषोंका साथ करे, शुभ कर्मोंको ही ग्रहण करे और दुष्कर्मोंसे दूर रहे ।

हमारे कर्मका कभी नाश नहीं होता । कल्याणकारी धर्म-कर्म, दूसरोकी सेवा और सहायता, पुण्य-कार्य सदा ही देर-सवेर फलदायक होते हैं । इस लोक और परलोकमे धर्मको ही सबसे श्रेष्ठ कहा है । बुद्धिमान् धर्मसे बढ़कर किसीको बड़ा नहीं कहते—

धर्म एव कृतः श्रेयानिह लोके परत्र च ।

तस्माद्धि परमं नास्ति यथा प्राहुर्मनीषिणः ॥

धार्मिक प्रवृत्तिवाले व्यक्तियोंके साथ रहिये । उनसे आपको जीवन और जगत्-सम्बन्धी उत्तमोत्तम रहस्य प्राप्त होंगे । उनके आचरण, वाणी, कर्मसे आपके उन्नतिशील जीवनको प्रेरणा प्राप्त होगी ।

आयुर्दंभुलभं लब्ध्वा नावकर्षेद् विशांपते ।

उत्कर्षार्थे प्रयतेत नरः पुण्येन कर्मणा ॥

यह दूर्लभ आयु पाकर मनुष्यको कभी पाप-कर्म नहीं करना चाहिये । समझदार व्यक्तिको सदा ही पुण्यकर्मोंसे अपनी ओर समाजकी उन्नतिके लिये कार्य करना चाहिये ।

हम कटुवचन बोलनेवालोसे दूर रहे !

कुवाणीका प्रयोग करनेवाले सदा दूसरोको गाली देने या कुवचनोका प्रयोग करनेवाले असभ्य व्यक्तियोंसे दूर रहना चाहिये । ये लोग पशु-तुल्य होते हैं और मनुष्यकी सबसे बड़ी विभूति वाणीका दूरुपयोग करते हैं ।

गाली या अश्लील भाषाका प्रयोग करनेवाला व्यक्ति अदरसे पशु-प्रवृत्तियोमे ही जकड़ा रहता है। गाली सम जके लिये अहितकर है। अदर छिपे हुए पाप और दुष्ट वासनाको प्रकट करनेवाला दोष है।

सदा निन्दा, क्रोध तथा कटुवचनोका प्रयोग करनेवाले मानसिक दृष्टिसे बीमार हैं। वे कुछ भी कर बैठते हैं। उनसे हम सदा दूर ही रहे।

मा नो निदे च वक्तवेष्यो रन्धीरराव्यो ।

त्वे अपि क्रतुर्मम ॥

(ऋग्वेद ७ । ३१ । ५)

‘परमेश्वर ! जो मनुष्य कठोर और निन्दनीय वचन बोलते हो, उनसे हम सदैव दूर रहे। कठोरता, रूक्षता, कर्कशता इत्यादि वृत्तियोसे हमारा कोई सरोकार न हो। हमारे सब कार्य आपको ही समर्पित हो अर्थात् हम सदैव शुभकर्म ही करें।’

रूक्षता और कर्कशता आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं। ये उस कठोरताकी प्रतीक हैं जो असभ्य और दानवी प्रकृतिके व्यक्तियोमे पायी जाती हैं।

आप सरस और प्रेममय रहे। पीडित और दुःखितके लिये सदा आपका हृदय खुला रहे।

यो	मा	पाकेन	मनसा
		चरन्तमभिचष्टे	अनृतेभिर्वचोभिः ।
आप	इव	काशिना	संगृभीता
		असन्नस्त्वासत	इन्द्र वक्ता ॥

(ऋग्वेद ७ । १०४ । ८)

अर्थात् मिथ्यावादी और असत्य भाषण करनेवाले झूठे व्यक्तिसे दूर रहना ही अच्छा है।

ऊँचे नैतिक हितोंको नष्ट करना चाहता है, उसे हम नष्ट कर दे । दुष्ट पुरुषोंसे सदैव आत्मरक्षा करनी चाहिये । बुरे लोगोंकी ठीक पहचान न कर पानेसे ही प्रायः लोगोका अहित होता है । इसलिये भले-बुरेका विवेक सदैव बनाये रहे ।'

व्यघ्रं दत्वतां वयं प्रथमं जम्भयामसि ।

आ दुष्टेनमथो अहिं यातुघानमथो वृकम् ॥

(अथर्ववेद ४ । ३ । ४)

अर्थात् 'दुष्ट स्वभाववाले हिंसक जन्तुओं-जैसी राक्षसी प्रवृत्तियोंवाले चोर, बदमाशोंको नष्ट करना धर्म है । समाजमें इस प्रकारके लम्पट, चोर, हिंसा, वैर, स्वार्थ-साधनके रोगों और दोषोंका सदैव-निवारण करते रहना चाहिये ।'

हमारे समाजमें मनुष्यके रूपमें अनेक हिंसक पशु और राक्षस चल-फिर रहे हैं । इनकी बाहरी सूरत तो मनुष्यों-जैसी है, पर अंदरसे ये घिनौनी पशुवृत्तिसे भरे हुए हैं । जैसे बिच्छूकी आदत डक मारनेकी है तथा साँपका काम डँस लेना है, ऐसे ही ये दुष्ट व्यक्ति समाजके लिये हानिकर हैं । हम इनसे सावधान रहे । बचते रहे ।

मनुष्योंके हाथों जो असुरता फैल रही है, वह हमसे दूर रहे । भौतिकताकी चकाचौधमें आध्यात्मिकता भुला न दी जाय । धर्मकी व्यावहारिक बनानेकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है । विज्ञान बढ़े, पर मानवीय सस्कार भी कम न हो ।



अफवाहोंसे बचिये

अफवाह व्यक्ति तथा समाज दोनोंके ही लिये हानिकारक है। इसका आधार मनुष्यकी कल्पना-शक्तिका गलत दिशामे प्रयोग है। भय एक प्रबल मानसिक आवेग है। यो तो भय सभी प्राणियोंको उद्विग्न करता है, किंतु अफवाहोंके द्वारा मनुष्य अपनी बुद्धिको भयके साथ संयुक्तकर गलत मार्गमे अपनी कल्पनाका प्रयोग कर बैठता है। जो लोग अफवाहे फैलाते हैं, वे आस-पासकी जनतामे गैर-जिम्मेदार बातें कर अशिक्षित और भोली जनतामे आतङ्क और घबराहटका कलुषित वातावरण उत्पन्न कर उसे पथभ्रष्ट करते हैं। जनता प्रायः बिना सोचे-समझे ही भय तथा खतरेकी बातोंमे दिलचस्पी लेने लगती है। मोले-भाले लोग अपनी कल्पना-शक्तिद्वारा भयको दुगुना चौगुना करके देखते रहते हैं। अफवाहे कभी-कभी तो बड़ा घातक प्रभाव करती है। भय बहुत जल्दी

तुरत निराकरण किया जाय और ऐसे विचारोको फैलाया जाय जो जनताका साहस बढ़ानेवाले हों और विजयमे उसकी आस्थाको दृढ करनेवाले हो । सही विचारोके प्रचारसे जनताका भय और आशङ्काएँ दूर होंगी और भीषण परिस्थितियोमे भी वह बिना घबराये शत्रुका सामना कर सकेगी ।

अंग्रेजोंकी विजयका कारण

एक सही प्रचारसे एक हारता हुआ देश अपनी पराजयको विजयमे कैसे बदल सकता है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ उद्धृत किया जाता है । पिछले महायुद्धमे जब इनकर्ककी लड़ाईमे अंग्रेजी सेना जर्मनोके सामने न ठहर सकी और जब उसे बुरी तरह भागकर इंगलिश चैनल पार करना पड़ा, तो सारे इंग्लिस्तानमे निराशाका वातावरण फैल गया । उस समयतक यूरोपके प्राय सभी जर्मनविरोधी राष्ट्र हथियार डाल चुके थे । कोई भी सेना जर्मनोके सामने ठहर नहीं पाती थी । अतएव इस संकटकालमे अंग्रेज बड़ी शोचनीय अवस्थामें पड गये थे । यदि अंग्रेजी जनताके विचार उस समय भय और निराशासे मुक्त न किये जाते तथा यदि सामान्य जनतामें आशावादी कल्पनाओंका संचार न किया जाता, तो अंग्रेज हार जाते ।

उस संकटकालमे जनताकी कल्पनाओंको विजयके आशावादी विचारोंकी ओर दौड़ाया गया । यह विचार फैलाया गया कि अंग्रेज लोग छोटी-छोटी लड़ाइयोमे भले ही हार जायें, परन्तु पूरे युद्धमे अवश्य विजयी होते हैं । इस शुभ विचारसे अंग्रेज, जातिके गुप्त

अभयके विचार बदलकर आशावादी बन गये। फलत अंग्रेजोने हिटलरके आगे घुटने नही टेके। वे डटकर उसका मुकाबला करते रहे। बाहरी परिस्थितियाँ भी उनकी विजयके विचारोके अनुकूल हो गयी। जो रूस उनका सबसे बड़ा विरोधी था, वही मित्र बनकर जर्मनीसे लडने लगा। इधर अमेरिका भी अपने धन-जनसे उनके साथ हो गया। इस प्रकार कल्पनाके सही प्रयोगसे पराजय विजयमे बदल गयी।

जिस बातका आपको पक्का और सही पना नही है, उसे कभी स्वीकार मत कीजिये, न दूसरेसे ही कहिये। ऐसी लाते डरपोक दिमागोकी उपज होती है और उनसे राष्ट्रका अहित होता है।

जो व्यक्ति बड़ी शानसे तिलका ताड़ बनाते हैं या बेसिर-पैरके मनमाने किस्से गढते है, उनसे बड़ा सावधान रहिये। इन्हे अफवाहोमे फँसाकर अपना नेतृत्व करने, उल्लू सीघा करने और भोली अशिक्षित जनताको पथभ्रष्ट करनेमे कुत्सित आनन्द आता है।

सम्भव है किसी अफवाहमे शत्रुता ही हाथ हो। इसलिये ऐसी खबरें उडाने या नाटकीय ढंगसे वर्णन करनेवालोपर ताखी नजर रखिये।

युद्धके दिनोमे जनहितकी बातें ही उपयोगी होती हैं। अतः सदा देशकी विजय और शत्रुकी हारकी ही शुभ कल्पना कीजिये। दूसरेकी अफवाहोमे विश्वास करनेके स्थानपर सच्चे तथ्य स्वयं ढूँढिये।



अंधविश्वास धर्मके लिये कलंक

धर्मके सम्बन्धमें हानिकारक गलत और तर्कहीन बहुत-सी धारणाएँ एक मानसिक बीमारी है। बुद्धिविकासके प्रारम्भिक कालमें जंगली लोग धर्मका तत्व नहीं समझते थे। उनकी समझ, चिन्तन, तर्क और मस्तिष्क सब अविकसित थे। तर्कहीन उपायोंसे वे धर्मको शौलते थे। जिस बातसे डरते थे, उसे दूर करनेके लिये जादू-टोने, कुरीतियों और भूतपत्नीतकी कल्पनाएँ किया करते थे। सिद्ध कहलानेवाले ढोंगी बाबा करामाती छल और अद्भुत चमत्कार दिखाया करते थे। ऐसे धूर्त लोगोंसे धर्मका क्षेत्र बड़ा बदनाम हुआ है और भोली भावुक जनता का बड़ा अहित हुआ है। समझदार पढ़े-लिखे लोग तो प्रायः अन्धविश्वासोंके अशुभ परिणामोंसे परिचित हैं और आये दिन समाचारपत्रोंमें ऐसी दुर्घटनाओंका हाल पढते रहते हैं, किन्तु पिछड़े हुए लोगोंको इन धूर्तोंसे सावधान रहनेकी बड़ी जरूरत है। घृणित अन्धविश्वास धर्मका कदापि अङ्ग नहीं है। पाखण्डके किलोको ध्वस्त करना होगा। कुछ ताजे समाचार देखिये, विवेकहीन अन्धविश्वासी लोग क्या-क्या मूर्खताएँ किया करते हैं—

झोपड़ीमें आग लगा दी

गुडगाँव क्षेत्रके पटौली ग्राममें एक महिलाने नौ झोपड़ियोंमें आग लगा दी। न जाने किस धूर्तने उसके मनमें यह अन्धविश्वास जमा दिया कि ऐसा करनेसे उसे संतानकी प्राप्ति हो जायगी। उसने बताया कि इस निस्संतान स्त्रीसे पटरीपर बैठनेवाले किसी

ज्ञान्त्रिकने कह दिया था कि यदि वह कम-से-कम छः झोपड़ियोंमें आग लगा देगी, तो उसके बच्चा हो जायगा। अज्ञान और अन्धकारके फँसी वह मूर्ख स्त्री इसीको सही तरीका मान बैठी और उसने झोपड़ियाँ जला डालीं। बादमें इस महिलाको पंचायतके सामने पेश किया गया। पंचायतने उसपर आग लगानेके अपराधमें एक सौ रूपया जुर्माना किया।

शंकरजीको जीभ भेंट की

रामगढ़ जिलेमें प्राप्त एक समाचारमें बताया गया कि एक व्यक्ति ने स्थानीय मन्दिरमें अपनी जीभकाटकर भगवान् शिवके मन्दिरमें चढ़ा दी। इस व्यक्तिके कोई संतान नहीं हो रही थी। अन्तमें उसने शिवजीको जीभ चढ़ाकर पुत्र पानेका आशीर्वाद चाहा। देवी-देवता मनुष्य और पशुओंकी बलि या ऐसे उपहार पाकर प्रसन्न होते हैं, यह एक भ्रान्त धारणा है।

काली माताकी प्रसन्नताके लिये

गाजियाबादके केला मुहल्लामें रहनेवाले एक हरीसिंह नामक व्यक्तिको अपने चार वर्षीय पुत्र वीरेन्द्रको हत्याके अपराधमें आजीवद कारावासका दण्ड दिया गया। इस्तगासके अनुसार अभियुक्तने अपने पुत्रकी गर्दन छुरेसे काटी और बेटेका रक्त काली माताको भेंट करनेके लिये वह देवीके मन्दिरमें गया। वहाँ अन्य भक्तोंने उसे पकड़कर पुलिसके हवाले कर दिया। देवी-देवताको प्रसन्न करनेके झूठे अन्धविश्वासोंके फन्दोंमें न जाने कितने भीले लोगोंको अपने धर्म, प्राण और शरारसे हाथ धोना पड़ता है।

देवीसे वरदान मिलनेकी तरकीब

अमृतसरमे कालीमाईको प्रसन्न करनेके लिये एक युवक शरणार्थी करतारचन्दने अपना बलिदान चढ़ानेका निश्चय किया। देवीके सामने युवकने उस्तरेसे अपनी गर्दन काटनेका प्रयत्न किया, परन्तु उसे सत्काल अस्पतालमे दाखिल करा दिया गया, जहाँ द्वापटरो के भारी अयत्नसे वह खतरेसे बाहर हो सका। पुलिसका कथन है कि युवकको संदेह था कि उसकी पत्नी वदचलन है। उसकी आदतें सुधारनेके लिये युवकने देवीसे प्रार्थना की और अपनी ही बलि चढ़ानी चाही। ऐसे मूर्खोंको अधर्मी ही कहा जायगा।

देवताको प्रसन्न करनेके लिये नरबलि

बाँदा जिलेकी पुलिसने तीन गोडोंको एक नरबलिके आरोपमें गिरफ्तार किया था। वे समझते थे कि वर्षा न होनेका कारण यह था कि इन्द्र अप्रसन्न थे और जबतक उन्हें नरबलि न दी जाय, वर्षाकी सम्भावना न थी। वे एक व्यक्तिको वहकाकर अपने जंगलोमें गोड देवताके सामने ले गये और उसकी विधिवत् पूजा की और फिर उसकी बलि दे दी। उसका रक्त कुछ देवतापर चढ़ाया गया और शेष आपस में बाँट लिया गया। बड़े ही दृढ़का विषय है कि मनुष्य अपनी मूर्खतासे कैसे जघन्य पाप कर बैठता है।

भगवान्के दर्शनोंकी लालसामें

आगरामे दाईस वर्षीय व्यक्ति श्रीनिवासने रेणुका गाँवके पास परशुराम-मन्दिर मे मूर्तिके आगे अपनी गर्दन काटकर चढ़ा दी। उसकी इच्छा थी जल्दी-से-जल्दी भगवान्के दर्शन स्वर्गमे पहुँचकर ही

जायेंगे। श्रीनिवासकी तुरंत मृत्यु हो गयी। एक प्रत्यक्षदर्शीके अनुसार उस युवकने पहले छाती तथा सिरमेसे खून निकालकर भूतिपर छीटे दिये थे। कैसी मूढता है।

अनोखी अग्नि-समाधि

एक ६० वर्षीय साधुके मनमें यह बात जम गयी कि अपने-आप अग्निसमाधि लेनेसे मुक्ति होती है। पिपरिया गाँवके निकट एक गाँवमे उसने अग्निसमाधि लेकर प्राण त्याग कर दिये। कहते हैं, पचमढी सडकपर एक निर्जन स्थानपर रहनेवाले साधुने दो दिन पूर्व अपने हाथोंसे चिता स्वयं अपनी झोपडीके सामने तैयार की और विभिन्न प्रकारकी धार्मिक क्रियाएँ करने एवं भजन-पूजनके पश्चात् उसने चितामे आग लगा दी। जब चिता धू-धू करके तेजीसे जलने लगी, तब वह लपलपानी लपटोमे कूद पड़ा। थोड़ी देरमे ही उसका शरीर राख हो गया।

मुक्तिके विषयमे ऐसा भ्रमज्जाल बड़ा अतृथकारी होता है !

भवानीके दर्शनोंकी लालसाके लिये

खुजसि लगभग आठ मील दूर जिहादपुर नामक गाँवके एक व्यक्तिने पिछले दिनो लगातार नौ दिनतक नवरात्रपर्वपर व्रत रक्खा और भवानीका जाप किया। उसे बहुत दिनोंसे यह आशा थी कि भवानी उसे प्रत्यक्ष दर्शन देंगी। बहुत देरतक प्रार्थनाएँ करनेके बाद भी जब भवानीने दर्शन न दिये तो आवेशमें आकर उसने अपनी गरदनमें छुरा भोक लिया और मर गया। उसके मनमे यह भ्रान्त धारणा भर गयी थी कि भवानी अपने भक्तको अपने प्रकट होकर बचा लेगी।

बालककी बलि

इन्दौरके जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीकालेने चिमली गांवकी २२ वर्षीया विवाहिताको बाल-हत्याके अपराधमें आजन्म कारावास की सजा दी है। कहते हैं कि उक्त महिलाने अपने एक वर्षीय बच्चेकी शुभ कामनाओंके लिये दूसरेके दसवर्षीय बालककी हत्या कर दी थी। उसके मनमें किसीने यह अन्धविश्वास जमा दिया था कि तेरा बच्चा जीवित तभी रहेगा, जब तू किसी बच्चेको मारकर उसके बालोंकी भस्मको पानीमें डालकर पीयेगी। इससे पहले उसके दो बच्चोंकी मृत्यु हो गयी थी।

ऐसे अन्धविश्वासोंसे पश्चात्तापके अतिरिक्त और क्या मिल सकता है? ये अन्धविश्वास हमारी अल्पज्ञता और मूर्खताके सदाहरण हैं। धर्मकी आड लेकर इस प्रकारके सैकड़ों दुष्परिणाम प्रतिदिन होते रहते हैं। ऐसी गलत, भ्रान्त एवं हानिकारक मान्यताओंको कदापि धर्मका नाम नहीं देना चाहिये। टोना-टटका, बाढ़ इत्यादि प्रायः जनताको ठगने और बहकावेमें डालनेके स्वार्थपूर्ण उपाय हैं। प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ही रूपोंमें ये हानिकारक और श्याज्य हैं। हमें सदा अपनी बुद्धि-तर्क और वास्तविकताकी कसौटी-पर हर तथ्यको कसना चाहिये और हर असत्य तथा हानिकारक दूषित प्रथा, भ्रान्त धारणा और बुरी मान्यताका साहसपूर्वक तिरस्कार और विरोध करना चाहिये।



आयुमें बड़े होकर भी क्या आप मनसे बच्चे तो नहीं हैं !

बच्चोंके आचरणको हम सहानुभूति और प्रेमकी दृष्टिसे देखते हैं । वे बातचीत, रहन-सहन, आचार-व्यवहार, दुःख और पीडाके आगमनपर तनिक-सी देरमे विचलित हो उठते हैं । तनिक-सी कठिनाई उन्हे विचलित कर देती है । काल्पनिक दुःखों-से वे एकाएक परेशान हो उठते हैं । भूख लगनेपर व्याकुल हो रो पडते हैं । कोई खिलौना टूट जाय, कोई बुरा स्वप्न दीख जाय, कही अँधेरेमें रहना पडे, तो वे बुरी तरह घबडा जाते हैं । माँ-बाप, भाई-बहिनसे अलग अकेला रहना पडे, तो मुर्झा जाते हैं । रोते-चीखते हैं । तनिक-तनिक-सी बातोंपर झगडते हैं । छोटा-सा खिलौना, थौड़ी-सी मिठाई, दो-चार पैसे पानेपर शानसे मुसकराते हैं । रग-बिरंगे वस्त्रोमे उन्हे बेहद दिलचस्पी रहती है ।

क्षण-क्षण उनकी विचारशक्ति, उनके सोचनेके तरीके, उनके शौक और रुचियाँ बदलती रहती है । आज कुछ कहते हैं, तो कलको नयी बातके लिये जिद करते हैं ।

वे इतने भावुक होते हैं कि तनिक-सी बातपर हर्ष, उद्वेग, क्रोध, उत्तेजना, ईर्ष्या, द्वेष, लोभसे प्रभावित हो जाते हैं।

क्या बच्चोमे पाये जानेवाले ये दुर्गुण आपमें भी विद्यमान हैं? आपका शरीर प्रौढ हो गया है, मुंहपर दाढ़ी-मूँछे उग आयी हैं, पर क्या आप मनसे अभीतक बच्चे ही बने हुए हैं?

क्या आप तनिक-सा विरोध या कठिनाई पड़नेसे निराश हो उठते हैं? क्या बच्चोकी तरह आपके हर्ष-विषाद तरंगोकी भाँति उठते और गिरते रहते हैं? क्या आप कल्पनाके दूषित प्रयोगद्वारा तिलको ताड़ बनाकर देखते हैं? अति भावुकता एक भयानक दुर्गुण है। बच्चे भावनाकी तरंगोपर तैरते हैं। आपको स्थिर बुद्धिसे कार्य लेना चाहिये। आपको सकल्पोमे दृढ़ रहना चाहिये।

अपने मानसिक विकासकी अवस्थाके अनुसार कार्य करना चाहिये।

अब आप विकसित हो गये हैं। आपके शरीरके विकासके साथ मनका भी उसी अनुपातमे विकास हो जाना चाहिये। भावनाके स्थानपर अपनी विचारशक्ति और विवेकसे काम लिया कीजिये। उद्वेगो और अपनी उत्तेजनाओपर पूर्ण नियन्त्रण रखिये। छोटे-छोटे कष्टोसे उद्विग्न होना आपके बचपनकी निशानी है।

बालक विस्फोटककी तरह तनिक-सी बातमे उत्तेजित हो उठता है, आप शान्त और पूर्ण सयत रहा करें। अपने आवेशोको दशमे रखें। मनको सदा शान्त और सतुलित अवस्थामें रखा करें। ठंडे दिल और दृढ़ हाथोसे कार्य किया करें।

प्रायुमें बड़े होकर भी क्या आप मनसे बच्चे तो नहीं हैं ? १०६

बालक अरुचिकर कठोर कामोसे दूर भागता है । आप कठिन कार्योंकी पहले करे । कठोर और कठिन बातोंका हल निकालना विकसित मस्तिष्कवाले व्यक्तिका कार्य है । आप निर्दय, निर्मम और क्रूर जगत्का शान्ति और निर्भयतासे सामना करना सीखे ।

विकसित व्यक्तिकी दो शक्तियाँ महत्वपूर्ण होती हैं—विवेक और बौद्धिक क्षमता । इन गुणोसे आपको जीवनभर काम लेना है । ये गुण आपको परिस्थितियोपर काबू पाना सिखायेगे । इन गुणोकी अधिकाधिक वृद्धि करते चलिये ।

आप यशस्वी हैं । बन और तेजके पुत्र हैं । इन्द्रके समान सदा विजयी और यशस्वी रहनेवाले हैं । अकेले दस सहस्रके तुल्य हैं । आपकी आत्मा दस सहस्रकी वर्चस्विता रखती है ।

अपनेको बालक मत मानिये । विकसित मानवकी पारिवारिक, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियाँ सँभालनेके लिये तैयार रहिये ।

बच्चोकी तरह बनाव-श्रृङ्गार, टीप-टाप, नाच-रग, जिह्वाके क्षणिक स्वाद अदिमे ही मन लगिये, वरं सादा जीवन और उच्च विचार रखिये ।

आप पूर्ण उत्तरदायित्व सँभालने योग्य आत्मविश्वासी नागरिक है ।



उन्नतिकी गुप्त साधना

प्रत्येक मनुष्यमें स्वभावके दो अङ्ग होते हैं—मस्तिष्कका एक हिस्सा आरामतलव, मस्त, कामचोर और अवनतिकी ओर ढकेलनेवाला होता है; किंतु एक दूसरा भाग वह है, जो उसे उन्नति, जागृति, स्थायी लाभ और श्रेष्ठताकी ओर प्रेरित करता है। इसे हम मानवकी अन्तरात्मा भी कह सकते हैं। ये दोनो भाग बारी-बारीसे मनुष्यपर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। इनके फलोंका निर्णय बुद्धि अथवा विवेक करता है, जिसमें विवेक जाग्रत्

रहता है, वह कठिनाइयों और विरोधी परिस्थितियों में रहकर कीचड़ के कमलकी भाँति उन्नतिके समृद्धिशाली गौरवपूर्ण मार्गकी ओर चल पड़ता है। जिसमें क्रुबुद्धि या कुमति जोर मारती है, वह अच्छी परिस्थितिमें रहकर भी पतनकी ओर गिरता है! पतनका मार्ग ढालू होनेसे जहाँ एक बार फिसला कि फिसला! गिरता ही जाता है। जो उन्नतिकी ओर चलता है, समाजकी दृष्टिमें वह आदर्श मान लिया जाता है। उसको लोग याद रखते हैं, उसके माता-पिता, परिवार, प्रारम्भिक स्थितिकी किञ्चित् भी स्मरण नहीं रखते।

कोई भी व्यक्ति अपने परिवारकी पुरानी समृद्धि, यश, गौरव, अभीरीसे अधिक दिन यशस्वी, या गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। प्रसिद्धिके तत्त्व मनुष्यमें हैं। उसके अपने निजी चरित्रमें, आदतोंमें, स्वभाव और कार्यपद्धतिमें निहित है। मनुष्यका हर दिशामें अपना-अपना निजी महत्त्व है। कार्य करनेका अपना पृथक् मौलिक ढंग है। यही उसकी विशेषता है। अपनी इसी मौलिकताके बलपर लोगोंने संसारको चकित किया है।

ऐसे असंख्य प्रसिद्ध और बड़े आदमी हुए हैं, जो पहले निकम्मी हालतमें थे, किंतु उनमें अचानक अपनी विशेषता, ईश्वरीय देन और छिपे हुए गुणोंका ज्ञान हुआ, उनमें एक तरहकी अभिनव जागृति उत्पन्न हुई और उन्होंने आश्चर्यजनक कार्य कर दिखाये।

यह नियम आप तब समझेंगे, जब आप भी अपनी विशेषताएँ और गुण मालूम करेंगे। यह पहचानते ही आपका

जीवनचक्र पलट जायगा। इसलिये आप निराश न हों, आलसी बनने, बस, यह देखे कि आपके विचार किधर-जा रहे हैं? मन क्या कहता है? आदतें कैसी हैं? आप नशेवाजी या कुसंगतिमें क्यों नहीं पड़ गये हैं? आप उन्नतिकी ओर जा रहे हैं या प्रवर्तनतिकी ओर?

स्मरण रखिये, आपमें ईश्वरकी बड़ी शक्ति भरी हुई है। मन, आत्मा और शरीर सर्वत्र अद्भुत गुप्त शक्तियोंके खजाने हैं। आप कभी अविकसित दशामें पड़े हुए हैं और दिनोको धक्का दे रहे हैं। जीवनको व्यर्थ थोथा और निष्प्रयोजन समझ रहे हैं। पर आपका जन्म बड़े, बहुत महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बननेके लिये हुआ है। राज्य करनेके लिये आये हैं। कुछ बड़ा उद्देश्य आपमें निहित है।

मनुष्य जो कुछ दृढ संकल्प कर ले वही कर सकता है। प्रत्येक मजबूत संकल्प बड़ी भारी शक्ति रखता है। दुःख यह है कि वह दृढतापूर्वक चाहता ही नहीं। न चाहे, तो कुछ भी नहीं कर पाता। अतः इससे स्पष्ट है कि पहले आपमें अपने लक्ष्यको प्राप्त करनेकी दृढ, उग्र, दुर्दमनीय-इच्छा होनी चाहिये।

प्रायः लोग वही करते हैं, जो उनके पुरखे या बुजुर्ग किया करते थे। वे नयी बात ही नहीं सोचते। उसी वातावरणमें बने रहते हैं। उन्नतिकी किसी नयी दिशाकी ओर उनका दिमाग ही नहीं दौड़ता। बुद्धि नवान दिशाओमें नहीं चलती। उनकी कल्पना उर्वरा नहीं होती। इस प्रकार वे लकीरके फकीर बने रहते हैं। उस पुश्तैनी कार्यकी उन्हें जन्मसे ही टेव पड़ जाती है। वे लोग

समझते हैं कि अच्छे भाग्यका अवसर उसी पेशे, व्यवसाय, कार्य, नौकरीमें आयेगा। परन्तु अनेक बार लोगोंने नयी ओर चलकर आश्चर्यजनक उन्नतियाँ की हैं। बात नयी तरह सोचने-विचारने और कल्पना करनेकी है। दुनियाको देखो, समाजको गतिविधिका विश्लेषण करो, लोगोंकी मनोवृत्तियोंको नापो-तोलो, स्वभाव और वृत्तियोंका मन्थन करो, नयी दिशाकी ओर आँखे लगाओ। निश्चय जानो, अभी बहुत-सा नया काम करने और विशेषतः आपके हाथों होनेको शेष पड़ा है। नये व्यापार, नये आविष्कार, नयी उन्नति सब आपके भाग्यमें हैं। नयी ओर सोचकर उन्नतिकी दिशा मालूम करनेवालेके लिये, साहसी, उत्साही और आत्मविश्वासीके लिये, दृढनिश्चयीके लिये जीवनका प्रत्येक क्षण उन्नतिका एक सुअवसर हैं !

कई लोग समझते हैं कि जीवनमें उन्नतिका सुअवसर केवल एक बार ही आता है। मेरे एक मित्र एक इन्टरव्यूमें असफल रहे, एक दूसरे सज्जनका नम्बर ग्यारहवाँ था, जब कि ऊँची नौकरीमें केवल दस ही व्यक्ति लिये जाने थे। ये दोनो व्यक्ति आज टूटे-फूटे मन लिये (फ्रस्ट्रेड) पड़े हैं। कहते हैं—'क्या बतायें, हमारा तो दिल ही टूट गया। जीवनकी सारी आशाएँ ही नष्ट हो गयी। अब भविष्यमें क्या होना-जाना है? हमारा जीवन तो बस समाप्त हो गया। हमारे लिये तो दुनिया बेकार है।' ऐसे निराश आदमियोंको हम बताना चाहते हैं कि जीवनमें उतार-चढ़ाव पग-पगपर आते हैं। कड़ुवे घूंट तो जीवनमें पीने ही पड़ते हैं।

जीवनके रास्तेपर पाँवमे काँटे आवश्यक ही चुभते हैं, पर उन्नति और प्रगतिके अवसर एक नही, अनेक आते रहते हैं। कई बार आते हैं। भिन्न-भिन्न रूपो और व्यक्तियोंके माध्यमसे आते हैं, परन्तु उनका उपयोग या उपेक्षा हमारी बुद्धि और अधिकारकी बात है। प्रायः जैसा उनका उपयोग होना चाहिये था, वैसा नही होता। हमे प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष अपने जीवन और समाजके उत्तार-चढ़ावका सूक्ष्म निरीक्षण करते रहना चाहिये कि हम व्यापारिक, मानसिक बौद्धिक, अर्थिक, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक क्षेत्रोमे आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं अथवा जहाँ-कहाँ बने हुए हैं।

मुख्य बात याद रखिये—कठिनाइयोसे कभी मत डरिये। उन्नतिके रास्तेमें पद-पदपर कष्ट है। आपको स्वयं अपना पथ बनाना है। मार्गके ककड़-पत्थर और काँटे स्वयं दूर करने हैं। कठिनाइयोसे आपको उत्तरोत्तर और निरन्तर आगे बढ़नेका साहस और स्फूर्ति मिलनी चाहिये। आपका आत्मबल दृढ़ होना चाहिये। कठिनाई ही जीवनका सबसे बड़ा शिक्षक है। जैसे, पहलवान प्रतिदिन प्रतिपक्षीसे कुश्ती लड़कर, बार-बार पटखनी खा, घूलघूसरित हो, पसीनेमें तरबतर होकर निरन्तर थोड़ी-थोड़ी शारीरिक शक्ति बढ़ाता है और सबल बनाता है, उसी प्रकार प्रत्येक कठिनाई हमें किसी-न-किसी प्रकार दृढ़ और बली बनाती है, बशर्ते कि हम उससे हार न मानें। गिर जायें, तो घूल झाड़कर फिर खड़े हो जायें। जो हर बार कठिनासे एक कुश्ती और

लड़नेके लिये तैयार हो जाता है, उसमें उन्नतिके कई अच्छे गुण हैं, जैसे उत्साह, उद्योग और जीतनेकी नयी आशा ! उत्साही और आत्मविश्वासी कठिनाइयोको अन्ततः पराजित करके ही दम लेता है।

एक विचारके बहुमूल्य शब्द कौचमें मँढ़वाकर रखने योग्य हैं—'समारम' सकट अतम्भाव्य नहीं है, बल्कि आवश्यक है। अवश्य ही आनेवाला है। अनुत्तरदायी और डरपोक व्यक्तियों से जन्मी हुई आपत्तियाँ इस दुनियामें भरी पड़ी हैं। कमजोरको दबानेके लिये उनमेंसे कोई भी किसी समय आ सकती है। अपनी ओरसे आपत्तिको जन्म न देना और परप्रेरित सकटसे टकर लेना मनुष्यनाका एक उदात्त लक्षण है। ससारमें बड़े संकटोंसे टक्कर लेनेके लिये, मनुष्यको हर समय तैयार रहना चाहिये। क्या अच्छे और क्या बुरे, सकट हर मनुष्य पर आ सकते हैं; किंतु जिसके पास चरित्रका बल है, विचारोंका तेज है और आत्मिक आलोक है, वह सकटकालमें उसी प्रकारहँसते हुए बाहर निकल आयेगा, जैसे ग्रहणसे मुक्त होकर पूर्णिमाका चन्द्रमा।

जो चरित्रका दुर्बल है, दीन-हीन-डरपोक है, कायर और कलुषित है, उसे आत्महत्याका कहना चाहिये। वह कठिनाई औरसकटका एक हल्का झोका लगते ही टूटे हुए तारेकी भाँति टूटकर गिर पड़ेगा।

कठिनाइयोंसे लाभ भी होता है

कठिनाइयोंसे हमें मजबूत बनाती हैं

जैसे पहलवान दंगलमे पटखनी खा-खाकर मजबूत होता है और शारीरिक शक्ति प्राप्त करता है, वैसे ही जीवन रुपी दंगलमे मनुष्य कठिनाइयोसे जूझ-जूझकर शक्तिशाली बनता है। अपना आत्मबल बढ़ाता है। यह विकसित आत्मबल समस्त विजयों का मूल है।

आपको कठिनाइयोंका स्वागत करना चाहिये। अपने आत्मबलसे उनपर विजय प्राप्त करनी चाहिये। प्रत्येक कठिनाईपर विजय आपके धैर्य और साहस को बढ़ानेवाली है।

कैसी भी कठिनाई आये, उसका सामना करनेके लिये आपको प्रस्तुत रहना चाहिये। ज्यो-ज्यो आप कठिनाइयाँ झेलेंगे, आपकी उन्नतिका मार्ग सरल होता जायेगा। कठिनाई हमें शक्तिशाली बनाती है।

आप उन्नतिके अभिलाषी हैं और उसका मूल्य है 'कठिनाई'— यदि यह मूल्य आप दे सकते हैं तो उन्नति और सफलता पाने मे देर नहीं है; क्योंकि वस्तु उसीको मिलती है जो उसका पूरा मूल्य देता है। जो मनुष्य सही तरीकेका मूल्यपर रिश्मके रूपमें दे सकता है उसकी कार्य-सिद्धिकी आशाका नहीं है।

कठिनाइयाँ हमारा आत्मबल बढ़ाती हैं

आप चाहे किसो दशामें हों, सदैव आत्मबल लगाकर आगे बढ़नेका प्रयत्न करते रहिये । कठिनाइयों और विपत्तियोंसे घबरा न जाइये । जब आप इनपर विजय प्राप्त करेंगे तो आपको अपना बढ़ता हुआ पौरुष और साहस देखकर बड़ा आनन्द मिलेगा यह मत समझिये कि अमुक कार्यसे या अमुक कठिनाईसे अथवा विपत्तिसे हमारा कुछ लाभ नहीं होता । कठिनाईको बोझ या विपत्ति समझना आपका भ्रम है; मिथ्या कायरता और डरपोकपन है जो आपको अवनतिके गड्ढेमें ढकेल रहा है । कष्टों और विपत्तियों युद्ध कर उनके विरुद्ध डटे रहनेसे आपकी आत्मिक और नैतिक उन्नति होगी । आप जीवनकी साधारण अवस्थासे ऊपर उठ जायेंगे और संसार आपका सम्मान करेगा ।

कठिनाइयों से न डरनेवाले वीर

आपको राजकुमार गौतमबुद्धपर आनेवाली कठिनाइयोंका ज्ञान है । उन्होने पर्वतकी गुफाओमें बैठकर भारी तप किया । उनके सामने सैकड़ों विपत्तियाँ आयी । शरीर सूख गया, हिंसक जन्तुओंने आक्रमण किया, सदी-गरमी-आँधी इत्यादिके सैकड़ों कष्ट सहे, पर वे अपने सात्त्विक सकल्पकर डटे रहे ।

जैसे पर्वतसे निकला हुआ पानीका झरना सामनेकी शिलाओं और पत्थरोंको तोड़ता-फोड़ता आखिर अपना मार्ग बना ही लेता है, उसी प्रकार दृढ़ इच्छाशक्तिवाला साहसी पुरुष सब प्रकारकी विघ्न-बाधाओंको हटाकर अन्तमें सफलताकी सीमातक पहुँच ही जाता है ।

महाराणा प्रतापसिंहका जीवन कठिनाइयोसे निरन्तर युद्ध करनेवाले साहसी उदाहरण है। स्वतन्त्रताके लिये युद्ध, बिना किसी सुख-सुविधाखे विरोधियोंसे संघर्ष लेना, अपने उच्च लक्ष्यकी ओर निरन्तर आगे ही बढ़ते जाना प्रतापके जीववसे स्पष्ट होता है। आप भी आधुनिक प्रताप ही हैं।

छोटी-सी उम्रमे ही मुगल सम्राट् उनके भयानक शत्रु हो गये थे। चारो ओर उनके विरोधी भरे थे। रुपयेके लालची उनके प्राणोके प्यासे हो रहे थे। स्वयं उनके आत्मीयतक मुसलमान शासकोके हाथोमे थे। सुट्टीभर स्वदेश-भक्तोके अतिरिक्त कोई उनका साथी न था। केवल आत्मबल और साहस उनके पास था। उसी का सहारा लेकर उन्होने स्वतन्त्रताका विगुल वजाया था। प्रतापके जीवन ही अभिलाषा थी—चित्तौडका उद्धार। तनिक कल्पना कीजिये, बिना किसी बड़े सहारेके अपने बाहुबलपर भरोसा करके वे मुगल सैन्यरूपी समुद्रमे कूदे थे। भूखे-प्यासे वे जंगलो-जगलों खाक छानते फिरे। उनके बच्चे और धर्मपत्नी भोजन और निवास तकके लिये बुरी तरह तरसते, विक्षुब्ध, उद्विग्न होते और कठिनाइयाँ झेलते रहे। अन्तत उनकी सेना पराजित हुई थी, पर उन्होने कभी अपने साहसका संबल न छोडा था। वे कभी हतोत्साह न हुए थे। वे कठिनाईको फूंकसे उड़ जानेवाला रूईका पहाड कहा करते थे। आपमें भी वही साहस, वही धैर्य और उत्तरोत्तर कर्तव्यके प्रति जागरूकता होनी चाहिये।

वीरवर पुरु

सिकन्दर संसारको विजय करनेका स्वप्न देखता था। उसने साहसपूर्वक सैकड़ों कठिनाइयाँ पार की थी। वह एक पराये देशसे भारतको लूटने और अपने अधीन करनेके लिये आ रहा था। उसकी सेना बड़ी सुदक्ष थी। उसके पास नयी-से-नयी उत्तम रथ-सामग्री थी। उसने पंजाबके कई प्रदेशोंको तो जीत लिया था, पर एक ऐसे भारतीय योद्धासे उसका सामना हुआ, जो भारतका सिरमौर है। आज भी वह वीरतामे पूज्य है। वह झेलमके पास एक छोटी-सी रियासतका राजा था, उसका नाम पुरु था। अपनी छोटी-सी शक्तिसे उसने सिकन्दरका सामना किया था और उसकी नाकमे दम कर दिया था। बड़ा घोर युद्ध हुआ था। इसमे पुरुकी भी बड़ी भारी हानि हुई थी, पर उसने देशकी स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिये अपने प्राणोंकी आहुति देने तककी परवा नहीं की। दुर्भाग्यसे वीर पुरु गिरफ्तार हो गया, पर वह साहसकी जीवित प्रतिमा था।

सिकन्दरने कैदी पुरुसे पूछा—‘बन्दी, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाय ?’

वीर पुरु कठिनाइयोंसे घबरातेवाला व्यक्ति नहीं था। वह शत्रुके मध्य भी वीर केसरी-सा निर्भय खड़ा था। उसने वीरतामे उत्तर दिया, वैसा ही व्यवहार करो, जैसा एक राजा दूसरे राजाके साथ करता है। भारतीय वीर कठिनाईसे नहीं डरता।’

इस वीरतासे भरे उत्तरको सुनकर सब चकरा गये। सिकन्दर भी अचरजमे पड़ गया।

भारतीय वीर पुरुष कभी कठिनाइयोंसे नहीं घबराये, आपमे उन्ही वीरोंका रक्त है, वे ही वीरोचित भावनाएँ हैं, वे ही शौर्यकी प्रशस्त परम्पराएँ हैं।

जीवनके सब खोर्चोंपर आगे बढ़ें

आप चाहे किसी दशामें रहें, किसी-न-किसी क्षेत्रमे आगे बढ़नेकी गुंजाइश अवश्य है। मनुष्य-जीवनके चार पहलू हैं— पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक। आप सावधानीसे इन चारों पहलुओपर विचार कर देखें कि आप कहाँ हैं? किस स्थितिमे और कितने अंशमें पिछड़े हुए हैं। फिर वहीसे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिये। आपके पारिवारिक जीवन, पत्नी, बच्चों, सगे-सम्बन्धियोंकी उन्नति कैसे हो? किन-किन व्यक्तियोंके द्वारा हो? आपको मित्र, परिचित तथा समाजमे ऊँचा सम्माननीय स्थान कैसे प्राप्त हो? मनोरंजन, कला, संगीत, भ्रमण आदि सांस्कृतिक दृष्टिसे कैसे आगे बढ़ें? नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जगत्मे कैसे उन्नति हो? ये सभी अङ्ग समान रूपसे उन्नतिके लिये खुले पड़े हैं। आप इनकी कठिनाइयोंको हल करें। उनमे समान रूपसे रस लें। सभीमे निरन्तर आगे बढ़नेका यत्न करें। आप पायेंगे कि आपका जीवन कितना भव्य और विशाल हो जायगा।

आपको हर कठिनाईपर विजय एक आनन्द देगी। विपत्तिसे लाम उठानेकी कला सीखिये। आप स्वयं ही अपनी स्थितिपर नहीं सोचते और इसलिये निश्चेष्ट पड़े रहते हैं। यदि अपनी कमजोरी देखकर आगे बढ़नेका सच्चा प्रयत्न करें, तो निश्चय ही उन्नति हो सकती है।

कोशिश करनेवाले चोटीपर जा पहुँचते हैं

याद रखिये, तेजीसे और सच्चे परिश्रमसे चलनेवाले साहसी उन्नतिके अभिलाषी पुरुष चोटीपर पहुँच जाते हैं, किंतु आलसी और डरपोक वही-के-वही पड़े रह जाते हैं। कोशिश न करनेवाले, अपनी दृष्टि चारों ओर न दौड़ानेवाले मूर्ख सदा सड़ते ही रहते हैं। मजबूती तो जिम्मेदारीके कामोको करनेसेही आती है। जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी सँभालता है, वह उतना ही ऊँचा उठता है और यश-प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। महान् व्यक्ति नयी कठोर जिम्मेदारियोंसे कभी भी नहीं डरे हैं। महान् होनेके लिये ऊँचे विचार, नयी योजनाएँ और सतत उद्योगकी आवश्यकता है। ये वे तत्त्व हैं, जो प्रत्येक बड़े आदमीने काममे लिये हैं।

वे सदा अपनी योग्यतापर विश्वास करते रहे। अपने दायित्वको समझते रहे। वे अपने कामको पूरी लगनसे करत थे। उनका यह आत्मविश्वास ही उनकी सिद्धिकी जड़ है। जिन्हे आरम्भमे अपने कार्यमे अविश्वास और शका हो जाती है, जो व्यर्थकी घिघ्न-बाधाओ और कठिनाइयोकी शकाएँ और कुकल्पनाएँ गुप्त मनमे बसाये रहते हैं, उनके बड़े काम कभी शुरूही नहीं हो पाते। जो लोग बड़े-बड़े पदोपर पहुँचते हैं, उन्हें पहले बड़ी विपत्तियो, विरोधो और कष्टोका सामना करना पड़ता है। अनेक आविष्कारक जीवनभर अपने तत्त्वो और खोजमे लगे हुए गूढ परिश्रमसे नये-नये प्रयोग करते रहे। काम पूरा न हो सका और वे संसारसे चल बसे। कृच्छकी, उनके साथियोने हँसी उड़ायी, उन्हें

कष्ट पहुँचाया, उनके प्रयोगोमे अनेक बाधाएँ डाली, यहाँतक कि उनके जीवनकी मामूली आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो सकी; पर वे अपने काममें सदा-सर्वदा दत्त-चित्त पूर्ण शक्तिसे लगे रहे, डटे रहे और दृढतापूर्वक थोड़ी-थोड़ी सफलताएँ पानेमे लगे रहे। अन्तमे यश-प्रतिष्ठा प्राप्त की। उनकी बदौलत दूसरे हजारो मनुष्य मानामाल हो गये।

परिश्रमकी पूँजी उन्नति कराती है

प्रत्येक मनुष्य कुछ-न-कुछ करना चाहता है, किन्तु उसे करनेके लिये यथोचित मात्रामे परिश्रम और कठिनाइयाँ सहन नहीं करना चाहता। वह कार्यमे पूरा मन लगाकर उसे पूर्ण करनेका प्रयत्न नहीं करता। यो कहिये कि वह बबूल बोकुर आम काटना चाहता है। अवश्य ही ऐसे मिथ्या स्वप्नदर्शी लोग असफल होते हैं और भाग्यको अथवा ईश्वरको दोष देते हैं !

यदि मनुष्य दृढ निश्चय करके तन-मनसे अपने ध्येयकी पूर्तिमे लग जाय तो वह उसे अवश्य पूरा कर सकता है। जिसने अपना काम करनेकी मनमे ठान ली है, वह विघ्न-बाधाओकी कृच्छ्र परवा नहीं करता। वह समझता ही नहीं कि विघ्न-बाधाएँ क्या चीज हैं। उन्नतिके मार्गमे कठिनाइयाँ उसी अस्थिर और कायरको होती हैं जिसका मन टिका नहीं होता। दृढ निश्चयके सामने कठिनाइयाँ पलायन कर जाती हैं। वे उन्नतिके अभिलाषीको मार्ग-प्रदर्शनका काम देती हैं।

तूफानोंका सामना भी करना होगा

कभी यह मत सोचो कि आपकी जीवन-नीका सदा सुरक्षित और स्थिर चलती रहेगी। खराब मार्ग भी आयेंगे। काँटे, ककड़, पत्थर भी चुभेंगे। आँधी-तूफान भी उठेंगे। कष्टोकी टक्करें भी लगेंगी। वास्तवमे ये सब आपके धैर्यको परीक्षाके लिये आती हैं। सावधान ! भीड़का घक्का आपको घकेल न दे।

उन्नतिके मार्गमें भय और शकाएँ ऐसे मानसिक विकार है, जो मनुष्यको एकदम पीछे रोक लेते हैं। भय चुपके-से आकर कहता है, 'ऐसा काम मत करो, अन्यथा खराब हो जायगा। सारा पुरुषार्थ निष्फल जायगा।'

इस शंकाके कारण हम ठीक-ठीक अपने कर्त्तव्यको करनेके बदले उसे खो बैठते हैं। मनकी दुविधा और सदेह-वृत्तिसे हम अपने चारो ओर ऐसी दीवारें खड़ी कर लेते हैं, जिनसे बाहर निकलनेका हमें द्वार ही नहीं मिलता। इस अधम दुरवस्थामे हम कभी उन्नति नहीं कर सकते।

कोई भी उन्नति और बड़ा काम करनेके लिये हमें साहस, दृढनिश्चय और निर्भयताकी बड़ी आवश्यकता है। अपने सोये हुए पुरुषार्थको जगानेके लिये प्राचीन कालमे गुरु शिष्यके कानमे कहा करते थे—'तत्त्वमसि' तू ब्रह्मस्वरूप है। इसी मन्त्रको आप गुप्त मनमे जमाइये। पूर्ण आत्म-विश्वाससे कहिये—

'मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ। मैं ईश्वरका शक्तिशाली पुत्र हूँ। अपना उच्च स्थान लेकर रहूँगा।'



स्वभावका छुईमुईपन जीवनके लिये

अत्यन्त हानिकारक है

अग्रेजीके महाकवि कीट्सकी मृत्यु केवल २७ वर्षकी उभडती जवानीमे हो गयी । उन्हें कोई खास बीमारो नही थी । मृत्युकी परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार थी ।

कीट्स अच्छे कुशल कवि थे । वे ललित कविताएँ लिखा करते थे । सभी मुक्तकण्ठसे उनकी कविताएँ पसंद करते थे । काव्य-जगत्मे उनकी सम्माननीय स्थिति थी ।

एक बार सयोगसे उनके विरुद्ध एक ध्वसात्मक लेख एक आलोचनात्मक पत्रिकामे छपा । यह व्यक्तिगत द्वेष और ईर्ष्याविश लिखा गया था । इसमें झूठे ही उनपर कीचड़ उछाली गयी थी । पुरानी शत्रुता निकालने और बदनाम करनेके लिये व्यर्थ ही निराधार आरोप लगाये गये थे । कीट्सने इस निन्दाको पढ़ा और उनके भावुक मनपर इसका घातक प्रभाव पड़ा । उन्हें भयानक मानसिक आघात लगा । वे उसी मानसिक पीड़ासे बीमार पड़ गये और क्षयग्रस्त हो जवानीमे ही मृत्युको प्राप्त हुए ।

कल्पना कीजिये, जिस चढ़ते यौवनमे लोग विवाह करके जीवन-क्षेत्रमे प्रविष्ट होते हैं, उसीमे स्वभावके छुईमुईपनके कारण बेचारा भावुक कवि मर गया ! इतना छोटा-सा कारण, बेबुनियाद निन्दा और कविकी निर्बलता यह कि वह उसीको सत्य मानकर मन-ही-मन परेशान और उद्विग्न ! और फिर उसी आघातसे

स्वभावका छुईमुईपन जीवनके लिये अत्यन्त हानिकारक है १२५

मृत्यु ! स्पष्ट है कविमें निन्दाको सहन करनेकी शक्ति न थी ! वे ससारकी आसुरी शक्तिसे अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे । वे यह नहीं जानते थे कि मनका छुईमुईपन मृत्युका एक कारण बन सकता है । भावुकताकी अधिकता भी मौतके मुहमें घकेल सकती है !

राजा दशरथ अति-वियोग-दुःखसे स्वर्गवासी हुए

जब मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम वनवास जा रहे थे, पूरी अयोध्या शोकसंतप्त थी । नागरिक सौ-सौ आंसू रो रहे थे । कई तो दुःखके कारण मूर्च्छित होकर गिर पड़े थे । राजमहलमें माताएँ करुण-विलाप कर रही थी, परिवारके सब सदस्य शोकसंतप्त होकर अश्रुपात कर रहे थे ।

स्त्री पुरुषकी अपेक्षा अधिक कोमलहृदया होती है । साधारण-सी बातका उसपर दूषित प्रभाव पडता है । यह सहज स्वाभाविक था कि श्रीरामकी माता कौसल्याजीपर पुत्रवियोगका अधिक प्रभाव होता । उनका एकमात्र पुत्र उन्हें बिलखता छोड़ पूरी जवानीमें वन-वनकी खाक छाननेके लिये अपनी पत्नीके सहित उनसे बिछुड़ रहा था । अति कारुणिक परिस्थिति थी । सम्पूर्ण अयोध्यापर दुःखके काले बादल बरस रहे थे ।

वास्तवमें दुःख मातृ कौसल्या और हिता दशरथ दोनोको ही था । शायद कौसल्याजीको दशरथजीकी अपेक्षा अधिक ही था, पर कौसल्याजीमें सहिष्णुता अधिक थी, जब कि दशरथजीका स्वभाव छुईमुई-जैसा था । वे अति कोमल थे और इस अधिक दुःख

माननेकी आदतने, इस झूठी भावुकताने उनके प्राण ले लिये । वे मानसिक आघात सहन न कर सके थे ।

छुईमुईका पौवा छूनेसे ही मुग्धाने लगता है । ऐसे स्वभावके मनुष्य भी ससारके तनिक-से विरोध और निन्दासे, तनिक-सी विपत्ति और कठिनाईसे बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाते हैं । उनका मानसिक संतुलन भंग हो जाता है । वे एकाएक उद्विग्न हो उठते हैं । यह भावुकताका दुर्गुण है । इस अतिभावुकताके भयकर दुष्परिणाम निकलते हैं । अतः स्वभावका छुईमुईपन सदा दूरकर सहिष्णुताको अपनाना चाहिये ।

यह ससार बुरे तत्वोमे भी भरा हुआ है । व्यर्थ ही बुरा कहनेवाले, जिनकी आदत निन्दा करनेकी है, सर्प बिच्छू-जैसे मनुष्य भी बहुत-से हैं । चोर, डाकू, कुटिल, पापी और राक्षस अच्छे कार्योमे विघ्न उपस्थित किया ही करते हैं । राक्षस ऋषियोकी तपश्चर्यामे विघ्न उपस्थित किया करते थे । अन्तमे इस अत्याचारके विरुद्ध मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामको घनुष उठाना पडा था ।

अकारण निन्दासे डरिये मत

ससारमे हर देशमे, हर युगमे लोक-हितैषी, परोपकारी, प्रगतिशील, उपकारी महान् आत्माओकी निन्दा हुई है; आज भी हो रही है और भविष्यमे भी होती रहेगी । पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष और निन्दा करना राक्षसवृत्तिके मनुष्योका स्वभाव है । बिना निन्दाके कोई महापुरुष और नेता नहीं बचा है ।

प्रायः यह निन्दा निराधार होती है और पीठ पीछे बदला

वभावका छुईमुईपन जीवनके लिये अत्यन्त हानिकारक है १२७

नेकालनेकी भावनासे की जाती है। कुछ दूषितवृत्तिवाले लोग आपकी असाधारण योग्यता और गुणोको देखकर जलते हैं और इसलिये आपकी उन्नतिमें रोक लगाना चाहते हैं। जब स्वयं उनका वश नहीं चलता, तो चुगलीकर दूसरोको भडकाते हैं। ऐसी थोड़ी निराधार निन्दाको सह सकना और बिना किसी विक्षोभकी प्रतिक्रिया के उसको पचा लेना, उस निन्दारूपी विषको शिवके विषकी तरह पचा लेना मनुष्यका महान् गुण है। इस सहिष्णुताको विकसित करना चाहिये।

महान् ब्यक्तियोने निन्दकोकी कभी किंचित् भी परवा नहीं की है। उलटे उससे लाभ ही उठाया है। निन्दासे एक बड़ा लाभ यह होता है कि यह सहज ही पता लग जाता है कि लोग क्या चाहते हैं? अधिकतर निन्दा उसी बातको लेकर की जाती है, जिसको लोग चाहते हैं। लोकप्रियताका विस्तार निन्दासे होता है। निन्दाके बहाने लोग लोकसेवकोको समझनेका प्रयत्न किया करते हैं। अप्रत्यक्ष रूपसे निन्दा मनुष्यकी प्रसिद्धिकी मानसिक प्रतिक्रियामात्र है।

निन्दक पीठ पीछे बुराई इसीसे करता है कि वह झूठी अफवाहे फैलाता है। उसमें सार कुछ भी नहीं होता। वह बातको आपके सामने कहनेसे डरता है।

किसी भी उन्नतिके आकाक्षीको निराधार और थोड़े दिन ठहरनेवाली लोकनिन्दासे भयभीत होकर अपने उच्च ध्येयका त्याग नहीं करना चाहिये। जो निन्दा सह सकता है, वह ससारका बड़े-से-बड़ा कष्ट सहन करनेमे सक्षम होता है।

निन्दा और संकटके समय मानसिक संतुलन न खोयें

प्रिंस बिस्मार्कके ये शब्द बड़े अनुभवके हैं—

किसी भी निन्दा या विरोधके अवसरपर मनुष्यको चाहिये कि वह उस मानसिक आघातसे बचे, जो उसके मनपर चट्टानकी तरह पड़कर उसे साहसहीन कर सकता है। मस्तिष्कमे शीतलता बनी रहे। वह पूर्ण संतुलित रहे। यदि मस्तिष्क निराश या भयभीत हो गया, तो समझ लेना चाहिये कि उसके सारे अस्त्र-शस्त्र छिन गये, आपत्तियोसे टक्कर लेनेके सारे साधन ही समाप्त हो गये।

‘मस्तिष्कको मानसिक आघातसे बचानेका सबसे सरल उपाय है—तटस्थता। दूसरे शब्दोमे अपनेपर आयी आपत्तिसे अपनेको अलगकर उसका इस प्रकार अध्ययन कीजिये, जैसे उस आपत्तिसे आपका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, मानो वह किसी दूसरेपर आयी हुई है और आप उसके दर्शकमात्र है।

जेम्स ऐलनका उदाहरण

महात्मा जेम्स ऐलनने एक सस्मरणमें लिखा है—

‘मेरे परिचय-क्षेत्रमे दो ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनकी जीवनभर-की कमाई एक साथ ही नष्ट हो गयी। एक दिन प्रातःकाल उन्होने समाचारपत्रोमें पढ़ा कि जिस बैंकमे उनका रुपया जमा था वह दिवालिया हो गया। यह समाचार पढते ही एक व्यक्ति इतना दुखी और निराश हुआ कि उसका मस्तिष्क विल्कुल विरुद्ध हो गया। वह विल्कुल पागल हो गया। यह था उसके स्वभावका अति भावुक होना।

किंतु दूसरे व्यक्तिने, जो आपत्तिसे नहीं डरता था, गम्भीर मुस्कानसे कहा—

स्वभावका छुईमुईपन जीवनके लिये अत्यन्त हानिकारक है १२६

‘ठीक है, परमात्मा जो कुछ करता है भला ही करता है । मेरी अबतककी कमाईका पैसा तो मेरे हाथसे निकल गया । अब शोक करनेसे वह वापस मिल नहीं सकता । हाँ, परिश्रम करनेसे पुन. मिल सकता है । मेरा पैसा ही तो गया, हाथ-पैर और हीसला तो नहीं गया । मैं फिर कमा लूँगा ।’

ऐसा सोचकर वह व्यक्ति पुनः नवीन उत्साह और दृढ आत्म-विश्वाससे काममे जुट गया और कुछ ही दिनोंमे पुन. धनवान् हो गया, किंतु भावुक आदमी रोता और छाती पीटता हुआ शोक ही करता रहा । उसने उद्योगका सहारा न लेकर निराशाका पल्ला पकडा, जिससे दिन-दिन दयनीय होता हुआ विपत्तिका शिकार बना । मनको कष्टसहिष्णु बनाना चाहिये ।

मनको सहनशील बनाइये

हमारे यहाँ कहा गया है—

उत वा यः सहस्य प्रविद्वान् मर्तोर्मतं मर्चयति द्वयेन ।

अतःपाहि सनवमान स्तुवन्तुमग्ने माकिर्नोदुरिताय घायीः ॥

(ऋग्वेद १ । १४७ । ५)

अर्थात् (इस ससारमे निन्दा-द्वेष करनेवाले बहुतसे व्यक्ति हैं) जो लोग सदैव दूसरोंकी निन्दा और परच्छिद्रान्वेषणमें लगे रहते हैं, समझदार आदमीको उनसे सदा-सर्वदा बचना चाहिये; क्योंकि उनके साथ रहनेसे अपना स्वभाव भी निन्दक बनता है ।

दीर्घतमा सामतेयो जुजुर्वान् दशमे युगे ।

अपामर्थं यतीनां ब्रह्म भवति सारथिः ॥

(ऋग्वेद १ । १५८ । ६)

स्मरण रखिये, अज्ञानी व्यक्ति लोभातुर होकर रोग-शोकसे (अपनी भावुकताके कारण) अति दुःख पाते हैं, किंतु, धर्मनिष्ठ, दृढ़संकल्प और पौरुषवाले पुरुष अपना ज्ञान और विज्ञान बढ़ाकर स्वयं बन्धनमुक्त होते हैं और अपने उदाहरणसे दूसरोको भी ससार-सागरसे पार ले जाते हैं ।

मा नो ह्यग्नेऽव सृजो अघायाऽविष्यवे रिषवेदुच्छुनाय ।

मा दत्वते दशते सादते नो मा रीषतेमहसावन् परा दाः ॥

(ऋग्वेद १ । १८९ । ५)

याद रखिये, इस ससारमें अच्छे और बुरे व्यक्ति सभी प्रकारके प्राणी हैं । यहाँ एक ओर मज्जल मृदु स्वभाववाले सज्जन सत्पुरुष भी हैं और बाघ, सर्प, विच्छू आदि हिंसक त्रिपैले जीव-जन्तु भी है । वे समाजमें यत्र-तत्र लुके-छिपे फैले हुए हैं ।

इसलिये समझदार पुरुषको चाहिये कि वह दुष्टोसे तथा उनकी निराधार निन्दासे बचकर साधुपुरुषोका साथ करे । अर्थात् शुभ कर्मोको ही ग्रहण करे और दुष्कर्मोसे सदा दूर रहे ।

और यदि वास्तवमें हमारे चरित्रमें दुर्गुण और बुरी आदतें हैं, तो हम उन्हें दूर करनेका डटकर प्रयत्न करे, जिससे किसीको कभी निन्दा करनेका मौका ही न मिले—

क्रत्वः समह दीनता प्रतीपं जगमा शुचे ।

मृच्छा सुक्षत्र मृच्छया ॥

(ऋग्वेद ७ । ८६ । ३)

अर्थात् ईश्वरको साक्षी मानकर अपनी त्रुटियाँ, ऐव, दुर्गुण तथा

स्वभावका छुईमुईपन जीवनके लिये अत्यन्त हानिकारक है १३१

दुष्कर्म स्वीकार करते रहे ताकि इनके निवारणमे ढील न पडे ।
परमात्मासे हमारो यही प्रार्थना हो—


‘प्रभो ! हमारे दुर्गुण दूर कीजिये ।’

स्वभावका छुईमुईपन त्याग दीजिये । यदि कोई अकारण ही विरोध करता है, तो उसकी निन्दापर तनिक भी ध्यान मत दीजिये । लोग सदा अच्छाईका विरोध करने रहते हैं, ऊँचा उठनेके धुनी लगातार ऊँचे उठने और उन्नति करते ही जाते हैं । वे समाजके ईर्ष्यालु आलोचकोकी तनिक भी परवा नही करते । महापुरुषोको बडे विकट विरोधों और कठोर सघर्षोंमे होकर अपनी उन्नतिका मार्ग बनाना पडा है । लोग उन्हें समझ नही पाये और केवल विरोधके निये विरोध करते रहे । अन्तत वे पूर्ण विजयी होकर रहे । दूसरोकी कटु आलोचना, निन्दा, कड़वे वचन और विरोधमे भी सतुलन बनाये रखनेकी अ दत बनाइये । सहिष्णुता मनुष्यका एक दैवी गुण है । इसे विकमित कीजिये । कोई बुरा कहे, तो आप कदापि बुरा मत मानिये । स्वभावको सहनशील बनाइये । याद रखिये—

मा शपन्तं प्रति वोचे देवयन्तम् ।

(ऋग्वेद १ । ४१ । ८)

सत्कार्योंमें विघ्न उत्पन्न करनेवाले दुष्टोंका बहिष्कार कीजिये ।
उन्हे असुरोकी भाँति घृणित समझिये जो सत्कार्योंमें रीड़े अटकाते हैं ।



मनसे मिथ्या भय निकाल दीजिये

आप व्यर्थ ही किसी प्रकारके गुप्त भयसे परेशान हैं। मृत्युका भय, लोकलाजका डर, किसीके द्वारा आक्रमण होनेका भय, अपने शत्रुओद्वारा परेशान होनेका भय, रात्रिमें भूत-प्रेत-पलीतका भय, व्यापारमें हानिका भय, नौकरी छूटनेका भय, स्वास्थ्य नष्ट होनेका भय, वच्चोंका आत्रारागदं निकल जाने या संचित पूंजी नष्ट कर देनेका भय—ये अथवा इसी प्रकारके असह्य भय आपको दिन-रात परेशान किया करते हैं।

सच मानिये, इनमेसे अधिकांश भय ऐसे हैं जो बिल्कुल काल्पनिक हैं और कभी भी आपको हानि पहुँचानेवाले नहीं हैं। आप व्यर्थ ही भयभीत होकर इन्हे अपने गुप्त मनमें जमाये हुए हैं।

नब्बे प्रतिशत डरपोक लोग काल्पनिक भयसे विक्षुब्ध रहते हैं, जब कि वे उनके वास्तविक जीवनमें कभी नहीं आते। डरते-डरते भय उनकी आदत बन जाता है। वे हर स्थितिमें अपनेको भयभीत—डरा-डरा-सा पाते हैं। अधिक दिनोत्तक मनमें जमे रहनेसे भयकी आदत कायरता या डरपोकपनमें बदल जाती है। डरपोक आदमीका पौरुष नष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति साहसका कोई भी काम कभी नहीं कर पाता। उसकी कायरताकी आदत उसे जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें असफल कर देती है।

कायर व्यक्ति सदा यही सोचते रहते हैं—‘हम कुछ नहीं हैं। हम क्षुद्र हैं। हमसे जीवनमें कोई बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य होनेवाला नहीं है। हम दीन-हीन दरिद्र हैं। दूसरे लोग हमसे विद्या, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, सूझ-बूझमें श्रेष्ठतर हैं; बड़े हैं, सर्वगुण-सम्पन्न हैं।’ ये सब हीनत्वकी भावनाएँ मनुष्यके सही विकासमें बाधाएँ हैं। भयकी भावना मनमें जड़ पकड़ जानेसे मनुष्यके अन्तःकरणकी समस्त उत्तम योजनाएँ क्षणभरमें धूलमें मिल जाती हैं।

भय हमारी अज्ञानताका सूचक है

भयकी आदत मानव-जीवनकी शत्रु है। कायर और डरपोक

लोगोंका जीवन व्यर्थ ही है। वे दिनमें हजार बार मरते हैं। व्यर्थके भयसे ग्रसित डरकी कुकल्पनाओंसे हजारों जीवन बर्बाद हो रहे हैं तथा समयसे पूर्व ही कालके ग्रास बन रहे हैं।

जिस प्रकार तेज आँधी-वर्षा कोमल पुष्पो, पौधों या कमनीय कलिकाओंको झकझोरकर नष्ट-भ्रष्ट कर डालती है, उसी प्रकार भयरूपी दानवकी कुकल्पनाएँ अवोध और अविकसित हृदयोपर अपनी काली-काली मृत्यु-जैसी परछाईँ डालकर सदैवके लिये उन्हें अविकसित और डरपोक छोड़ जाती हैं।

भय हमारी अज्ञानता और कमसमझीका सूचक है। ज्यो-ज्यो मानव-मनमे डरपोकपन बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसकी उर्वरा सृजनात्मक शक्तियाँ पंगु होती जाती हैं। उसका वास्तविक सिंह-जैसा निर्भय सशक्त पौरुषपूर्ण नक्तित्व अन्धकारमें विलीन होता जाता है। ये डरपोक लोग अपना भय, अन्धविश्वास, दुःख-दर्द, कायरता, संकोच और लज्जा, अपने प्रति अविश्वासके विचार अपनेतक ही सीमित नहीं रखते, प्रत्युत अपने आस-पासके पड़ोसियों, मित्रों, अपने बाल-वच्चो तकमे फैलाते हैं। हमारा नारी-समाज युग-युगके भय और डरपोक-पनसे जकड़ गया है। भारतीय नारियाँ, विशेषतः ग्रामोंमें रहनेवाली अशिक्षित, पिछड़ी हुई स्त्रियाँ, भयसे भरी रहती हैं और स्रम भर कंदखानेमें जीवन बिताती हैं। अपनी कायरताके कारण उन्हें लाचार गुलामोका जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कायरता और भय मनुष्यमात्रके मनोबलको क्षीण करनेवाले मनोविकार हैं।

अब आप अपना दृष्टिकोण पौरुषपूर्ण बनायें

अबतक आपका जीवन भय और कायरतामे व्यतीत हुआ है । आप जीवनके अप्रीतिकर, अस्वास्थ्यकर तथा चिन्तामय पहलूपर विचार करते रहे हैं । इस प्रकार डरपोक विचारोने आपको नष्ट कर दिया है ।

विचार एक महाशक्तिशाली आधार है । नयी शक्ति इसी तीजसे उत्पन्न होती है । आप जैसा विचार दृढताके साथ गुप्त मनमे जमायेंगे, वैसी ही शक्तियाँ और गुण आपमे प्रकट होंगे । दृढ विचार एक महाशक्तिशाली चुम्बक है । वह जैसा स्वयं है, वैसे ही वायुमण्डलको अपने इर्द-गिर्द आकर्षित करेगा । यदि हम सृष्टनात्मक और पोजिटिव विचारधाराको मनमे दृढ करें तो दृष्टिकोण पौरुषपूर्ण बन सकता है और आत्मविश्वास उत्पन्न हो सकता है ।

तनिक सोचकर देखिये, यदि आप उम्र भर दूसरोसे डरते रहेगे, खुद अपने आपको नही सँभालेंगे, अपने सोये हुए पौरुषको जाग्रत् नही करेंगे तो आपका ठौर-ठिकाना कहाँ रहेगा ? आपको महत्त्वपूर्ण स्थान कहाँ मिलेगा ? आप भविष्यमे क्या कर सकेंगे ?

आपको चाहिये कि आप व्यर्थके काल्पनिक डरों, मनमे बैठी कभी न घटनेवाली चिन्ताओ तथा कुविचारोंकी हृदयसे सदा-सर्वदाके लिये निकाल दें, अपने इर्द-गिर्द निर्भयता तथा निश्चिन्तताके वातावरणकी सृष्टि करें । स्वयं निर्भय बनें तथा

अपने आस-पासके व्यक्तियोंसे कहे कि वे भी आपकी तरह भयभीत न हो । पुराने दुखदायी प्रसंगों, अपनी की हुई गलतियों और अन्धकारपूर्ण पहलुओंको सदाके लिये भूल जायँ । मनको भविष्यकी चिन्ताओंमें न फँसने दें ।

भयके विचार आपको उद्विग्न न करें । आप इस पचड़में न पड़ें कि दूसरे आपके विषयमें क्या सोचते-विचारते हैं ? क्या-क्या कहते हैं ? तथा उन्होंने आपको कैसा समझा है ?

आप यह सोचते ही क्यों हैं कि आपके विषयमें उनकी राय ऊँची नहीं है ? वे आपकी आलोचनाएँ पक्षमें करते हैं अथवा विपक्षमें ?

आप तो यही सोचकर चले कि वे सब आपके पक्षमें ही सोचते और बातें करते हैं । आपका हित ही चाहते हैं । आपको ऊँचा समझते हैं । आपके गुणोंकी ही चर्चा करते रहते हैं ।

आप यह मानिये कि वे सब लोग आपके विषयमें अहितकर और कटु बातें सोच ही नहीं सकते ; क्योंकि आप वैसे हैं ही नहीं । आप तो ऊँचा उठने और बड़ा बननेके लिये जन्मे हैं । प्रत्येक दिन उन्नति ही करते चल रहे हैं । हितैषी भावनाओंको ही मन-मन्दिरमें सजा रहे हैं और उन्नतिशील विचारोंके चिन्तनमें ही संलग्न रहते हैं ।

यह याद रखिये, जो व्यक्ति दूसरेके विचारों, सुझावों या संकेतोपर निर्भर रहता है वह उस बच्चेके समान है जो बड़ा

होनेपर भी दूसरोंकी गोदमे ही रहना चाहता है । स्वार्थी संसार उसे उस बदरकी तरह नाच नचाता है, उसकी नकेल दूसरोके हाथोमे रहतो है । दुनियामे झूठी आलोचनाएँ और बेबुनियाद खिल्ली उड़ानेवाले सदासे रहे हैं, पर पुरुषार्थी वीरोने (जिनमे आप भी हैं) इनकी कभी परवा नही की है ।

आप वीर बनें । पुरुषार्थी होकर जिये । अपने वास्तविक आत्म-स्वरूपको पहिचाने । अपने उज्ज्वल भविष्यको निहारें ।

आप तुच्छ नही, महान् हैं । अपने गुप्त-बल और पौरुषके कारण आपको किसी अभाव और दुर्बलताका अनुभव नही करना है । किसीके सामने हाथ फैलाकर कुछ माँगना नही है । आप अनन्त शक्तिशाली हैं । आपके बलका पारावार नही है । जिन ईश्वरीय साधनोको लेकर आप पृथ्वीतलपर अवतीर्ण हुए हैं, वे अचूक ब्रह्मास्त्र हैं । उन दैवी साधनोकी शक्ति अनेक इन्द्र-वज्रोसे अधिक है सफलता और आनन्दपर आपका जन्मजात अधिकार है । उठिये ! अपनेको, अपने दिव्य हथियारोको भलीभाँति पहिचानिये । आत्मसुधार और आत्मविकासके कार्यमे लग जाइये और बुद्धिपूर्वक कर्त्तव्य-मार्गमे जुट जाइये । फिर देखे कैसे वह उद्देश्य सिद्ध नही होता, जिसकी पूर्ति आप सच्चे मनसे चाहते हैं । आप वह कल्पवृक्ष हैं जो मनुष्यकी सब इच्छाओकी पूर्ति करता है । आप वह पारस है, जो छूते ही लोहेको सोना बना डालता है । सचमुच आप सफलताकी साक्षात् प्रतिमा हैं ।



शौर्य, साहस और पराक्रम आज भी कम नहीं

शेरके चपत लगाये

लिस्वन्नसे पुर्तगाली समाचार एजेन्सी लुसिटेनियाने बताया है कि एक पुरुषार्थी मनुष्यने अंगोलामे अपने दांत शेरकी नाकमे इस साहससे गड़ाये कि उसे घायल मनुष्यको छोड़कर भागना पड़ा।

घटना इस प्रकार बतायी जाती है कि लुसियो और जोकिम चंका नामक दो भाई जंगलमे शिकार खेलने गये; जहाँ एक शेर लुसियोपर झपटा और उसे जमीनपर गिराकर अपने पंजोसे उसे दबोच लिया। वह बड़ी जोखिमकी स्थितिमे फँस गया। मौत एक-एक पलमे अपना काला पर्दा उसपर डाल रही थी। शेर उसे मारना ही चाहता था। उसका भाई जोकिम शेरको गोलीसे

न मार सका; क्योंकि बंदूक नौकरके पास थी और डरके मारे वह भाग गया था। भाईको शेरके पंजेसे बचानेके लिये जोकिम शेरसे उलझ पड़ा और उसने अपनी पूरी शक्तिसे शेरको पटकनेका प्रयास किया; किंतु जब कोई बस न चला, तो उसने हिंसक जानवरोकी तरह शेरकी नाकपर इस जोरसे दाँत गड़ा दिये कि उसकी साँस ही रुक गयी। नाकका कुछ हिस्सा कट गया। शेर हड़बड़ा गया। जैसे ही शेरकी पकड़ जरा ढीली पड़ी, वैसे ही लुसियो उछलकर खड़ा हो गया और उसने शेरको गोली मार दी। दोनो भाई नाम्पुला अस्पतालमे जखमी हालतमे एक मास रहे, किंतु अन्तमे बच गये। शौर्य और साहसके ऐसे नर-नाहर ही मानवताके सच्चे आभूषण हैं।

कुल्हाड़ीसे शेरको मार डाला

ग्राम एकूलगढमे एक साहसी हरिजन युवक मेहताबने अकेले ही एक शेरको कुल्हाड़ीसे मार डाला। घटना यो हुई कि उसके घर रातमे शेर बकरी उठाकर ले गया था। वह इसपर क्रोधित हो उठा और उसकी वीर भुजाएँ उससे प्रतिशोध लेनेपर फडक उठी। सुबह वह शेरकी खोजमे निकल पड़ा। घूमता-फिरता वह घटौतक शेरको ढूँढता रहा। अन्तमे एक नदीके किनारे एक खोहमे उसने शेरको ढूँढ़ निकाला। शेर और मेहताबमे द्वन्द्व-युद्ध होने लगा। शेरने मेहताबके हाथोको दो बार मुंहमे दबा लिया; किंतु मेहताबने कुल्हाड़ीके वारोसे अन्तमे शेरको मार ही डाला।

साहसी मनुष्यके पास पहुँचे हुए स्वल्प साधन भी अपनी पूरी

उपयोगिता दिखाते हैं । एक बहादुर व्यक्ति लाठी लेकर इतनी विजय प्राप्त कर लेता है, जितनी कि डरपोक व्यक्ति तोप-तलवार लेकर भी नहीं पा सकता । यह वीरभोग्या वसुन्धरा है । यहाँ एक-से-एक बलवान् आदमी भरे पड़े हैं और आप भी उनमेंसे एक हैं ।

गला दबाकर चीता मार डाला

विलासपुर जिलेके खोगसरा गाँवके एक युवक भागीरथने साठ फुट लंबे चीतेको गला दबाकर मार डाला । एक जगह साँप और चीतेमे लड़ाई हो रही थी, जिसे देखनेके लिये गाँवके बहुतसे लोग एकत्र हो गये । चीतेको न जाने क्या सूझी कि उसने एकाएक साँपसे लड़ना बंद कर दिया और वह आस-पासके लोगोपर ही टूट पड़ा । सभी ग्रामीण डरकर भाग खड़े हुए, भागीरथने डटकर मुकाबला किया । संघर्षमे भागीरथने चीतेका गला बड़ी मजबूतीसे पकड़ लिया और पूरी ताकतसे इतना दबाया कि उसका प्राणान्त हो गया । यह है मनुष्यके पुरुषार्थकी प्रेरक गाथा ! वास्तवमे संसार शक्तिके सामने झुकता चला आया है । संसारमे वीर ही पूजित होते आये हैं । विभूतियाँ उसीके इर्दगिर्द इकट्ठी होती हैं, जिसकी भुजाओंमे सशक्तता और समर्थता भरी रहती है ।

ऊपर जिनके उदाहरण दिये गये हैं, वे भी हम-आप-जैसे हाड़-मासके पुरुष थे । उनके पास भी हम-जैसा ही शरीर था; हम-जैसे ही हाथ-पाँव थे । अन्तर केवल यह था कि उनके मनमे साहस और पुरुषार्थकी वीरभावनाएँ थी, आन्तरिक बल था,

उन्हे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। इसीलिये वे साहसपूर्ण कदम उठा सके।

ग्रामीणोंने शेर मारा

बरेलीकी तहसील फरीदपुरका एक समाचार इस प्रकार छपा है—

तहसील फरीदपुरके ग्राम चढ़ियाके निवासियोंने एक साढ़े आठ फुट लंबे शेरको लाठी तथा कांटोंसे मार गिराया। बताया जाता है कि दुलासिंह नामक आदमी पासके जंगलमे ऊँट चरा रहा था कि शेर ने उसपर हमला कर दिया। शेर सुनकर पास ही खेतमें काम करनेवाले किसान लाठी और काँटा लेकर घटना-स्थलपर पहुँच गये और दुलासिंहको किसी प्रकार शेरके पंजेसे छुड़ाया। गाँवका एक जाइसेन्सी घरसे बढक उठा लाया और उसने घायल शेरको गोली मार दी, जिसके लगते ही शेर ढेर हो गया।

भारतमाताकी वीर-भूमिमे ऐसे वीरोका जन्म सदासे ही होता आया है। हम एक वीर जाति हैं। साहसके आधारपर जातियाँ आगे बढती हैं। साहसके आधारपर ही देश उन्नतिशील बनते हैं। साहसी आगे बढते हैं, तो परिस्थितियाँ भी साथ देती हैं और कितने ही सहयोगी भी मिल जाते हैं, किंतु जिन्हे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जिन्होंने अपनी शक्तिको समझा ही नहीं है, वे डरते-काँपते यही सोचते रहते हैं कि उनसे कुछ होना-जाना नहीं है। आत्महीनताका अनुभव करनेवालोंको ही असफलता मिलती है

आज देशमे भाँति-भाँतिके रूपोंमें शौर्य और साहसके समाचार प्रकाशित होते रहते हैं; जो देशमे उगते-पनपते पराक्रमके चिह्न हैं । कुछ समाचार देखिये—

बाँदाके वीर ग्रामीणोंको पुरस्कार

बताया जाता है कि बाँदा जनपदके तीन ग्रामीण देवसरन, चुन्नीलाल तथा नर्बदा, जिन्होंने ग्राम खोहीमे डकैतोंके एक सहस्र गिरोहको पत्थर मार-मारकर भगाया था तथा उनके डकैती डालनेके प्रयासको विफल कर दिया था । उनकी वीरता तथा साहसको देखकर श्री ए० एम० शाह पुलिस कप्तान बाँदाने उन्हें पुरस्कृत किया । ग्रामीणोंने बड़े साहससे डाकुओंका सामना किया था और एक डकैतको काफी जखमी कर दिया था, जिसे उसके साथी उठा ले गये थे ।

मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि मनुष्यकी बलिष्ठता बाहरी इतनी नहीं, जितनी भीतरी होती है । बल बाहर दिखायी तो पड़ता है, पर वह वस्तुतः होता अंदर ही है । जो बाहरसे मोटा-तगड़ा, भारी-भरकम दिखायी देता है, किन्तु मनसे, साहस और पुरुषार्थसे कमजोर है, वह किसी आँधी-तूफानसे खोखले पेड़की तरह एक दिन उखड़ कर गिर जायगा और परिस्थितियाँ अनुकूल न हुईं, तो कभी भी फिर ऊपर न उठ सकेगा ।

किन्तु जिस आदमीमे मनकी भावनात्मक बलिष्ठता होगी, हिम्मतकी पूंजी जमा रहेगी, उसे विपरीत परिस्थितियोंसे लड़नेमें किसी परेशानीका अनुभव नहीं होगा ।

मनका साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ सूर्यकी तेजस्विता-जैसा त्तिशाली है, जो घने बादलोंको चीरकर भी अपने अस्तित्वका परिचय देता है। आत्मविश्वासके बराबरका साहस संसारकी और किसी सहायता या सुविधासे नहीं मिल सकता है।

हमे दैनिक जीवनमें पग-पगपर साहसकी पूंजीकी आवश्यकता है। आज भी ऐसे अनेक साहसी पुरुष हैं, जो शौर्य और पराक्रमका परिचय दे रहे हैं।

वृद्धाकी अदम्य साहससे छलांग

वरहवा (संथाल परगना) से प्राप्त एक समाचारके अनुसार गत पिछले दिनोमे ३३१ अप सियालदह गया-यात्रा ट्रेनकी तीसरी श्रेणीमे यात्रा कर रहे एक वृद्ध व्यक्तिके अदम्य साहससे एक चोर पकड़ा गया।

बताया गया है कि ट्रेन ज्यो ही स्थानीय स्टेशनसे निकट पहुँची कि चोरोके एक दलने उस ५५ वर्षीय वृद्धका बक्स उठाकर बाहर फेंक दिया तथा खुद भी ट्रेनसे कूद गये। यात्री भी तत्क्षण चोरोके पीछे कूद पडा। इसपर चोरोने उसपर प्रहार करना शुरू कर दिया, किंतु उसकी चिल्लाहट सुनकर पास ही गश्त लगा रहे पुलिसके सिपाही दौड़ पड़े और चोरोको गिरफ्तार कर लिया।

इस वृद्धमे नैतिक साहस था। भले और उचित पक्षके साथ सदा परमात्माका बल रहता है।

मनुष्यमात्रको इस लोकमें अपना कर्तव्य करते हुए ही सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करनी चाहिये । हे मानव ! तेरे लिये यही एक मार्ग है; इससे दूसरा कोई उत्तम मार्ग नहीं है । कर्तव्य कर्म करते रहनेसे मनुष्यमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है । अतः इस जगत्में परम पुरुषार्थ करते हुए ही तू दीर्घ जीवन प्राप्त करनेकी इच्छा कर । पुरुषार्थमय जीवन व्यतीत करना ही मनुष्यका परम धर्म है ।

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं, न स्वप्नाय स्पृहयन्ति ।

यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ (ऋक्० ८ । २ । १८)

यज्ञ करनेवालेको समस्त देव चाहते हैं, आलसी और निस्वप्न मनुष्यको कोई नहीं चाहता । आलस्य न करनेवाले पुरुषार्थी पुरुष ही अशुद्धि करनेवालेका दमन करते हैं; क्योंकि पुरुषार्थी मनुष्यकी देवगण सहायता करते हैं; आलसी और प्रमादी मनुष्यका कोई सहायक नहीं होता । अतः प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह पुरुषार्थ करके अपने जीवनको अभ्युदयके मार्गपर आगे बढ़ाये ।

पुरुषार्थकी आज्ञा

पिबतं च तृष्णुतं च गच्छन्तं प्रजां च घत्तं द्रविणं च घत्तम् ।

(ऋक्० ८ । ३५ । १०)

हे मानव ! अपने पुरुषार्थसे तू अमृतपान कर और तृप्त हो तथा अभ्युदयके मार्गपर आगे बढ़ता चल । इस प्रकार तू प्रजाको धारण करते हुए उसके पोषणके लिये घन भी एकत्र करता चल ।

जयतं च प्र स्तुतं च प्र चाशतं प्रजां च घत्तं द्रविणं च घत्तम् ॥
(ऋक्० ८ । ३५ । ११)

हे मानव ! जीवनमें तू सदा विजय प्राप्त कर तथा उत्तम कार्य करनेवाले प्रशंसनीय समाजकी रक्षा कर और इस प्रकार तू अपनी प्रजा और धनको बढ़ाता चल ।

हतं च शत्रून् यततं च मित्रिणः ; प्रजां च भत्तं द्रविणं च घत्तम् ॥
(ऋक्० ८ । ३५ । १२)

हे मानव ! तू शत्रुओंका नाश कर तथा मित्रोंको सहयोग प्रदान कर । इस प्रकार तू अपनी प्रजा और धनको बढ़ाता चल ।

ब्रह्म जिन्वतमुत जिन्वतं धियो हतं रक्षांसि ।
सेधतममीवाः ॥ (ऋक्० ८ । ३५ । १६)

हे मानव ! संसारमें कर्म करते हुए उत्तम ज्ञान प्राप्त कर और अपनी सुबुद्धिसे दुष्कर्मोंका दलन करते हुए श्रेष्ठ कर्म कर तथा सदा नीरोग एवं स्वस्थ रह ।

क्षत्रं जिन्वतमुत जिन्वत नृन् हतं रक्षांसि ।
सेधतममीवाः ॥ (ऋक्० ८ । ३५ । १७)

हे मानव ! पुरुषार्थी बनकर क्षात्रतेजको प्राप्त कर तथा श्रेष्ठजनोंको सदा समीप रखकर दुष्टजनोंका हनन कर । इस प्रकार सदा स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रह ।

धेनूजिन्वतमुत जिन्वतं विशो हतं रक्षांसि ।
सेधतममीवाः । (ऋक्० ८ । ३५ । १८)

हे मानव ! तू गौओंका संवर्धन करते हुए अपने पशु-धनको

ग्रामीणोंने दो डाकुओंको मार गिराया

प्रयाग जिलेके छुरपुर पुनिस थानेके अम्बा गाँवमें एक दिन सशस्त्र डाकुओंके दल और गाँवके कुछ लोगोंके बीच अद्व-रात्रिको हुई दो घटेको मुठभेड़मे दो डाकू मारे गये । तीन या चार गाँववालोंके गोलीसे घायल होनेकी सूचना मिली है । रिपोर्टमें बताया गया है कि करीब एक दर्जन डाकुओंने जो बंदूको और घातक हथियारोंसे लैस थे, गाँवके एक मकानपर घावा बोल दिया । जोरोकी आवाज और चिल्लाहट सुनकर गाँववाले लाठी और भाले लेकर इकट्ठे हो गये । डाकुओंने ग्रामीणोंपर गोली चलायी, किंतु ग्रामीण इससे डरे नहीं, बल्कि लाठी और भालोंसे दो डाकुओंको मारनेमे सफल हुए । शेष डाकू भाग गये ।

साहसके सहारे ही लोग अपने जान-माल, धर्म और पश्वारकी रक्षा करते हैं । इस साहससे रक्षा हर जगह हो सकती है । साहसी आदमी हर घड़ी उससे लाभ उठाता है । पता नहीं कहाँ, किस रूपमे साहस दिखाना पड़े ? इसलिये हर विपम परिस्थितिमे मजबूत रहना चाहिये । कायर और आत्महीनतासे ग्रसित व्यक्ति सदा शकाशील रहते हैं । उन्हें इस बातपर विश्वास ही नहीं होता कि वे अपनी रक्षा कर भी पायेंगे या नहीं ?

युवकका अद्भुत साहस

भरदह (गाजोपुर) का एक समाचार है कि सीमावर्ती ग्राम मिर्जापुरमे एक नवयुवक जब अपने खूँटेपर बैल खोलनेके लिये झुका ही था कि उसकी पीठपर छप्परसे एक बड़ा विषैला सर्प

गिरा और उसने अपनी पूंछसे युवकका गला कस लिया । वह युवक तनिक भी नहीं डरा । उसने अपूर्व साहसका परिचय दिया । दोनों पैरोके बीचमे हाथ डालकर सर्पका फन पकड़कर मुट्ठी बाँध ली । एक ओर सर्प पूरी ताकतसे युवकके गलेको कस रहा था, दूसरी ओर युवक अपनी मुट्ठी कसता जा रहा था । इतनेमे पड़ोस एव परिवारवालोने सर्पकी पूंछसे युवकका गला छुड़ाया और युवकने झटकेसे सर्पको दूर फेंका । सर्पकी रीढ़की हड्डी टूट गयी और लोगोने उसे मार डाला ।

साहसी आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियाँ भी उनका साथ देती हैं और मदद करनेवाले कितने ही साहसी सहयोगी भी मिल जाते हैं । साहससे साहस पैदा होता है । एककी हिम्मतसे दूसरेकी हिम्मत बँधती है । किंतु जिन्हे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जिन्होंने अपनी अतुल सामर्थ्यको कभी समझा ही नहीं है, वे डरते-कांपते यही सोचते रहते हैं कि उनसे कुछ बननेवाला नहीं है । वे किसी बड़े काममें हाथ नहीं डालते । ऐसे डरपोक और कायर लोग सचमुच असफल ही रहते हैं । आत्महीनताका अनुभव करनेवालोंको जीवनमे सदा असफलता ही मिलती है । धन, स्वास्थ्य, पद, सत्ता, शस्त्र, सहयोग आदिकी सुविधाओका लाभ वही उठा पाते हैं, जो मनसे बलवान् हैं ।

आप भी पुरुषार्थी बनें

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।

एवं त्वयि नात्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

(यजुर्वेद ४० । २)

मनुष्यमात्रको इस लोकमें अपना कर्तव्य करते हुए ही सौ
 गिनेकी इच्छा करनी चाहिये । हे मानव ! तेरे लिये यही एक
 है; इससे दूसरा कोई उत्तम मार्ग नहीं है । कर्तव्य कर्म करते
 मनुष्यमे कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है । अतः इस
 मे परम पुरुषार्थ करते हुए ही तू दीर्घ जीवन प्राप्त करनेकी
 कर । पुरुषार्थमय जीवन व्यतीत करना ही मनुष्यका परम
 है ।

इच्छन्ति देवाः सुखन्तं, न स्वप्नाय स्पृहयन्ति ।

यन्ति प्रमादमत्न्द्राः ॥ (ऋक्० ८ । २ । १८)

यज्ञ करनेवालेको समस्त देव चाहते हैं, आलसी और निरुद्यमी
 को कोई नहीं चाहता । आलस्य न करनेवाले पुरुषार्थी
 ही अशुद्धि करनेवालेका दमन करते हैं; क्योंकि पुरुषार्थी
 की देवगण सहायता करते हैं; आलसी और प्रमादी मनुष्यका
 सहायक नहीं होता । अतः प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि
 पुरुषार्थ करके अपने जीवनको अम्युदयके मार्गपर आगे बढ़ाये ।

पुरुषार्थकी आज्ञा

१ च तृष्णुतं च गच्छन्तं प्रजां च घत्तं द्रविणं च घत्तम् ।

(ऋक्० ८ । ३५ । १०)

हे मानव ! अपने पुरुषार्थसे तू अमृतपान कर और तृप्त हो
 अम्युदयके मार्गपर आगे बढ़ता चल । इस प्रकार तू प्रजाको
 ण करते हुए उसके पीषणके लिये घन भी एकत्र करता चल ।

जयतं च प्र स्तुतं च प्र चावतं प्रजां च घत्तं द्रविणं च घत्तम् ॥
(ऋक्० ८ । ३५ । ११)

हे मानव ! जीवनमें तू सदा विजय प्राप्त कर तथा उत्तम कार्य करनेवाले प्रशंसनीय समाजकी रक्षा कर और इस प्रकार तू अपनी प्रजा और धनको बढ़ाता चल ।

हतं च शत्रून् यततं च मित्रिणः ; प्रजां च भत्तं द्रविणं च घत्तम् ॥
(ऋक्० ८ । ३५ । १२)

हे मानव ! तू शत्रुओंका नाश कर तथा मित्रोंको सहयोग प्रदान कर । इस प्रकार तू अपनी प्रजा और धनको बढ़ाता चल ।

ब्रह्म जिन्वतमुत जिन्वतं धियो हतं रक्षांसि ।
सेधतममीवाः ॥ (ऋक्० ८ । ३५ । १६)

हे मानव ! ससारमें कर्म करते हुए उत्तम ज्ञान प्राप्त कर और अपनी सुबुद्धिसे दुष्कर्मोंका दलन करते हुए श्रेष्ठ कर्म कर तथा सदा नीरोग एवं स्वस्थ रह ।

क्षत्रं जिन्वतमुत जिन्वत नृन् हतं रक्षांसि ।
सेधतममीवाः ॥ (ऋक्० ८ । ३५ । १७)

हे मानव ! पुरुषार्थी बनकर क्षात्रतेजको प्राप्त कर तथा श्रेष्ठजनोको सदा समीप रखकर दुष्टजनोका हनन कर । इस प्रकार सदा स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रह ।

धेनूजिन्वतमुत जिन्वतं विशो हतं रक्षांसि ।
सेधतममीवाः । (ऋक्० ८ । ३५ । १८)

हे मानव ! तू गौओंका संवर्धन करते हुए अपने पशु-धनको

बढा और प्रजाको पालते तथा राक्षसों का नाश करते हुए अपने जनसमाजकी रक्षा कर । यही तेरा कर्तव्य है ।

आशीर्णं ऊर्जमुत सौप्रजास्त्वं दक्षं घत्तं द्रविणं सचेतसौ ।
जयं क्षेत्राणि सहसायमिन्द्र, कृष्णानो अन्यानघरान्त्सपत्नान् ॥
(अथर्व० २ । २६ । ३)

हे परमात्मन् ! हमें आशीर्वाद दो कि हमारा सदा भला और कल्याण हो । हे समान चित्तवाले पुरुषो ! उत्तम संतानके साथ अन्न, बल, धन और शक्तिको सदा प्राप्त करो और दान दो । हे प्रभो ! हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हम अपने पुरुषार्थसे विजय प्राप्त करें और शत्रुओंका दमन करनेमें सदा समर्थ रहे । इस प्रकार हमें अपने राष्ट्रकी भी रक्षा करनी चाहिये ।

उद्बुध्यध्वं समनसः सखायः, समग्निभिन्ध्वं बहवः सनीव्ठाः ।
दधिक्रामग्निमुषसं च देवीमिन्द्रावतोऽवसे नि ह्वये वः ॥
(ऋक्० १० । १०१ । १)

एक विचार और एक समान ज्ञानसे युक्त लोगो ! तुम उठो, जागो और जानो कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है । तुम एक घरमे रहनेवाले सब लोग प्रेमसे मिलकर ईश्वरको, ज्ञानीको तथा ज्ञानको उत्तम रीतिसे प्रदीप्त करो । धारणाशक्तिके साथ प्रगति, विकास और उन्नति करनेके लिये हे प्रभो ! आप हमे दिव्य शक्ति प्रदान कीजिये । समाज और राष्ट्रकी रक्षाके लिये हम आपका आह्वान करते हैं ।



आप वीर है, इसलिये शत्रुओंसे डरें नहीं !

जो डरता है, उसे और भी अधिकाधिक डराया, घमकाया और लाञ्छित-तिरस्कृत किया जाता है। ससार आपके बल और पौरुषको तौलता-परखता रहता है। यदि वह यह पाता है कि आप दबते हैं, तो आपको अधिकाधिक दबा-डराकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाता है।

यदि आप अपनेको कमजोर समझेंगे तो अधिकाधिक निर्बल, निस्तेज, नपुंसक और भयभीत होते जायेंगे। आपकी वीरता, शौर्य, इच्छा, सकल्प तथा उच्चतम सामर्थ्यका ह्रास होता जायगा। कल्पित भय आपको अवनतिके नरकमें गिरा देगा। यदि आप अपने शत्रुओंसे डरकर पाँव पीछे उठायेंगे तो उन्हें आपके विरुद्ध कार्य करनेका उत्साह और बल प्राप्त होगा। आपकी त्रुटियाँ स्वतः आपके ही विपक्षमें, प्रतिकूलनामें कटिबद्ध हो जायेंगी।

शत्रु-भय मनकी कल्पनाका एक मिथ्या विचार है। इसीसे भयभीत होकर हम अपने विषयमें दीनता और हीनताकी कल्पनाएँ

करते हैं और अपनी कल्पनामें शत्रुको बहुत बढाकर देखते हैं । इस मिथ्या भयने कितनोंके अन्त करणको श्मशानभूमिमें बदल दिया है ।

वास्तवमें आप शूरवीर हैं !

हमारी बात मानिये, आप शूरवीर हैं । राष्ट्र-रक्षाकी पूरी सामर्थ्य आपकी रग-रगमें छिपी हुई है ।

मैं अनेक ऐसे व्यक्तियोंको जानता हूँ जो अर्धविकसित अवस्था या अपने बचपनमें ही कल्पित शत्रुओंकी भावनाके चंगुलमें फँसकर क्रमशः दीन-हीन पतितावस्थाको प्राप्त हो गये हैं । उनके मनमें कल्पित भय भरा हुआ था । वे कभी न आनेवाली विपत्तियों तथा नाना प्रतिकूलताओंके अनर्थकारी स्वप्न देखा करते थे । अतः वे जीवनभर कल्पित भयका भावनाके बशीभूत होकर अपने साहस-पूर्ण प्रयत्नों तथा महत्त्वाकांक्षाओंको चूर्ण कर बैठे ।

हमारे जीवनमें कमजोरी पैदा करनेवाला भयंकर शत्रु यह भय ही है । अविश्वास, अकर्मण्यता, अधीरता, कायरता, असंतोष, कमजोरी तथा इसी प्रकारकी अनेक मानसिक निर्बलताओंका स्रष्टा यह भय ही है । कल्पित भयको मनमेंसे निकाल देनेपर मनुष्यके उच्च गुणोंका विकास शुरू हो जाता है ।

कितने ही व्यक्ति अपने विषयमें दूसरोंकी राय जाननेके इच्छुक हुआ करते हैं । अमुक व्यक्ति, अमुक अखबार, मेरे वारेमें क्या कहता है ? अमुक आदमीका मेरी जाति, देश, धर्मके सम्बन्धमें क्या विचार है ? साधारण ज्वलाने मुझे कैसा समझा है ?

जब मैं बाजारसे होकर निकलता हूँ तो बाजारवाले मेरे बारेमें क्या कहते हैं ?

जब मनुष्य इस प्रकारके तर्क-वितर्कोंमें फँस जाता है तो समझना चाहिये कि वह कल्पित भयमें फँस गया है। उसके गुप्त मनमें बचपनकी कोई निर्बलता ग्रन्थिके रूपमें छिपी हुई है और वह तज्जनित चित्रोंकी प्रतिच्छाया यत्र-तत्र देख रहा है।

जिस प्रकार दूसरोंके दोष-दर्शन विकार माने जाते हैं, उसी प्रकार अपने दोषों और निर्बलताओंका बार-बार दर्शन और चिन्तन भी मनुष्यको हीन-दीन और कमजोर बनानेवाला है।

बाइबिलमें एक स्थानपर कहा गया है कि मनुष्यके पास जो वस्तु अधिक है, वही उसे अधिकाधिक दी जायगी। जो कम है, वह न्यून वस्तु या गुण भी उससे छीन लिया जायगा।

इसका दूसरा अर्थ यह है कि यदि आपके पास कमजोरी ज्यादा है तो कमजोरी, निर्बलता, दीनता, हीनता, दुःख, दारिद्र्य, कमी, हार ही आपको अधिकाधिक दी जायगी। यदि आप कमजोरीकी बात सोचेंगे तो आपके गुप्त मनमें वैसा ही विषैला और दूषित वातावरण बनता जायगा। आस-पासके वातावरणमें भी कमजोरी फैलती जायगी। आप छोटी-छोटी बातोंसे बुरी तरह डरेंगे। रातभर बुरे स्वप्नोंमें डरते रहेंगे।

इसके विपरीत यदि आप वीरता, साहस, शौर्य, उत्साह, उल्लासके शुभ विचारोंमें निवास करेंगे, तो साहस और वीरताका अन्तर्मान निर्माण होगा।

आपके भय कल्पित हैं। आपकी चिन्ताएँ स्वयं आपकी अपनी उत्पन्न की हुई हैं। अपने पूर्ण स्वाभाविक रूपमें आप पूर्ण निर्भय हैं। व्यर्थके सांसारिक क्लेशों, विपत्तियों और हर प्रकारकी चिन्ताओंसे मुक्त हैं। आपका वास्तविक रूप शूरवीरका स्वरूप है। किसी प्रकारकी कायरताका विचार आपके मनोमन्दिरमें नहीं आना चाहिये।

आपका अन्तःकरण वह दर्प है, जिसमें आप अपने निर्भय स्वरूपका अवलोकन कर सकते हैं। आप उस दर्पणको आत्म-विश्वास और उत्साहके रेतसे रगड़कर प्रशस्त कर डालिये।

यदि आप अपने जीवनसे भयको दूर करनेमें समर्थ हो सकेंगे तो अपने जीवनका एक नया पृष्ठ खोल सकेंगे। तभी आप विजयी और पुरुषार्थी जीवन प्राप्त करना सीखेंगे।

विज्ञानका अकाट्य सिद्धान्त है कि एक ही स्थानपर दो परस्पर-विरोधी विचार नहीं ठहर सकते। जब आप साहसपूर्ण विचारोंको अपने गुप्त मनमें प्रचुरतासे भर लेंगे और उन्हें मजबूतीसे मनमें जमा लेंगे तो फिर आपकी पराजय या असफलताका तो प्रश्न ही नहीं उठेगा।

निर्भय होकर जीवन बिताइये। अपने भयको अपने ऊपर विजय न प्राप्त करने दीजिये। आप महावीर हैं। आप शक्ति-पुत्र हैं। आप महान् पराक्रमी पिताके शूर-वीर सुपुत्र हैं। आप वीर सैनिक हैं। आप सेनाध्यक्ष हैं। जीवन-संग्राममें पूर्ण विजयके लिये आपको सेनाका अध्यक्ष चुना गया है। आपके कंधोंपर धर, परिवार, मुहल्ले, प्रान्त

आप वीर हैं, इसलिये शत्रुओंसे डरें नहीं ! १५३

और समूचे देशकी रक्षाका भार है। आपको अपनी शक्तिपर भरोसा है। पूरे विश्वाससे स्वीकार करें और गर्वसे कहे—

संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीर्यबलम् ।

संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुर्ये येषामस्मि पुरोहितः ॥

(अथर्ववेद ६ । १६ । १)

अर्थात् मैं वीर हूँ। मेरा ब्रह्म तीक्ष्ण है। मेरा ईश्वरके प्रति विश्वास प्रबल है। मैं आत्मा और परमात्मामे पूर्ण विश्वास रखता हूँ। इस कारण मृत्युसे भय नहीं खाता। निर्भय होकर रणक्षेत्रमे जा सकता हूँ। मेरा ज्ञानरूपी ब्रह्म भी तीक्ष्ण है। मैं युद्धनीतिका पूर्ण ज्ञाता हूँ। मैं शत्रुपक्ष तथा स्वपक्षके बलाबलको देखकर निर्णय करनेकी क्षमता रखता हूँ। मेरा मनोबल और शरीरबल भी तीक्ष्ण है। मैं पूर्ण बिजयशील और पराक्रमी हूँ। इसी प्रकार जिनका मैं अध्यक्ष हूँ, नायक हूँ, उन सैनिकोका भी क्षमाबल तीक्ष्ण हो। अजर हो। क्षमाबल अकुण्ठित रहे।

प्रेता जयता नरः उग्रा व सन्तु बाहवः ।

तीक्ष्णेष्वोऽबलघन्वनो हतोऽग्रायुधा श्रबलान् उग्रबाहवः ॥

(अथर्ववेद ३ । १९ । ७)

आगे बढ़ो, विजय प्राप्त करो, हे वीरो ! प्रचण्ड हों तुम्हारी भुजाएँ। तीक्ष्ण अस्त्रोवाले, उग्र शस्त्रोवाले, उग्र बाहुओंवाले हे वीर ! शत्रुओको मार दो, उनके शस्त्रोको दुर्बल सिद्ध कर दो, शत्रुकी शक्ति हीन कर दो।



स्वच्छ वस्त्रोंका आध्यात्मिक प्रभाव होता है

जिस प्रकार स्नान करनेके उपरान्त सम्पूर्ण शरीरके त्वचारन्ध्र खुल जानेसे और घर्षणसे एक प्रकारकी स्फूर्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार स्वच्छ और नवीन वस्त्रोको धारण करनेसे मनुष्यकी आत्माको प्रसन्नता प्राप्त होती है ।

हमारी आत्माका गुण स्वच्छता है । वह विकार, दुर्गुण, सब प्रकारके मल-पदार्थोंसे मुक्त है । उसमे गदगी टिक नहीं सकती । पाप-पङ्कका उसपर छोटा पड़ नहीं सकता । यदि कोई वस्तु उसे पकिल करनेका उद्योग करती है तो हमारी अन्तरात्मामे पश्चात्ताप और आत्मग्लानिकी चीत्कार उठती है । कोई भी दुर्त्रिचार, पापमय कल्पना, कुत्सित वासना, हमारी नैतिकतासे हेय निकृष्ट भावना जब मन-क्षेत्रमे प्रविष्ट होकर हमारे सत्य, प्रेम, कर्तव्य-निष्ठाको, विश्रुद्ध्वलित करने लगती है, तब आत्मामे एक आन्तरिक आघातका हम सब अनुभव करते हैं । इसका कारण क्या है ?

आत्माद्वारा हमे किसी भी ऐसे अनैतिक कार्यके लिये सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता, जो किसी भी प्रकारकी कायिक, वाचिक, मानसिक गदगीसे युक्त हो । गंदी वारणाएँ या अप्रलील कृत्य करनेवाले आत्माकी ध्वनिकी अवहेलना कर गंदे कार्योमे प्रविष्ट होते

हैं; किंतु अंदर-ही-अंदर उन्हें एक मनोव्यथा दुखी करती रहती है। कुछ कालके लिये आप इस आन्तरिक ध्वनिका दमन भले ही कर दें, इसका पवित्र कार्य निरन्तर चलता रहता है।

आत्मध्वनिका कार्य है—अन्तर्मनमें सफाईका कार्य करना। जो गदे विचार, मन्त्रणाएँ या कल्पनाएँ आयें, उन्हें गंदगीसे हटाकर नीर-क्षीर-विवेक कर मनुष्यको सत्पथकी ओर अग्रसर रखना। जो व्यक्ति आत्मध्वनि सुनता है, उसे आत्मध्वनि सीधा मार्ग दिखाती चलती है। उसके मनःक्षेत्रमें सर्वत्र स्वच्छता होती है। जहाँ कोई गंदा विचार विद्रोहीकी भाँति उदित होता है, वही मनकी शुभ वृत्तियाँ उससे सघर्ष कर उसे निकाल बाहर करती हैं।

बाहरी वातावरण पूर्ण स्वच्छ रहे !

चूँकि स्वच्छता हमारी आत्माका नैसर्गिक गुण है, अतः बाह्य स्वच्छतासे भी परितुष्टि एव प्रसन्नता प्राप्त होती है। स्वच्छ वातावरणका प्रभाव स्वास्थ्य, प्रसन्नता, आन्तरिक आह्लादका देनेवाला है।

स्वच्छ वातावरणकी सृष्टि करनेमें मनुष्योके वस्त्रोका बड़ा सम्बन्ध है। वस्त्र शरीरसे निकटतम सम्पर्क रखते हैं। उनके अनुसार उसकी अन्तर्वृत्तिका निर्माण होता चलता है। यदि उनमें स्वच्छता है तो स्वभावतः मनमें पवित्र विचारोका क्रम चलने लगता है। विचार-प्रवाह स्वयं पवित्रता और सात्त्विकताकी ओर रहता है। गंदगीसे विचार उतने ऊँचे नहीं उठ पाते। उनकी नैतिकताको

अप्रत्याशित चोट लगती है। गदे वस्त्रोके सम्पर्कमें रहते-रहते उसकी उच्च शक्तियाँ धीरे-धीरे पगु हो जाती हैं।

महात्मा गाँधीजीका विश्वास था कि खद्दरके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही वे सत्य, न्याय, अहिंसा, विश्वबन्धुत्वके पवित्र विचारोसे प्रेरित हो जाते थे। प्रत्येक सत्याग्रहीको खद्दर पहिनना चाहिये। खद्दर और विचारोंकी पवित्रताका निकट सम्बन्ध है।

वातावरणकी स्वच्छता और वस्त्रकी स्वच्छता मनकी स्वच्छता उत्पन्न करनेवाली है। जो व्यक्ति स्वच्छ रहनेका अभ्यस्त है, उसके विचारोका स्तर गदे वस्त्रोवालेसे ऊँचा रहता है।

स्वच्छता देवत्वका सामीप्य है (Cleanliness is next Godliness)—इस उक्तिमें महान् संदेश भरा है। स्वच्छता क्रमशः देवत्वके समीप हमें ले जाती है। देवताओंका एक विशिष्ट गुण स्वच्छता है। स्वच्छ रहकर आप वातावरणकी दृष्टिसे देवत्वके समीप पहुँच जाते हैं।

कैसे परितापका विषय है कि जहाँ अन्य जातियाँ स्वच्छताके लिये सतत उद्योगशील हैं, वच्चोमें स्वच्छताके बीज बोती हैं, हमारे यहाँ इस ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता एक आदत है। यदि एक बार आदत ढाल दी जाय तो जीवनभर मनुष्य उसे नहीं भूलता। याद रखना चाहिये, स्वच्छता और शौकीनीमें बड़ा अन्तर है। शौकीनी दूसरोको दिखानेके लिये होती है और स्वच्छता गंदगीका नाश करनेके लिये। शौकीनी तो स्वयं एक मनकी गंदगी मात्र है।



हिंदू वेश-भूषा और हिंदी भाषाको अपनानेमें गर्वका अनुभव करें !

अंग्रेजीके एक लेखक टामस फुलरने लिखा है—

‘वेश-भूषाकी सादगी सज्जनताका चिह्न है। उससे हमारी
आध्यात्मिक भावनाएँ जीवित रहती हैं। वेश-भूषासे आदमीका धर्म,
जाति, देश और सस्कृति सब कुछ स्पष्ट हो जाते हैं। स्वच्छ और
भद्र वस्त्र पहने व्यक्तिके लिये सभी ऊँची सोसाइटीके दरवाजे खुले
रहते हैं, जब कि बहुमूल्य भङ्गकीले वस्त्र व्यक्तित्वका ओछापन व्यक्त
कर देते हैं और इस दिखावटीपन और नकलचीपनसे हम दूसरोकी
दृष्टिमें घृणाके पात्र बनते हैं। अच्छे गुणो और उत्तम चरित्रके
विकासके लिये आपके वस्त्र भी सम्यो-जैसे रहे।’

हिंदू वेश-भूषा ही आरामदायक और सादा है

प्रत्येक जाति और देशवाले अपनी-अपनी पोशाकोको श्रेष्ठ
बतलाते हैं, किंतु सारा विश्व इस तत्त्वको भलीभाँति जानता और
स्वीकार करता है कि भारतीय वेश-भूषा आकर्षक है। पुरुषोद्वारा
पहनी हुई धोती, कुर्ता, जाकेट और हिंदू-नारीद्वारा पहनी हुई साड़ी
विश्वमें सबसे सुन्दर और आरामदायक मानी गयी है। विश्वके

जिन-जिन स्थानोपर भारतके प्रधान मन्त्री श्रीलालबहादुर शास्त्री घोती और कुर्तेमे गये, उनकी पोशाकको सबसे अच्छा समझा गया था। इसी प्रकार श्रीमती विजयालक्ष्मी पण्डित और श्रीमती इन्दिरा गाँधीकी भारतीय साड़ी स्वच्छता, सुन्दरता और शालीनतामे सर्वश्रेष्ठ गिनी गयी।

पोशाकके साथ संस्कृति और धर्मका सम्बन्ध है। प्रत्येक धर्म और संस्कृतिको स्पष्ट करनेवाली वेश-भूषा भी अलग है। वैसी पोशाक पहिननेसे एक विशेष प्रकारके भाव और विचार मनमें उत्पन्न होते हैं। निरक्षर व्यक्तितक अन्धानुकरणमें पाश्चात्य ढंगके कोट, पेन्ट, टाई और हैट-बूट, मोजोमें देखे जाते हैं। टूटी-फूटी गिटपिट अंग्रेजी भाषा बोलकर वे झूठे दम्भकी पूति मात्र करते हैं। अंग्रेजी पोशाक पहनते ही मनमे ऐंठ, अकड़, झूठी आन, विलासिता और शेखीके ओछे भाव उदय होते हैं। मुसल्मानी पोशाकके साथ ऐश्वर्य, इन्द्रिय-भोगकी लम्पटता, विलासिता, वासनाकी तड़क-भड़क जुड़ी हुई है। पोशाक, वेश-भूषा और भाषाके साथ संस्कृति, इतिहास और धर्म जुड़ा हुआ रहता है। अंग्रेजी और मुस्लिम संस्कृति और धर्म 'खाओ, पिओ, मीज उड़ाओ' के भोगवाद और इन्द्रिय-लोलुपतापर खडी हैं। ये भोगलिप्सा और क्षुद्र सांसारिकताको ही महत्त्व देते हैं। वही कुत्सित नग्नता, अश्लीलता और लम्पटता फैली हुई हैं। पाश्चात्य समाजमे सर्वत्र वासनात्मक पशु-प्रवृत्तियाँ फैली हुई हैं। ये देश केवल बाहरी वनावटी सौन्दर्य (क्या उसे वास्तवमें सौन्दर्य कहे ?), टीपटीप, झूठे दिखावेको ही प्रधानता

देते हैं। उनके यहाँ नित्य नये-नये फैशन निकलते रहते हैं। इन सब जातियोमे नाना भोगोंकी अतृप्त इच्छाएँ भरी पड़ी हैं। यह भोगेच्छा और वासनामय जीवन उनके विचारों और बुद्धिको भौतिक स्तरसे ऊपर नहीं उठने देते। छोटी वस्तुओ, नीचे आदर्शों और मांस-मदिराका पाशविक स्वाद चखते-चखते ये लोग उच्च जीवन-मूल्योंको ही भूल गये हैं। पाश्चात्य और मुस्लिम संस्कृतियोंकी पोशाको और वेश-भूषामे जो फैशनपरस्ती, झूठी शेखी, बाहरी सजावट, भोगविलास आदि हैं, वह मनुष्यकी पञ्चेन्द्रियोका पाशविक सुख है।

आप एक दिनके लिये अंग्रेजी या मुसल्मानी पोशाक पहनिये, आप उन्ही-जैसे विचारोंको मनमे अनुभव करेंगे। आप फौजी पोशाक पहिनते हैं, तो आपके मनमे हिंसा, पशुता, आतङ्क, दुष्टता और दूसरोपर अत्याचार तथा दम्भके भाव भर जाते हैं। मुसल्मानी पोशाकमे वासना और स्वार्थपरता, प्रदर्शन तथा ओछापनके भाव मनमे पैदा हो जाते हैं।

आज भारतीय नौजवान जो फैशनपरस्ती कर रहे हैं, अश्लील फिल्मोमे काम करनेवाले अभिनेताओ-जैसी अर्द्धनग्न और चुस्त पोशाकें पहनते हैं, ट्राजिस्टर लगाये हुए आवारा-गर्दी करते शहरोकी सड़कोपर चक्कर लगाते हैं, ढेर-के ढेर सिग्रेट और पानकी दूकानों, होटलो और सिनेमाघरोके आगे भीड़ किये रहते हैं, यह महज एक फैशन और दिखावा भर है। इस प्रकारके अन्धानुकरणमे कौन-सा सौन्दर्य है ? ऐसी आधुनिकता केवल झूठे प्रदर्शनकी मरुमरीचिका मात्र ही है।

भारतीय पोशाक— स्वच्छ और सफेद घोती, लंबा कुरता, जाकट, चप्पल इत्यादि इस देशके हिंदूधर्म, मौसम और आर्थिक हैसियतके अनुसार सस्ते, सुविधाजनक और उचित हैं। इनसे सद्भाव और सीहार्दका वातावरण उत्पन्न होता है। इनमे स्वच्छता, सुन्दरता और आराम भी अधिक रहता है; मनुष्य व्यर्थके दिखावेसे भी बचा रहता है। सौजन्य, सरलता, सादगी, विनयशीलता, सज्जनता हमारी सस्कृति और धर्मकी विशेषताएँ रही हैं। इस पोशाकके प्रयोगसे हमारी आध्यात्मिक भावनाएँ जीवित रहती हैं। हम अधिक रगीन और भडकीले वस्त्रोको आदमीका ओछापन मानते हैं। अधिक बनावट, शृङ्गार और प्रदर्शनपूर्ण वेश-विन्यासको आहम्बरपूर्ण मानते हैं। यह तडक-भडक हमारे यहाँ हीन समझी गयी है। कम-से-कम वस्त्र रखकर प्रकृतिसे तादात्म्य स्थापित करना, अपने शरीरको व्यर्थके साजशृङ्गार, टीप टाप, फैशनपरस्तीसे दूर रखना, सादा जीवन और उच्च विचार धारण करना—यही हमारा दृष्टिकोण रहा है और आगे भी रहना चाहिये।

पाश्चात्य देशोंमे जहाँ प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेकी भावना रहती है, भारतीय सस्कृति और हिंदूधर्मने उनके साथ अपनापन स्थापित करनेका विनीत प्रयत्न किया है। हिंदूधर्ममे हिमालय—कैलाश-जैसे पर्वत; गङ्गाजी, यमुनाजी, गोदावरी-जैसी नदियाँ; वन, वृक्ष, उपवन पवित्र माने गये हैं। वहाँ ईश्वरका निवास माना गया है। भारतके हिंदू साधु-सन्यासी ही नहीं, जनता भी प्रकृतिकी गोदमे सदा आनन्द लेती रही है भारतीय हिंदू प्रकृतिमे दासीकी कल्पना न कर

उसे माताके रूपमें देखते और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। प्रकृतिके वन, लता, पर्वत, नदी, पशु-पक्षी, वृक्षोंके साथ उन्होंने सदा अपनेपनका अनुभव किया है। हमारे पर्वतों और नदियोंके निकट ही हमारे तीर्थों और मन्दिरोंकी स्थापना हुई है। वन, उपवन और ग्राम हमारी संस्कृतिके सुन्दर प्रतीक रहे हैं।

अतः ग्रामीण वेश-भूषा और प्रकृतिके साहचर्यमें रहनेसे आनेवाली सादगी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, विनयशीलता और उदारता हमारी पोशाकमें भी पायी जाती है। टोप-टापको ओछेपनकी निशानी माना गया है। थोथी कृत्रिमता, बनावटीपन, रंग-बिरंगे आधुनिक शृङ्गार-प्रसाधनोंसे हमारे यहाँ सदा विरक्ति रही है। भारतीय संस्कृति यह मानती है कि जितनी ही कृत्रिमता हमारे जीवनमें आयेगी और पोशाकके सम्बन्धमें जितनी अस्वाभाविकताको हम अपनाते जायेंगे, उतने ही उच्च जीवनसे दूर हटते जायेंगे।

भारतीय पोशाककी सादगीका अर्थ दीनता या दरिद्रता नहीं है, वर यह है कि बिना आडम्बरके उपयुक्त और आवश्यक वस्तुओंका शुद्धतापूर्वक प्रयोग करना। यह सादगी, स्वच्छता, निरभिमानिता हमारे नित्य व्यवहारमें मिली हुई होनी चाहिये। वस्त्र बहुत मूल्यवान् न हो। टेरालीन, डेकारौन और नाइलीन-जैसे बहुत मूल्यवान् तथा स्वास्थ्यनाशक न हो, बारीक रेशमके न हो। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो मोटे सफेद खट्टरके प्रेमी रहे हैं, किंतु वे स्वच्छ होने चाहिये। तडक भडकके, रंग-बिरंगे या बेढब फैशनके वस्त्र व्यर्थ थोपेपनके प्रतीक हैं। कम कपड़े पहिनने

चाहिये, पर उनकी सफाईका पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये । भारतीय विचारोकी तो यही मान्यता है कि जेवर लादनेकी अपेक्षा तो कुछ अधिक कपड़े बनवा लेना और स्वच्छ रखनेपर थोड़ा व्यय करना अधिक उपयोगी है । मन, विचार, वेश-भूषा और बानावरणकी सादगी एवं स्वच्छता उच्च आध्यात्मिक जीवनकी ओर खींच लेजानेकी अद्भुत क्षमता रखते हैं ।

हिंदी भाषाके साथ हिंदू-धर्म और संस्कृति जुड़ी हुई है

भाषाकी गुलामी सबसे बुरी है; क्योंकि भाषाके साथ उसी देशकी संस्कृति और धर्मको भी गुप्तरूपसे अपनाना पड़ता है । जिस भाषाको हम प्यार करते हैं, अपनालेते हैं या भरपूर प्रशंसा किया करते हैं, उस देशके धर्म, परम्पराओं वीर पुरुषों तथा संस्कृतिको भी अपनाने लगते हैं । भाषाकी आड़मे धर्म और संस्कृतिका भी प्रचार किया जाता है । भाषाके प्रत्येक शब्द, मुहावरे और कहावतोंके पीछे उस देशका धर्म, संस्कृति और संस्कार बोलते हैं । धर्म भाषाके कपड़े पहिनकर दैनिक व्यवहारमे प्रकट होता है । अनेक शब्दोका निर्माण ही धर्मके स्रोतसे बनता है । भाषा और धर्मका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है ।

अंग्रेजोंकी कूटनीति, अंग्रेजीकी गुलामी

जब अंग्रेजोंने भारतको जीता था, तब वे व्यापारिक सफलता तथा राजनीतिक विजयमात्रसे ही संतुष्ट नहीं हुए थे । राजनीतिक गुलामी ऊमरी और बाहरी शासकीय गुलामी है । शासन दण्ड, आतंक और भयके बलपर चलता है । उन्होंने हिंदूस्थान (इस

हिंदुओंके देश) को मानसिक दृष्टिसे भी गुलाम बनानेकी योजना बनायी ।

वह मानसिक गुलामी कैसे उत्पन्न की गयी ?

जब कोई वीर जाति निर्बल जातिको जीतती है, तब, प्रायः उसे सब ओरसे गुलाम बनानेका प्रयत्न करती है । वह उसपर अपनी भाषा और साहित्यका बोझ डाल देती है । उसे बरबस विजेताओकी भाषा और साहित्यका अध्ययन करना पडता है । उस भाषाको सीखनेवालोंको पुरस्कार और प्रशंसापत्र वितरित किये जाते हैं । पराजित जाति शासक-जातिके वीर पुरुषों, जातीय आदर्शों और धर्मकी प्रशंसा उस साहित्यमें घुमा-फिराकर बार-बार पढते हैं, चित्रोंमें देखते हैं, कविताओमें गाते तथा उसीके मानसिक वातावरणमें रहते हैं । अतः चुपचाप विजित जाति शासक-जातिके धर्मको भी स्वीकार करती जाती है, उसके आदर्शों और रीति-रिवाजको भी ग्रहण कर लेती है ।

शारीरिक निर्बलता और पराजयका बुरा नतीजा यह होता है कि वह हर दृष्टिसे जीतनेवाली जातिको अपनेसे श्रेष्ठ समझने लगती है । इससे विजित जातिमें मानसिक और सांस्कृतिक दासता बढती है । दूसरेकी भाषा और उसके साहित्यमें उस जातिकी प्रशंसा पढते-पढते निर्बल जातिको मनमें ऐसा प्रतीत होते लगता है कि शासककोका सब कुछ श्रेष्ठ है और स्वयंका सब कुछ दान-हीन और बेकार है । यह भाषाकी गुलामी है ।

अधिक दिनोंतक विदेशी भाषा पढते-पढते पराजित मनुष्य

विदेशियोंको ही उत्तम तथा उनके साहित्य, संस्कृति, आदर्शों, रीति-रिवाजों और विचारोंको ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। उनकी पुरानी कथा-कहानियों और जातीय आदर्शोंको ही सर्वोत्तम गिनता है। मनोविज्ञानका यह नियम है कि बार-बार जिस बातका (चाहे वह गलत और निराधार ही क्यों न हो) उल्लेख किया जाता है, वही हमें सत्य प्रतीत होने लगती है। इस प्रकार दीर्घकालतक विदेशी भाषा और साहित्य पढ़ते-पढ़ते कोई भी जाति अपना स्वयंका जीतीय गौरव और अतीत सांस्कृतिक स्वर्णिम वैभव भूल जाती है। इस प्रकार मानसिक गुलामी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है।

भारतमें यह मानसिक दासता विदेशी भाषा और साहित्यके माध्यमसे बहुत दिनोंसे चली आ रही है। भाषाकी आड़में धर्म भी फैलाया जाता रहा है। खेद है कि भाषाओंकी ओटमें दूसरे धर्मोंका गुप्त प्रचार करनेवाले सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तथ्यपर किसीने ध्यान नहीं दिया।

उर्दू तथा इस्लामकी गुलामी

भारतमें दिमागी गुलामीका प्रारम्भ उर्दू और इस्लाम-धर्मसे हुआ था। जब मुसल्मानोंने हिंदूओंकी पारस्परिक फूटके कारण भारतको जीत लिया तो उन्होंने भी उर्दू-भाषाके माध्यमसे हिंदू-राष्ट्र में इस्लाम प्रचार किया था। उर्दू और फारसीका राज्य फैला। ये ही राज्य-भाषाएँ घोषित की गयीं। हिंदू-जनताको मार-कूट और आतंकद्वारा उर्दू पढ़नेपर जोर डाला गया। जिन्होंने उर्दू नहीं

पढी, उन्हें सरकारी नौकरी और राज्यसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। दूसरी ओर डर या लालचसे जिन हिंदुओंने उर्दू और फारसीका ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्हें राज्य-सरकारकी ओरसे प्रोत्साहन-स्वरूप अच्छी नौकरियाँ, भरपूर इनाम, सम्मान और सार्वजनिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई।

उर्दू और फारसीकी आड़ लेकर इस्लाम-धर्म फैलाया गया। चूपचाप अनेक हिंदुओंका धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसल्मान बनाया गया। मुसल्मानोंके आदर्शों और इस्लामी संस्कृतिका बड़ा प्रचार हुआ। उर्दूके बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे और लोकप्रिय बनाये गये। यह सब मुस्लिम जीवन-पद्धति, इस्लामके नियम, आदर्श, वेश-भूषा, सिद्धान्तों और आदर्शोंका प्रचार था। एकाएक इस्लामने करवट ली।

अंग्रेजों और अंग्रेजी-भाषाकी गुलामी

जमाना बदला। इस धार एक दूसरी विदेशी जातिने हमें आ दबाया। भाषा, संस्कृति, वेश-भूषा और आदर्शोंमें फिर एक बड़ा तूफान आया।

उर्दू, फारसी और इस्लाम-धर्मका युग जैसे समाप्त हुआ और अंग्रेजी भाषा और साहित्यका नया युग प्रारम्भ हुआ। ईसाई धर्म-गुरुओंने अंग्रेजी-भाषा और साहित्यके माध्यमद्वारा ईसाई-धर्मका प्रचार कार्य शुरू किया। लार्ड मैकालेने अंग्रेजीके प्रचार-प्रसारमें सर्वाधिक दिलचस्पी दिखायी। पहले अंग्रेजों पढाकर क्लर्क बनाये गये, उन्हें अच्छी नौकरियाँ दी गयी, पुरस्कार और सार्वजनिक प्रशंसा दे-देकर अंग्रेजीको सार्वजनिक मान्यता दी गयी और इस

प्रकार जब काफी लोग अंग्रेजी पढ़े-लिखे हो गये तो उसे राज्यभाषा बना दिया गया ।

राज्याश्रय पाकर मानसिक दृष्टिसे भारतपर अंग्रेजीका राज्य छा गया । हम अंग्रेजोंका अनुकरण करने लगे, अंग्रेजी पोशाक पहनने और अंग्रेजी बोलनेमे गर्वका अनुभव करने लगे !

छोटी कक्षाओंमे अंग्रेजी कक्षा तीन और अंग्रेजीके माध्यमसे चलनेवाले स्कूलोमे बच्चोको अंग्रेजी पढ़ाना चालू किया गया । अंग्रेजीकी छायामे हिंदू बालकोमे ईसाइयोके धर्म, संस्कृति, देवता, रहन-सहनके तरीके, आदर्शों और जीवन-पद्धतियोंका गुप्तरूपसे प्रचार-प्रसार किया गया । बहुत-से हिंदुओ, विशेषतः अछूत वर्गके व्यक्तियोने ईसाई-धर्म ही ग्रहण कर लिया । बच्चोंके लिये अनेक मिशनरी शिक्षण-संस्थाएँ चली । इनमे शिक्षा कम, ईसाई-धर्मके प्रचारका अधिक प्रबन्ध था । बच्चोको बाइबिलकी सुन्दर प्रतियाँ मुफ्त दी जाती थी और अनेक सस्याओमे, छोटी तथा बड़ी कक्षाओमे ईसाई-धर्मके प्रारम्भिक संस्कार डालनेके लिये बाइबिल पढ़ायी जाती थी । धीरे-धीरे हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजीको ही संसारकी सर्वश्रेष्ठ भाषा समझने लगे । कुछ तो सरकारी नौकरियोंके लोभसे, कुछ फैशन और अनुकरण-वृत्तिके कारण । हिंदुस्तानपर अंग्रेजी भाषाकी गुलामी छा गयी । विदेशी वस्तु चाहे कितनी ही बुरी बयो न हो, दूरीके कारण उसके प्रति सहज आकर्षण होता है । अंग्रेजीके प्रति यही आकर्षण बढ़ा । अशिक्षित जनतापर अंग्रेजी ढंगसे रहने, अंग्रेजी पोशाक पहनने और अंग्रेजी बोलनेका बड़ा प्रभाव पड़ता रहा ।

इसके विपरीत अंग्रेजीके मायाजालके कारण हिंदुस्तानियोंके मनपर अपने साहित्य, हिंदू संस्कृति, वैदिक धर्म, भारतीय वेश-भूषा और संस्कृतिके प्रति हीनताकी भावनाएँ छा गयी ।

निष्कर्ष यह है कि भाषा, साहित्य और वेश-भूषाके साथ किसी भी देशका धर्म, संस्कृति और जातीय आदर्श जुड़े हुए रहते हैं । ये संस्कार कोमलहृदय बच्चोंके मनपर बड़ी आसानीसे बैठ जाते हैं । जब हमारे बच्चे अंग्रेजी भाषा और साहित्य पढने हैं तो गुप्तरूपसे उनके मनपर अंग्रेजोंके बहृष्पनके विचार बैठ जाते हैं । हम ईसाई-धर्म, उनके देवी-देवता, भौतिकवाद, उच्छृङ्खलता, रीति-रिवाज, वासनालोलुपताके प्रशंसक बनते हैं । अंग्रेजीमे हम ईसायोकी वीर-गाथाएँ पढते हैं । उन्हें पढते-पढते हम उसी मानसिक वातावरणमे निवास करने लगते हैं । उनके ही आदर्श और विचार हमे श्रेष्ठ जँचते हैं । हिंदू-धर्म और भारतीय संस्कृतिकी अपेक्षा हमें उनका धर्म और संस्कृति ही श्रेष्ठ जँचती है । हम उन युद्धोका हाल पढते हैं, जिनमें वे विजयी हुए थे । इस प्रकार विदेशियोंके पौरुष, श्रेष्ठता और वीरताके भाव हमारे गुप्त मनपर मजबूतीसे जम जाते हैं और इस प्रकार एक तरहकी मानसिक गुलामी हमपर छा जाती है । यह मानसिक गुलामी आज इस हिंदुओंके देशपर छाया हुई है । इस केंचुलीको अविलम्ब त्याग देना चाहिये ।

हिंदी और संस्कृत ही हमारे धर्मकी रक्षा कर सकती है ।

हिंदी और संस्कृत-भाषाओंके साथ हिंदू-धर्म, भारतीय संस्कृति तथा हिंदूजातिके पुरातन श्रेष्ठतम संस्कार जुड़े हुए हैं । संस्कृत हमारी

गौरवशाली प्रशस्त परम्पराओंकी प्रतिनिधि है। संस्कृतमे संसारका सर्वश्रेष्ठ साहित्य, आध्यात्मिक ज्ञान और मौलिक विचार-सम्पत्ति भरी हुई है। संस्कृतसे ही विश्वकी सब भाषाएँ निकली हैं। अध्यात्म, दर्शन और मनोविज्ञानकी ऊँचाई सब हमारे धर्म-ग्रन्थोमे, जो संस्कृतमे हैं, भरी हुई है। दर्शनशास्त्रमें जितना ऊँचा भारत उठा है, संसारका अन्य कोई देश आजतक नहीं उठा है। हिंदुओंके पास आध्यात्मिक ज्ञानकी जो प्रशस्त और स्थायी सम्पदा है, हमारे वीरोकी जो शौर्य-गाथाएँ हैं, हिंदूजातिके जो उच्चतम सस्कार हैं, वे सब संस्कृत और हिंदीमे संचिन है।

हिंदू-धर्म, हिंदू-संस्कृति, भारतीय विचारधारा, अध्यात्म, नीति आदिकी रक्षा और प्रसारके लिये संस्कृत और हिंदीका व्यापक प्रचार-प्रसार हिंदुओंके इस देशके लिये सबसे बड़ी आवश्यकता है।

संस्कृत और हिंदी पढना हमारे धर्मका अविभाज्य अङ्ग है। जो इन्हे नहीं जानता वह हिंदू कैसा ? हिंदी देशमे भावात्मक एहता पैदा करके सारे राष्ट्रको एक सूत्रमे आवद्ध कर सकती है। संस्कृत और हिंदीके विद्वानोंका यह नैतिक कर्तव्य है कि दोनोंके विकास और उनके प्रचारका कार्य करें और उनके वाङ्मयको पुरानी विचार-सम्पत्तिको जन-साधारणतक पहुँचानेका प्रयास करें। लोगोंका यह भ्रम दूर करना चाहिये कि संस्कृत भाषामे वेद-शास्त्रों और व्याकरणके अतिरिक्त अन्य जीवनोपयोगी साहित्यका अभाव है। संस्कृत वाङ्मयमें अनमोल साहित्यिक और दार्शनिक विचार-सम्पत्ति है। जीभाषा जन-साधारणके जितनी समीप रहती है, वह उतनी ही

विकसित और चिरंजीवी रहा करती है। इसके विपरीत जन-सम्पर्क छूट जानेपर वह अकालमे ही अतीतकी वस्तु बन जाती है। सयोगवश संस्कृत भाषाके साथ भी यही दुर्भाग्य रहा है। खेद है कि संसारके सर्वश्रेष्ठ साहित्यसे भरी-पूरी होनेपर भी वह एक अतीत की मृत-भाषा मानी जाने लगी है, किंतु इस ओर कुछ समयसे लोगोंमें संस्कृतके अध्ययनकी रुचि बढ़ने लगी है। यह एक अच्छा लक्षण है, किंतु इस उगती हुई अभिरुचिकी रक्षा और विकास करनेके लिये उसे हिंदीकी सहायता और सहयोगकी आवश्यकता है। समग्र संस्कृत-साहित्य अब हिंदीके माध्यमसे देशके कोने-कोनेमे प्रचारित होना चाहिये। इस उगती हुई अभिरुचिकी रक्षा और विकास करनेके लिये संस्कृत और हिंदीके जानकार और विद्वानोको अधिक परिश्रम करना चाहिये, तभी यह अभिरुचि स्थायी एवं उपयोगी हो सकती है।

ब्रिटिश गुलामीके कड़वे दिनोमे अनिवार्य अंग्रेजीके अध्ययन और अध्यापनसे हिंदुस्तानके प्राचीन-गौरव, हिंदू-धर्म, हिंदू-आचार-विचार, हिंदू-विचारधारा और भारतीय संस्कृतिको बड़ी हानि पहुँची है। हम हिंदुओकी प्रशस्त परम्पराओको भूल पाश्चात्यदे शोके वेश, भाषा और भौतिकवादी दृष्टिकोणकी नकल करने लगे हैं। सांस्कृतिक जागृति और देशकी भावात्मक एकता उत्पन्न करनेके लिये हिंदीको अधिकाधिक अपनानेकी आज बड़ी भारी आवश्यकता है।

हम पाश्चात्य जीवन-पद्धति और विचारधाराका

अन्धानुकरण न करें

यथासम्भव हम अपने देश, धर्म, भाषा और संस्कृतिके प्राचीन

गौरवको पुन लानेका प्रयत्न करें। अपने देशकी सादगीसे रहें। कोई भी देश दूसरोके अन्धानुकरणसे बड़ा नहीं बनता। अपनी ही विशेषता उत्पन्न करनी चाहिये। अपनी भाषा, संस्कृति और वेश-भूपासे ही देशका उत्थान सम्भव है। जार्ज वर्नाडिं शाने सत्य ही कहा है—

‘ऐसा व्यक्ति, जिसका अपनी निजी भाषापर अधिकार नहीं हो, कभी भी दूसरी भाषामे कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता।’

हिंदी भाषा हिंदुस्तानके ४३ प्रतिशत भारतवासियोद्वारा प्रयुक्त होती है। यह उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्यप्रदेशकी प्रमुख भाषा है। इसके पीछे हिंदू-धर्म, भारतीय संस्कृति और हमारे देशके युग-युगके पवित्रम सस्कार छिपे हुए हैं। इस भाषाका उद्गम सस्कृतसे होनेके कारण यह बँगला और मनाठीके भी समीप है।

अत प्रत्येक हिंदूको हिंदी भाषा और हिंदू वेश-भूपाको अपनानेमे गर्वका अनुभव करना चाहिये। इन तत्त्वोके प्रचारसे हिंदू-धर्मका व्यापक प्रसार और भावात्मक एकताकी स्थापना हो सकती है। हिंदीका प्रचार हिंदुत्वका प्रसार है। हिंदू-धर्मकी समस्त उत्कृष्ट मान्यताएँ, जातीय आदर्श, महत्त्वाकाक्षाएँ, प्रतिनिधि विचार, प्राचीन वैभव और भावी उन्नति इसी भाषाको व्यापक बनानेमे निहित हैं। प्रत्येक हिंदू अपना धर्म समझकर हिंदीमे प्रकाशित धार्मिक साहित्य का अध्ययन करे, परिवारमे धार्मिक पुस्तकालय स्थापित करे और हिंदी धार्मिक साहित्य खरीदकर दान करे।

संकटके समय आशा नहीं छोड़नी चाहिये बलिष्ठता बाहरी नहीं, भीतरी जरूरी है

मार्क रूदरफोर्ड नामक लेखकने अपने जीवनचरितमें एक दुर्घटनाका उल्लेख किया है। बचपनके दिनोकी बात है। एक बार मार्क रूदरफोर्ड समुद्र-तटपर खड़े थे। दूर समुद्रमे एक जहाज भी लगर डाले खडा था। बालक रूदरफोर्ड की इच्छा हुई कि वह तैरकर उस जहाजका चक्कर लगा आये। उसने तैरने-मे अति कुशलता प्राप्त कर ली थी और दस फुट नीचे डूबकी लगाकर तहमेसे पत्थर निकाल सकनेका उसे अभ्यास था। वह जवान लडका था। जहाज तटसे दो सौ गज दूर लगर डाले खडा था।

वह तैरकर जहाजतक सरलतासे पहुँच गया, किंतु ज्यों ही वह लौटने लगा, दुर्भाग्य कहिये या दुर्बुद्धि, उसके मनमे यह मूर्खतापूर्ण, कायर और निराशाजनक विचार आया कि वापसीका वह फासला उसकी शारीरिक शक्तिकी अपेक्षा अधिक है और वह तटपर वापिस पहुँचनेसे पूर्व मर जायगा। उसमे इतनी शक्ति नहीं है कि दुबारा जहाँसे आया है, वहाँ सुरक्षित जा पहुँचे। अपनी कुकल्पनामे उसने अनुमान किया कि वह मर जायगा। उसने डूबनेमे पहले ही स्वयंको डूबा हुआ समझ लिया। मृत्यु-की अन्तिम घड़ियाँ गिनने लगा। उसकी शक्ति क्षीण हो गयी।

परंतु मन फिर बदला। अन्धकारमय क्षितिजसे आशाकी क्षीण रश्मि उदित हुई।

उसने अब सोचा, 'मरना तो है ही, भायनक खतरा भी है,

किनारा घुंघला नजर आता है, डूबनेसे पहले क्यों न एक और सघर्ष कर लें। मनने यह भी कहा, मुझे अभी तक स्पष्ट याद है, जलसमाधि लेनेसे पूर्व मेरा यह आखिरी सघर्ष होगा—‘एक वीरतापूर्ण प्रयत्न—और मैंने अपने टूटे हुए साहसको बटोरा, नये साहसमे फिर पूर्ण कोशिश की। मैंने ऐसे तरीकेसे प्रयत्न किया (पता नहीं, ईश्वरने कहाँसे मुझे वह साहस दे दिया था) मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैंने अपनी इच्छा-शक्तिका पूरा जोर अपने भयपर लगा दिया।

। एक ही पलमे वह भयानक क्षण समाप्त हो गया और मनमे यह विश्वास जम गया कि मैं बच सकता हूँ। ईश्वरकी गुप्त शक्ति मेरे साथ है। मुझे तैरना आता है। जब मैं तैरकर आया हूँ, तो वापिस भी जा सकता हूँ। मनमें धैर्य छा गया। मैंने आरामसे बाँहे फेंकनी शुरू कर दी और समुद्रको थोड़ी देरमे ही पार कर तटपर पहुँच गया ! भीतरसे ईश्वरीय शक्तिने मुझे बचाया।

इस दुर्घटनाका उल्लेख करना इसलिये महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि यह इस बातको दिखाती है कि धैर्य छोड़नेवाले व्यक्तिको यह कभी नहीं समझना चाहिये कि उसने जो कुछ भी वह कर सकता था, अन्तिम रूपसे, अपनी पूरी शक्तिसे कर लिया है। यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि इस सकटका सामना मैंने एकाएक मनमे उत्पन्न आत्म-विश्वास और पूर्ण प्रयत्नसे किया। इससे मेरी विजय दसगुनी आसान हो गयी थी।

वास्तवमे सदा-सर्वदा सकटके समय साहस देनेके लिये

परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है। भीतरसे ही वह हमारी मुक्ति-का प्रयत्न करता रहता है।

ईश्वरीय सहायता अंदरसे मिला करती है

संकटके समय हम धैर्य और साहससे काम लें, पुरुषार्थकी बात सोचें और कठिनाइयोसे लड़ने और उन्हें परास्त करनेका चाव रखें, अपनी उत्तम शक्तियोंके ऊपर विश्वास रखे, तो सचमुच हम संकटको बिना हानिके पार कर सकते हैं।

बाल कितना छोटा-सा होता है, पर वस्तुतः वह अंदर गहरी जड़ें रखता है। उसी प्रकार मनुष्यके साहसकी गहरी जड़ें उसके विश्वासमें हैं। यह पराक्रम और पुरुषार्थ हमारे भीतर मौजूद है।

जो व्यक्ति बाहरसे बलवान् किन्तु भीतरसे दुर्बल है, वह किसी आंधी-तूफानसे खोखले पेड़की तरह उखड़कर गिर जायगा और परिस्थितियाँ अनुकूल न हुईं तो कभी भी ऊपर न उठ सकेगा। किन्तु जिस व्यक्तिमें भावात्मक बलिष्ठता होगी, हिम्मतकी पूंजी जमा रही होगी, उसे विपरीत परिस्थितियोंसे लड़नेमें कोई बड़ी परेशानीका अनुभव न होगा।

भीतरी बल (आत्मबल) सूर्यकी प्रखर तेजस्विता-जैसा है, जो घने बादलोको चीरकर भी अपने अस्तित्वका परिचय देता रहता है। आत्मविश्वासके बराबर सहारा ससारकी और किसी सहायता और सुविधासे नहीं मिल सकता है।

दीवता और दुर्बलता दिखाकर या अपनेको कमजोर मानकर जो दूसरोंकी सहायताकी आशा रखते हैं, वे भ्रममें हैं।

उनके एक घनिक मित्र उनके पास आये। शिष्टाचारकी औपचारिक बातें होनेके बाद उन्होंने अशर्फियोंकी एक थैली निकाली और बड़े आदरसे उन्हें भेंट करते हुए कहा—

‘हमारे और आपके अतिरिक्त इस धनराशिकी बात कोई नहीं जान सकेगा। कृपा कर आप इस थैलीको रखिये और मेरा काम कर दीजिये। भला, इसे कौन देखता है? कोई भी इस धनके विषयमें चर्चा नहीं करेगा और आपकी प्रतिष्ठाकी भी कोई हानि नहीं होगी। इस गुप्त बातसे निश्चिन्त रहिये। मुझसे यह तथ्य कही नहीं फूटेगा।’

धनका लोभ बड़े-बड़े व्यक्तियोंको धर्मके मार्गसे डिगा देता है। आये हुए पैसेको कौन छोड़ता है? और विशेषकर जब वह किसी विश्वस्त व्यक्तिके द्वारा दिया जाय।

वे महोदय यह मान बैठे थे कि रिश्वत स्वीकार कर ली जायगी तथा उनका अनैतिक कार्य चुपचाप हो जायगा।

पर न्यायाधीशके धर्मने अपनी आवाज ऊँची की। वे सदासे धर्मको दैनिक व्यवहारमें लानेके पक्षपाती रहे थे। उनकी अन्तरात्माने उन्हें नैतिक बल दिया और वे बोले—

‘मित्र! यह मत कहो कि इस अनैतिक धनको कोई नहीं देखता! नैतिकता मानव-स्वभावका एक अनिवार्य अङ्ग है। मनुष्यकी गुप्त धर्मबुद्धिसे स्वयं उसे आन्तरिक तृप्ति और मन शान्ति मिलती है। जिस दृष्टिसे हम दूसरोंके कार्योंकी आलोचना करते हैं, उसी कटु दृष्टिसे स्वयं अपनी भी आलोचना करनी चाहिये।

इस अनैतिक धनको मासके नेत्र तो नहीं, पर घर और घरती देखते हैं। आकाशके सैकड़ों नेत्र हमारे गुप्त कार्योंको देखते हैं और तबका मालिक असख्य नेत्रोवाला परमेश्वर तो दिन-रात प्रतिपल हमारे बाह्य और आन्तरिक कार्योंको देखता रहता है। मैं यह अनैतिक धन कदापि न लूंगा। अपनी नैतिक बुद्धिके अनुसार ही आपके मुकदमेका निर्णय दूंगा।'

न्यायाधीशने अनैतिक धन नहीं लिया। धर्मकी ही विजय रही।

मैं धर्मबुद्धिकी अवहेलना नहीं करूँगा

सन् १९१५ की एक घटना है—

लोकमान्य तिलकका विचार विदेश जानेका हुआ। धन और यातायात-सम्बन्धी अनेक अड़चने तो थी ही, पर एक और अप्रत्याशित कठिनाई आ उपस्थित हुई।

बात यो हुई कि समुद्रयात्राके विरुद्ध तत्कालीन रूढ़ि खड़ी हो गयी। उन दिनों समुद्र-यात्रा धर्मके विरुद्ध मानी जाती थी। जो लोग मन कडा करके विदेश-यात्राको चले जाते थे, उनको जाति-च्युत कर दिया जाता था। इससे कोई विदेश-यात्राकी बात ही नहीं सोच पाता था।

तिलकने सोचा, 'उन्नति और देशकी प्रगतिके लिये विदेशोंमें जाकर देखना चाहिये कि उनकी उन्नतिका क्या रहस्य है। पुराने पण्डितोंसे यदि विदेश जानेकी अनुमति मिल जाय तो फिर कोई नैतिक अड़चन न रहेगी।'

यह सोचकर महामान्य तिलक काशी पहुँचे और वहाँके एक

म० बी० फू० १२—

कठिनाइयाँ जीवन-विकासके लिये अनिवार्य है

कार्लाइल नामक अंग्रेजीके विद्वान्ने बड़े अनुभवकी बात लिखी है, जिसका एक-एक शब्द नयी प्रेरणासे परिपूर्ण है—

मनुष्यको कठिनाइयोसे द्वेष नहीं, प्रेम ही करना चाहिये। उन्हे जीवस्वरूपी पाठशालाके लिये जरूरी मावना चाहिये। कठिनाइयोकी टक्करसे आदमीमें शक्ति आती है। अखाड़ेमें कुश्ती सिखाते हुए उस्ताद शिष्यको बार-बार पटकती देकर गिराता है। चोटें लगती हैं, मोच आती है, झटके लगते हैं, धूल और पसीनेमें लथपथ हो जाता है, भयंकर थकान आती है, पर उसी श्रमसे आदमी मजबूत बनता है। उसके शरीरमें दम आता है। अङ्ग-प्रत्यङ्ग शक्तिशाली बनते हैं।

इसी प्रकार कठिनाइयाँ जीवनमें न आवें, आपत्तियोंका सामना न करना पड़े, मुसीबतोंसे टक्कर न हो, तो मनुष्यका जीवन नितान्त निष्क्रिय तथा निरुत्साहपूर्ण बन जाय। इसलिये जिंदगीको बनानेके लिये कठिनाइयोको जीवन-विकासके लिये एक अनिवार्य उपाय मानकर उनका स्वागत करना चाहिये। उनकी चुनौती स्वीकार करनी चाहिये और एक आपत्तिको सौ कष्ट सहकर भी दूर करते रहना चाहिये। यही पुरुषार्थ है, यही मनुष्यता है और यही सफलता तथा उन्नतिका एकमात्र उपाय है।

‘श्रसमं क्षत्रमममा मनीषा ।’ (ऋग्० १ । ५४ । ८)

अर्थात् अतुलित शौर्य और असोम बुद्धि धारण करो। जहाँ अदम्य साहस और दूरदर्शिता है, वहाँ सब कुछ है।



अनुभवकी असूल्य निधियाँ

धर्म हमारे दैनिक जीवनका साथ और पथ-प्रदर्शक है, प्रतिदिन और प्रतिपल व्यवहारमें आनेवाली जीवनपद्धति है। अनेक महान् व्यक्तियोंके जीवनमें धर्मने उन्हें पाप-पङ्कसे बचाया है। यहाँ कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

ईश्वर सब कुछ देखता है

मंगोलियामे चागशेन नामक एक न्यायाधीश रहते थे। वे बड़े धार्मिक वृत्तियोंके पुरुष थे। वे धर्मको सदा दैनिक व्यवहारमें लाया करते थे। इस कारण अनेक बार उन्हें अभावग्रस्त जीवन भी व्यतीत करना पड़ता था।

एक दिनकी बात है—

उनके एक घनिक मित्र उनके पास आये । शिष्टाचारकी औपचारिक बात होनेके बाद उन्होंने अशफियोकी एक थैली निकाली और बड़े आदरसे उन्हे भेंट करते हुए कहा—

‘हमारे और आपके अतिरिक्त इस धनराशिकी बात कोई नहीं जान सकेगा । कृपा कर आप इस थैलीको रखिये और मेरा काम कर दीजिये । भला, इसे कौन देखता है ? कोई भी इस धनके विषयमे चर्चा नहीं करेगा और आपकी प्रतिष्ठाकी भी कोई हानि नहीं होगी । इस गुप्त बातसे निश्चिन्त रहिये । मुझसे यह तथ्य कही नहीं फूटेगा ।’

धनका लोभ बड़े-बड़े व्यक्तियोंको धर्मके मार्गसे डिगा देता है । आये हुए पैसेको कौन छोड़ता है ? और विशेषकर जब वह किसी विश्वस्त व्यक्तिके द्वारा दिया जाय ।

वे महोदय यह मान बैठे थे कि रिश्वत स्वीकार कर ली जायगी तथा उनका अनैतिक कार्य चुपचाप हो जायगा ।

पर न्यायाधीशके धर्मने अपनी आवाज ऊँची की । वे सदासे धर्मको दैनिक व्यवहारमे लानेके पक्षपाती रहे थे । उनकी अन्तरात्माने उन्हे नैतिक बल दिया और वे बोले—

‘मित्र ! यह मत कहो कि इस अनैतिक धनको कोई नहीं देखता । नैतिकता मानव-स्वभावका एक अनिवार्य अङ्ग है । मनुष्यकी गुप्त धर्मबुद्धिसे स्वयं उसे आन्तरिक तृप्ति और मन शान्ति मिलती है । जिस दृष्टिसे हम दूसरोके कार्योंकी आलोचना करते हैं, उसी कटु दृष्टिसे स्वयं अपनी भी आलोचना करनी चाहिये ।

स अनैतिक घनको मासके नेत्र तो नहीं, पर घर और घरती देखते हैं। आकाशके सैकड़ों नेत्र हमारे गुप्त कार्योंको देखते हैं और सबका मालिक असख्य नेत्रोवाला परमेश्वर तो दिन-रात प्रतिपल हमारे बाह्य और आन्तरिक कार्योंको देखता रहता है। मैं यह अनैतिक घन कदापि न लूंगा। अपनी नैतिक बुद्धिके अनुसार ही आपके मुकदमेका निर्णय दूंगा।'

न्यायाधीशने अनैतिक घन नहीं लिया। धर्मकी ही विजय रही।

मैं धर्मबुद्धिकी अवहेलना नहीं करूँगा

सन् १९१५ की एक घटना है—

लोकमान्य तिलकका विचार विदेश जानेका हुआ। घन और यातायात-सम्बन्धी अनेक अड़चने तो थी ही, पर एक और अप्रत्याशित कठिनाई आ उपस्थित हुई।

बात यो हुई कि समुद्रयात्राके विरुद्ध तत्कालीन रूढ़ि खड़ी हो गयी। उन दिनों समुद्र-यात्रा धर्मके विरुद्ध मानी जाती थी। जो लोग मन कडा करके विदेश-यात्राको चले जाते थे, उनको जाति-च्युत कर दिया जाता था। इससे कोई विदेश-यात्राकी बात ही नहीं सोच पाता था।

तिलकने सोचा, 'उन्नति और देशकी प्रगतिके लिये विदेशोंमें जाकर देखना चाहिये कि उनकी उन्नतिका क्या रहस्य है। पुराने पण्डितोंसे यदि विदेश जानेकी अनुमति मिल जाय तो फिर कोई नैतिक अड़चन न रहेगी।'

यह सोचकर महामान्य तिलक काशी पहुँचे और वहाँके एक
म०जी० फू० १२—

प्रमुख महामहोपाध्यायसे प्रार्थना की कि 'समुद्र-यात्रासे धर्महानि न होनेकी कोई व्यवस्था वे दे दे तो बड़ा अच्छा हो।'

पण्डितजीने तिलककी प्रार्थनाको सुना। उन्होंने सोचा कि अच्छा अवसर है। इस मौकेपर तिलकसे रुपया निकालना चाहिये। वे कदाचित् पहले भी धर्मकी आड़मे इसी प्रकार दूसरोसे अपना स्वार्थ-साधन करते रहे थे। अब फिर रुपयेका लोभ सामने आया। उन्होंने समस्याका हल प्रस्तुत करते हुए कहा—

'यह यात्रा धर्मशास्त्रके विरुद्ध है। साधारण स्थितिमें हम किसीको आज्ञा नहीं देते; किंतु आप यदि प्रायश्चित्तरूपमें पाँच हजार रुपये व्यय कर सकें तो विदेश-यात्रा करने और धर्म भी बनाये रहनेकी आज्ञा मिल सकती है। कहिये, क्या आप इस राशिका प्रबन्ध कर सकेंगे?'

तिलक किसी भी शर्तपर विदेश जानेको प्रस्तुत थे। वे यह रुपया आसानीसे जुटा सकते थे। उनकी आर्थिक हालत भी ठीक थी। वे रुपयेकी व्यवस्था करके जब रुपये देने चलने लगे, तब एकाएक उनकी अन्तरात्माने झकझोरकर कहा—

'धर्म ईश्वरका विधान है। नैतिकता हमारे समाजका सुदृढ आधार है। यदि यों धर्मबुद्धिकी अवहेलना की जायगी तो समाजकी नैतिक व्यवस्था खण्ड-खण्ड हो जायगी। मुझे अपने स्वार्थवश यह अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिये।'

उनका अचेतन मन बार-बार उन्हें नैतिक बुद्धिके विरुद्ध कार्य करनेपर धिक्कारने लगा। उनकी धर्मबुद्धि रुपये देकर धर्मको

अपने पक्षमे करनेके लिये धिक्कारने लगी । अपना काम उन्हे अनुचित दिखायी देने लगा । नैतिकताके विरुद्ध आचरण करनेपर उन्का भीतरी मन उन्हे कोसने लगा । वे किसी भी प्रकार अपनी धर्मबुद्धिको चुप न कर सके ।

अन्तमे उन्होंने यह निश्चय किया कि अधर्म और स्वार्थ-बुद्धिको अपने ऊपर हावी नही होने देगे । धर्मको रूपयोके द्वारा कलङ्कित नही करेगे ।

वे रूपया लिये उलटे पैरो वाहस लोट आये और बिना व्यवस्थाके ही कार्य चलाया । उन्होंने नैतिकताकी अवहेलना नही की और इससे उनके गुप्त मनमे बड़ी शान्ति रही ।

सबसे बड़ा धर्म मानवता की सेवा

कलकत्तेमे 'स्वामी रामकृष्ण-मठ'की स्थापना हो चुकी थी । उसके सारे भक्त सन्यास लेकर मठमे प्रवेश कर चुके थे । मठका आर्थिक प्रबन्ध मठके खर्चके लिये लगी जमीनके लाभसे चलता था । संन्यासियोंको भजन पूजनके अतिरिक्त और कोई कार्य न था ।

सयोगसे तभी कलकत्तेमे प्लेगका प्रकोप हुआ ।

लोग बुरी तरह बीमार होने और मरने लगे । स्वामी विवेकानन्दजीसे यह न देखा गया और उन्होंने धार्मिक मठको शुश्रूषा और चिकित्सा-शिविरमें बदल दिया । सारे अध्यात्म-साधकोंको सेवा-कार्योंमें लगा दिया और कहा—

'बन्धुओ ! आज धर्मका रूप बदल रहा है । भगवान्ने अपने सच्चे भक्तों और संन्यासियोंकी परीक्षा ली है । आज

श्रीरामकृष्णजीको इस माँगपर आश्चर्य हो रहा था। यह भूख मिटानेको धन क्यों नहीं माँगता ? उन्होंने फिर उन्हें माताके पास भेजा।

एक बार नहीं तीन बार भेजा—अपनी माँग प्रस्तुत करने और माँके द्वारा उसे पूर्ण होनेका विश्वास दिलाकर।

किंतु आप जानते हैं क्या हुआ ?

स्वामी विवेकानन्द एक बार भी माँसे रुपया-पैसा न माँग सके।

संसारसे अज्ञान दूर करना भी एक बड़ा धर्म है

स्वामी विवेकानन्दजीको अपने गुरुकी कृपासे ईश्वरीय दर्शनके साथ तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया था। वे काशीपुरके एक वागमे अपने गुरुकी परिचर्या कर रहे थे।

ज्ञान प्राप्त होते ही स्वामाजीके मनमे एक विचार आया—

‘बस, अब मैं संसार त्यागकर एकमात्र समाधिस्थ होकर परमानन्दका अनुभव करता हुआ सम्पूर्ण जीवन एकान्त साधनामे बिताऊँगा।’

अन्तर्यामी गुरुने यह बात जान ली और कहा—

‘विवेकानन्द ! तुम्हारा यह स्वार्थपूर्ण परमार्थ उचित नहीं। अभी तुम्हे छुट्टी नहीं है। समाज और संसारसे अज्ञान दूर करना भी धर्म है और यह व्यावहारिक धर्म-कार्य अब तुम्हें सम्पन्न करना है। एकान्तमें बैठकर आत्मसुखका आनन्द तुम्हे अभी नहीं लेना है। अभी अपनी विद्या-बुद्धिद्वारा नैतिक जागरण करो।’

अब विवेकानन्दजी क्या करते !

उन्होंने गुरुकी आज्ञाको शिरोधार्य किया। ब्रह्मानन्दमे लीन हो एकात्ममें बैठ जानेकी अपेक्षा लोक-सेवामें तन-मनसे लग गये।

धर्मने पापसे रक्षा की थी

महात्मा गांधी बचपनमे न जाने कैसे कुसङ्गतिमे पड़ गये। कुसङ्गति संक्रामक रोगकी तरह विषैली है। उसमे पड़कर मनुष्य प्रायः वे बुरे कार्य करनेपर उतारू हो जाता है, जो सम्भवतः वह साधारण जीवनमे नहीं करेगा।

युवक गांधी एक ऐसी कुविचारपूर्ण दूषित परिस्थितिमे पहुँच गये, जिसमे सिगरेट पीना, मांस खाना और पर-स्त्री-गमन-जैसा पाप कर सकते थे। दुष्ट मित्र उन्हें फुसलाकर एक वेश्याके यहाँ ले गया। वे एक बड़ी ही नाजूक परिस्थितिमें थे। साधारण संस्कारोंवाला मामूली युवक जरूर पथभ्रष्ट हो जाता, पर अकस्मात् गांधीजीके बचपनके धार्मिक सात्त्विक संस्कार जाग उठे। उन्हें इस पापसे बचानेके लिये उनकी धर्मबुद्धि ढालकी तरह रक्षाके लिये खड़ी हो गयी।

जिस प्रकार सख्त डालीको आसानीसे जिघर चाहे, उधर नहीं मोड़ा जा सकता, अथवा कच्चे बर्तनपर बने घब्बे पकनेपर नहीं मिटाये जा सकते, उसी प्रकार मनुष्यके बचपनके धार्मिक संस्कार भी सरलतासे नहीं मिटाये जा सकते। गांधीजीको बचपनसे ही सिखाया गया था कि सिगरेट, मांस-मदिरा और परस्त्री-गमन भयंकर पाप है। मनुष्यको इनसे सावधान रहना चाहिये।

गांधीजीकी अन्तरात्मा इस पापके लिये अंदरसे उनकी भर्त्सना

मनुष्यता और महामारीके बीच संग्राम छिड़ गया है। आज मठके प्रत्येक संन्यासीको अपने धर्मकी परीक्षा देनी है, अपनी सचाईका प्रमाण देना है। रोगी, अनाथ, अपग, दुर्बल तथा निस्सहायकी परिचर्या धर्मका अङ्ग है। रोगियोंकी इतनी सेवा और परिचर्या करो, इतनी सहानुभूति बरसाओ कि मठमे आया हुआ कोई भी रोगी मृत्युसे पराजित न होने पाये। धनकी कमी होनेपर मैं मठकी भूमि बेच दूंगा। चिन्ता न करना। सेवा धार्मिक कार्य है। रोगियोंकी सेवा ही प्रभुकी सेवा है।

स्वामी विवेकानन्दजीकी प्रभावोत्पादक पुकारपर मठके सब संन्यासी रोगियोंकी सेवामें धार्मिक कार्यकी तरह जुट गये।

धन नहीं—ज्ञान, भक्ति और विवेक चाहिये

स्वामी विवेकानन्दजी (उस समयके नरेन्द्र) के पिताने जिस बहुतायतसे धन कमाया, उससे अधिक तत्परतासे उसे खर्च भी कर डाला। नतीजा यह हुआ कि जब उनका स्वर्गवास हुआ, तब परिवारकी आर्थिक स्थिति डावाँडोल हो गयी, गुजारा चलना भी कठिन हो गया।

स्वामीजी (नरेन्द्र) उस समय बी० ए० पास कर चुके थे, पर दुर्भाग्यसे उन्हें बहुत प्रयास करनेपर भी कोई नौकरी नहीं मिल सकी। उनकी माँ और छोटे भाई-बहिनोके भूखे रहनेकी नौबत आ गयी।

बी० ए० होकर भी आर्थिक मजबूरी थी। बड़ी बिकट

परिस्थितिमे वे पिस रहे थे । आखिर करें तो क्या उपाय करें । प्रत्यक्ष कोई तरकीब नहीं सूझती थी ।

आखिर विवश और परीशान होकर वे अपने गुरु श्रीरामकृष्ण परमहंसजीके पास गये और अपनी आर्थिक विवशताकी दर्दनाक हालत उनसे कह सुनायी ।

श्रीरामकृष्णजीने बहुत सोचा । फिर उनसे कहा—

‘आज तुम काली मातासे जो कुछ माँगोगे, वह सब मिल जायगा; क्योंकि तुम्हारी भक्ति सच्ची है । विश्वासमे ही बल है । श्रद्धा सदा-सर्वदा फलवती होती है । जाओ, माँग लो जाकर ।’

स्वामी विवेकानन्दजी परीशान थे । मजबूरी क्या नहीं कराती ? क्षुधातुर आदमी कुछ-का-कुछ कर बैठता है, धर्म-अधर्मका विवेकतक प्रायः नष्ट हो जाता है ।

स्वामीजीकी भक्ति निश्चय ही अटूट थी ।

वे आधी रातके बाद रुपयेकी सहायताकी माँग करनेके लिये काली माताके मन्दिरमे गये ।

ओफ ! यह क्या हुआ ! यह कैसा परिवर्तन !

अब स्थिति यह थी कि वे हाथ जोड़े खड़े हैं और जो कहना चाहते थे, वह एकाएक भूल गये हैं ।

वे अपने लौकिक स्वार्थको विस्मृतकर यह शब्द बोलने लगे—

‘माँ ! मैं और कुछ नहीं चाहता । मुझे केवल ज्ञान दे । भक्ति दे ! विवेक दे और सांसारिक प्रपञ्चोसे वैराग्य दे ।’

श्रीरामकृष्णजीको इस माँगपर आश्चर्य हो रहा था। यह भूख मिटानेको घन क्यों नहीं माँगता ? उन्होंने फिर उन्हें माताके पास भेजा।

एक बार नहीं तीन बार भेजा—अपनी माँग प्रस्तुत करने और माँके द्वारा उसे पूर्ण होनेका विश्वास दिलाकर।

किंतु आप जानते हैं क्या हुआ ?

स्वामी विवेकानन्द एक बार भी माँसे रुपया-पैसा न माँग सके।

संसारसे अज्ञान दूर करना भी एक बड़ा धर्म है

स्वामी विवेकानन्दजीको अपने गुरुकी कृपासे ईश्वरीय दर्शनके साथ तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया था। वे काशीपुरके एक बागमे अपने गुरुकी परिचर्या कर रहे थे।

ज्ञान प्राप्त होते ही स्वामाजीके मनमे एक विचार आया—

‘बस, अब मैं संसार त्यागकर एकमात्र समाधिस्थ होकर परमानन्दका अनुभव करता हुआ सम्पूर्ण जीवन एकान्त साधनामे बिताऊँगा।’

अन्तर्यामी गुरुने यह बात जान ली और कहा—

‘विवेकानन्द ! तुम्हारा यह स्वार्थपूर्ण पश्चात्तं उचित नहीं। अभी तुम्हे छुट्टी नहीं है। समाज और संसारसे अज्ञान दूर करना भी धर्म है और यह व्यावहारिक धर्म-कार्य अब तुम्हे सम्पन्न करना है। एकान्तमे बैठकर आत्मसुखका आनन्द तुम्हें अभी नहीं लेना है। अभी अपनी विद्या-बुद्धिद्वारा नैतिक जागरण करो।’

अब विवेकानन्दजी क्या करते !

उन्होंने गुरुकी आज्ञाको शिरोधार्य किया। ब्रह्मानन्दमें लीन हो एकान्तमें बैठ जानेकी अपेक्षा लोक-सेवामें तन-मनसे लग गये।

धर्मने पापसे रक्षा की थी

महात्मा गांधी बचपनमे न जाने कैसे कुसङ्गतिमें पड़ गये। कुसङ्गति संक्रामक रोगकी तरह विषैली है। उसमे पड़कर मनुष्य प्रायः वे बुरे कार्य करनेपर उतारू हो जाता है, जो सम्भवतः वह साधारण जीवनमे नहीं करेगा।

युवक गांधी एक ऐसी कुविचारपूर्ण दूषित परिस्थितिमें पहुँच गये, जिसमें सिगरेट पीना, मास खाना और पर-स्त्री-गमन-जैसा पाप कर सकते थे। दुष्ट मित्र उन्हें फुसलाकर एक वेश्याके यहाँ ले गया। वे एक बड़ी ही नाजूक परिस्थितिमें थे। साधारण संस्कारोंवाला मामूली युवक जरूर पंथभ्रष्ट हो जाता, पर अकस्मात् गांधीजीके बचपनके धार्मिक सात्त्विक संस्कार जाग उठे। उन्हें इस पापसे बचानेके लिये उनकी धर्मबुद्धि ढालकी तरह रक्षाके लिये खड़ी हो गयी।

जिस प्रकार सख्त डालीको आसानीसे जिघर चाहे, उधर नहीं मोड़ा जा सकता, अथवा कच्चे बर्तनपर बने घब्बे पकनेपर नहीं मिटाये जा सकते, उसी प्रकार मनुष्यके बचपनके धार्मिक संस्कार भी सरलतासे नहीं मिटाये जा सकते। गांधीजीको बचपनसे ही सिखाया गया था कि सिगरेट, मास-मदिरा और परस्त्री-गमन भयंकर पाप है। मनुष्यको इनसे सावधान रहना चाहिये।

गांधीजीकी अन्तरात्मा इस पापके लिये अंदरसे उनकी भर्त्सना

करने लगी। नतीजा यह हुआ कि वे पापसे बच गये। धार्मिक संस्कारोकी शिक्षा-दीक्षा तथा अभ्यासने उन्हें व्यभिचारके पाप-पङ्कसे बचा लिया।

धर्मबुद्धि सदा हमे पापोंसे सावधान करती है। वह ईश्वरकी आवाज हैं, जो सदा मनुष्यको ठीक मार्गपर ही चलाती है।

• दूसरोंकी सेवाका ध्यान

अहमदाबाद जेलसे छूटनेके बाद पण्डित नेहरूने एक सार्वजनिक सभामें बोलते हुए बताया कि वे निकट भविष्यमें मलाया जानेवाले हैं।

भाषण समाप्त होनेपर उनके पास एक पर्चा आया। उसमें लिखा था—'मेरा बेटा बीमार है। उसके इलाजके लिये अमुक दवा चाहिये। यह दवा मलायाके अतिरिक्त कहीं नहीं मिलती। आप मलाया जा रहे हैं। यदि वापसीमें आप यह दवा लेते आयें, तो बड़ी कृपा होगी।'

नीचे उस व्यक्तिने अपना पूरा पता लिख दिया था।

कहाँ भारत-जैसे देशका एक महान् नेता और कहीं एक मामूली व्यक्तिका उनसे दवाई लानेके लिये आग्रह। कोई और होता तो वह पर्चेको मड़ोरकर यों ही फेंक देता। पर नेहरूजी दूसरोंकी सेवाको धर्मका एक व्यावहारिक अङ्ग समझते थे। जिससे जिसकी जितनी सेवा बने, उसे उतनी सेवा अवश्य करनी चाहिये। रोगियों, गुरुजनो, निर्बलो, वृद्धों और असहायोकी सेवा धर्म है। मलायाके आवश्यक एवं व्यस्ततम कार्यक्रमोंके बीच नेहरूजी वह

दवा लाना न भूले और उसी हिफाजतसे रक्खे हुए मौलिक पर्चोंके आधारपर भारत आकर दवा उस रोगीके पास भिजवा दी ।

एक बार पण्डित नेहरू कमला नेहरू अस्पताल जा रहे थे । मार्गमें उनकी दृष्टि अपने पिताके समयकी अपङ्ग जमादारिनपर पड़ी । उस जमादारिचने नेहरूजीको गोद खिलाया था । वे तुरंत कार रुकवाकर उतर पड़े और दौड़कर उसके गलेसे लिपट गये ।

गद्गद कण्ठसे पूछने लगे, 'मेरी लछमिनियाँ माई ! अब तुम कैसी हो ?'

जमादारिन प्यारमें आशीर्वाद देकर भावुकतामें रो पड़ी । पण्डितजीका आत्मभाव, परदुःखकातरता और सेवाभाव इतने बढ़े हुए थे कि वे सबका ध्यान रखते थे । उन्होंने जमादारिनके जीवनको समुचित व्यवस्था कर दी ।

सन् १९२९ की बात है—

महात्मा गांधीजीके सार्वदेशिक दौरेके समय श्रीप्रकाशजी और पण्डित नेहरू मसूरीके एक कमरेमें ठहरे हुए थे । एकाएक श्रीप्रकाशजीको सिरदर्दका दौरा पड़ गया । जब नेहरूजी दिनभरके कामसे थककर कमरेमें लौटे तो देखा कि श्रीप्रकाशजी आँखे बंद किये पड़े हैं और नौकर उबका सिर दबा रहा है ।

पण्डित जवाहरलालने हाल पूछा । चिन्तित हो गये और सहायता-सेवाकी दृष्टिसे लगभग दो-डेढ़ मील चलकर एक केमिस्टकी दूकानसे सिरदर्द दूर करनेकी गोलियाँ लेकर आये और रोगी

श्रीप्रकाशजीको खिलायी । इससे उनका दर्द कम हुआ और वे सुखकी नींद सो सके ।

इसी प्रकार १९३३ में कांग्रेसकार्यकारिणीके एक सदस्य श्रीरामशरणको सिरदर्द हुआ । जब श्रीनेहरूको पता चला तो उनका सिर दबाते हुए दवा मलने लगे । बहुत कुछ मना करनेपर भी वे तबतक उनका सिर दबाते और दवा मलते रहे, जबतक कि रोगी महाशय सो नहीं गये ।

ये घटनाएँ स्पष्ट करती हैं कि धर्मका एक व्यावहारिक पक्ष भी है, जो दैनिक जीवनमें प्रतिपल प्रतिपग काममें आनेवाला है । धर्म एक व्यावहारिक जीवन-पद्धति है । हमे अपने गुणोंका और आत्माका विकास उन्हे समाजके हितमें लगाकर ही करना चाहिये । गुणोंकी परख आपत्ति-कालमें ही होती है । कष्ट और कठिन परिस्थितियोंमें भी हम धर्मको धारण किये रहे । मनुष्यकी उन्नतिका यही मार्ग है ।

मनुष्यमें सद्गुणोंकी खान भरी पड़ी है । ईश्वर अन्तरात्मामें बसे हुए हैं । आवश्यकता इस बातकी है कि हम उन्हे दैनिक जीवन और व्यवहारके द्वारा प्रत्यक्ष करें । हम श्रेष्ठ बनें दैनिक धर्मको धारण करें तो संसार श्रेष्ठ बनेगा । धर्म हमें अच्छा नागरिक बनाता है । आपमें ईश्वरत्व सो रहा है । भले कार्योंसे, सज्जनता और ईमानदारीसे उसे जाग्रत् कीजिये । धर्मको नित्यप्रतिके व्यवहारमें लाइये । वास्तवमें हमे क्रियात्मक धर्मकी आवश्यकता है । धर्मको जीकर प्रत्यक्ष कीजिये ।

वे उनमें थे, जो जन्मते हैं, पर मरते नहीं

समय-समयपर मनुष्यसमाजमें ऐसी महान् विभूतियाँ चमकती रही हैं, जिन्हें गुदडीके लाल कहा जा सकता है । इन चमकते हीरोके हाल आये दिन पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित होते रहते हैं । यहाँ भिन्न-भिन्न स्थानोंसे संकलित कुछ महकते जीवन-फूलोंकी प्रेरक घटनाएँ दी जा रही हैं, जो आज भी यह प्रमाणित करते हैं कि 'कीर्तिर्यस्य स जीवति,' वे उनमें थे, जो जन्मते हैं, पर मरते नहीं—

१. सौ मोहरोंमें मैं बेशकीमती मानवताको न बेचूंगा

एक बार इटलीकी एक नदी में ऐसी बाढ आयी कि मध्यके कुछ भागके अतिरिक्त, जिसपर एक मकान बना हुआ था, सारा-का-सारा पुल बह गया । उस मकानके दुखी आतँ मनुष्य खिड़कियोंसे आँक-झाँककर करुणा-व्यथित स्वरमें किनारे खड़े लोगों को प्राण बचानेके लिये चीख-चीखकर पुकारने लगे । मकान-

का वहा टूटा हुआ भाग बहनेको था। बाढ़के रूपमे मौत मुँह फँलाये बेचारोको निगलनेको तैयार थी। भयावह दृश्य था !

..... 'अब बहे ! अब गये !! अब डूबे, अब मरे। मौत

'अट्टहास करती, भयानक आकृतिकी मृत्यु !!'

नदीके तटपर दुखी दर्शकोकी विशाल भीड़ खड़ी दर्दनाक दृश्य देख रही थी। सब उन्हे बचाना चाहते थे, पर अपनी जिदगी तो सबको प्यारी है। कौन 'किसीके लिये व्यर्थ ही प्राण दे। दुनिया कितनी स्वार्थी है।

इतनेमें उस जन-समूहमे एक अमीर आदमी दयार्द्र हो उच्च स्वरमे बोला—

'यदि कोई आदमी उस पारके संकटमे फँसे आदमियोको बचा दे तो मैं उसे सौ मोहर इनाममे दूँगा। है कोई साहसी; जो इस इनामको जीते और इस बाढ़मेसे इन अभागोगी प्राण-रक्षा करे।'

एक गरीब युवक सुनता रहा। परोपकार उसके मनमे जगा। घोषणा फिर दुबारा दुहरायी गयी। उच्च स्वरमे दूर-दूरतक घोषित की गयी। उससे न रहा गया।

उस गरीब युवकने साहस किया। वह एक नाविक था, शरीरसे हृष्ट-पुष्ट और मानवताकी सहायताके लिये अदम्य साहस और उत्साह लिये वह नाव लेकर लहरोकी परवा न करते हुए नदीके उस शेष भागतक चला गया। लोग उसके जीवनको संकटमे देखकर समझ रहे थे कि यह भी प्राण खो बैठेगा।

इनामका क्षुद्र मोह उसे सदा-सर्वदाके लिये दुनियासे विदा कर देगा। पैसेका मोह अंधा है।

पर वह साहसी जीता। सैकड़ों मुसीबतों सहता मौतसे लड़ता और उसे परास्त करता, वह वीर अन्ततः। उन संकटमें फँसे व्यक्तियोंको पुनः सुरक्षित तटतक ले आया।

अब सभी उसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा कर रहे थे। अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दोंमें प्रशंसा कर रहे थे। संकटसे बचे हुए व्यक्ति भी कृतज्ञतासे झुके हुए थे।

तब वह घनाढ्य व्यक्ति हर्षित मुद्रामें अपनी घोषणाके अनुसार उस निर्धन युवकको सौ मोहरें इनाममें देने लगा। सब समझ रहे थे कि इस बड़े इनामको पाकर वह गरीब युवक अपने भाग्यकी सराहना करेगा।

पर यह क्या !

उस युवकने सौ मोहरोंका वह इनाम लेनेसे इन्कार कर दिया।

अमीर व्यक्ति दम्भपूर्वक बोला—‘तुम अपने प्राणोंकी परवा न कर मौतके मुँहमें जाकर इन मुसीबतमें फँसे आदमियोंको निकाल लाये हो। हर क्षण तुम्हारे प्राणोंके नष्ट होनेका डर था। तुम्हें अपनी इस मजदूरीको सहर्ष ले लेना चाहिये, यह लो अपनी सौ मोहरें। गिन लो, पूरी हैं न ?’

इसपर उस नाविक युवकने जो कहा, वह मानवताकी धरोहर है। उसपर आज भी सबको गर्व होना चाहिये।

वह बोला—‘मैं सौ मोहरें लेकर मानवताको नहीं बेचूंगा । मैंने धनके लालचमे इन बेचारोको नहीं बचाया है । यह रकम इन्ही बेसहारा आदमियोको दे दीजिये; क्योकि मेरी अपेक्षा इन्हे इनकी अधिक आवश्यकता है ।’

सत्य ही कहा है—

वस्यो भूयाय वसुमान् यज्ञो वसु वंशिषीय वसुमान्
भूयासं वसु मयि वेहि ।

(अथर्ववेद १६ । ६ । ४)

हे मनुष्यो ! ईश्वरपर पूर्ण आस्था रखो और इस ससारमे परोपकार करते हुए श्रेष्ठ पद प्राप्त करो । परोपकारकी पूंजी सदा अक्षय कीर्ति देनेवाली दैवी विभूति है । परोपकारी इस लोकमे प्रसन्न रहता है और मरनेके बाद सदा याद किया जाता है ।

2. एक विधवाका अनुकरणीय त्याग

मुगेरसे भागलपुर जानेवाली सड़कपर लगभग डेढ़ सौ वर्षका पुराना एक पक्का कुआं है । इसे श्यामो पिसनहारीका कुआं कहते हैं । कुएँके आसपास नीम, पीपल और गूलरके पेड हैं, जिनकी ठंडी छायामे यात्रियोको विश्राम करनेके लिये अच्छा स्थान बन गया है । आजसे करीब १५० वर्ष पहले श्यामो नामक सत्तर वर्षीय बुढ़ियाने इसे बनवाया था । इसका नाम आजतक लोगोकी जवानपर चला आता है । इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है—

जब श्यामो केवल १३ वर्षकी थी तो विवाहके एक वर्षके भीतर ही विधवा हो गयी थी । ससुरालमे उसका तिरस्कार किया गया और

उसे गलियाँ दी गयी। वह फिर वापिस बापके पास आ गयी। कुछ दिन तो माँ-बाप जीवित रहे, पर उनका स्वर्गवास हो जानेपर सब कुछ भार उसीपर आ गया। श्यामोने सोचा—

‘युवावस्था बैठे रहनेसे नहीं, मेहनत-मजदूरी और काम करनेसे कटेगी। श्रमकी रोटी खाना ही मनुष्यका धर्म है। जबतक हाँथ-पाँव चलते हैं, कुछ-न-कुछ करना ही चाहिये। धर्मपर डटे रहना, उन्हीके लिये सम्भव होता है, जो अपने शरीर और मनको काम-धधेमे जुटाये रहते हैं। फालतू बैठे रहने-वाले मनुष्यके दिमागमे वासना और पापके विचार आते हैं। उनका रास्ता भटक जानेका भी डर बना रहता है। मैं परिश्रम कर अपने हाथकी रोटी कमाकर खाऊँगी और कुछ परोपकारका कार्य भी करूँगी।’

बस, उसका संकल्प बन गया। सत्संकल्पमे परमेश्वरका निवास होता है।

उसने श्रमका तपस्यामय जीवन अपनाया। विधवा युवती प्रातःकाल दो घटे रात रहे उठती और दिन निकलनेतक पाँच सेर आटा पीस लेती। फिर प्याऊपर काम करती। घास काटकर बेचती। जो भी काम मिलता, उसीको मनोयोगपूर्वक करती रहती। किसीका भोजन बना देती, तो कभी किसीके कपड़े धो देती, सफाईमें सहायता दे देती। दोपहरमे सुस्ताकर फिर आटा पीसना प्रारम्भ करती। फिर तीसरे पहर चर्खा चलाकर सूत कातती। खूब श्रमकी आदत पड़ गयी। जैसा काम मिला वह करती और पैसे इकट्ठी करती रही।

जीवनभरमे उसने ५००) रुपये कमाये। सोचा कि इन्हें किसी घर्मके काममें लगाना चाहिये। आज जहाँ पक्की सड़क है पहले यहाँ कच्चा रास्ता था। पास कोई जल पीनेका स्थान न था। यात्रियोंको इसकी बड़ी कठिनाई रहती थी। उसने अपने जीवनभरकी सारी संचित कमाई वहाँ अच्छा पक्का कुआँ बनवानेमे लगा दी। उन दिनों सस्तेका जमाना था। इतनी थोड़ी-सी पूंजीमे वह कुआँ बन गया। आज भी वह कुआँ उस विधवा स्त्रीकी घर्म-परायणता, परिश्रमशीलता, संयम और अपूर्व त्यागका स्मारण बना हुआ है।

क्या हम इस प्रकारका साहस कर कोई पुस्तकालय, घर्मशाला या प्याऊ इत्यादि नहीं बनवा सकते ?

दिवंगत श्यामोकी आत्मा लोगोंको परमार्थ और उदारताका उपदेश देती है। भले ही उसे कोई न सुने ! वह कहती है कि हम चाहे जिस स्थितिमे हों सत्कर्म करें, दानशील बनें और सुपथसे कभी विचलित न हों।

३. उसकी कीर्ति आज भी महक रही है ?

अम्बाला पैसँजर भटिंडाके पासकी पुलियापरसे गुजरी तो अचानक विस्फारित नेत्रोसे इंजन-ड्राइवर श्रीदौलतरामने देखा कि सामनेकी पुलिया टूटी हुई है। यदि ट्रैन उसपरसे गुजरेगी, तो भयानक नुकसान होगा और हजारो व्यक्ति मक्खियोंकी मौत मर जायेंगे। उसका हृदय मानवीय दया और करुणासे

अभिभूत हो उठा। वह ट्रेनकी इस भयानक दुर्घटनाको सहन नहीं कर सकता था; पर वह क्या करे ?

मृत्युका ताण्डव उसके सामने था। वह कोई योजना सोच रहा था।

उसने पलक मारते सोचा, तुरंत निर्णय किया। क्षणभरमें ही उसने अपनी देह और प्राणोंका पूरा बल लगाकर बैकुण्ठ ब्रेक दबाया। यही वह सोच सका।

इजन एक बड़े झटकेके साथ ठहर गया। गाडियोमे झटके लगे, मुसाफिर गिरे, कोई इषर लुडका तो कोई उधर ! किंतु सौभाग्यसे मरा कोई नहीं !

कम-से-कम दो हजार आदमी मरनेसे बच गये। यह सबसे बड़ा पुण्य कार्य था। पर दौलतरामका क्या हुआ ?

इजनका झटका इतना भयंकर था कि उसने दौलतरामको ब्रेकमे बुरी तरह उलझा दिया। वह देरतक उसीमे फँसा रहा और हाय ! उसीमे उसके प्राण-पखेरू उड गये ! पर मानवताका फूल असमय ही मुरझा कर धूलमें गिर पड़ा ।।

निश्चय ही दौलतरामकी मृत्यु एक शहीदकी मृत्यु है ! वह उनमे एक था, जो जन्मते हैं, पर अपनी कीर्ति चिरस्थायी छोड़ जाते हैं। दौलतरामका बलिदान आज भी अमर है। वह मानवताके अँबेरे-पथको आसोकित करनेवाला है।

४. युद्धके भयावने अँघियारेमें महकती मानवता !

दूसरे महायुद्धकी बात है—

म० जी० फू० १३—

एक जापानी सैनिक गम्भीर रूपसे घायल हो गया। उसके रक्त बह रहा था, धीरे-धीरे कमजोरी आ रही थी और चेहरा मुझाया जा रहा था। मौतकी काली छाया लम्बी होकर उसपर पड रही थी। यह स्पष्ट था कि अब वह इस दुनियामें कुछ ही क्षणोंका मेहमान था।

एक भारतीय सैनिककी प्रसुप्त मानवता अचानक उस युद्ध-भूमिमें भी जाग्रत् हो उठी। उसने सोचा शत्रु है तो क्या! अब इन मरते हुए क्षणोंमें तो इस सैनिकपर दया ही दिखानी चाहिये। मृत्युके इन क्षणोंमें शत्रुता कैसी !'

उसने अपनी झोतलसे चाय निकाली और एक छोटे गिलासमें भरकर वह उस घायल सैनिकको पिलाने चला। उसने धीरे-से बड़े प्रेमपूर्वक उसका सिर अपनी गोदमें रक्खा, चायका प्याला उसके मुंहसे लगाया। बोला—'मेरे मित्र! बुद्धके देशके इस सैनिक के हाथों युद्धके मोर्चेपर वीरता देखी, अब प्यारके हाथों चाय पियो।'

फित्तु हाय ! क्या ? यह कैसी बबरता ! मानवीयताके हृदयमें भयंकर आघात !

उस दुष्ट जापानीने दयाका बदला यह दिया कि अपना चाकू निकालकर उस भारतीय सैनिककी रानमें घोंप दिया। भारतीय सैनिकके रक्त बहने लगा।

अब दोनों फिर गिर पड़े। भारतीय सैनिक के घात तो लगा, पर जापानी सिपाहीकी कमजोरीके कारण घात घातक न हुआ।

कुछ घंटों बाद जापानी घायल सिपाही भारतीय अस्पताल लाया गया। भारतीय सिपाहीकी भी मरहम पट्टी हो गयी। जब वह ठीक हो गया, तो वही हिंदुस्तानी सैनिक दुबारा चायका प्याला लेकर गया और उसे प्रेमपूर्वक पिलाकर ही लौटा।

जापानी सिपाही अब पश्चात्तापसे जल रहा था। उसे अपने कियेपर बड़ी आत्मग्लानि हो रही थी।

जापानी सिपाहीने कह—‘दोस्त ! मैं अब समझा कि बुद्धका जन्म तुम्हारे ही भारतदेशमे क्यों हुआ था।’

मानवता जीवनकी रातरानी है, जो भयावने अंधियारेमें भी महकती है, गमकती है।

५. वह जो अपनी दयालुता और साहसके कारण असाधारण हो उठा !

रेलवेका एक साधारण कर्मचारी गेटमैन पन्नालाल पाठक था। उसका काम रेलगाडी आनेके समय मुख्य सड़कका द्वार बंद करना था। इस छोटेसे काममें भला कौन परोपकारका काम हो सकता है ? आप कहेंगे, ‘इसमे कुछ भी परोपकारका काम नहीं हो सकता।’

पर आपका अनुमान ठीक नहीं है।

बडौदा-मथुरा पैसंजर ट्रेन रतलाम स्टेशनपर आ रही थी। सिगनल हो गया था। पन्नालाल ड्यूटीके अनुसार सड़कका फाटक बंद करके एक ओर हो गया। रातके आठ बजे थे। संयोग से

तीन मजदूर स्त्रियाँ दिनभर काम करके वापस घर लौट रही थी, थकी-माँदी और अपने बच्चोंको देखनेके लिये उत्सुक ! गाड़ी कुछ फासलेपर थी । उन्होंने सोचा जल्दीसे फाटकके पाससे निकलकर लाइन पार कर लेंगी । वे धीरेसे तारसे निकली । संयोगसे कँटीले तारमें उनका कपड़ा अटक गया और वे बुरी स्थितिमें फँसी रह गयी ।

किसी प्रकार सुलझकर वे पटरीपर आयी ही थी कि रेलगाड़ीकी घडघड़ाहट सुनकर बुरी तरह घबरा गयी । साहस जाता रहा । रेलगाड़ीका इंजन उन्हे पीसकर चकवाचूर कर देनेके लिये उनके सामने था ।

पन्नालालने यह सब देखा और प्रबल साहसके साथ कूदकर लाइनपर आ गया ।

उसने एक ही साँसमें उन दोनो महिलाओंको अपनी भुजामें दबाया और फौरन लाइनसे बाहर खींच लाया ।

अब गाड़ी एकदम सामने थी, मृत्युका दृश्य था । फिर भी उसने साहस किया और तीसरी मजदूरिनको बचानेके लिये कूदा, पर हाय !

क्रुद्ध इंजनने उसे एक भयंकर टक्कर देकर दूर फेंक दिया और तीसरी महिलाका शरीर पीसता-काटता हुआ, वह निर्मम इंजन घडघड़ाता हुआ आगे बढ़ गया ।

पन्नालाल इस सब संघर्षसे मूर्च्छित हो गया और लगा कि वह अब इस दुनियामें नहीं रहेगा ।

पर अस्पतालमें उसकी विशेषरूपसे देखभाल की गयी। डाक्टरोंने इस मानवताके सिरमौरको मौतके मुंहसे खींच लेनेकी बड़ी कोशिश की। ईश्वर भले कामोमें सदा सहायक होता है। भाग्यसे वह स्वस्थ हो गया।

मेजपर होशमें आते ही उसके मुंहसे जो शब्द निकले वह यह थे—

‘उस तीसरी बहिनका क्या हुआ?’

वाह रे मनुष्य ! मृत्युके इन क्षणोंमें भी अपनी नहीं, उस गरीब मजदूर स्त्रीकी ही चिन्तामें मग्न था उसका मानस !

मनुष्यकी सोयी हुई मानवता कभी भी जाग्रत् होकर परोपकारके अद्भुत कर्म करा सकती है। वे कार्य जो मनुष्य किसी भी सासारिक लोभके वशमें होकर नहीं करता, अन्तरात्माके दैवी प्रभावमें एकाएक कर बैठता है। उसके अंदर सोया हुआ ईश्वर जागकर उसे परोपकारके शुभ कार्योंकी ओर तीव्रतासे प्रेरित करता है।

अद्या नो देव सवितः प्रजावत् सावीः सौभगम् ।

परा दुःखं सुव ॥

(ऋग्वेद ५ । ५२ । ४)

याद रखिये, जो ईश्वरकी आराधनाके साथ-साथ पुरुषार्थ और परोपकार करते हैं, उनके दुःख और दारिद्र्य दूर होते हैं और ऐश्वर्य बढ़ता है।



मनुष्यमें ईश्वरकी झांकी

विद्याविनयतम्पन्ने ज्ञाह्यस्ये गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वशके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

(गीता ५ । १८)

वह दयावान् महापुरुष—

बड़े आदमी अपनी विशेषता छोटी-छोटी बातोंमें प्रकट कर देते हैं। तीक्ष्णबुद्धिवाले व्यक्ति इन विशेषताओंको देखकर पहचान लेते हैं कि यह आदमी भविष्यमें बड़ी उन्नति करनेवाला है।

×

☒

■

प्रातःकालका समय है। दिनके कोई सात बजे हैं। लोग सुबहको सैरको जा रहे हैं। एक युवक भी विचारोंमें डूबा हुआ मस्त चालसे टहलता चला जा रहा है।

उसका ध्यान सड़कके एक किनारेकी ओर जाता है। यह क्या है ? उफ ! कैसा घिनीना दृश्य है यह !

4 एक बीमार कुत्ता है। उसके कानके पास एक घाव है। शायद बेचारा किसीकी निमंम लकड़ीकी मारका शिकार हुआ है। रक्त बह रहा है। मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। दुर्गन्धि उड़ रही है। वह पीडासे व्याकुल होकर कानको बार-बार फड़फड़ाता है, मक्खियाँ कुछ देरके लिये इधर-उधर उड़ती हैं, पर फिर बैठकर घावको पुनः गदा करने और खून चूसने लगती हैं।

युवक एक क्षण उस कुत्तेकी पीडाका अनुमान करता रहा ! ओफ ! कितना दर्दनाक दृश्य है ! यह कुत्ता न बोल सकता है, न हकीम-डाक्टरसे मरहम-पट्टी करा सकता है। इसका दुःख देखने-वाला है ही कौन ? युवकके मनमें भगवान् जगे ।

वह सैरसे लौट पड़ा। अब उसके कदम समीपके वैद्यके औषधालयकी ओर तेजीसे पड़ रहे थे ।

‘वैद्यजी ! एक बीमारके लिये मरहम-पट्टी करानेकी जख्खरत है ! रोगीकी दशा चिन्ताजनक है !’ वह कातर स्वरमें बोला ।

आदमीका आशा लगाये हुए वैद्यने उत्सुकतापूर्वक पूछा, ‘कहिये, कहिये क्या बात है ? घरपर कौन बीमार है ?’

युवक बोला—

‘घरका तो कोई बीमार नहीं है, पर जो बीमार है, उसे भी मैं परिवारके सदस्यसे कम नहीं मानता ।’

वैद्यजीने पूछा, ‘आखिर कौन है ?’

युवकने कर्णपात्रक स्वरमें कहा, ‘एक अनाथ कुत्तेके कानके

पास घाबमें कौड़े पड़ गये हैं। वह पीडासे बुरी तरह वेचैन है। एक क्षण भी घनसे नहीं बैठ सकता। वेचैनीसे बार-बार पागल-जैसा हो कान फटफटा रहा है। मैं उसकी चिन्ताजनक हालतसे बड़ा दुखी और चिन्तित हूँ..... आप दया करके शीघ्र ही कोई दवा दे दीजिये !'

'ओफ ! तो बस इतनी-सी बातके लिये आप परेशान हैं— वैद्यजी बोले, 'एक नाचीज कुत्तेके लिये तूफान मचाये हैं। मैं तो आपकी व्याकुल मुखमुद्रासे घबरा उठा था।'

उन्होंने एक दवा दे दी।

फिर हंसकर बोले, 'मेरे दोस्त, परोपकारमें अपनेको सुरक्षित रखना..... जानवर आखिर जानवर ही है। पीडाकी अवस्थामें कुत्ता अगभग आधा पागल—वेचैन रहता है..... हम तो मरीज आदमियों को मुश्किलसे दवाइयाँ लगाते हैं। बीमार और घायल कुत्तेको दवा अगाना कोई आसान काम नहीं है।'

वैद्य कहे जा रहे थे। घुनके पक्के उस युवकने इधर कोई ध्यान नहीं दिया। वह दौडा-दौड़ा कुत्तेके पास आया। घायल कुत्ता अब और भी अधिक वेचैन था। मक्खियोने काट-काटकर उसे बुरी तरह परेशान कर रक्खा था। रास्तेसे और भी लोग आ-जा रहे थे। वे उसे रास्ता चलते घृणापूर्वक देखते और नाक-भोंसिकोड़कर तिरस्कारकी वचती वजरेँ डालकर जल्दीसे आगे बढ़ जाते ! युवकने व बदबूसे घृणाकर नाक दवायी, व उसके काटनेसे अच्यभीत ही हुआ।

उसने साहसपूर्वक एक बाँसमें कपड़ा लपेटकर उसे दवामें भिगोकर घावपर धीरेसे स्पर्श किया। कुत्तेके घावपर तेज्र दवाने कुछ तेजी दिखायी, तो वह तिलमिनाया। उसे काटनेकी भी कोशिश की, किंतु साहसी युवक सेवामें डटा रहा उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। वह अपने परोपकारके काममें तल्लीन रहा।

बीमार कुत्तेको कुछ शान्ति, कुछ लाभका अनुभव हुआ। दवाईके असरसे घावमें ठंडक पहुँची और उसकी बदबूसे मक्खियाँ भी उड़ गयी। उसे आराम मिला।

अब वह शान्तिपूर्वक लेटा था और युवक उसके अधिक पास आकर अच्छी तरह दवाई लगा रहा था। कुत्ता पूँछ हिला-हिलाकर अपनी मूक कृतज्ञता प्रकट कर रहा था। वह समझ गया था कि यह व्यक्ति पूर्वजन्मका कोई देवता ही था। उसने उसे मौतसे बचा लिया था।

जहाँ और सफेदपोश लोगोंने घायल और तड़पते कुत्तेकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, वहाँ इस युवकका हृदय करुणासे द्रवित हो उठा था।

क्या आप जानते हैं कि इस आदमीका क्या नाम था? यह थे 'महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय', जिन्होंने भारतमें हिंदूधर्म, भारतीय संस्कृति और विद्याके क्षेत्रोंमें युगान्तर किया और देशको शिक्षित करनेमें जीवनका बड़ा भाग लगाया था।

बड़ोंका बड़प्पन शुरूसे ही प्रकट होने लगता है।



भूसरो के लिये प्राण न्योछावर करनेवाला युवक !

अमेरिका ! एक नदी का व्यस्त किनारा ! जागृति और हलका आवागमन ! प्रातःकाल का समय है । नदी-किनारे लोग स्नान के लिये आया रहे हैं । कुछ सैर करते-करते किनारे पर बैठकर जल का आनन्द ले रहे हैं और उठती हुई लहरों तथा उछलता हुई मछलियों की किलोलें देख रहे हैं । वातावरण में शान्ति है, हवा में मस्ती और ताजगी ।

‘बचाओ, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ !’ एक ओर से कातर हकीका करुण स्वर सुन पड़ा । सबका ध्यान उधर खिंच गया । कोई माता रो-रोकर नदी की ओर इशारा कर रही थी । दुर्भाग्यसे उसका

बच्चा नदीमें गिर गया था और जलकी सतहपर 'अब डूबा, अब डूबा' कर रहा था ।

माताकी आर्त पुकार अबतक उस नदीपर चारों ओर फैल गयी थी । लोग उसे न सँभाल सके । वे भागे-भागे दुर्घटना-स्थलपर आ इकट्ठे हुए । अब वहाँ भीड़ एकत्रित हो चुकी थी । सबमें घबराहट थी ।

'बचाओ, हाय, मेरा लाल डूब रहा है । हाय, हाय, वह मर जायगा । अरे, कोई तो हिम्मत करो । बच्चेको पानीसे निकालो ।' माता करुण चीत्कार कर रही थी ।

अनेक लोग खड़े तमाशा-सा देख रहे थे, किंतु किसीको भी नदीमें कूदकर बच्चेको बचा लानेका साहस न था । सबको अपनी जिदगी प्यारी थी । कोई क्यों किसीके बच्चेके लिये मरे ? कोई डूबता है, तो डूबे ।

'बचाओ, हाय, वह डूबनेको है । रक्षा करो, बचाओ ।' तभी एक अठारह-उन्नीस वर्षका युवक भीड़ चीरता हुआ वायुवेगसे नदीके तटतक पहुँचा और घम्मसे बालकके पास निशाना बाँधकर कूद पड़ा । सब आश्चर्यमें थे । यह क्या हुआ ?

क्या इसे उस नदीके विशाल प्रवाहका कोई भय नहीं ? क्या इसे अपने जीवनका मोह नहीं ? क्या यह जल्दबाजी और तीव्र आवेगो का शिकार है ? कौन जाने सरिताका प्रवाह ही इसे निगल ले ।

अब सब उस युवकका तैरना देख रहे हैं । कई बार वह

युवक भवँरमे फँसा जान पड़ता है । अनेक वार उसकी नाक और मुँहमे बुरी तरह पानी भरना दिवाया देता है । कई वार तो वह कठोर छिगी हुई चट्टानोसे टकराते-टकराते कठिनाईसे बचता है । वह डुबकी लगाकर बच्चेको खोज रहा है ।

उसे बच्चेको ढूँढते-ढूँढते काफी विलम्ब हो गया है । सबके उत्सुक नेत्र घटनास्थलपर युवकको खोज रहे हैं । वह जलके भीतरसे नही निकला है । कहाँ गया वह ?

कही उसकी जन्-समाधि तो नही हो गयी ? ऐसा दीखता है कि उसके लौटनेकी कोई आशा नही है । शायद वह सदा-सर्वदाके लिये दुनियासे चला गया ।

किंतु कुछ क्षणके बाद ।

उसके सिरके काले बाल जलके ऊपर थोड़े-थोड़े नजर आते हैं । लीजिये, वह अब सतहके ऊपर तैरता दिखायी दे रहा है । पाँव हिलते हुए स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं । वह किनारेकी ओर आ रहा है ।

अरे ! उसके हाथोमे मूर्छित बच्चा भी है । थोड़ी ही देर बाद सब देखने हैं कि युवक मूर्छित बच्चेको उसकी रोती हुई माताके सामने रख रहा है ।

'यह डरके मारे बेहोश है । कुछ पानी पी गया है । अभी ठीक हो जायगा । संभालिये, आपका पुत्र बच गया है ।' माता कृतज्ञताभरे नेत्रोसे युवकको निहार रही है । बच्चा अस्पताल ले

जाया गया और भाग्यसे उसकी जान बचगयी ! वह युवकके साहस और उद्योगसे मौतके मुंहमे जाकर भी लौट आया ! किसे पता था कि बच्चा इस दुर्घटनासे बच सकेगा ? ईश्वरकी कृपा असीम है ।

दूसरोंके लिये अपने प्राणोंको न्यौछावर करनेवाले इस युवकको क्या आप जानते हैं ?

वह था अमेरिका-जैमे विशाल देशका भूतपूर्व प्रेसीडेंट जार्ज वाशिंगटन ।

ये पायतो मामतेयं ते अग्ने, पश्यन्तो अन्धं दुरितादरक्षन् ।

ररक्ष तान्त्सुकृतो विश्वदेवा, शिप्सन्त इन्द्रियवो नाह दे भुः ॥

(ऋग्वेद १ । १४७ । ३)

याद रखिये, इस ससारमें मनुष्यको परोपकार और परमार्थके कार्योंमें निन्दा, लाञ्छन, उपहास आदिका भय नहीं करना चाहिये । लोग क्या कहते हैं, इसकी ओर ध्यान न दीजिये ।

ऐसे परोपकारी और दूसरोंका दुःख-ददं दूर करनेवाले व्यक्तियोंकी रक्षा स्वयं परमात्मा करता है । अतः निश्चिन्त होकर सदा-सर्वदा लोक-कल्याणके उदात्त कार्योंमें संलग्न रहना चाहिये । इसीमें मनुष्यका बड़प्पन निहित है ।

ईश्वर-दर्शनके अन्य आधार मठ-मन्दिरोंमें खोजते फिरनेकी अपेक्षा यह अधिक सरल और उपयोगी है कि उसे मनुष्यकी आत्मामें खोजा जाय ।

परिधम और पुरुषार्थके सहारे मजदूरका पुत्र विद्वान् बना

उसके पिता दो-तीन रुपये मासिकके मजदूर थे। जिदगी ज्ञाना प्रकारकी आर्थिक और सामाजिक मजदूरियोंसे भरी हुई थी। कठिनतासे भरपेट भोजन मिल पाता था। वस्त्र मिल गये, यही क्या कम है ? जूता, टोपी तो उसके लिये बिलासकी सामग्री थी। जब भोजन ही पेट भर न मिले, तो मिठाई या खीर-पूरी, चाट-पकौड़ी—ये सब तो स्वप्नकी ही बातें समझिये।

बालक धीरे-धीरे उसी दमघोटू निर्धनताके कठोर दातावरणमें बड़ा होने लगा। घरका निर्वाह ही कठिनतासे होता था। फिर, वह पिता अपने प्यारे पुत्रको शिक्षित करनेकी बात ही क्योंकर छोच सकता था ?

किंतु वह मजदूर पिता धनिक व्यक्तियोंके फैशनेवल पुत्रोंको उत्तम वस्त्र पहने, सूट-बूटमें शानदार बस्ता लिये या साइकल-मोटरोमें बैठ पढने जाते देखता तो उसकी इच्छा जरूर होती कि उसका बच्चा भी पढ-लिखकर योग्य बने, दुनियाका ज्ञान-विज्ञान अपने अदर धारण करे और शिष्ट समाजमें आदरका पात्र बने।

पर हाथ री आर्थिक विवशता ! कहाँसे वह स्कूलकी फीस दे ! पुस्तकोंका खर्च चलाये ! वस्त्रोंका प्रबन्ध करे ! और जब उसका पुत्र दूसरोंके बच्चों की तरह कुछ जेब-खर्च, चाट-पानीका खर्चा माँगेगा, तो वह उसे क्या उत्तर देगा !

पिता यही सब कुछ सोचता और अपनी महत्त्वाकांक्षाको मनमें संजोये रहता ।

अब वह लड़का कुछ सयाना हो चुका था । वह गाँवके और लड़कोंको बगलये बस्ता दबाये पढ़ने जाते देखता, तो अपने पिताका पल्ला पकड़ लेता । नेत्रोमे आँसू लाकर रो-रोकर कहता—

‘बापू ! गाँवके सब लड़के किताबें, स्लेट-पेन्सिल लेकर पढ़ने जाते हैं । मैं भी जाऊँगा । मुझे भी किताब-स्लेट ला दो । मैं भी पढ़-लिखकर बड़ा आदमी बनूँगा । मैं भी कुर्सीपर बैठकर बाबूका काम करूँगा । पढ़-लिखकर ही तो आदमी प्रसिद्ध बनता है । मैं खूब मन लगाकर पढ़ूँगा और विद्वान् बन जाऊँगा ।’

पिता डबडबायी आँखोंसे लड़केको देखता । ममत्वसे उसके सिरपर हाथ फेरता । फिर प्यारसे उसके आँसू पोछते हुए अपनी गरीबी और लाचारीकी बात स्पष्ट करता हुआ कहता—

‘बेटा ! तुझमे पढ़ने-लिखनेकी लगन है । तेरा मन पुस्तकोंसे स्वयं ज्ञान पानेको ललचाता है, ये बड़प्पनके लक्षण हैं । तेरे पुराने सस्कार बड़े ही ऊँचे और सात्त्विक हैं । कितना अच्छा होता, यदि तू किसी अमीर व्यक्तिका पुत्र होता । हाथ ! तू इस गरीबके-

घर क्यों पैदा हुआ। तेरे भाग्यमें बड़ा बनना होता, तो तू मेरे-जैसे निर्धनका पुत्र न होता। .. हाय ! मेरी गरीबी, जो मैं अपने लालके लिये पढनेका मामूली प्रबन्ध भी नहीं कर पा रहा हूँ।'

यह कहते-कहते भावुक पिताकी अश्रुधारा बहने लगती। सीना जोर-जोरसे घड़कने लगता। वह अपने प्यारे पुत्रको स्नेह और ममतासे सीनेसे चिपकाये रहता। जब भावनाका उद्वेग कुछ शान्त होता तो उससे कहता—

'बेटा ! निराश मत हो ! सभीके दिन एक-से नहीं रहते। कुछ और बड़े होकर हाथ-पाँवसे मेहनत-मजदूरी करनेकी सोचना, जिससे पहले पेट-भराई तो हो सके। फिर समय निकालकर पढ भी लेना। अभी मेरे पास पैसेका कुछ भी प्रबन्ध नहीं है। पढाई-लिखाईके बारेमें अभी सोचना व्यर्थ-सी बात है।'

पिताकी दुनियादारीकी बातें सुनकर लड़का मन मसोसकर रह जाता। कम उम्रका बच्चा, अबोध बालक कर भी क्या सकता था ?

लेकिन पढ-लिखकर विद्वान् बननेकी गुप्त अभिलाषा उसके मनमें गहरी जड़ पकड़े रही क्रमशः विकसित होती रही।

घरकी विकट स्थिति और गरीबीमें भी पिताका शुष्क जवाब पाकर भी उसका उत्साह कम नहीं हुआ ! वह उपयुक्त अवसरकी खोजमें लगा रहा ! लगनके साथ ही उसमें विनयशीलता और शिष्टता पर्याप्त थी। सबसे मधुर बोलता था। इस मृदु व्यवहारने उसके अनेक मित्र बना दिये। उसने ऐसे अच्छे सज्जन छात्रोंसे

परिश्रम और पुरुषार्थके सहारे मजदूरका पुत्र विद्वान् बना २०६

मित्रता की, जो उसे फुरसतके समय अपनी किताबोंसे पढ़ने देते थे। यही नहीं, वे जो बड़ी-बड़ी फीसे देकर स्कूलमें पढ़-लिखकर आते थे, वह इस गरीब बालकको भी कुछ-कुछ पढ़ा देते थे।

जब दूसरे अमीर लड़के खेलते थे, तो यह लड़का गलीमें लगे म्युनिसिपैलिटीके लैम्पकी मद्धिम रोशनीमें पढ़ा करता था।

उसके पास स्लेट नहीं थी। पेन्सिल नहीं थी। वह कोयलेसे जमीनपर लिखकर अभ्यास किया करता था। किसीने दया करके उसे एक पेन्सिल दे दी, तो वह सड़कोमें पड़े हुए कागजके रद्दी टुकड़ोंपर लिख-लिखकर वर्णमालाके अक्षर सीखने लगा। अनेक शब्द और वाक्य उसने जबानी याद कर लिये। उसे पाठ्य पुस्तक के कई पाठ और कहानियाँ कण्ठस्थ हो गयीं।

पिता विद्याके प्रति उसकी लगन देखकर मन-ही-मन अपनी निर्धनताको कोसने लगा। बालककी तेज बुद्धि और कठोर श्रम देखकर पुत्रको सुशिक्षित बनाने के लिये उसका हृदय भी अधीर हो उठा।

यह उस बालककी जिदगी का प्रथम अध्याय था।

जिदगीने दूसरी करवट ली। जीवनका नया पृष्ठ बदला। उसके गरीब पिताने अधिक कमाईके लिये एक योजना बनायी।

एक दिन अधिक कमानेके प्रयत्नमें वह इस बालकको लेकर गाँवसे समीपके बड़े शहर कलकत्ताकी ओर चल दिया। रेलगाड़ी के लिये पैसा पास नहीं था। पैदल ही सफर शुरू कर दिया।

रास्तेमें एक जगह सुस्तानेके लिये रुके।

म० जी० फ० १४—

थके हुए पिताने कहा 'न जाने हम कितनी दूर सफर कर आये हैं ?

अनायास ही लडकेने जवाब दिया, 'नो मील पिताजी !'
पिता आश्चर्यमें डूब गया !

'इस लडकेको यह कैसे मालूम हुआ ?' वह सोच रहा था ।
लडकेने स्वयं ही स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया, 'पिताजी !
आसके मीलके पत्थरपर नौ लिखा हुआ है ।'

उत्तरका स्पष्टीकरण बालककी कुशाग्र-बुद्धिका द्योतक था ।
पिता यह देखकर हृषं-विभोर हो उठा ।

बालक ईश्वरचन्द्रने पिताके साथ चलते-चलते अंग्रेजीके
अङ्कोका ज्ञान कर लिया । अपने पुत्रकी इस तीव्रबुद्धिके कारण
वे फिर सोच-विचारमें पड़ गये और उसे लेकर लौट पड़े ।

रास्तेभर सोचते आते थे, 'यदि ऐसे जिज्ञासु और उत्साही
पुत्रको गरीबीके कारण उच्च अध्ययनसे वञ्चित किया, तो बच्चेके
प्रति बड़ा भारी अपराध होगा । मैं सकल्प करता हूँ कि एक वक्त
ही खाऊंगा, सारे घरको आधा पेट रक्खूंगा, किंतु ईश्वरचन्द्रको
पाठशाला अवश्य भेजूंगा ।'

यही संकल्प बच्चेकी उन्नतिका आधार बन गया ।

घर आकर उन्होंने ईश्वरचन्द्रको गाँवकी पाठशालामें भरती
करा दिया । लडकेने तन्मयतापूर्वक खूब मनोयोगसे पढ़ा । अपनी
पुस्तकोका उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर लिया । इस स्कूलमें वह सर्वश्रेष्ठ
छात्र निकला । सब अध्यापकोने उसकी भूरि,भूरि प्रशंसा की ।
अब इस स्कूलकी पढ़ाई समाप्त हो चुकी थी ।

परिश्रम और पुरुषार्थके सहारे मजदूरका पुत्र विद्वान् बना २११

गाँवसे आगे पढ़ाना-गरीब पिताके लिये असम्भव था । अतः आगे पढ़ानेसे इनकार करना पड़ा; क्योंकि वह पढ़ाईका खर्चा किसी प्रकार भी नहीं दे सकते थे ।

इसपर ईश्वरचन्द्रने प्रार्थना की कि उसे किसी विद्यालयमें दाखिल करा दें, फीस और पढ़ाईका खर्चा वह स्वयं मजदूरी करके चला लेगा । वह शहरमें स्वयं मजदूरी तलाश कर लेगा ।

पिताने उसकी बात मान ली और उसे कलकत्ताके एक सस्कृत विद्यालयमें भरती करा दिया । महाविद्यालयमें ईश्वरचन्द्रने अपने मनोयोग, सेवा और लगनके बलपर शिक्षकोंकी यहाँतक प्रसन्न कर लिया कि उनकी फीस माफ हो गयी । पुस्तकोंके लिये वे अपने सहपाठियोंके साक्षीदार हो गये थे ।

अपनी इस व्यवस्थासे वे उत्तरोत्तर अपनी योग्यता बढ़ाते गये । लगातार ऊँचे ही उठते गये । उन्नीस वर्षकी आयुतक पहुँचते-पहुँचते उन्होंने व्याकरण, साहित्य, अलङ्कार, स्मृति तथा वेदान्त शास्त्रोंमें निपुणता प्राप्त कर ली । वे देशके बड़े विद्वान् बने ।

उनकी असन्दिग्ध विद्वत्ता तथा उच्च आचरणसे प्रभावित होकर विद्वानोंकी एक सभाने उन्हें मानपत्रके साथ 'विद्यासागर'की उपाधि-से विभूषित किया और उनके मूल्याङ्कनमें अनुरोधपूर्वक फोटों विलियम कालेजमें सस्कृतके प्रोफेसर नियुक्त हुए ।

परिश्रम और पुरुषार्थका सहारा लेनेसे मजदूरका पुत्र भारतका एक ऐतिहासिक व्यक्ति बन गया ।



मनुष्यके भीतरसे ईश्वरकी झलकियां !

पुरुष एवेद् सर्वम् । (ऋग्वेद १० । ६० । २)

अर्थात् यह सम्पूर्ण विश्व परमात्माका ही रूप है । संसारके परमात्माका प्रत्यक्ष स्वरूप मानकर इसकी सेवा करनी चाहिये ।

ईश्वर मनुष्यके मनमे विद्यमान है और अनेक वार सत्प्रवृत्तियोंके रूपमें वह चमका करता है । ईश्वरने मानव प्राणीके निर्माणमे जीवसाधारण श्रम किया है, उसकी सार्थकता तभी है, जब वह दिव्य प्रयोजनों और परोपकारमे सलग्न रहे, जिनके लिये उसका सृजन किया गया है । इस संसारको सुरम्य और सुव्यवस्थित बनानेमें निराकार परमेश्वरको एक साकार आकृतिकी जरूरत थी, जो मनुष्यके रूपमें पूर्ण होती है ।

समय-समयपर हमारे समाजमे, दैनिक नित्यप्रतिके जीवनमे ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनसे प्रत्यक्ष होता है कि ईश्वर

हमारे अंदर मौजूद है और उच्च कार्य कराता है। यहाँ ऐसे ही कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं।

रोगीको बचानेके लिये प्राणदान

गोरखपुरमे उत्तर-पूर्वी रेलवेके सेण्ट्रल अस्पतालके सर्जन डा॰ सुधीरगोपाल झिगरनने हालमे ही एक रोगीकी जान बचानेके लिये अपने प्राणोकी आहुति दे दी। बात यो हुई कि उस रोगीका आपरेशन किया गया था। रोगी पहलेसे ही दुर्बल था और उसमें रक्तकी कमी थी। उसके रक्तका मिलान किया गया, अनेक व्यक्तियोंके रक्तको परीक्षा करनेपर ज्ञान हुआ कि कोई भी उसके रक्तसे मिलान नहीं खाता है। संयोगसे स्वयं सर्जन सुधीरगोपालने अपने रक्तका परीक्षण कराया, तो वह रोगीके रक्तसे मिल गया। डाक्टर साहबका ही रक्त चढाकर उस रोगीको बचाया जा सकता था; दूसरा कोई मार्ग न था। अब क्या किया जाय ?

डाक्टर साहब विचार करने लगे, 'हमें अपने भौतिक स्वार्थोंकी सकीर्णतासे ऊपर उठनेके लिये यह सोचना ही होगा कि हमे मनुष्यकी योनि पारमार्थिक साधनाओ आध्यात्मिक विचारो, परोपकार, सेवा और ऊँचे आदर्शोंके लिये मिली है। यदि विश्व-हितके लिये हम कुछ नहीं करते, तो हमारा मानव-जीवन बेकार है। हमे शरीर-निर्वाह तथा परिवार-पालनके अलावा ईश्वरके व्यक्त एव त्रिराट् स्वरूप विश्व-हितके लिये भी कुछ करना चाहिये।'

यह सोचकर डाक्टर सुधीरगोपाल रोगीको रक्तदान देनेके लिये तैयार हो गये। एक शीशी रक्तके वाद दूसरी शीशी

रक्तकी और जरूरत पड़ गयी । डाक्टर साहब पुनः रक्त निकलवा रहे थे कि कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हो गयी कि उसी दिन रात्रिको अनेक उपचार करनेके बावजूद भी उनका देहान्त हो गया । ईश्वरका श्रम सार्थक हुआ । वह देवी ज्योति बुझ गयी, पर शत-शत आत्माओंको मनुष्य-जन्मकी जिम्मेदारी सिखा गयी ।

वृद्धाका नेत्र-दान

इलाहाबादमे एक ७० वर्षीय बंगाली वृद्धाकी आँखें दो अन्धोंको सफलतापूर्वक लगा दी गयी हैं । मरनेसे पूर्व वृद्धाने अपनी दोनो आँखें अस्पतालको दानस्वरूप देनेकी वसीयत लिखी थी । उसने लिखाया था, 'मैं चाहती हूँ कि मेरे शरीरका कोई भी हिस्सा यदि परोपकारमे दूसरेके काम आ सके, तो मेरा जीवन सफल है । ईश्वरने आदमीको जो असीम प्रतिभा, दिव्य ज्ञान, अन्तरात्मा दी है, उसके पीछे यही प्रयोजन है कि वह अन्तिम श्वासतक परोपकारमे लगा रहे । आप मेरी ये आँखें सुरक्षित रक्खें और किसी जरूरतमन्द युवक-युवतीके लगा दें और ईश्वरका श्रम सार्थक करें ।'

अस्पतालके डाक्टरने एक आँख एक दशवर्षीया अन्धी लड़की एवं दूसरी एक २२ वर्षीय नवयुवकके लगायी है । दोनोको दीखने लगा है ।

इसी प्रकारका एक उदाहरण और है । बम्बई नगरकी एक छः वर्षीया कुमारी जोत्सना वेन पटेलने दो व्यक्तियोंको मरणोपरान्त नेत्र दान किये । इस लड़कीकी मृत्यु ७ दिसम्बर

१९६५ को शहरके अस्पतालमें हुई थी। लड़कीके माता-पिताने शीघ्र ही सरकारी नेत्र-बैंकको उसके नेत्र दानमें दे दिये। इसके फलस्वरूप एक अन्य लड़केकी पुतलियाँ बदल दी गयी तथा एक अन्य व्यक्तिकी विटियम ट्रांसप्लान्टेशनके लिये शल्यक्रिया की गयी।

बागपुरका एक समाचार इस प्रकार है—

स्थानीय मेडिकल कालेजमें एक ६० वर्षीय वृद्धद्वारा दानमें दी गयी आँखें एक ३० वर्षीया युवतीकी आँखोंमें लगा दी गयी। इस युवतीको आँखें ५ वर्षकी अवस्थामें ही चेचककी बीमारीके कारण खराब हो गयी थी।

अभावग्रस्त जीवनमें अनुकरणीय आदर्श

अभावग्रस्त कठिनाइयोंमें फँसे हुए, अनेक उत्तरदायित्वोंके बोझसे दबे हुए व्यक्तियोंमेंसे भी ईश्वर झलका है।

मुजफ्फरनगरके डी० ए० वी० कालेजके अध्यापकों तथा कर्मचारियोंने अपने एक दिवङ्गत अध्यापकके निःसहाय परिवारकी सहायताके लिये जिस अनुपम त्यागका आदर्श प्रस्तुत किया है, वह निश्चय ही सबके लिये अनुकरणीय है।

कालेजके अर्थशास्त्रविभागके अध्यक्ष श्रीसीतारामकी गत २७ जुलाई १९६५ को मृत्यु हो गयी। श्रीसीतारामकी विधवा बहू, दो पुत्र और चार पुत्रियोंके लिये कोई सहारा नहीं रहा। छोटे बच्चे, कमानेवाला मृत्युके कराल ग्रासमें समा गया। दो पुत्रियोंकी शादी तो तुरंत ही होनी चाहिये।

ऐसी आर्थिक तंगी और वैवाहिक कठिनाईमें दिवङ्गत प्राध्यापककी विधवाको जो कठिनाई हो सकती है, उसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। अध्यापकोकी आर्थिक हालत कितनी गिरी हुई होती है, यह किसीसे छिपी नहीं है। उनकी कमाई हाथसे उदरतक ही सीमित रहती है। ऐसे विरले ही होते हैं, जो अपने पोछे कुछ धन छोड़ जाते हैं। फिर जिनका परिवार बड़ा हो, उनकी मुसीबतोंका तो अन्त ही नहीं।

कालेजके कर्मचारियोंमेंसे ईश्वर चमका। उनकी अन्तरात्माने कहा, 'तुम्हें अपने स्वर्गीय साथीके परिवारकी हर प्रकार सहायता करना चाहिये।' सबने मुसीबतमें फँसे परिवारकी सहायताका फैसला किया।

आप जानते हैं, वह फैसला क्या था ?

सबने निर्णय किया कि सब कर्मचारी, जिसमें बपरासी, फर्राश, भगीतक शामिल हैं, तीन वर्षतक अपनी मँहगाईका भत्ता जमा करते रहेगे। इस प्रकार जो धन एकत्रित होगा, उससे इस परिवारकी सेवा-सहायता, विवाह इत्यादि किये जायँगे।

जिन कर्मचारियों और अध्यापकोंने यह व्रत लिया है, उन्हें स्वयं कितनी कठिनाई होगी, इसका अनुमान लगा सकना कठिन नहीं है; किंतु स्वयं कष्ट उठाकर जो दूसरोंकी कठिनाइयोंको आसान करनेकी कोशिश करते हैं, मानवता उन्हींको अपना आदर्श मानती है और उन्हींसे प्रेरणा लेती है।

रिक्शाचालककी ईमानदारी

फरीदकोटका एक समाचार है। इक्कीस वर्षीय रिक्शा चलानेवाले रामचन्द्रने शनिवारको पूरा दिन उस मुसाफिरकी खोजमें लगा दिया, जो जल्दीमें भूलसे अपनी अटेची रिक्शेमें भूलकर कामपर तेजीसे निकल गया था। उसमें पैंतालीस हजारके जेवर आदि थे। वह चाहता तो यह सब घन हड़प कर सकता था, पर वह मनुष्य-जन्मकी नैतिक जिम्मेदारीको समझता था और उसे पूरा करनेमें ही सफलता मानता था। अन्तमें अटेचीको खोल खतपर लिखे एक पतेकी सहायतासे रिक्शाचालकने जेवरोके मालिकका पता लगा लिया और अबोहर जाकर वह अटेची असली हालतमें सौंप दी। जेवरोके मालिकने रिक्शाचालकको को पाँच सौ रुपयेका पुरस्कार देना चाहा। पहले तो उसने लेनेसे इन्कार कर दिया। अधिक आग्रहके बाद उसने वह राशि लेकर जवाहरलाल नेहरू-स्मारक कोषको दे दी।

आदमीमें ईश्वर बैठा हुआ सही रास्ता दिखाता रहता है। आन्तरिक अभिलाषा तीव्र हो और उसके लिये आवश्यकता, दृढता एवं प्रयत्नशीलता विद्यमान रहे, तो परोपकारका रास्ता मिल ही जाता है।

भूलका प्रायश्चित्त

कटककी एक घटना अखबारोंमें छपी है।

यहाँके एक छात्रद्वारा अपनी भूलका अनोखे ढंगसे प्रायश्चित्त किये जानेकी एक घटना घटित हुई है। घटना इस प्रकार है—

शेखराजारका दबी कक्षाका एक छात्र शहरसे स्टेशनतक रिक्शासे आया । रिक्शा-भाड़ेके बारह आने देनेके लिये उस छात्रने एक रुपयेका नोट रिक्शावालेको दिया, लेकिन रिक्शावालेके पास चार आने वापस देनेके लिये न होने के कारण उसने वह नोट लौटा दिया । छात्रने उसे यह कहकर कि 'अभी रेजगारी लाता हूँ । कुछ देर ठहरो ।'—वह स्टेशनके भीतर चला गया और बुकस्टालपर पत्र-पत्रिकाएँ पढ़नेमे इतना तल्लीन हो गया कि उसे याद ही न रहा कि रिक्शेवालेको मजदूरीके पैसे भी देने हैं ।

करीब आध घटे पश्चात् जैसे ही उसे याद आया, बुकस्टालसे रेजगारी लेकर वह भागा-भागा स्टेशनके बाहर आया, तो दुर्भाग्यसे रिक्शावाला न मिला । छात्रकी अन्तरात्माने उसे बुरी तरह विक्षुब्ध कर दिया । वह सोचने लगा, 'हाय ! मुझसे कैसा पाप हो गया, मैंने एक गरीब मजदूरकी मजदूरी दबा ली । उस गरीबकी रोटी छीन ली । उफ् ! वह भूखा होगा ।' दुखी होकर छात्र उसे इधर-उधर ढूँढने लगा । ढूँढते-ढूँढते काफी रात व्यतीत हो गयी । फिर भी वह न मिला तो पासमे ही मोटर-स्टेडके पास आकर सिसकियाँ भर-भरकर रोने लगा । लोगोने जब उसके रोनेका कारण पूछा, तो उसने सारी बातें बता दी और वह कहने लगा कि 'मेरी गलतीसे एक गरीब रिक्शेवालेकी बारह आनेकी मजदूरी मारी गयी । मैं उसका प्रायश्चित्त कर रहा हूँ ।'

लोगोके समझाने-बुझानेपर वह आँखोमे अश्रु लिये एक अन्य रिक्शासे अपने घर चला गया, लेकिन जानेसे पूर्व वह बारह आने अपंग भिखारियोंको बाँट गया ।

सच है, आन्तरिक अभिलाषा तीव्र हो और उसके लिये दृढता और प्रयत्नशीलता विद्यमान रहे, तो परोपकारका मार्ग मिल ही जाता है। कोई ऐसा तरीका निकल आता है, जिससे दूसरोंकी कुछ सहायता-सेवा हो सकती है।

परोपकारके लिये बलिदान

जबलपुर छिन्दवाड़ा जिलेके आनन्दराव नामक एक व्यक्तिको डूबते बालककी प्राणरक्षामें अपना बलिदान करनेके लिये मरणोत्तर राष्ट्रपति-पदक प्रदान किया गया है।

बताया जाता है कि छिन्दवाड़ा जिलेके बैरागढ गाँवमें लोहेके कमजोर ढक्कनसे ढके हुए अनाजके एक गहरे गड्ढेपर एक दस वर्षीय बालक खेल रहा था। वह ढक्कन उसका भार सहन न कर सकनेके कारण एकाएक टूट गया और बालक उस गड्ढेमें गिर पड़ा। उस गड्ढेमें काफी ऊँचाईतक पानी भरा हुआ था। पास ही स्वर्गीय श्रीआनन्दराव खड़े थे। बालककी प्राणरक्षाके लिये उन्होंने अपनी जानकी परवा नहीं की और वे स्वयं उस गड्ढेमें कूद गये। यद्यपि वे अपने इस उद्देश्यमें सफल हुए, परंतु बाहर निकलनेके पहले ही उस गड्ढेकी जहरीली हवा और गैसके कारण दम घुटनेसे उनकी मृत्यु हो गयी। इस महान् और परोपकारी कार्यके लिये भारत-सरकारने सराहना की है और राष्ट्रपति-पदक प्रदान किया है।

इसी प्रकारका एक समाचार इस प्रकार है—

नयी दिल्ली। तीन स्त्रियोंको डूबने के वचाकर अपना जीवन

वलिदान कर देनेवाले दिल्लीके १६ वर्षीय ब्रीग बालक सुभाषचन्द्रके पिता श्रीआर०आर०खुरानाको चीफ कमिश्नरने अपने निवास-स्थान पर आयोजित एक समारोहमे पुत्रका मरणोत्तर जीवनरक्षा-पदक (प्रथम श्रेणी) भेंट किया ।

पूरी घटना इस तरह है । दरियागङ्गके कमर्शल हायर-सेकेंड्री स्कूलका विद्यार्थी सुभाषचन्द्र ८ नवम्बर १९६२ को अपने तीन मित्रोके साथ कुदसिया घाटके निकट घूम रहा था कि घाटकी ओरसे चिल्लानेकी आवाज आयी । ये तुरत दौडते हुए घाटर पहुँचे । उन्हे मालूम हुआ कि स्नान कर रही कुछ स्त्रियाँ भँवरमे फँस गयी हैं । सुभाष तुरत जूते उतारकर कपड़ोसहित यमुना नदीमे कूद गया । तीनी डूबती स्त्रियोको तो उसने बचा लिया, किंतु स्वयको न बचा पाया और यमुनाकी गोदमे समा गया । परोपकारी बालककी जब यह कहानी उस समारोहमे सुनायी गयी, तो उसके पिताका भाल गर्वसे ऊँचा उठ गया ।

मनुष्यके भीतर देवत्व है और वह अनेक बार इस प्रकार झलकता रहता है । परोपकारसे मनुष्यका देवत्व अधिकाधिक विकसित होगा । इस दृष्टिकोणको अपनाकर मनुष्य देवता बनता है, शान्ति पाता है, यशस्वी बनता है और लोक-परलोकमे मुख पाता है ।

विना कर्मचारीका डाकखाना

राजकोट (सौराष्ट्र) के एक गाँवमे विना व्यक्तिके डाकखानेका परीक्षण सफलतापूर्वक किया जा रहा है । जूनागढके उस गाँवमे एक वाक्समे कार्ड और लिफाफे रक्खे हैं और जिस ग्रामीणको जरूरत

पडती है, उसमेसे काडें-लिफाफे निकालकर उतने ही पैसे उसमें डाल देता है। ईमानदारीके कारण वह डाकखाना मजेमे चल रहा है। अभीतक एक पैसेका भी घाटा नहीं हुआ है। परमार्थवृत्तियोंको विकसित करनेसे मनुष्य जीते-जी देवत्वकी ओर बढ़ता है और स्वर्ग-जैसा भव्य वातावरण उपस्थित करता है।

नियमोके विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता

महात्मा सुकरातको प्राण-दण्ड हुआ। लोग उनकी विचारधारा को ठीक प्रकार समझ नहीं पाये थे। दुनियामे मूढमतिवाले भी काफी हैं। उनके कारण प्राणदण्डका आदेश पाये हुए कैदीके रूपमे सुकरात कारावासमे थे।

उनके परम शिष्य क्रीटोने उन्हें बचानेकी युक्ति सोची। वे उचित-अनुचित किसी भी तरह उन्हें बचा लेना चाहते थे। क्रीटो रिश्वत देकर जेलमे चुपकेसे घुस आये और सुकरातके सम्मुख हाथ जाडकर बोले—

‘आपकी प्राणरक्षाका सारा प्रबन्ध हो चुका है। देर न कीजिये और चुपचाप जेलसे भाग चलिये। बाहर आपको बचाकर सुरक्षित ले चलनेकी सारी व्यवस्था पूर्ण है। किसीको पता भी न चलेगा कि आप कब और कैसे जेलसे गायब हो गये। आपको किसी दूसरे देशमे पहुँचा दिया जायगा। मेरी जीवनभरकी जो कुछ भी कमाई है, सब आपको भेंट है। बस, आपका जीवन चाहिये।’

सुकरातिके सामने जीवन-रक्षाका एक स्वर्णिम अवसर था। कौन ऐसा मानव है जिसे प्राण प्यारे नहीं होते। उचित-अनुचित हर तरीकेसे आदमी प्राणरक्षा चाहता है।

पर सुकरातने उस सुझावपर गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया, 'मैं ऐसे अनुचित प्रस्तावको स्वीकार नहीं कर सकता। जिस देशकी मिट्टीमें मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मेरे माता-पिता रहे हैं, जहाँकी हवामे साँस लेकर और जहाँके पानीमें मैं पला हूँ, उस देशके नियमोंके विरुद्ध कार्य करना मैं परमात्माके प्रति बोल्ला मानता हूँ।'

वास्तवमें आध्यात्मिक उत्कर्षका आधार कोई पूजा पद्धति, कर्मकाण्ड या अभ्यास-साधन नहीं बर दैवी गुणोंका व्यवहार, ईमानदारी और अनुशासनप्रियता ही हो सकती है। ईश्वर-प्राप्ति एवं स्वर्ग, मुक्ति, आत्मशान्ति-जैसी सिद्धियोंको प्राप्त करनेकी अनिवार्य शर्तें संयम, सदाचार एवं उदारता ही होती हैं। उन्हें पूरी किये बिना कोई व्यक्ति आत्मकल्याणका अधिकारी नहीं बन सकता।

अपना शव दान

हैदराबादमें गुडरके एक एडवोकेट श्री एड० वी० नरसिहराव अभीतक रोगियोंको बचानेके लिये चालीस बार रक्तदान दे चुके हैं, लेकिन त्याग और वलिदानकी यह परम्परा अभी बंद नहीं हुई है। वे मानवताकी सेवामे ही ईश्वरकी सेवा मानते हैं। मनुष्य-जीवनको सार्थक करना चाहते हैं। अतः अब उन्होंने अपनी वसीयतमें अपना शव ओस्मानिया जनरल अस्पतालके सुपरिन्टेन्डेन्टके नाम

कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मेरी मृत्युके बाद मेरी आँखें किसी जरूरतमन्द के लिये सुरक्षित रख ली जायें।

वृद्ध विधवाका सर्वस्व-दान

श्रीमती चोहारिया बाई नामक एक वृद्ध विधवाने बिलासपुर जिलेमे अपने गाँव सिवनीमें लड़कियोंका एक स्कूल बनानेके लिये राज्य-सरकारको अपनी सारी जायदाद दानमें दे दी है।

विधवाने यह भेंट मध्यप्रदेशके उपवित्तमन्त्री श्री एम० पी० दुबेको उस समय दी, जब वे गाँवमे एक सार्वजनिक सभामे भाषण दे रहे थे। जब स्थानीय नेता उपमन्त्री महोदयका स्वागत कर रहे थे, यह वृद्धा मञ्चपर चढ़ गयी और पद्रह सौ रुपये नकद तथा सात सौ रुपयेकी कीमतके अपनी भूमिके कागजात उन्हे दिये। उसने जल्दी ही पाँच सौ रुपये और देनेका वचन भी दिया। इस वृद्धाने उपमन्त्रीसे अनुरोध किया कि स्कूलका निर्माण जल्द होना चाहिये, जिससे कि वह उसे अपने जीवनकालमे ही फलता-फूलता देख सके। वह कहती है, ज्ञानकी वृद्धि और प्रसारमे ही ईश्वरकी भक्ति सन्निहित है। दूसरोंका ज्ञान-प्राप्तिका अवसर देना ही सच्ची पूजा है।

चपरासीकी कर्तव्यपरायणता

बुलन्दशहर के श्रीदुर्गाप्रसाद नामक एक स्कूलचपरासीक डकैतोंने बहुत पीटा और सब नकदी लूट ली। जब वे उससे साइकिल छीनने लगे, तब वह अड़ गया। वह साइकिल स्कूलकी सम्पत्ति थी और इस प्रकार सार्वजनिक सम्पत्तिकी रक्षा करना उसका धर्म था, पवित्र कर्तव्य था। उसने वह साइकिल तबतक न

दी जबतक कि डकैतोंने उसे गोली मारकर घराशायी ही न कर दिया । यह चपरासी बुलन्दशहरके शर्मा हायर सेकेन्डरी स्कूलमें नौकर था ।

वह अपने गाँवको जरूरी कामसे जा रहा था कि रास्तेमें डकैतोंने उसे घेर लिया । चपरासीके पास जो नकदी थी, वह तो उन्होंने छीन ली । जब वे उससे साइकिल छीनने लगे, तो उसने विनीत स्वरमें कहा, 'तुम मेरी सब चीजें ले सकते हो, परंतु स्कूलकी चीज मैं किसी भी दशामे नहीं दे सकता, क्योंकि यह सार्वजनिक सम्पत्ति है । मैं उसकी सुरक्षाको सबसे बड़ी बात समझता हूँ ।'

कर्तव्यपालन ईश्वरकी सर्वश्रेष्ठ पूजा है । उपकारशील मनुष्यके हृदयमें सदैव सत्कर्मोंके स्रोत फूटते हैं, क्योंकि उसके मनमें ईश्वर जड़रूपमें विद्यमान रहते ।

प्रजापतिः बहुधा वि जायते । (अथर्ववेद १० । ८ । १३)

अर्थात् इस विश्वमें परमात्मा ही अनेक रूपोंसे जन्म ले रहा है । ससारके सब प्राणधारी परमात्माकी प्रतिमूर्तियाँ हैं ।

याद रखिये—

मर्त्या हवाअग्ने वेवा श्रातुः ।

(शत० ब्राह्मण ११ । १ । २ । १२)

अर्थात् इस दुनियामें मनुष्य शुभ कार्य करके ही देव बनते हैं । जैसे भी बन पड़े शुभ कर्म कर्गें और इसी शरीरसे भू-सुरका पद प्राप्त करो । धर्मकर्तव्योका पालन करनेवाले ही देवता हैं ।



त्याग और अनुराग

पुण्यका उत्तम फल अवश्य मिलता है

इस समस्त ससारमे ईश्वरका एक गुप्त नैतिक शासन-विधान निरन्तर चल रहा है। मनुष्यमे ईश्वरत्व प्रचुरतासे मौजूद है तथा वह उससे भले काम कराता रहता है। ईश्वरके इस नैतिक शासन-विधानके अनुसार जीवन चलानेवाला मनुष्य आरोग्यवान्, प्रतिभावान् और सुखी एव पूर्ण तृप्त रहता है, इसके विपरीत पापके दूषित मार्गपर चलनेवाला मनुष्य आन्तरिक जीवनमे घोर अशान्ति, आत्मभर्त्सना और क्लेशका अनुभव करता है।

प्रो० लालजीराम शुक्लके शब्दोमे, 'मनुष्य ईश्वरके नैतिक नियमके विरुद्ध आवेश, स्वार्थवश अथवा अज्ञानवश आचरण करता है, परतु इससे उसे अपने इस दूषित आचरणके लिये ईश्वरकी ओरसे सजा भुगतनी पड़ती है। इस कष्टको भुगतने के बाद वह

पुण्यके सन्मार्गपर आ जाता है। पुण्यके लिये सुख, तृप्ति और आत्मसंतोष तथा पापके लिये रोग, शोक और असंतोष यह एक वास्तविक तथ्य है। यह नियम विवेकपूर्ण है।'

अनेक व्यक्तियोंके जीवचर्चमें उपर्युक्त नैतिक नियमकी सचाई स्पष्ट हुई है। नैतिक आचरणसे उन्हें अद्भुत लाभ हुए हैं। यहाँ ऐसे व्यक्तियोंके कुछ अनुभव उन्हींके शब्दोंमें उद्धृत किये जाते हैं—

पुण्यके कारण फांसीसे बचा

श्रीगोपाल नेवटियाजीने रामलाल नाईके सम्बन्धमें कुछ अनुभव इन शब्दोंमें लिखे हैं—

‘उस दिन जब रामलाल नाईने मालिश करते हुए पूछा—‘क्यों बाबूजी, बम्बईवाला वह मुकदमा फैसल हो गया?’

मैं जरा चौंका! कहीं बम्बई और कहीं यह देहात। मेरे जवाब देनेसे पहले ही वह फिर बोल पड़ा—

‘देख लीजियेगा बाबूजी, जूरी उसे वेगुनाह करार दे देंगे; पर मैंने जजकी आंखें देखी हैं। वह उसे नहीं छोड़ेगा।’

नाईकी बात नाईकी ठहरी। कैसा जज, कैसी जजकी आंखें और उन्हें देखनेवाला यह रामलाल? पर बात रुकी नहीं, आगे बढ़ी—

‘बाबूजी, बम्बईवालेने तो गोली चलायी, लेकिन मैंने तो तलवार चलायी थी, दो बारमें तीन टूक……।’

यह सुनना था कि मैं उछलकर उठ बैठा ।

वह बोला—‘बाबूजी, अब धीकिये मत । रामलाल अब फातिल नहीं, हज़ूरका छिदमतगार है ! हाँ, हाथ खरूर वे ही हैं, जिबसे कभी तलवार चलायी थी ।’

मनमें तो आया कि पूछ लूँ, ‘किसको, कब और क्यों मारा था ?’ पर सुननेका रसभंग करना उचित न समझा । रामलाल अपनी कहावी आगे कहता गया—

‘मेरे मुकदमेमें भी हजारों गाँववाले अदालतके दालानमें इकट्ठे होते और मित्ततें करते थे कि मैं कानूनकी गिरफ्तसे छूट जाऊँ । पर हज़ूर जिस दिन आदलतमे पाँव रक्खा और जज साहबसे आँखें मिली, तो समझ गया कि उनसे अबकी बात छिपी नहीं है । हुआ भी यही, मुझे कत्लके कारण फाँसीकी सजा हो गयी है ।’

यह सुनकर मेरे आश्चर्यका ठिकाना न रहा; क्योंकि फाँसीका सजायाफता रामलाल मेरे सम्मुख सशरीर मौजूद था । मेरी उत्सुकता का अनुमान लगाकर वह खुद ही कहने लगा—

‘बाबूजी, इसमे अचरजकी कोई बात नहीं । यह सब मेरे पुराने किये गये पुण्यका ही फल है । किया हुआ परोपकार ही सच्चा धर्म है । भगवान् हमारी हर अच्छाई और पुण्यका अच्छा बदला चुकाता है । हम चाहे छिपकर भी कोई भला काम करें, पुण्य कार्य एक बैकमें जमाशुदा रकमकी तरह जमा रहता है और संकटके समय कवचकी तरह काम आता है । ईश्वर हमारे सभी कार्योंका अच्छा या बुरा बदला चुकाता है—

राम झरोखे बँठिके, सबकी मुजरा लेय ।
जाकी जैसी चाकरी, बाको बैसो देय ॥

यह राम नैतिक नियमका दूसरा नाम है । जबसे मैंने होश सँभाला था, तबसे परोपकार और दूसरोंकी भरपूर सेवा-सहायताकी ओर मेरी दृष्टि रहती थी । आस-पास कोई मेला-ठेला हो, मैंने दिन-रात एक-एक करके सारे-सारे दिन प्यासोको पानी पिलाया है । भूखोको अपने पाससे चना-चब्रेना बाँटा है, भिखारियोंको वस्त्र दिये हैं, पशुओकी विकित्सा करायी है, हरे पेड़को नहीं काटा है, कोई अनुचित काम नहीं किया है, उन सब पुण्यके कामोका ही संचित फल है कि यह रामलाल फाँसीपर लटकनेसे बच गया ।'

रामलालकी आपबीतीमें मुझे रस आ रहा था । वह कुछ रुककर फिर बोला—

'सिर्फ फाँसीसे ही नहीं छूटा, २५ सालकी जेलसे भी छूट आया । सब इस पुण्यका ही प्रताप था और और 'बाबूजी, कहो तो उसका राज भी बताऊँ ?

मुझे तो पहले ही इन अनुभवोमें जासूसी कहानीका मजा आ रहा था । सो स्त्रीकृतिकी गर्दन हिना दी । रामलाल उत्साहित होकर फिर बताने लगा—

'अब आप देखिये, पुण्य कहाँतक इकट्ठा रहता और तकलीफमें कैसे आदमीकी मदद करता है । फाँसीको बात सुनकर घरवाली बहुत रोई-पीटी, पर हज़ूर मेरे चेहरेपर रजकी एक भी शिकन नहीं थी । मैं जानता था कि ईश्वरका भक्त जो संयोगसे मुसीबतमें

फँस गया था, बेमौत नहीं मर सकता। फिर फाँसीकी तो बात ही क्या? जेलमें मैंने फाँसीके सजायाफ्तोको देखा है, अपीलके फैसले-तक उनकी नरकसे भी बदतर हालत हो जाती है। एक कोठरीमें ही खाना-पीना, टट्टी-पेशाब सब और सबसे खराब बात थी—चौबीसों घंटे सिरपर नंगी तलवारका लटकना। पर सच मानो मालिक, रामलालको ईश्वरके नैतिक नियमपर पूरा भरोसा था कि फाँसी हरगिज नहीं हो सकती और हुआ भी ऐसा ही। अपील हुई और फाँसीसे हटकर मुझे पचीस वर्षकी कैद मिली। ईश्वरने जिदगी कायम रखी।’

‘पचीस साल! अभी तो तो क्या यह सजा भी माफ हो गयी?’

‘नहीं सरकार, वहाँ भी मेरे पुराने सचित पुण्य कर्मोंने ही साथ दिया। नैतिक नियमके अनुसार जिदगी चलानेका यही गुप्त लाभ मुझे मिल रहा था। दो ही साल बाद लड़ाई छिड़ गयी और हुकम आया कि जो कैदी जगमें जाना चाहेंगे उनकी सजा माफ हो जायगी। वस, फिर क्या चाहिये था? मुझ-जैसे सैकड़ों कैदियोंकी अच्छी खासी फौज बन गयी। कहाँ वह लबी कैद, बेड़ी, चक्की और मुसीबतें और कहाँ यह फौजी वर्दी, खाना, खुली हवा और अलमस्ती। यह सब पुण्यका ही फल था। ईश्वरका नैतिक नियम ही इस प्रकारकी परिस्थितियोंमें रक्षा करता है।’

मैंने फौजमें रहकर बहुतसे मुल्क देखे। ठेठ अमेरिका तक

हो आया, पर देखिये ईश्वरकी गुप्त सहायता । मैं एक कोठरीका कैदी, दुनियाकी सैर कर रहा था ।’

मैंने पूछा—‘रामलाल, तुमने कही लड़ाई भी लड़ी ?’

वह बोला—‘दावूजी, बस, यही एक हविस बाकी रह गयी । लड़ाईमें तलवार तो क्या बंदूकका कुन्दा भी किसीके जिस्मसे छुआनेका मौका नहीं आया । वह तो हथगोलों और बमगोलोंकी लड़ाई थी । बंदूक चलानेकी वारी भी सिर्फ एक बार आयी, जब रोलकालके वक्त अचानक कहींसे गोली आकर जाँघमें चुस गयी ।’

यह कहते-कहते रामलालकी छाती फूल उठी । मैंने उसपर प्रशंसात्मक दृष्टि डाली । वह कहता गया—

‘गोली लगी, पर मैं होशमें ही था । यो घायल होनेपर मौत नजर आने लगती है, पर सच कहूँ दावूजी, मुझे विश्वास था कि भगवान् मुझे उस परेशानीसे भी बचानेकी कोई तरकीब कर रहा था । फिर ऐसी परिस्थिति सचमुच निकल आयी । मुझे तो यही लगा, भला जिसने फाँसीके फदेसे छुड़ा लिया और २५ सालकी जेलसे रिहा कर दिया, वह सचित पुण्य इस बार भी जरूर मेरी मदद करेगा और दावूजी आप देख रहे हैं, मैं उस भगवान्की सहायताकी वजहसे ही आपके सामने जीता-जागता बैठा हूँ ।’

देहातके एक मामूली नाईका जीवन इतना घटनापूर्ण हो सकता है, यह मेरी कल्पनासे बाहरकी बात थी; लेकिन पुण्यका

प्रताप-जैसी बात सही थी। बीमारीके कारण रामलालको फौजसे भी डिस्चार्ज कर दिया गया था।

इस अनुभवसे स्पष्ट है कि मनुष्यके भले कार्योंसे जो पुण्य मिलता है, उसका लाभ जिदगीभर मिलता रहता है। धर्मबुद्धिके अनुसार जिया गया जीवन आत्मबल देता है।

ईश्वरीय ज्ञान जिस अन्तःकरणमें प्रकाशित होता है, उसे अपनी मलिनताएँ तुरत दिखायी पड़ती हैं और यह भावना उत्पन्न होती है कि इन्हे जितनी जल्दी हटाया जा सकता हो, हटा दिया जाय। जहाँ प्रकाश रहेगा, वहाँ अन्धकारकी गुजर नहीं। इसी प्रकार जहाँ धर्मबुद्धि रहेगी, वहाँ गुप्त सहायता जरूर रहेगी। ईश्वर-भक्तिका अर्थ है कि प्राणिमात्रके प्रति प्रेम-भावना, परोपकार, सेवाभाव ! सब जीवोमे समाये हुए ईश्वरसे प्रेम करने और नैतिक-विधान पालन करनेका तरीका यही हो सकता है कि प्राणिमात्रके दुःख दूर करने और उन्हें सुखी बनानेके लिये अपनेसे जो कुछ हो सके, उसको अधिक तत्परतासे करते रहा जाय। धर्म जीभतक सीमित रहने-वाली वस्तु न होकर कर्मके द्वारा प्रकट करनेकी वस्तु है।

डेडी, वहाँ यात्रियोंको सही रास्ता बताने बैठते थे

सुश्री सुनन्दा (बम्बई) ने पाश्चात्य देशोंमें मिला एक सस्मरण इस प्रकार लिखा है—

‘उस साल गरमीमें मैं ‘स्विट्जरलैण्ड’ गयी थी। लुगानोमें जहाँ हमने रहने के लिये मकान लिया था, उसके निकटसे ही सीधी सड़क सेंट गाटहार्ड दर्रा जाती थी; लेकिन वहीसे एक और सड़क

कहीं अन्यत्र जाती थी—पहाड़ोंमें। बहुधा यात्री गलतीसे उस दूसरी सड़कपर निकल जाते रहे होंगे। पर हमारी बगलमे ही एक वृद्ध सज्जन रहते थे।

घरमें वे और उनकी बेटी लीना—दो ही व्यक्ति थे। किसी दुर्घटनामें वे सज्जन अपने चलने-फिरनेकी शक्ति खो बैठे थे। अतः कहीं भी आने-जानेके लिये उन्हें पहियेदार कुर्सीका सहारा लेना पड़ता था। वे बड़े परोपकारी और सेवाभावी व्यक्ति थे। इस शरीरसे जो कुछ सेवा हो जाय, दूसरेको कुछ भी लाभ पहुँचाया जाय, इसे धर्म मानते थे। इस सेवाभावके कारण वे प्रतिदिन बड़े तड़के उठते और अपनी कुर्सी स्वयं लुठकाते वहाँ ले आते, जहाँसे सड़क दो दिशाओंमें बँट गयी थी। वही एक पेड़की छायामे वे दिन-दले तक बैठे किताब पढ़ते रहते। लीना उनके लिये चाय नाश्ता वगैरह वही ले जाती।

मेरी जिज्ञासा जब प्रबल हो उठी, तो मैंने एक दिन लीनासे पूछा—‘वृद्ध डैडी आराम न कर सड़कके किनारे क्यों बैठते हैं?’

वह सुनकर एक क्षण मौन रही। फिर बोली, ‘डैडीमें मनुष्यमात्रकी सेवा करनेकी प्रबल मानवीय भावना है। उनके पाँव बेकार हैं फिर भी वे अधिक-से-अधिक यात्रियोंकी सहायता करना चाहते हैं। अपने कल्याणकी, अपने सुख और स्वार्थकी पूर्ति संसारके सभी प्राणी स्वतः कर लेते हैं, किंतु डैडी यह मानते हैं कि मनुष्यको सबसे अधिक विचारशील तथा विवेकवान् होनेका अवसर उपलब्ध होता है, उसका सदुपयोग इसीमे है कि वह विश्व-हितमे

अपनेको लगा दे । सब की भनाईकी भावनाएँ रक्खे । डंडी वहाँ यात्रियोंको सही रास्ता बतानेको बैठते हैं । अगर कोई यात्री गन्त सड़कपर मुड़ जाता है तो उसे सही रास्ता बतला देते हैं ।'

उनका कहना है—'अपने इस बेकार जीवनको इस ढंगसे भी दूसरोके लिये उपयोगी बना सका, तो मैं सुखपूर्वक जी सकूँगा । हम जो कहते हैं, पहले उसे अपने खुदके व्यवहारमें आने दें, तो उसका अच्छी प्रतिक्रिया तो स्वयं होगी ! पुचकारनेसे पशु और पक्षी भी आत्मीयता प्रकट करने लगते हैं, फिर इस मनुष्यका तो क्या कहा जाय ? यह तो आत्मीयताके लिये सदा अपनी झोली फैलाये रहता है । आप दूसरोके साथ नेकीका व्यवहार कीजिये, इसमें आपकी भलाई पहले है । परोपकारके नामपर खर्च किया हुआ आपका प्रत्येक कण असख्यगुणा होकर लौटेगा । इस रास्ता बतानेके कार्यसे मेरी आत्माको सुख, शान्ति और संतोषका अनुभव होता है ।'

मिचिगन, स्वीडन, ब्राजील आदि देशोंसे उन्हें कुछ पत्र भी मिले हैं, जिनमें रास्ता बतानेके लिये उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की है । डंडी उन पत्रों को अपनी अमूल्य निधि मानते हैं ।

यह कहते-कहते लीनाकी आवाज भर्रा गयी और मैं पेड़के नीचे बैठकार रास्ता बतलानेवाले उस पुरुषकी समाज-सेवा-भावनाको देखकर दंग रह गयी ।

इस संस्मरणसे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य सच्चा आदमी बनकर जिये, यही बहुत है । मनुष्यका सच्चा गौरव इस बातमें है कि उसे मानवीय सद्गुणोंसे सम्पन्न, सम्य, सुसंस्कृत एवं सज्जन

कहा जाय । मनुष्यकी महत्त्वाकांक्षा यह होनी चाहिये कि उसके पास मानवीय सद्गुणोंका भण्डार अधिकाधिक मात्रामें विकसित रहे । किसीकी प्रगति, सम्पन्नता एवं बुद्धिमत्ताकी सर्वोत्तम कसौटी यह है कि वह पाशविक दोष—दुर्गुणोंको परास्त करता हुआ, अपने दिव्य मानवीय सद्गुणोंको बढ़ावे और जीवन-क्रमको आदर्श एवं अनुकरणीय बनावे । मानवीय पुरुषार्थोंमें सबसे बड़ा पुरुषार्थ आत्म-निर्माण ही है । जनताकी सेवासे बढ़कर मनुष्य-जीवनकी सफलता और कुछ नहीं हो सकती ।

अपराधीकी अजीब परीपकार-भावना

बरमिंघमका एक समाचार है । एक अपराधीने, जिसका नाम विलियम बोवेन था, १९६१ में अपनी पत्नीकी हत्या कर दी थी । लगभग ५ साल मुकदमा चलनेके बाद अदालतद्वारा वह हत्याका अपराधी ठहराया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे प्राणदण्डकी सजा सुनायी गयी ।

प्राणदण्डसे पूर्व अपराधीसे उसकी अन्तिम इच्छा पूछी गयी, तो उसने कहा, 'मेरा दुर्भाग्य है कि जीते-जी मैं कोई पुण्य कार्य न कर सका, पर मरनेसे पहले मेरी धर्मबुद्धि जाग्रत् हो उठी है और मैं कोई परोपकारका काम करना चाहता हूँ, जिससे सुखपूर्वक मर सकूँ । मरनेसे पहले मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जो एक सदाहर्षण बन सकूँ और जो मेरे-जैसे अन्य अभागोंको प्रेरणा दे सके । मैंने यह निश्चय किया है कि मेरी दोनों आँखें निकालकर सबको किन्हीं अधोंको देकर दृष्टिमान् बना दिया जाय । मुझे

खेद है कि मेरे शरीरके अन्य अङ्ग किसीके कुछ काम नहीं आ सकते, नहीं तो मैं वे भी दे देता ।'

अभियुक्तकी अन्तिम इच्छाके अनुसार उसकी दोनों आँखें निकाल ली गयी और बादमे बिजलीकी कुर्सीपर बिठाकर प्राणदण्ड दे दिया गया । उन दोनो नेत्रोको नेत्र-चिकित्सकोने एक अँधे वृद्ध और एक अधी किशोरीको एक-एक आँख लगाकर दृष्टिवाला बना दिया है ।

एक पुण्यात्मा रिक्शावाला

रुड़कीका एक समाचार इस प्रकार है । एक अध्यापककी माता सख्त बीमार हो गयी । वे गरीब चिकित्साके लिये जल्दीसे एक डाक्टरको बुला लाये । परंतु दुर्भाग्यसे डाक्टरके पहुँचनेसे पहले ही अध्यापककी वृद्धा माताजी चल बसी । अध्यापकने डाक्टरसे क्षमा माँगी और कहा कि 'आपको यहाँ आनेमे बड़ा कष्ट हुआ है ।'

डाक्टरने उत्तर दिया, 'कोई बात नहीं । बस, आप तो यहाँ आनेकी मेरी फीस पाँच रुपये दे दीजिये ।' बिना चिकित्साके ही फीस ! कातर और दयाकी भीख माँगती हुई निगाहसे अध्यापकने डाक्टरका देखा । उसके घरके अदरसे बच्चो और पत्नीके रोनेकी कारुणिक ध्वनि आ रही थी । पर डाक्टर ५) रु० लेकर ही वहाँसे हटा । उसे तनिक भी दया न आयी ।

अध्यापक डाक्टरको रिक्शामे लाया था । उसने रिक्शा-वालेको आठ आने मजदूरी दी, पर उसने यह रकम लेनेसे इन्कार कर दिया । जाते हुए वह प्रेमपूर्ण स्वरमे बोला—

‘आपकी माँ मरे और मैं आपसे पैसे लूँ। मैं डाक्टर नहीं हूँ, गरीब रिक्शावाला हूँ। अ दमी ही संकटके समय आदमीके काम आता है। मेरे दिलकी जगह पत्थर नहीं लगा है।’

अध्यापकने उससे कहा—‘आपने तो मजदूरी की है। पसीना बहाया है, मेहनत की है, इसीलिये आप मजदूरीके हकदार हैं। आपको मजदूरी लेना उचित है। ले लीजिये।’

लेकिन रिक्शावाला बिना पैसे लिये ही चला गया।

भौतिकवादी दृष्टिकोणवाला डाक्टर घृणाका और आध्यात्मिक दृष्टिकोणवाला रिक्शावाला हमारे लिये अनुकूलणीय उदाहरण हैं। धर्म वह है जो मनुष्यसमाजको सुव्यवस्थित, सुनियन्त्रित और सुविकसित रखनेमें सहायता करे। पर खेद है कि आज उसे वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो रही, जो वास्तवमें होनी चाहिये। जबतक मनुष्यके कण-कणमें व्याप्त आत्मभावका विकास नहीं होता, तबतक कानूनी व्यवस्थाएँ चाहे किनी भी कठोर क्यों न हों, मनुष्यकी बुराइयाँ कम नहीं हो सकती। ईश्वरके नैतिक विधानमें विश्वास करने और उसे चलानेमें ही हमें गर्वका अनुभव करना चाहिये। हम सद्गुण विकसित करते रहे।

ईश्वरत्वके सद्गुणोंको अपने आचरणमें विकसित करनेसे ही हमारा समाज उन्नति कर सकता है। स्मृतियोंमें धर्मके जो लक्षण बतलाये गये हैं, उनमें त्याग, क्षमा, दया, समता, सेवा और परोपकारको ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। ये दिव्य सम्पदाएँ जहाँ व्यक्तिगत जीवनमें शान्ति और सतोष प्रदान करनेवाली हैं, वहाँ

उनका आचरण भी समाजमें ही हो सकता है। फलस्वरूप सामाजिक जीवनमें भी वैसे ही सत्परिणाम दिखायी देना स्वाभाविक है।

पुण्यकर्म सत्त्वकी सशुद्धिपर निर्भर हैं। मन और बुद्धिमें जितनी निर्मलता होती है उतने ही स्वच्छ कर्म होते हैं। जिसका स्वभाव अच्छा बन जाता है, उससे परिस्थितियोंके बन्धनोंमें पड़कर भी बुरे कर्म नहीं होते।

प्रायः साधारण आदमी सोचता है कि बुरा काम करके पूजा-पाठ, जप-तप, यज्ञ-व्रत, देवदर्शन आदि कर लेनेसे उसका फल नहीं भोगना पड़ता। पर यह निश्चित है कि पुण्य और पापके फल भोगने ही पड़ते हैं। यह दूसरी बात है कि कभी अच्छाइयाँ बुराइयोंको दबा लेती हैं और कभी बुराइयाँ अच्छाइयोंको दबा लेती हैं। गुण अधिक होते हैं तो पाप कम हो जाते हैं। दुर्गुण अधिक होते हैं तो पाप बढ़ने लगते हैं।

मनुष्यमें अच्छाई भी होती है और बुराई भी। महाभारतके स्वाध्यायसे पता लगता है कि दुर्योधन, कर्ण आदिमें जहाँ बुराइयाँ थी, वहाँ अच्छाइयाँ भी थी। बुराईकी मात्रा अधिक होनेसे कौरव पराजित हो गये। अच्छाईकी मात्रा बहुत अधिक होनेसे पाण्डवोंको विजय मिली।

सबसे बड़ी अच्छाई है गुरुदेव, भगवान् या परमेश्वरकी शरणमें जाना और उनकी आज्ञाका पालन करना। जिसमें यह अच्छाई होती है, परमात्मा उसकी सब बुराइयोंको दूर कर देता है।



अपना हाथ जगन्नाथ !

आप समझते हैं कि हमारी सहायता दूसरे करते हैं, तब ही हम जीवनपथपर अग्रसर हो सकते हैं। हम दूसरोके आश्रित हैं। हमें उनका सहयोग और सहायता चाहिये। वास्तवमे यह विचार एकदम गलत है।

ईश्वरने मनुष्यको स्वयमे पूर्ण बनाया है। उसमें उन तत्वोका प्रचुरतासे समावेश किया गया है, जिनसे जीवनमे प्रगति और उन्नति होती है। मनुष्यके मस्तिष्क और आत्मामे अद्भुत मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। उसके उन्नतिशील विचारोंमे जीवननिर्माणकी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है।

इन शक्तियोकी भिन्न-भिन्न दिशाएँ हैं। आप जो चाहे, जिधर चाहें, वही मार्ग पकड़ सकते हैं। साहस और शौर्य, धैर्य और संघर्ष, परिश्रम और उद्योग, भक्ति और विद्या इत्यादि विचारोंकी भिन्न-भिन्न दिशाएँ हैं। जो व्यक्ति जिधरको चल पड़ा, उधर ही अपने विचारवलसे उन्नति करता जाता है। इसका जीवनके क्रियात्मक क्षेत्रमे प्रयोग करके लाभ उठाता है।

हमारा अज्ञान

कभी-कभी आदमीको बहुत दिनोंतक अपनी शक्तियोका ज्ञान नहीं होता। इस सद्ज्ञानके अभावमें वह हवामे उडनेवाले पत्तेकी तरह उधर-उधर निरुद्देश्य उडता रहता है। फिर एकाएक किसीके सम्पर्क अथवा सत्सगसे उसमे अपनी शक्तियोके प्रति विश्वास पैदा होता है और वह काफी उम्रके पक जानेपर अपनी उन्नति प्रारम्भ कर देता है।

जो अपने शरीर, मन और आत्मामें छिपी हुई शक्तियोंके प्रति ध्यान नहीं देते, वे जीवनभर दीन, दुखी और निर्बल ही पड़े रहते हैं। आजन्म लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे असंख्य व्यक्ति इस दुनियामे जन्मे और पशु-पक्षियोंकी तरह जीवनको नष्ट कर मिट्टीमें मिल गये। घरतीके समस्त भोग पुरुषार्थी और वीर पुरुषोंके लिये बने हैं। कायरों और आलसियोंके लिये दुनियामें कुछ नहीं है।

हम बड़े-बड़े बैज्ञानिकोंकी सफलतापर आश्चर्य करते हैं। उनके द्वारा बनाये हुए आविष्कारोंपर चकित और विस्मित हो जाते हैं। धनकुबेरीकी गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ देखकर दाँतोतले अँगुली दबाते हैं। कलाकारोंकी कलाका प्रदर्शन देखकर हर्षसे ताली पीटते हैं। विशाल शैलशृङ्गोंपर चढ़नेवाले पुरुषोंके करिश्मोंपर देरतक विचार करते रह जाते हैं। पाश्चात्य देशोंने जलयान और वायुयानके क्षेत्रोंमें मछली और पक्षियोंको पीछे छोड़ दिया है। आदमी आज चन्द्रमामे पहुँच रहा है। यह सब मनुष्यके पौरुषके ही अद्भुत चमत्कार हैं।

आज हमारा देश कायरता और आलस्यसे भर गया है। हमें आजाद हुए इतने दिन हो गये, पर हमने वह उन्नति नहीं की, जो वस्तुतः हमें कर लेनी चाहिये थी। हमने अपने देशकी अधिका, मूढता और गरीबीको दूर नहीं किया है। हमने खेतोंसे वह उपज उत्पन्न नहीं की है, जो हमें कर लेनी चाहिये थी। हमने विज्ञान और ज्ञानके क्षेत्रोंमें उन्नति नहीं की है। इस सबका स्पष्ट अर्थ है कि हम काफी दर्जोंमें पुरुषार्थी और परिश्रमी नहीं हैं।

वेदमे एक बड़ी उपयोगी उक्ति है—

कृतं मे दक्षिणे हस्ते, जयो मे सव्य ग्राहितः ।

गोजिद् भूयासमश्वजिद् घनंजयो हिरण्यजित् ॥

(ऋग्वेद ७ । ५० । ८)

अर्थात्—‘हे मनुष्य ! तू अपने दाहिने हाथसे पुरुषार्थ कर और विश्वास रख, बायेंसे सफलता निश्चित है । गोघन, अश्वघन और स्वर्ण इत्यादि अमूल्य वस्तुओंको तू अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त कर ।’

यही हमारी सबसे बड़ी कमी है । हम कहते हैं कि जीवनमें हम कुछ न कर सके । हमे किसी भी क्षेत्रमे उल्लेखनीय उन्नति नहीं मिली । हम असफलता से परेशान हैं । इसका कारण यह है कि हमने पुरुषार्थको अपने जीवनका अङ्ग नहीं बनाया है । हमारा जीवन और हमारा देश आलस्य और अकर्मण्यताके कारण उतनी उन्नति नहीं कर सका है, जितनी हमे वास्तवमें करनी चाहिये थी ।

असहाय और निराशाके क्षणोमे आपके गुप्त मनमे छिपा हुआ पुरुषार्थ ही सच्चा सहायक सिद्ध होता है । जब मनुष्य स्वयं अपनी सहायताको जुट जाता है, दूसरेका आसरा नहीं देखता, तब निश्चय ही वह सफलताके द्वारपर आ खड़ा होता है ।

आप पुरुषार्थी बने । नये साहससे कार्य और योजनाओंको अपने हाथमे ले । आपने अपने कार्यका जो क्षेत्र चुना है, उसमे साहसिकताका परिचय दें । निश्चय ही आप कायर या कापुरुष नहीं हैं ।

याद रखिये, आपमे सैकड़ो प्रकारकी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं । जीवन और समाजको उन्नतिकी दिशाओमे बदलनेके लिये आपके

पास बहुत सामग्री है। साहस, शौर्य, उद्यम, परिश्रम, उद्योग, धैर्य और संघर्षकी शक्तियाँ आप खुद दृढ निश्चयसे अपने अदर पैदा करते हैं और इनके प्रयोगसे जीवनके क्रियात्मक क्षेत्रमें लाभ उठाते हैं। यदि आप इन दिव्य शक्तियोंकी ओर ध्यान न देंगे, तो आजन्म दीन-दुर्बल ही बने रहेंगे। धरतीका भोग वीर पुरुषोके लिये है। दुनियामे धन, सम्पदा, सम्मान, उच्चस्थिति सब कुछ है, पर उसके लिये मनुष्यकी कर्मठता भी तो जागे।

पौरुष न जागा, तो हाथ कुछ न लगेगा। पौरुष नामक तेजस्वी तत्त्वको चरित्रमे धारण करनेवाला ही सच्चे अर्थोमे पुरुष कहलाता है, बिना पौरुषके आदमीकी शक्लमे हम सियार और चूहे-सरीसे हैं।

अपनी छिपी हुई गुप्त मौलिक शक्तिको खोज निकालिये। यह मालूम कीजिये कि किन-किन कार्योंको आप दूसरोकी अपेक्षा श्रेष्ठतर और कलात्मक ढंगसे कर सकते हैं? किनमे आप दूसरोसे ऊँचे और बढ़िया हैं? आपकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं? दूसरोके सहारे बैठे रहना निकम्मापन है। ईश्वरकी सहायता तभी आपको मिलेगी, जब आप स्वावलम्बी बनेंगे। खुद अपने हाथसे कार्य करेंगे। अपने पाँवोपर खड़ा होकर ही मनुष्य उन्नति कर सकता है, पुरुष कहलानेके नाते पुरुषार्थ आपके जीवनकी पहली आवश्यकता है। कहा है—रहो सरोह रोहितः। (अथर्ववेद १३।३।२६)

अर्थात्—उन्नति उसकी होती है, जो प्रयत्नशील है। भाग्यके भरोसे बैठे रहनेवाले आलसी हमेशा दीन-हीन ही रहेंगे।



आप एक महान् व्यक्ति हैं

हमारे शरीर, मन तथा परिस्यतियोंके सम्बन्धमें हमारी बहुत-सी क्रियाएँ हमारी प्रत्यक्ष इच्छाके बिना ही अज्ञातरूपसे हुआ करती हैं। जिन क्रियाओंको हम समझते हैं कि हम अपनी इच्छासे ही करते हैं, वे भी प्रायः किसी-न-किसी आवेगके वश ही की जाती हैं।

जब कोई गवैया किसी बाजेको अच्छी तरह सीख लेता है, तो फिर उसे इस बातकी आवश्यकता ही नहीं रहती कि उस बाजेको बजाते समय अपनी प्रत्येक अँगुलीकी गतिपर ध्यान दे। यदि उसका चित्त उन शब्दोंमें लगा हुआ हो, जिन्हें वह बाजेपर गा रहा है, तो उसकी अँगुलियाँ स्वयमेव ही ऐसी योग्य गतिसे बाजेपर पड़ेंगी कि उसमेंसे रागके अनुकूल ही स्वर-ताल निकलेंगे। ऐसी ही गति हमारी सब क्रियाओंकी होती है। यह सब कार्य हमारे गुप्त मनद्वारा होता है। किसी सुपरिचित कार्यके करते समय बाह्य मन भ्रमण भी करने लगता है, तो भी गुप्त मनके प्रभावसे चुपचाप क्रिया स्वयं होती रहती है।

अपने जीवनमें हम प्रतिक्षण कुछ-न-कुछ नया कार्य करते रहते हैं, जिनका हमें ज्ञान भी नहीं होता। उनमेंसे कुछ आदतें तो अच्छी होती हैं और कुछ बुरी। पहले तो उनका ज्ञान न होनेसे उनका प्रभाव बहुत थोड़ा होता है, पर समय पाकर जब वे गहरी जड़ें कर लेती हैं तो उनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। पान खाने, बीड़ी-सिगरेट पीने, मास-भक्षण, सिनेमा देखनेका गंदा व्यसन, कड़े-रुखे और अभिमान भरे वचन आदि आदतें, मित्रोंमें तथा समाज-

में अति सूक्ष्म रूपोंमें शुरू होती हैं, किंतु समय पाकर वे गहराई-से जीवनमें जड़ पकड़ लेती हैं बच्चोंमें चोरी-अपराधकी वृत्ति या युवकोंमें व्यभिचारकी दुष्ट प्रवृत्तियाँ धीरे-धीरे जमकर बढ़ती जाती हैं। पहले छोटेसे कार्यसे एक गदी आदत या विषैले विचारका प्रारम्भ होता है, पर उसीके बढ़ जानेपर उससे छुटकारा पाना असम्भव-सा हो जाता है।

उन्नति करना अपने वशकी बात है। अच्छे विचारों, अच्छी आदतों या शुभ संकल्पोंको ग्रहण करना हमारे वशकी बात है। दैवी-वृत्तियाँ जब सोने लगती हैं, तभी दुष्ट आसुरी-वृत्तियाँ जागती हैं। असुर हमारे अंदर सोये पड़े रहते हैं, या यों कहिये कि हमारे मनमें बसने और सदा जाग्रत् रहनेवाले देवता उन्हें दबाये रहते हैं। दैवी-वृत्तियाँ उन विषैले राक्षसोंको दबाये या शक्तिहीन बनाये रहती हैं। यदि हम वास्तविक सुख-शान्ति चाहें तो हमें दैवी-वृत्तियों-जैसे प्रेम, दया, सहानुभूति, सेवा, त्याग, विनय आदिको सतत जाग्रत् और विकासोन्मुख रखना चाहिये। यदि शुद्ध वृत्तियाँ या आपके मनोराज्यमें सोये हुए देवता लगातार जागते रहे, अपना देवोचित कार्य सजगतासे करते रहें तो असुर-वृत्तियोंको पनपनेका अवसर ही नहीं प्राप्त होता और मनुष्य भव्य मार्गोंमें बढ़ता चला जाता है। शुभ संकल्पोंको ग्रहणकर कार्यरूपमें परिणत करना हमारे हाथमें है। यदि हम सदैव सावधान रहे और विवेकसे अच्छी आदतोंको ही चुनें तो बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं। हम अपना

चरित्र जैसा चाहे, बना सकते हैं । सत् सकल्पकी शक्ति स्वाभाविक रूपसे मनुष्यमे छिपी हुई है । स्वयं आपमे भी दैवीशक्ति है । इसको खोजकर और इसको उन्नत कर निरन्तर इसका उपयोग कर हम इसे जितना चाहे बढ़ा सकते हैं ।

दिव्य शक्तियोंके उपयोगसे उन्हें विकसित कीजिये—याद रखिये, आपकी शक्तियाँ उत्तरोत्तर उपयोगसे ही बढ़ती हैं । यदि उनसे काम न लिया जाय, तो वे सोने या क्षय होने लगती हैं । प्रत्येक कार्यका कारण विचार है । हम अपने मानसिक साम्राज्यके स्वतन्त्र राजा हैं ।

यह मानसिक राज्य भा कौसा विचित्र राज्य है । इसमे विचित्र कल्पनाएँ और दुनियाभरकी देखी, सुनी तथा बिन देखी सभी बातें होती हैं । इस राज्यमे स्वयं आपके अतिरिक्त किसी दूसरेकी पहुँच नहीं है । यह राज्य ऐसा है कि जहाँ किसी स्थूलकी गति नहीं है । यह राज्य शून्यमे स्थापित है और वह शून्य साकार—गणितका शून्य नहीं, परंतु निराकार है ! वहाँ वायुकी भी पहुँच नहीं है ।

अपने मानसिक, कल्पनात्मक राज्यमे आप पूर्ण स्वतन्त्र हैं और सब नियमोंके निर्माता आप स्वयं ही हैं । सब कुछ आप ही है । असम्भवको सम्भव बना सकते हैं । यह आपका ऐसा गुप्त राज्य है, जिसे न तो कोई देख सकता है और न कोई जान सकता है तथा न आपके विचारोंसे किसी व्यक्तिको किसी प्रकारकी आपत्ति हो सकती है ।

स्मरण रखिये, कठिनाई और सरलता, असफलता और सफलता, लाभ और हानि, उन्नति और अवनति—सब आपके मनके अनुसार ही आपके जीवनमें प्रतिबिम्बित होती हैं ।

निराश कभी मत होइये । उन्नतिके लिये, अच्छी आदतोंके लिये, अपने शुभ संकल्पोंकी सिद्धिके लिये सतत प्रयत्न करते रहिये । बार-बार प्रयत्न करनेसे ही आपको उत्साह मिलेगा—सफलता मिलेगी । आपके कठिन कार्य सरल होते जायेंगे । प्रत्येक प्रयत्न, आपकी प्रत्येक छोटी-सी सफलता आपका आत्मबल बढ़ानेवाली है । भविष्यमें आप कठिनतर कार्य भी हँसते-हँसते कर सकेंगे । जीवनमें सबसे आवश्यक अपने शुभ संकल्पोंकी सिद्धिके लिये सावधान रहकर प्रयत्न करते रहना ही है । इस आत्मबलकी आवश्यकता युवकोंको ही नहीं, किंतु वृद्धोंके लिये भी है ।

सफलता एक आदत है

सफलता एक आदत है । छोटेपनसे ही सफलताकी आदत बनाइये । मनुष्यके मनमें ऐसी अद्भुत शक्तियोंका भण्डार है, जिसकी कल्पना स्वयं मनुष्य नहीं कर सकता । नैपोलियन बोनापार्ट संसारका एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति समझा जाता है । वह एक निर्भीक नेता था । उसके वीरतापूर्ण साहसिक कार्योंके कारण ही संसारके इतिहासमें उसका नाम अमर हो गया है, किंतु जब हम उसके प्रारम्भिक जीवन-पर ध्यान देते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि किस प्रकार नैपोलियन इतनी उन्नति कर सका ।

‘क्या वह किसी धनी पूंजीपतिका पुत्र था ?’

‘बिलकुल नहीं । उसका जन्म कोर्सिका नामक द्वीपमें एक गरीब परिवारमें हुआ था ।’

‘क्या उसे शिक्षा और जीवनकी सुविधाएँ प्राप्त थी ?’

‘नहीं, बेचारे नैपोलियनकी शिक्षाकी कुछ भी व्यवस्था न हो सकी थी ।’

‘क्या बचपनमें वह आराम और शानसे रहा ?’

‘नहीं, उसका बचपन अन्धकारमय था । वह अपने बाल्यकालसे ही मन्दबुद्धिवाला लडका समझा जाता था । उस समय उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था । साथ-ही-साथ वह अत्यन्त दुर्बल एवं कृश शरीरका व्यक्ति था ।’

इतनी मुसीबतों, कठिनाइयों, विरोधोंके बावजूद अपने आत्मबल और उच्च संकल्पशक्तियोंके बलपर नैपोलियनने उन्नति की थी । वह गरीब, अल्पशिक्षित होकर भी फ्रांसका शासक बना । यह शासक अपने बचपनके नैपोलियनसे बिलकुल भिन्न था । नैपोलियन एक साधारण सैनिकसे फ्रांसका सेनापति बना । अनेक यूरोपीय देशोंको पराजित करके उसने अपने राज्यमें मिलाया । उसकी आश्चर्यजनक उन्नतिके कारण उसका आत्म-विश्वास था । वह अपने मनोराज्यमें सदा यही सोचा करता था कि वही संसारका एक वीर पुरुष है । उसे बचपनसे ही अपनी वीरता और महानतापर विश्वास जम गया था । उसका कहना था कि संकल्पबलकी सहायतासे संसारमें कोई वस्तु असम्भव नहीं है । वह प्रारम्भसे ही अपने मनोराज्यमें विश्वपर शासन करनेका स्वप्न देखता था ।

आप भी अपनी महानतामें अखण्ड विश्वास रखिये—अपनी महानतामें सदा विश्वास रखिये। मनुष्यके मनमें ऐसी अद्भुत शक्तियोंका भण्डार है, जिसकी कल्पना स्वयं मनुष्य भी नहीं कर सकता।

मनकी प्रधानता होनेके कारण ही इस शरीरका नाम मनुष्य है विकसित मनवाले व्यक्तिको ही मनुष्य कहना चाहिये। जीवनमें प्रत्येकपर मनका प्रभाव देखा जाता है। मनुष्य अपने विचारोंके कारण ही बन्धन अथवा मोक्षमें पड़ता है। विचारोंको एक उद्देश्यपर केन्द्रित करनेसे ही शक्ति उत्पन्न होती है। अतः जैसे विचारोंका मनन, चिन्तन या मनमें निवास होगा, वैसी ही इच्छाशक्ति उत्पन्न होगी।

यदि आपके विचार नीचे स्तरके, विषय-वासना, व्यर्थ खेल-कूद, मनोरञ्जन, सैर-सपाटा,—क्षणिक आनन्दके हैं, तो शक्ति भी वैसे ही होगी। जिनके विचार क्षण-क्षण बदलते रहते हैं, वे भला कैसे आगे बढ़ेंगे।

आप दुर्बल शरीर नहीं, सर्वशक्तिमान् आत्मा हैं। जहाँ विचार दृढ़ और संशयरहित है, वहाँ शक्ति प्रबल और तीव्र होती है। विचारोंमें स्थिरता और टिकाऊपन दृढता और श्रद्धासे होता है।

जरा विचार कीजिये आप कौन हैं? क्या आप शरीर हैं? क्या आप हाड, मांस, रक्त, चमड़ा आदि दुर्गन्धयुक्त घृणोत्पादक पदार्थोंसे बने हुए पुतले हैं? नहीं, आप हाड़, मांस, रक्त कुछ नहीं हैं। आप एक देव-मूर्ति हैं। जब शरीरपर कोई थप्पड़ मारता है, तब आप कहते हैं कि मुझे मारा।

यह भूल करते हैं। विचारें, तो आपको मालूम होगा कि आप शरीर नहीं हैं, किंतु स्वयं विचार हैं। स्वयं शक्ति हैं। आप वैसे ही हैं, जैसा आप वस्तुतः विचार करते हैं। यदि आप अपने-आपको केवल शरीर समझते हैं तो शरीरमात्र हैं। यदि आप अपने-आपको आत्मा, महान् आत्म, उन्नत महत्तर आत्मा, सर्वशक्तिमान् आत्मा समझते हैं, तो वास्तवमें सर्वशक्तिमान्, सर्वगुणसम्पन्न, शोद्धा, धीर-वीर नर-पुंगव हैं। आप दिव्य-मूर्ति हैं। अपने संकल्पसे आप जो चाहे बन सकते हैं।

आप बलवान्, स्वस्थ, तेजस्वी होनेके जन्मसिद्ध प्रकृत अधिकारी हैं। कभी मत कहिये कि मैं दुखी हूँ, अशक्त हूँ, गरीब हूँ, वृद्ध हूँ, बीमार हूँ, निर्बल हूँ और ज्वर-ग्रस्त हूँ। ये सब बातें ऊपरी हैं—शरीरसम्बन्धी हैं।

आप शरीरसे ऊँचे हैं—बुद्धि हैं, बुद्धिसे भी परे आत्मा हैं। दैवीशक्तिके नायक हैं। सबके स्वामी हैं। मनपर पूर्ण अधिकार कीजिये। उसे बलवान् बनाइये। शरीर भी मनकी आज्ञा मानेगा। फिर दुःख, विन्ता, निर्बलता, वृद्धावस्था या असफलताका अस्तित्व न रहेगा। निर्बलता छोड़ दीजिये। भ्रमके अन्धकारसे ज्ञानके प्रकाशमें जागिये।

यह 'अगर मगर' 'यदि ऐसा होता, तो मैं भी उन्नति करता।' 'मेरी सिफारिश होती तो मैं तरक्की करता..... मगर ऐसा नहीं हुआ' योग्यताकी कोई पूछ नहीं, आदि कायरपनके शब्दोंका व्यवहार अपनी बातोंमें कदापि न कीजिये। ये शब्द आपको निर्बल बनाते हैं। हृदय और मनमें ह्रस्व, शोक, रोग,

पीड़ा, हानि तथा विराशा, निर्बलता एवं आपत्तिकी बातोंको स्थान मत दीजिये । इनसे आपकी सामर्थ्य शिथिल होती है, अधिकार भ्रष्ट होता है और आप दासताको प्राप्त होते हैं ।

लोक-लज्जाको अपने ऊँचे ध्येयकी पूर्तिके आगे मत लाइये । यह विचार आपको उन्नति करनेसे रोकता है । आपके पैर पकड़ लेता है । 'लोग हँसेंगे, टीका-टिप्पणी करेंगे, जगत्-हँसाई होगी, विन्दा ।' इसकी परवा मत कीजिये । उन्नतिका मार्ग कठोर और दुःसह होता है । ससारको पसद नहीं आता । संसारके लोग उस व्यक्तिसे ईर्ष्या करते हैं, जो उन्नति कर रहा है । यदि आप जगत्की व्यर्थ बातोंकी परवा करेंगे, तो सदैवके लिये निराशाके गड्ढेमे गिरकर सदा एक ही स्थितिमे सड़ते रहेंगे । कूपमण्डूक बनकर बाहरका ससार न देख सकेंगे । ये दुर्बलताके विचार आपकी संकल्पशक्तिकी परीक्षाके लिये आते हैं । अतः इनसे विचलित न होकर अपनी दृढ़ताका परिचय दीजिये । असमर्थता मत दिखाइये । दृढ़ प्रतिज्ञा, आत्मविश्वास और निरन्तर अभ्याससे असाध्य भी सुसाध्य हो जायगा - भगवान्की महैतुकीकृपा और आत्मक्तिपर विश्वास करके सतत आगे बढ़ते रहिये ।

आत्माका तिरस्कार न होने दें, आत्माकी अवज्ञा न होने दें । अपने अन्तर्वासी, आत्मदीपकी सदा प्रज्वलित शिखाको मन्द न होने दें ।

हम मानव संसारके कोलाहलमे इस अमृतवाणीको सुनकर भी अनसुना कर देते हैं ।

शुभ विचारोंमें नवनिर्माणकी शक्ति है

अच्छे विचारोंसे मनुष्यके गुप्त मन, उसके वर्तमान जीवन और उज्ज्वल भविष्यका निर्माण होता है। जो मनोकामनाएँ गुप्त मनमें रहती हैं, हम चुपचाप जिन कल्पनाओंमें रमण करते रहते हैं, वे निश्चय ही पूर्ण होकर रहती हैं।

इसके विपरीत आत्महीनता, चिन्ता, भय और निराशाके विचारोंसे मनुष्यकी उत्पाज्जक शक्तिका क्षय होता है। वर्तमान जीवन नरक-तुल्य बन जाता है। आत्महत्याएँ और दिलके दोरे होते हैं। जीते-जी मनुष्य मरेके बराबर रहता है।

उत्तम पवित्र विचारोंसे जो लाभ तथा हानिकर विचारोंसे जो हानि होता है, उसका ज्ञान साधारण मनुष्योंको बहुत कम होता है और विशेषकर अपढ़ लोगोंमें तो उसका ज्ञान शून्यके बराबर होता है। इसीलिये संसारमें असंख्य लोग जीवनमें परेशानीका अनुभव कर रहे हैं।

यदि लोगोंको शुभ विचार करने का ढंग मालूम हो जाय और लोग पौजिटिव तरीके (हितैषी-रूपमें) से सोचने-विचारने लगे, तो यही कठोर दीखनेवाला संसार सुखोका भण्डार बन जाय। रोना-पीटना, चिन्ता, उद्वेग, भय, क्लेश, निराशा आदि मनोविकार मिट जायें और आदिकर्ता ईश्वरका समग्र सुख-प्रमृद्धि-भण्डार मनुष्योंके हाथ लग जाय।

विचार ही सृजनात्मक शक्ति है। सुरुचि, सुमति आदि

सद्विचारके ही नाम हैं। यह उच्चविचार, अपने हितका विचार ही समस्त भावी उन्नतिका आधार है।

‘विचार’ न दीखकर भी सब कुछ है। यही मनुष्यके मस्तिष्कका सर्वश्रेष्ठ अङ्ग है। सब मूल्यवान् मानसिक सम्पदा है। ‘विचार’ फालतू बात नहीं है, वह एक सज्ञा है, सृजनात्मक शक्ति है, उन्नतिका रूप है। उसमें क्रियाशील जीवन है। वह स्वयं ही जीवन है। वह सत्य है।

विचार ही मनुष्यका आदि-रूप है। जलमें लकड़ी, पत्थर-गोली आदि फेंकनेसे जैसा आघात होता है, जैसा रूप बनता है, जो धसर होता है, वैसा ही तथा उससे भी अधिक तेज आघात विचारोंको चारों ओर वाणीद्वारा (भाषण-लेखन) फेंकनेसे होता है। दृढ़ शुभ विचार उत्तम वातावरणकी सृष्टि करते। उनकी पहुँचमें जो भी आ जाता है, उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता।

विचारोंमें नये जीवन, नये समाज और नये विश्वकी रचना करनेको अद्भुत शक्ति है। जब नये विचारोंको समाज ग्रहण कर लेता है तो उन्हींके अनुसार नयी पीढीका जीवन चलने लगता है। जिसका मन नयेके प्रति उत्साहपूर्ण रहता है और मनमें बड़े होनेकी तीव्र लालसा होती है, जो व्यक्ति बड़ा अधिकारी, लेखक या वक्ता अथवा नायक होना चाहता है, जिसका मन सदैव शून्यमें—अपने मानसिक राज्यमें बड़ी-बड़ी वस्तुओं, ऊँचे-ऊँचे आदर्शोंका रचना किया करता है, वास्तवमें विचार-बलसे वह एक दिन सचमुच ही बड़ा हो जाता है—यह सभी विचारशीलोंके अनुभवमें आयी हुई

बात है। जितने लोग साधारण स्थितिसे ऊँचे उठे हैं या जिन्होंने अमर नाम कमाया है, उन सभीने उन्नतिशील सद्विचारोकी मुख्यता प्रत्येक कार्यमें बनायी है।

सालोमन नामक एक बड़े विद्वान्के कथनमें भारी सत्यता है। वे कहते हैं कि—'मनुष्य अपने मनमें जैसे स्थायी भाव रखता है, नित्य-प्रति जैसा सोचा करता है, वह क्रमशः वैसा ही बनता जाता है। प्रत्येक विचार उसके मनके सूक्ष्म केन्द्रोंका निर्माण करता है।'

परंतु इस विचार-शक्तिका एक दुरुपयोग भी है। वह है शेखचिल्लीकी तरह अनाप-शनाप कल्पनाओंमें निमग्न रहना और ठोस काम कुछ भी न करना। व्यर्थकी बड़ी-बड़ी बातें करनेसे और खाली हाथ बैठे रहनेसे कोई उन्नति नहीं होती। जो सोचें, वह करें। कर्ममें पूरे सच्चे, खरा सोना रहें। आपके कथनमें सकल्पकी सत्यता हो। कर्मकी पृष्ठभूमि हो। हाँथ-पाँव साथ-साथ उठें। शरीर क्रियाशील रहे।

रचना करनेकी शक्ति उन्ही विचारोंमें होती है, जिनमें सच्चा विश्वास, दृढ श्रद्धा और सतत अनवरत कर्म रहता है।

बाइबिलमें सत्य ही लिखा है—According to your faith, be it unto you. जितने अंशोंमें आपका सक्रिय विश्वास है, उतने ही अंशोंमें आप वास्तवमें 'आप' हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शुद्ध और उच्च-क्रियाशील (Active) विचारोंमें ही जीवन-निर्माणकी शक्ति है।

शुद्ध और उच्च विचारोंके अतिरिक्त दृढ़ श्रद्धाकी भी जरूरत है। यदि एक विद्यार्थीका मन सदैव नौकरी करनेके विचारोमे लगा रहे, तो वह आगेके जीवनमे नौकरी ही करेगा, परंतु यदि किसी उच्चाभिलाषीके मनमे ऊँचे परोपकारमय कार्य करनेकी भव्य भावनाएँ आती हैं, तो वह विचार-बलके कारण भविष्यमे अवश्य किसी अच्छे कामका स्वामी बनेगा और अनेक मनुष्योंपर शासन करेगा।

शुभ विचारोंसे रोगी स्वस्थ हुए

एक समाचार-पत्रमें यह समाचार था कि एक मानसोपचारकने रोगियोंके मनमे शुभ विचारोंको जमा कर दो सौसे अधिक रोगियोंको स्वस्थ कर दिया।

इसका रहस्य यह है कि रोगीको या किसीको भी जैसे विचारोंका बार-बार दृढ़तासे उपदेश दिया जायगा, वैसा ही कार्य उस रोगीके गुप्त मनद्वारा शरीरसे प्रारम्भ हो जायगा। मानसिक दृष्टिसे निर्बल रोगियोंको स्वास्थ्य, आनन्द, साहस, पौरुष, वीरता, प्रसन्नता आदिके विचार बार-बार सुनाये जाते थे। इसलिये उनका मन बीमारी और कमजोरीके विचारोंको छोड़कर स्वास्थ्य, आनन्द, प्रसन्नता आदिके गुणकारी विचारोंको ग्रहण करता था। परिणाम यह हुआ कि वे अपनेको स्वस्थ और सशक्त समझने लगे। इसलिये धीरे-धीरे उन्होंने स्वास्थ्य, आनन्द और शक्ति प्राप्त की।

देखिये, उचित और स्वस्थ विचारोंका कितना अद्भुत कार्य है।

यह तो साधारण श्रेणीके विचारोका जादू है। जब आप विचार-विज्ञानका गूढ अभ्यास करेंगे और प्रत्येक कार्यका प्रतिक्षण निरीक्षण करेंगे तो आपको इन विचारोकी सत्यता मालूम होगी और आप कहने लगेंगे कि वास्तवमे 'विचार' ही मनुष्यकी सबसे बड़ी उर्वरा सृजनात्मक शक्ति है।

हमारे मिलने-जुलनेमे भी विचारोका बड़ा कार्य होता है। जो लोग प्रसन्न-चित्त और आनन्दी स्वभावके होते हैं, सदा आनन्दमें मस्त रहते हैं, चिन्ता नहीं करते, विपत्ति या बड़ी कठिनाई आने-पर भी शुभ विचारोमे ही लीन रहते हैं और मुसीबतोमें भी हँसते रहते हैं। उनसे कोई भी जब मिलता है चाहे वह कैसा भी उदास, खिन्न तथा चिन्ताग्रस्त, विपत्तिपतप्त हो, प्रसन्न मुंहको देखकर अवश्य प्रसन्न हो जाता है। अपना दुःख-दर्द भूल जाता है और हँसी-खेलमे उनकी बातोंमे ही मग्न हो जाता है।

प्रसन्न विचारवाले लोग जहाँ जाते हैं, सर्वत्र आनन्दकी ही वर्षा करते हैं।

इनके विपरीत ऐसे लोग भी हैं, जिनका मुंह क्रोध, ईर्ष्या, कपट या उद्वेगमे हमेशा फूला रहता है। चेहरा बदसूरत रहता है और उदास विषादभरे विचारोसे उनके चारो ओर उदासीका कड़वा विषैला वातावरण छाया रहता है। उनके पास कोई भी आदमी नहीं जाना चाहता और न कोई बातें करना ही चाहता है। उनका मुखमण्डल विषैले मतोविकारोके कारण ही मलिन रहता है। ये सर्वत्र दुःख-रोग-शोक ही पैदा करते रहते हैं।

संसारमें ऐसे मनुष्योंकी आवश्यकता है, जिनका हृदय पवित्र त्यागमय प्रेमसे पूर्ण हो और जो सबके लिये आनन्दके स्रोत हों, जिनसे दुखी और शोकसंतप्त समाजमें आनन्द और उल्लासके प्रेम-साम्राज्य का विस्तार हो ।

परमात्माका भण्डार आपके ही अंदर है, फिर आप प्रेम, सुख और आनन्दकी भीख बाहर दूसरोसे क्यों मांगते फिरते हैं ? मनुष्यकी सहायताके भिखारी क्यों बनते हैं ?

ईश्वरके विपुल भण्डारमे सब वस्तुएँ उसका हैं, फिर सीधे ईश्वरसे ही क्यों नहीं मांगते हैं ? उसकी देनेकी शक्तिमे क्यों नहीं विश्वास करते ?

कारण यह है कि बचपनसे ही आपको इस बातकी शिक्षा नहीं दी गयी है और ससारके निर्बल और कर्महीन लोगोकी देखा-देखी आप भी ऐसा ही करने लगे हैं ?

आपमे आत्मविश्वासकी अतीव आवश्यकता है । यह आत्म-विश्वास ही आपमे ईश्वरका निवास है ।

आप प्रश्न करेंगे, 'क्या ईश्वर छप्पर फाड़कर दे देगा ?' हमारा उत्तर है, 'हाँ, देगा ।' आप आत्मश्रद्धाको अपने मनमें स्थान दें ।

उदाहरण देनेके लिये ऐसे बहुत-से उदाहरण हैं, पर आप स्वयं करके देख लें । गीताका यह श्लोक फिर याद कर लें—

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥

और बाइबिलमें कई स्थानोंपर कहा गया है कि 'यदि तू मेरे नामपर माँगेगा, तो मैं अवश्य दूँगा ।'

फिर आया है कि 'यदि तू माँगता है, तो विश्वास कर कि तू पायेगा और यह भी अनुभव कर कि तू पा गया । तू अवश्य पा जायगा ।'

परंतु दुख इस बातका है कि हम अपना आत्मबल नहीं जगाते, पूरी तरह अपनी दिव्य शक्तियोंमें विश्वास नहीं करते, इसलिये दुखी रहते हैं ।

आप सही विचार किया करें

विचारशक्तिके विषयमें बहुत-सी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और लिखी भी जा रही हैं, परंतु ऐसा लगता है कि अभीतक कुछ भी नहीं लिखा गया है । हम देखते हैं कि यह शक्ति सबके पास है, परंतु वे उसका उतना श्रेष्ठ और उपयोगी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जितना वास्तवमें उन्हें करना चाहिये । 'दिया तले अन्धेरा'—इसीका नाम है ।

अपने उच्चतम आदर्शों, सर्वश्रेष्ठ स्वप्नों, उन्नतिशील विचारोंको मनमें रखिये । इन आदर्शोंको सुरक्षित रखिये । इन्हें अपने दैनिक जीवन और कार्योंमें प्रत्यक्ष उतारनेकी कोशिश कीजिये । यदि आप सुन्दर विचारोंपर दृढ़ रहेंगे, तो इन्हीं उच्च विचारोंके अनुसार आपका भावी जीवन बन जायगा ।

स्वस्थ मन—सृजनात्मक उपयोगी और हितैषी विचार रखने-वाला मन ही आपके जीवतका निर्माता है । उत्तम मनसे ही

शक्तिशील जीवनकी नयी दिशाएँ बनती हैं और अच्छे-बुरे कर्मोंका ल भी मन्त्रके कारण ही शरीर भोगता है। मनसे पराजय, गिरता, हीनत्व और चिन्ताके विचार निकाल दीजिये। पराजयसे त डरिये। हर पराजयको आपमे नयी शक्ति भरनी चाहिये। राजय नया साहस देनेवाली होनी चाहिये। उपयोगी पराजय ही है, जो मनुष्योंमें नवीन शक्ति और उत्साहका संचार करती और विजयके लिये मार्ग सुगम बना देती है।

परतु सब कुछ एक ही दिनमे जल्दी-जल्दी कर डालनेका यत्न मत कीजिये। धीरे-धीरे शान्त सतुलित मनसे ही कार्य कीजिये। आपका उत्साह निरन्तर बना रहना चाहिये। वह कदापि शिथिल नही होना चाहिये। पहले खूब विचार कर लीजिये कि आप एक उन्नत आत्मा और पौरुषपूर्ण व्यक्ति हैं। कार्य करनेसे पूर्ण समर्थ हैं। आप विजयकी साक्षात् मूर्ति हैं। इस प्रकारके विचारोंको अपने स्वभावका एक स्थायी अङ्ग बना लीजिये। कुछ समयमें कठिन कार्य स्वभावतः सरल मालूम पड़ने लगेंगे।

अपने संकल्पको दृढ़ बनाइये। यही दृढ़ता सिद्धिकी आधार-शिला है। जैसा करेंगे, वैसा भरेंगे। पुरुषार्थी व्यक्तियोंके अनुसार यदि दृढ़तापूर्वक कार्य कहेंगे, तो निश्चय ही जीतकर रहेगे। अपनी गुप्त शक्तियाँ चुपचाप बढ़ाते रहिये। यदि आप सफल वही होते, तो प्रकृतिपर अथवा परिस्थितिपर या किसी शक्तिपर व्यर्थ ही दोषारोपण मत कीजिये।



विश्वास रखिये, आपका सर्वोत्तम समय भविष्यमें आनेवाला है

आप शायद यह समझे बैठे हैं कि आपका सर्वोत्तम समय व्यतीत हो चुका है और जीवनमें आपको जो सबसे बड़ी सफलताएँ मिलनी थी वे मिल चुकी हैं।

यह एक भ्रान्त धारणा है। इसे त्यागकर आप नया आशावादी दृष्टिकोण अपनाइये।

मनुष्यका जीवन बहुत लम्बा है। उसमें प्रतिदिन और प्रतिपल नयी-नयी सफलताएँ मिलती रहती हैं। कोई अलक्षित हाथ प्रतिक्षण नयी प्रगतिकी प्रेरणा देता रहता है।

जीवन एक बड़ी पुस्तककी तरह है, जिसका एक-एक पृष्ठ क्रमशः खुलता जाता है। पता नहीं, इसका कितना विस्तार है। यह आगे कितना चलना है! इसकी मंजिल कितनी लम्बी है!

एक दिनकी घटना सुनिये। हम पोस्टऑफिसमें बैठे हुए थे कि एक तीस-पैंतीस वर्षीय युवक वहाँ अपनी सेविंग्स पास-बुकमेंसे जमा कौ हुई रकम निकालने आये। उनके मुखपर चिन्ता, उदासी और घोर निराशा थी। चेहरेका रंग पीला-सा पड़ रहा था।

यो ही बातें शुरू हो गयी। हमने हैगनीसे पूछा 'क्यों भाई! खाता क्यों बद कर रहे हैं?' उन्होंने अपना म्लान चेहरा हमारी ओर मोड़ा। निराश आँखोंसे वे बोले, 'डाक्टर साहब! क्या बतायें। मुसीबतमें फँसे हैं।' मैंने कहा 'क्या किसी मुकदमेमें फँस गये हैं?'

वे बोले, 'अजी, जीवनभर मैंने कचहरीकी शकल नहीं देखी। यहाँ दूसरी ही मुसीबत है।'

मैं हैरान था। मनमें नाना प्रकारके तर्क-वितर्क उत्पन्न हो रहे थे कि स्वयं उन्होंने ही अपनी दर्दभरी गाथा सुनानी प्रारम्भ की।

वे बोले, 'पिछले सालसे मैं डाक्टरोंकी सलाह ले रहा हूँ। मेरे पेटमें भारीपन और कभी-कभी दर्द रहता था। कई डाक्टरोंको दिखलाया; पर अन्तिम डाक्टरने यह बताया है कि मुझे अपेन्डेसाइटिस नामक रोग हो गया है। मेरी आंतका आखिरी भाग सड़ गया है। उसीके कारण पेटमें भारीपन, पुराना कब्ज और दर्द रहता है।

आपरेषनद्वारा उस आंतके उस भागको काटकर निकाला जायगा।

इस पेटके आपरेशनको मैं सालभरसे टालता आया हूँ । अब डाक्टर साहब कहते हैं कि फौरन आपरेशन कराओ; अन्यथा मृत्यु निश्चित है । मेरी पत्नी और बच्चे गड़े परेशान हैं । कल आपरेशन कराना चाहता हूँ । सोचता हूँ आपरेशनके बाद बचूँ न बचूँ । बादमें पत्नी और बच्चे खराब होंगे । जो कुछ जमा-पूँजी है, सब निकालकर उनके सुपुदं कर दूँ और फिर शान्तिसे मृत्युके लिये तैयार रहूँ ।' यह कहते-कहते मुक्कके नेत्रोंमें आंसू आ गये । मैं भी एक बार तो हैरान हो उठा । फिर बोला, 'आपने किसी औरको भी पेट दिखाया है ?'

वे बोले, 'सबसे योग्य डाक्टरोंको दिखा चुका हूँ । मामूली घंटियोंपर मेरी आस्था नहीं है । मेडिकल साइंस इतना विकसित है । फिर संदेहकी गुंजाइश ही कहां !'

मैं—'आप ईश्वर और प्राकृतिक चिकित्सामें विश्वास करते हैं ?'

वे—'नहीं, मैं उसी बातमें विश्वास करता हूँ जो तर्कसे साबित हो जाय, जिसे मेरी बुद्धि समझ सके और मस्तिष्क ग्रहण कर सके ।'

मैं—'ईश्वरके लिये आप कल आपरेशन मत कराइये और मुझे एक सप्ताह अपनी चिकित्सा कर लेने दीजिये । जब मरना ही है, तब एक सप्ताह और इस दुनियाकी रोशनी और हवाका आनन्द ले लीजिये ।'

वे कुछ प्रभावित हुए। मैंने उनसे कहा, “आत्माका निकट सम्बन्ध ईश्वरसे है। अतः आप निर्विकार हैं, यह मान लीजिये। अप्राकृतिक रहन-सहन और दूषित नास्तिक विचारधारासे आपने ईश्वरके शरीरको रोगोंका घर मान लिया है।

“अब आप ब्राह्ममुहूर्तमें जागिये और अपना ध्यान रोगविकार-रहित शुद्ध-बुद्ध, निर्मल निर्विकार ईश्वरपर लगाइये। मत्त-ही-मत्त कहिये—‘मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, नीरोग हूँ। किसी दूषित विकारका, तनिक भी अंश मुझमें नहीं है। ईश्वरीय शक्ति मुझमें जाग्रत हो रही है और वह मेरे सब विकारोंको दूर कर रही है। मेरा सारा शरीर पूर्ण स्वस्थ है। रोगरहित है। रोगसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं तो शुद्ध निर्विकार शरीरवाला व्यक्ति हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मेरा उदर पाचनका कार्य उचित रीतिसे कर रहा है। उसके संचित विकार दूर हो गये हैं।’

“यह तो मानसिक चिकित्सा रही। इससे आपका खोया हुआ आत्मविश्वास जाग्रत हो जायगा और ईश्वरीय शक्तिका अद्भुत चमत्कार शरीरमें प्रकट होगा।

“दूसरा क्रम प्राकृतिक चिकित्साका है। आप एक बलकें हैं। आठ-दस घंटे कुर्सीपर बैठे कमर झुकाकर काम करते हैं। इसलिये आपको जीर्ण कब्ज हो गया है। आप दूगुना जल पीजिये। फनाहार, विशेषरूपसे फलोंका रस अधिक-से-अधिक लाजिये; चूस-

चूसकर आम और टमाटर खाइये । अन्तिम बात यह है कि प्रातः दो घंटे नियमितरूपसे टहलिये । हाथ-पाँवसे काम कीजिये । वस, शरीरका कायाकल्प हो जायगा ।'

आध्यात्मिक चिकित्साकी कुछ ऐसा असर हुआ और ईश्वरकी कुछ ऐसी कृपा हुई कि वे महाशय स्वस्थ होने लगे । एक सप्ताहमें पेटका भारीपन कम हो गया । जीर्ण इकट्ठे मलको दूर करनेके लिये एनिमाका प्रयोग भी चालू रक्खा गया । आज उवका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है । वे नवजीवन पा गये हैं और उनका एनिन्डिस्टाइटिसका वहम दूर हो गया है ।

अब वे विचारधारामें भी पूर्ण आस्तिक हो गये हैं । ईश्वर-प्रार्थना और जल-चिकित्सामे उनका पूर्ण विश्वास है । मैं उनसे अब भी कहा करता हूँ, 'आपके जीवनका सर्वोत्तम समय और सबसे बड़ी सफलता भविष्यमें अभी आनेवाली है ।'

वे प्रायः उत्तर देते हैं—'मैंने ईश्वरकी शक्तिका अनुभव किया है और स्वस्थ जीवन पा लिया है । यही क्या कम है ! जिस शक्तिको लकड़द्वारा मुझे कोई न समझा सका था, वह श्रद्धाद्वारा मुझमे प्रकट हो गयी है ।' कभी-कभी जिसे हम जीवनका अन्त मान लेते हैं, वह हमारी आनेवाली नयी सफलताका प्रारम्भ होता है । अतः कभी भी निराश नहीं होना चाहिये ।



आत्मशक्तिका अक्षय भण्डार

जब आप किसी सुन्दर मधुसिक्त डालीपर विहँसते-किलकटे सुवासित पुष्पको देखते हैं तो मन-ही-मन आपके हृदयमें यह इच्छा उठती है कि 'क्या ही अच्छा होता, यदि हम भी ऐसे ही सरल सुन्दर और आकर्षक रहे होते ! हममें भी ऐसा ही रंग होता ! ऐसी ही गुणोंकी सुवास होती; हम भी ऐसे ही सरल और स्निग्ध होते; हम भी ऐसा ही निश्चिन्त आडम्बररहित जीवच व्यतीत करते ।'

जब आप मयूरके पंखोंकी चटकीली रंगीनी देखते हैं ।

उसे नृत्यमें आत्म-विभोर देखते हैं, तो आपकी अनायास ही यह इच्छा होती है कि 'काश, हम भी ऐसा ही विमोहक नृत्य कर पाते, मस्तीसे दूसरोंको आकर्षित कर पाते । हमारे पाँवोंकी थिरकन हमारे हृदयकी भावनाओंकी गहरी और सच्ची अभिव्यञ्जना कर पाती । हमारे मुखसे निकले हुए गीतोंमेंसे हमारा हर्ष-विषाद, घृणा-प्रेम, आशा-निराशा इत्यादि गुम्फित हो जाता ।'

जब हम किसी भक्त कवि या कवियित्रीकी रसस्निग्ध वाणी पढ़ते हैं, या भजन सुनते हैं तो अनायास ही हमारी इच्छा होती है कि 'हम भी हृदयस्पर्शी भजन लिखते और मधुर गीत गाते । अपने भीतर उठनेवाले हृद्योंको भक्ति-पूर्ण वाणीसे प्रकट करते ।' भक्ति तथा काव्यके सम्मिश्रणसे हमें विशुद्ध आनन्द प्राप्त होता और आत्मश्रद्धाके योगसे हमारा जीवन मङ्गलमय और शान्तिमय होता । लोगोंको हमारी वाणीसे सांस्कृतिक चेतनाका स्फुरण मिलता ।'

जब हम प्रह्लाद, ध्रुव आदिकी उन्नत धर्मवृत्ति, सतियोंके सद्घर्म, दधीचिका देवत्वकी रक्षाके लिये बलिदान, देशको गुलामीसे मुक्त करनेवाले शहीदोंकी ओजस्वी गाथाएँ, वीर हकीकतरायकी वृद्धता और साहस, गुरु गोविन्दसिंहके पुत्रोंकी निर्भयता और वीरताका प्रेरक घटनाएँ सुनते हैं, तो मन-ही-मन हमारे अंदर यह इच्छा जाग्रत होती है कि 'काश, ये सब उत्तम गुण, ये चारित्रिक विशेषताएँ, ये उच्च भावनाएँ हम भी अपने जीवनमें प्रकट कर पाते । स्वतन्त्रताकी वैदीपर हम भी अपने प्राण न्योछावर कर देते ।'

जहाँ कहीं किसी व्यक्तिमें हम उत्तम गुण, उच्च चरित्र, स्वास्थ्य, सौन्दर्य या कोई प्रशस्त कला देखते हैं, हमारे अंदर कभीसे चुपचाप एक उच्च भाव पैदा होता है कि 'काश, हम भी यही उच्च देवी भाव या भव्य शक्तियाँ प्रदर्शित कर पाते।' प्रत्येक अच्छाई हममे एक जागृति पैदा करती है, हमारी सोयी हुई आत्मशक्तिको जगाती है तथा हमें श्रेष्ठताको ओर बढ़नेका गुप्त संकेत करती है। श्रेष्ठता और अच्छाईकी ओर हमारा उत्साह और रूचि पैदा करनेवाली हमारी गुप्त आत्मशक्ति ही है। दूसरोंके अच्छे और सद्गुणोंके प्रति हमारे हृदयमें ललक और अनुकरणकी इच्छा इस गुप्त आत्मशक्तिके भण्डारके ही कारण होती है।

दूसरी ओर एक और विचारधारा है।

आप जब किसी पागलको प्रलाप करते हुए चियड़े लपेटे भड़े रूममें अटपटे वाक्य बोलते सुनते हैं तो आपकी यह इच्छा कभी नहीं होती कि हम भी इस व्यक्तिकी तरह मूढ़, उन्मत्त या असतुलित बन जायें। जब आप किसी चोर, डाकू या हत्यारेको सजा पाते या समाजमें बहिष्कृत होते देखते हैं, तो आपकी यह इच्छा कदापि नहीं होती कि हम भी चोर, डाकू या हत्यारे बन जायें। जब हम किसी कोठी, अपाहिज, रोगी, दुर्बल, दीन, दरिद्र, लाञ्छित, बहिष्कृत, दण्डप्राप्तको देखते हैं, तो हमारा मन कभी यह नहीं कहता कि हम भी ऐसे ही बन जायें। कुछको देखकर हम स्वयं बदसूरत होनेको कामना नहीं करते। रोगीको देखकर हम स्वयं कभी रोगी होनेकी इच्छा नहीं करते।

हम प्रजापीडक कंस-जैसे नहीं बनना चाहते । सीताजीका शरण करने और अत्याचारकी और प्रवृत्त रावणके प्रति हमारी कोई सहानुभूति नहीं होती । भाइयोको सताने और असंख्य व्यक्तियोंका संहार करानेवाले दुष्ट दुर्योधनके प्रति हमारा ममत्व नहीं जागता । हम दुष्टों, दुश्चरित्रों, प्रजापीडकों, अत्याचारियों, नरसंहारकों, शोषकों, शराबियों, जुआरियों या व्यभिचारियोंसे घृणा करते हैं । हम इससे कुछ भी नहीं बनना चाहते । इधर हमारी रुचि वही होती । ये समस्त दुष्प्रवृत्तियाँ हमारी आत्माके विपरीत पड़ती हैं । हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति कभी इनकी ओर नहीं होती ।

हम केवल सत् मार्ग और प्रवृत्तियों, ऊँची कलाओं और देवत्वके दिव्य गुणोंकी ही ओर अग्रसर होते हैं । प्रत्येक दिव्य गुणका अमृत-कुण्ड हमारी आत्मा है । वह ऐसा दिव्य केन्द्र है, जिससे हमारी उच्च प्रवृत्तियाँ अग्निसे चिनगारियोंकी भाँति फैला करती हैं । जहाँ पृथ्वीमें जल छिपा हुआ होता है, वहाँ हरे-भरे वृक्ष बहसहाते दृष्टिगोचर होते हैं । इसी प्रकार जहाँ मनुष्यका आत्म-तत्त्व जागरूक होता है, वहाँ हमारी प्रवृत्ति आत्माके दिव्य गुणोंकी ही ओर होती है । वह देवत्वकी ओर अग्रसर होती है । आत्मतत्त्व अच्छाईसे प्रेम करता है । ससार और समाजकी सब श्रेष्ठताओंके रूपमें हमारा आत्मतत्त्व ही वह रहा है । श्रेष्ठता और सौन्दर्यका मूल केन्द्र हमारी सत्, चित्, ध्यानदस्वरूप वह आत्मा ही है ।



आप क्या एकत्रित करेंगे, विष या शहद ?

पृथ्वीमें खल, आकाश, वायु, मिट्टी, सामर्थ्य सबके लिये समान हैं, किंतु इसी पृथ्वीसे जीव-तत्त्व लेकर गन्ना मीठे गुण एकत्रित कर हमें शक्कर, गुड, रस मिठाई देता है; नीबू, नारंगी, टमाटर, इमली खटाई एकत्रित करती है; करेला कड़वे तत्त्व इकट्ठे करता है; मिचं तीता, अदरख तीखा बन जाता है। कड़वा, मीठा, खट्टा, तीता—वे नाना प्रकारके गुण एक ही पृथ्वीसे बीजोंके अनुसार उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक बीज अपनी-अपनी प्रकृति और

गुण-कर्मके अनुसार पृथ्वीसे जीव-तत्त्व खींचा करते हैं। इनमें पृथ्वी, वायु, जल, आकाश समान होनेपर भी नवीन वस्तुकी पृथक्ता रहती है। यही हाल मानव-जगत्मे वसनेवाले मनुष्योका भी है।

सब मनुष्योके लिये ससार एक-सा है। इसमें सबके लिये कर्म, प्रतिष्ठा, सुख, स्वास्थ्य, जीवन-तत्त्व, समृद्धि ब्रिखरे पडे हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव तथा मानसिक सम्मानके अनुसार सुख-दुख एकत्रित कर रहे हैं। कितने ही जीवनका आनन्द लूट रहे हैं, तो कितने ही नरककी कुत्सित यातनाएँ भोग रहे हैं। हम स्वयं अपने मनोभाव, रुचि, स्वभाव, गुण-कर्म, तथा जीवनविषयक दृष्टिकोणके अनुसार अपना-अपना पृथक् संसार बनाया करते हैं।

स्वर्ग-नरककी जो कल्पनाएँ मानवके मनमे चक्कर लगाया करती हैं, वे किसी बाह्य जगत्मे पूर्ण होनेवाली नहीं हैं; वे हमसे प्रत्येक व्यक्तिके विचारो तथा कर्मके अनुसार इसी दुनिया-में निर्मित होते हैं। स्वर्ग-नरक लोक भी होंगे, पर यहाँ तो हम स्वयं ही नरककी यातनाएँ अथवा स्वर्गके आनन्दोंके स्रष्टा हैं।

आप आश्चर्य करेंगे कि मनुष्य कैसे स्वर्ग बना सकता है? स्वर्ग तो परमेश्वरकी अमूल्य सृष्टि है। मानवका उसमें कैसे हाथ लग सकता है? मनुष्य तो निर्बल हाड-मांसका पुतला है; इसके किये क्या हो सकता है!

किंतु ये शक़ाएँ व्यर्थ हैं । अपने जगत्को बनानेमें प्रधान हाथ हमारा ही है । हमारा मन स्वर्ग-नरकके ताने-बाने बुना करता है । मुक्ति, आनन्द, परमपद हम मरनेके पश्चात् ही नहीं, यही— इसी सासारिक जीवनमें जीते-जी इसी मानव-शरीरद्वारा प्राप्त कर सकते हैं । मन स्वयं स्वर्गका नरक बनाता है; तथा दृष्टिकोण-में अन्तर आते ही नरकको दिव्य प्रकाशसे आलोकित कर स्वर्गमें परिवर्तित कर देता है ।

आप पूछेंगे, 'पृथ्वीपर स्वर्ग कैसे बने ? हमारे किये क्या हो सकता है । भाग्य-चक्र स्वयं सब कुछ किया करता है । नियति-क्रम कौन संचालित कर सकता है ?'

पृथ्वीपर स्वर्ग-निर्माण करनेका प्रथम उपाय है—स्वस्थ शरीर । शरीर वह यन्त्र है, जिससे आप पृथ्वीसे स्वर्ग-नरकके जीवाणु-तत्त्व खींचते हैं । रोगी, दुर्बल, कृशकाय, ढीला-ढाला पौरुषहीन शरीर ऐसा विगडा हुआ यन्त्र है, जो पृथ्वीसे निराशा, ईर्ष्या, क्रोध, ब्रह्म, असूया, वासनाकी कडवाहट ही खींच सकता है । उसमें गदगी खींचने और तदनुकूल कुत्सित वातावरण उत्पन्न करनेके ही तत्त्व हैं । रोगी-शरीरका मन रोगी है । रोगी-मन नरकके अतिरिक्त और किस अच्छी चीजकी सृष्टि करेगा ! वासनाप्रिय शरीर व्यभिचारको ही सोचेगा; लोभी मन रूपया-पैसा ही देखेगा, क्रोधी अपनी उत्तेजनाका सामान जलने-कुढ़ने, दुखी रहनेके लिये स्वयं एकत्रित कर लेगा । रोगी-शरीरको संसार बन्धनरूप, दुःख-कठिनाई, आन्तरिक क्लेशसे परिपूर्ण प्रतीत

होगा । इसके विपरीत जिसका शरीर पूर्ण स्वस्थ है, उसे यही ससार स्वर्ग-जैसा सुन्दर प्रतीत होगा ।

दूसरा तत्त्व है—मनुष्यका जीवनके प्रति दृष्टिकोण । निराशावादी दृष्टिकोण लेकर जीवनमें प्रविष्ट होनेवाले व्यक्तियोंको निराशा, कठिनाई, असफलताके अतिरिक्त क्या मिलेगा ? उन्हें रोने-पीटनेके लिये कहीं भी मसाला मिल ही जायगा । वे दुखी रहनेके श्रादी हैं । यही मानसिक नरककी सृष्टि करेगा । इसके विपरीत आशावादी व्यक्ति प्रसन्न रहने, उत्साहित होकर जीवन-कार्यमें प्रविष्ट होनेका सहारा ढूँढ लेगा । मानसिक दृष्टिसे दोनोंकी आशा-निराशाका दृष्टिकोण स्वर्ग-नरकका स्रष्टा है । जैसा हमारे मनके भीतर है, वैसा ही हमें आस-पास, इधर-उधर सर्वत्र प्रतीत होता है । अपने अन्तरकी प्रतिच्छाया ही हमें ससारमें सुखी-दुखी बनाया करती है ।

हम चाहे तो उत्तम मन्त्रणाओंद्वारा अपने अंदर-बाहर सर्वत्र प्रेमका, आनन्द और उत्साहका स्वर्ग निर्मित कर सकते हैं, आस-पासके वातावरणको अपनी पवित्र भावनाओंसे स्वर्गके सौरभसे युक्त कर सकते हैं । इसके विपरीत कुत्सित इच्छाओंसे हम अंदर-बाहर नरक-ही-नरक बना सकते हैं ।

बिच्छुकी तरह आप विष एकत्रित करेंगे, या मनु-मक्खीकी तरह मीठा शहद ?

अपना दृष्टिकोण आशावादी बनाइये

हमारे जीवनका चिन्तित या प्रफुल्लित होना केवल हमारे दृष्टिकोणपर निर्भर है। वास्तवमे 'हमारा किसी घटनाके प्रति क्या दृष्टिकोण है'—यह तत्त्व हमारे मानसिक जगत्का निर्माण किया करता है। यदि हमारा दृष्टिकोण अपने जीवनमे सुखद, मोददायी, आशावादितासे परिपूर्ण पहलूकी ओर है तो, निश्चय जानिये हम मनमे दु खोके धिरे रहकर भी प्रसन्न और आशावादी रहेंगे। जीवनके दु खद प्रसंगोको देखनेवाला हर तरह उन्नत वातावरणमे भी दु ख-कष्ट ही देखता रहेगा।

उदाहरणके लिये श्रीअबन्त गोपाल शेरडेद्वारा दिभे गये निम्न मनोवृत्तियोवाले ध्यक्तियोंको देखिये—

'आफतको आफत मानना या न मानना हमारे हाथकी बात है। कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं, जैसे मकानमे आग लग जाना, या प्रिय व्यक्तिकी मृत्यु, दिवाला, मुकदमेमे हारना, लम्बी बीमारी, कारावास, पुत्रीका विवाह, पुत्रकी शिक्षा इत्याद, जो थोड़ी बहुत असुविधा जरूर देती हैं, पर हम उन्हे अतिरंजित दृष्टिसे बढा-घडाकर देखकर मुसीबतें मानने लगते हैं। रस्सीको साँप मानकर काँप उठनेवाले व्यक्ति हमारे समाजमे कम नहीं हैं। जेलमे मेरे एक साथी थे, जिन्हे डेढ सालकी सजा हुई थी ! रोज दिन गिनते थे कि 'कब छूटेंगे, कब छूटेंगे।' मैंने कहा, 'अरे, अब तो डेढ सालकी जगह एक ही साल बचा है। उसे जाते क्या देर लगती है।' कारावासके काले सीकरोमेसे कोई जमीनकी कीचड़ या जेलकी

दीवारका टुकड़ा देखता है, तो कोई आसमानके तारे देखकर खुश
हो लेता है।'

जब मैं वॉर्डिंगमे था तो, अपने कमरेके साथीके साथ आवश्यक
चीजे सॉझेमे खरीदा करता था। खुशबूदार तेलकी बोतल जब आधी
रह गयी तो वह बोला—'देखो यार, तेल कितनी जल्दी खतम होता
है। बीस दिनमे बोतल आधी खाली हो गयी।'

'अरे यार, यह खाला कहाँ हो गयी? अभी तो वह आधी भरी
है।'— मैंने कहा !

ऊपर लिखे उदाहरणोंपर गम्भीरता विचार कीजिये। इनमें
विभिन्न दृष्टिकोण स्पष्ट समझमे आते हैं। लेखकका हँसता-खेनता,
दूसरोको प्रोत्साहित करता हुआ आशावाद है, जो जीवनकी
अच्छाईको देखना और उससे प्रेरणा प्राप्त करता है। दूसरा
निराशावादी दृष्टिकोण है, जो सब कुछ होते हुए भी चिन्ताकी
सहाय्यासे अधमरा हुआ जाता है। जितने दिनोंमें आप मिथ्या
भयकी चिन्तामे अत्रमरे हो जायेंगे, उतने दिनोंमें आशावादी प्रसन्न
मुद्रासे इतनी शक्ति और साधन एकत्रित कर लेगा कि वे घटनाएँ
उसपर कुछ प्रभाव न छोड जायेंगी। कैसे दुःखकी बात है कि
हम अपना गलत कगाल दृष्टिकोण नहीं दक्षलते। हमे आशाका,
उत्साहका आनन्द और अपने हितका दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिये।

सर वाल्टर स्काटका उदाहरण हमे प्रेरणा देनेवाला है। एक
प्रेस लेकर चलानेके सम्बन्धमे वाल्टर स्काटके ऊपर इतना ऋण हो
गया था कि साधारण मनोबलवाला व्यक्ति उसके भावसिक भारसे

पागल हो जाता, किंतु वाल्टर स्काटने मन स्थितिको विचलित नहीं किया, निरन्तर तीस-चालीस वर्ष उपन्यास लिखकर उनकी आयसे सम्पूर्ण ऋण उतार डाला ।

लोवल टामसको भी ऋणका सामना करना पडा, भयंकर निराशाएँ प्राप्त हुई, किंतु इन सबके बावजूद वे चिन्तित कभी नहीं हुए थे । वे जानते थे कि यदि वे ऋणके सम्बन्धमे चिन्तित हुए तो उनकी उत्पादक और सृजनात्मक शक्तियाँ पगु हो जायेंगी, और उनके कर्जदार उनपर मक्खियोंकी तरह भिन्नभिन्नाने लगेंगे । अतः प्रत्येक दिन प्रातःकाल एक पुष्प खरीद लेते थे और उसे कोटके बटनमें लगाकर मधुरसंगीत उच्चारण करते हुए टहलने औक्सफोर्ड स्ट्रीटकी ओर निकल जाते थे । वे अपने मनमे सदा निर्भयता, वीरता और आशावादिताके विचार रखते थे और विषम परिस्थितियोंसे नहीं हारते थे । वे परिस्थितियोंको अपने पक्षमें करनेमे युक्ति और निरन्तर प्रयत्न करते रहते थे ।

दृष्टिकोणमे अन्तर आनेसे मन कौसा शक्तिशाली या कमजोर हो सकता है, यह तत्त्व आपको जे० ए० हैडफील्डकी पुस्तक 'शक्तिका मनोविज्ञान' के इस उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगा । वे लिखते हैं कि 'मैंने तीन व्यक्तियोंकी शक्तियोंकी परीक्षा मानसिक सवेत (Mental Suggestion) के प्रभावमे की है । यह शक्ति-परीक्षा डाइनामो मीटरको पकड़नेके द्वारा हुई थी । मैंने उनसे डाइनामो मीटरको मजबूतीसे पकड़नेकी आज्ञा दी और तीन विभिन्न मानसिक रिथितियोंमे उनकी शारीरिक शक्तिको जाँचा ।

जब मैंने उन्हें साधारण औसतन रूपमें कार्य करते हुए जाँचा तो उनकी औसत पकड़नेकी शक्ति १०१ पौंड थी। फिर मानसिक संकेतद्वारा उन्हें यह सुझाया गया कि वे कमजोर हो गये थे। उनमें निबलताके चिह्न प्रकट हो रहे थे। इस संकेतका ऐसा घातक प्रभाव उनपर पड़ा कि ताकत केवल २९ पौंड रह गयी। फिर उन्हें सम्मोहनद्वारा और भी कमजोरी, निबलता, शक्तिहीनताके पुष्ट संकेत बार-बार दिये गये। फलस्वरूप वे इतनी निबल हो गये कि उनमेंसे एक तो यहाँतक कह उठा कि मुझमें एक छोटे शिशु-जितनी भी शक्ति नहीं है। मैं एक शक्तिहीन बच्चा हूँ। मेरे अङ्ग-अङ्ग शिथिल हो गये हैं।

फिर इन व्यक्तियोंको सृजनात्मक और पुष्ट संकेतोंमें रखकर शारीरिक शक्तिकी परीक्षा की गयी। 'तुम मजबूत हो, तुम शक्तिशाली हो।' इन संकेतोंका ऐसा चमत्कारी प्रभाव हुआ कि उनकी पकड़नेकी शक्ति १४२ पौंड हो गयी। उत्साहवर्द्धक संकेतोंसे उनकी शारीरिक शक्तियोंमें पाँच सौ प्रतिशततक वृद्धि होती देखी गयी है। दृष्टिकोणका कितना प्रभाव होता है, यह उपर्युक्त उदाहरणसे स्पष्ट हो जाता है।

एक बार ईसा महान्के पास एक बीमार व्यक्ति खाटसे लगा हुआ लाया गया। ईसाका दृष्टिकोण सदैव प्रफुल्ल, शक्तिपूर्ण, आशावादसे भरा हुआ था। बीमार व्यक्तिसे वे बोले—'पुत्र, प्रसन्न हो जाओ... तुम्हारे पाप परमेश्वरद्वारा माफ किये जायेंगे... चढ़े हो जाओ और पैदल चलकर घर जाओ।' इन दृढ़ता और

आत्मविश्वाससे परिपूर्ण संकेतोंका ऐसा अद्भुत असर हुआ कि बीमार सचमुच उठ खड़ा हुआ और घरकी ओर चलने लगा। बीमारका कथन था कि 'इन उत्साहवर्द्धक प्रेरक शब्दोंका उसके ऊपर ऐसा चमत्कार हुआ जैसे अदरसे कोई शक्तिका केन्द्र फूट पड़ा हो।'

डेल कानोंगीका तो विचार है कि आशावादी उत्साहवर्द्धक दृष्टिकोणसे मनुष्य चिन्ता, भय और भाँति-भाँतिकी अनेक बीमारियों को अच्छी तरह निकालकर फेंक सकता है। जीवनके प्रति उसे प्रेम करना चाहिये। सहानुभूतिसे अपनी चिन्ताओंके कारणोंको दूर कर हितैषी भावनाओंमें रमण करना चाहिये।

डि० लारसनका कथन है कि नवीन मानस शास्त्रज्ञोंने खोज की है कि जीवनमें ऐसी बहुत कम वस्तुएँ हैं, जिनका प्रभाव प्रसन्नतासे अधिक हमारे मन तथा शरीरपर होता है। आत्मा, शरीर तथा मन सबका मुख्य सामर्थ्य आनन्द ही है। आनन्दविषयक दृष्टिकोण न बननेसे हजारों मनुष्योंका नाश हो गया है। अतः दीर्घ-जीवन, आनन्द और स्वास्थ्यके लिये मनुष्यको चिन्तित न रहना चाहिये।

शरीर प्रसन्नता, आशा, उल्लास और शान्तिकी माँग करता है। आवश्यक तत्त्व न प्राप्त होनेसे आत्माको भी कष्ट होता है। हमें सदा प्रसन्न और उल्लासमय रहकर शरीरकी माँगको पूर्ण करना चाहिये।

तीस वर्षकी उम्रमें मरा साठ वर्षमें दफनाया गया

आजकल मरनेवाले अधिकांश मनुष्योंकी कब्रपर यही लिखना चाहिये कि तीस वर्षकी उम्रमें मरा, पर साठ वर्षमें दफनाया गया। क्यों ? कितने ही ऐसे व्यक्ति हमारे देखनेमें आये हैं जो तीस सालकी चढ़ती जवानीमें ही अपने आपको बुढ़ेकी उपाधि देने लगते हैं। जिंदगी जिंदादिलीका नाम है और इनकी जिंदादिली वचनमें ही खाक हो जाती है। इनके हृदयमें मस्ती, जोश, सुख-स्वप्न और यौवनकी मधुर कल्पनाएँ सदैवके लिये बरबाद हो चुकी हैं। इन्हें जीवन फीका, नीरस, क्षणभंगुर और फानी मालूम होने लगा है। आजकलके एक युवकके पत्रमें लिखी निम्न पंक्तियोंपर जरा ध्यान दीजिये तब मालूम होगा कि उन्हे जीवन कैसा मालूम होता है—

‘……कभी-कभी मुझको बोर्डिंगके कमरेकी याद आती है, जब हम भी तुम्हारे पास होते थे, जब घूमने, फिरने, सैर-सपाटेमें एक बहार-सी थी। जब जीवन एक मादक वस्तुके समान था और अधिकाधिक हम उसमें मग्न और मस्त हो सकते थे। जब मित्रोंसे बातें करनेमें और मस्तिष्ककी सूक्ष्म-सेसूक्ष्म गतिके प्रदर्शनमें

एक आनन्द-सा आता था। अब तो मालूम पड़ता है कि तृप्ति और सतोषकी भावनाने शरीर और मस्तिष्कके तीखेपनको ही नष्ट कर दिया है। मुझे कोई कष्ट नहीं है, सुख ही है। मेरी इच्छाओंकी पूर्ति, इससे पहले कि मैं उनका ख्याल करूँ—हो जाती है। फिर भी वह सुख नहीं है। एक अजीब काहिली-सी छा गयी है और एक घडीकी भाँति जीवनको घड़ियोंको गिनता जा रहा हूँ।
 ... तुमसे पुराने विन्ताविहीन दिनोंकी बातें कर, वर्तमान या भविष्यमें नहीं, भूतमें स्नानकर कुछ समयके लिये फिर युवा और प्रसन्न होना चाहता हूँ।

उदासीनता, बेबसी, निराशा और अशक्ततासे भरी यह दशा केवल हमारे इस मित्रकी ही नहीं, हजारोंकी है। न जाने क्यों लोग जीवनके प्रति उल्लसित नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत-से मनुष्य बहुत जल्दी बूढ़े और कमजोर हो जाते हैं और असमयमें ही कालके ग्रास बन जाते हैं। घटते-घटते मनुष्यकी आयु आज तीस-पैंतीस रह गयी है। सबका यही विश्वास हो गया है कि हमारी यही आयु है। इस हृदयमें बैठे हुए भ्रान्त विचारका कुपरिणाम यह है कि किसी व्यक्तिको वृद्धावस्थामें देखकर हमारे मनमें भी यही विचार उदित होता है कि हम भी जल्दी इसी दशाको प्राप्त होंगे। हमारे भी गाल पिचक जायँगे, ज्योति क्षीण हो जायगी, शरीर शोचनीय एवं अशक्त हो जायगा और फिर एक दिन मृत्यु। बस, इसी विचारसे डरकर हम अपने मनमें अनेक बेसिर-पैरकी कल्पनाएँ करते हैं। बुढ़ापेकी

दुःखदायिनी, हृदयविदारिणी भावनामे निरन्तर रमण करते हैं । न जाने क्या क्या सोचते हैं और इसी सोचमें निमग्न समयस बहुत पहले उस महाराक्षसको, जो न जाने कितनोंको केवल डराकर ही चबा गया है, न्योता दे बैठते हैं !

याद रखिये—रोगी, व्याधियों एवं अन्य कुपरिणामोंका मनमें विचारकर आप अपने शरीरमें उसके लिये उपयुक्त स्थान उपस्थित करत्ते हैं, तब रोग वहाँ आकर अपना अधिकार जमाता है । बुढ़ापेके ख्यालमें डूबकर, बुढ़ापेकी कल्पनाओंमें गोता लगाकर, हर समय बुढ़ापेके स्वप्न देख-देखकर और निरन्तर बुढ़ापेकी चिन्तामे जलकर, हम उसके लिये अनुकूल स्थिति बनाकर उसे बुलाते हैं । किसी दुष्ट विचार, किसी भयंकर रोग या किसी अन्य दुःखदायिनी सत्ताकी कल्पना मनमे जहाँ आयी कि फौरन उसका मानसिक चित्र बन जाता है । फिर वही रोग, वही चिन्ता, वही कुत्सित कल्पना किसी भयंकर व्याधिका रूप धारणकर हमारे शरीरपर बुरा प्रभाव डालता है । इसी प्रकारके अस्वस्थ एवं निराशाजनक विचारोंसे हम अपने हाथों आने भाग्यको फोड़ते हैं । अपने सुख और स्वास्थ्यरूपी कौमुदीकी काले वादलोसे ढँक लेते हैं ।

विलियम ल्यान पित्रप्सका कहना है—'मैं वह समय ठीक-ठीक बतला सकता हूँ जब मनुष्य बूढ़ा होना शुरू होता है । यह वह घड़ी होती है जब आत्म-परीक्षा करनेपर वह देखता है कि एकान्तमे बैठनेपर उसका विचार और ध्यान भविष्यकी अपेक्षा

भूतकालको ओर अधिक जाता है। यदि मनुष्यका मन भविष्यके विचारोंके बजाय पुरानी बातों, बीते युगकी स्मृतियों, सस्मरणों और अतीत वृत्तान्तोंसे भरा रहन लगे तो समझ लो वह बूढ़ा हो रहा है।'

बुढ़ापेको मार-भगानेके उपायोंका खोजमे वर्षों ठोकर खानेके बाद मुझे अचानक ज्ञान हुआ कि बड़े जोर-शोरसे इनकी तलाश करनेसे सदा इन्हींकी चिन्तामें लगे रहनेसे हम इन्हे नहीं प्राप्त कर सकते। सौ बातकी एक बात यह है कि कभी एक क्षणके लिये भी अपने मनमें इस बातका विचार न करें कि हम बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं। आप अपनी आयुको बिल्कुल भूल जाइये, उस ओर ध्यान ही न दीजिये। उन बातोंको सोचिये ही नही। अपना क्या, दूसरोंकी ढलती अवस्थाका भी विचार मनमे न कोजिये। मनमें यह दृढ संकल्प कीजिये कि हम अभी बूढ़े न होंगे। बल्कि यौवनके सुखमय स्वप्न देखनेकी आदत डालिये। यौवनके उच्च आदर्शको लेकर उसीमें प्रविष्ट हो जाइये और जबतक आपका अणु-अणु उन दिव्य भावनाओंसे विभोर न हो जाय, उस दिव्य आदर्शको अपने अन्त करणसे तिलमात्र भी मत हटाइये। हमारे जैसे आदर्श होंगे, हमारी जैसी मानसिक अभिलाषाएँ होंगी और हमारे हार्दिक भाव जैसे होंगे, उन्हींकी झलक हमारे मुख मण्डलपर दिखायी देने लगेगी, उन्हींका प्रतिबिम्ब हमारी आँखोंमें झलकेगा। हमें पूर्ण निश्चय और विश्वास कर लेना चाहिये कि निर्बलता, सुस्ता, आधि-व्याधि, रोग, विराशा और मृत्युसे हमे कोई सरोकार नही।

यदि हम सदा अपने मनमें यौवनके दिव्य प्रवाहकों बहाते रहें। सदैव यौवनके आदर्शोंको सामने रखकर उनके लिये अपनी शक्तियोंमें विश्वास रखकर उद्योग करें, यदि हम हर समय शक्ति और स्वास्थ्यके नियमोंको अपने सामने रखें। चिन्ता भय और संशयको मानसिक परिधिसे निकाल डालें तो बुढ़ापे हमसे अवश्य डरता रहेगा। आपके हृदयमें जिंदादिली नामकी जो ध्रुव उगी है, उसपर उत्साहकी फुहारें छेड़ते रहिये। पूर्ण ब्रह्मचर्यसे सदाचारके नियमोंको पालन कीजिये। याद रखिये, इस कल्पनाने कि अमुक उम्रके बाद मनुष्यकी दलती अवस्था प्रारम्भ हो जाती है—उसकी शक्तियाँ मन्द पड़ने लगती हैं—मानव-समाजको बड़ी हानि पहुँचायी है। इस प्रकारकी जो घास पूस मानसिक उद्यानमें जड़ पकड़ गयी हैं उसका अभीसे उन्मूलन प्रारम्भ कीजिये। मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता, वह स्वयं ही अपने आपको बूढ़ा समझने लगता है। आप तबतक बूढ़े नहीं हो सकते जबतक आपके जीवनमें मधुग्ता और उत्साह बना रहता है। जबतक आपके हृदयमें महत्त्वाकांक्षाकी दिव्य ज्योति प्रकाशित रहती है। जबतक आपके मनमें बूढ़ापेका डर नहीं उत्पन्न होता। जबतक आपके खूनमें कार्य करनेकी शक्तिका प्रवाह बना रहता है और आपकी शारीरिक शक्तियोंका ह्रास नहीं होता आप इन्हीं सुखमयी शक्तियोंसे अपने हृदयमें एक आनन्दमय भवनका निर्माण कीजिये।



हमें फूलोंकी तरह मुस्कराते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिये

मानव-जीवनमे तीन कार्योंकी प्रधानता रहती है—कार्य, नोरञ्जन और विश्राम। साधारण व्यक्तियोंमेंसे प्रत्येकको जीविका-पार्जनके लिये दिन-रातके चौबीस घंटोंमेंसे आठ घंटेका समय अवश्य लगता है। इस समयके बाद आठ घंटे विश्रामके लिये निकाल देनेपर आठ घंटेका समय फुरसतका मिलता है। इन आठ घंटोंको किस प्रकार व्यय किया जाय, जिससे अधिकतम आनन्द, हँसी-पुशी और शान्ति प्राप्त हो सके, यह एक विचारपूर्ण समस्या है।

रोते मत रहिये !

अनेक व्यक्ति प्रायः कहा करते हैं कि 'हमे आमोद-प्रमोद तथा जीवनके आनन्द-उपभोगके लिये कोई अवकाश प्राप्त नहीं होता। हम कामसे बेहद परेशान हैं। इतने झंझट पड़े रहते हैं कि दिन-रात उन्हीमें फँसे रहते हैं।' यह बात ऐसी उदास मुद्रामें कही जाती है, जिससे उनकी अतीव अक्षमता, निराशा और बेबसी प्रकट होती है।

स्त्रियोंसे पूछिये—'तुम सारे दिन क्या कार्य करती हो ?' वे कहेगी—'हमे रोटी बनाने, बच्चोंकी देख-रेख करने, घरकी छोटी-बड़ी आवश्यकताओंकी पूर्ति करने, झाड़ू-बुहार, बर्तन माँबने, कपड़े धोने, बच्चोंको स्कूलके लिये तैयार करने और कपड़े सीनेमें कभी कोई अवकाश प्राप्त नहीं होता।' यह कहते-कहते उनका मुख चिन्ता, निराश्य, पीड़ा और आन्तरिक वेदनाओंसे भर जायगा।

क्षि मानो रो देंगी । इन्हे देखनेसे आप यही अंदाज लगायेंगे कि इनका जीवन रोते कलपते व्यतीत होता है । सासारिक चिन्ताओंका भार इनके ऊपर इतना अधिक है कि ये अपने जीवनमें रोने-पीटने और व्यर्थका भार वहन करनेके अतिरिक्त कुछ नहीं कर रही हैं । उस जीवनसे क्या लाभ जिसमें मनोरञ्जन और आनन्दके दो क्षण न हों ?

जीवनपर धनकी चढ़ाई !

अधिकांश सेठ, दूकानदार, बलक, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी, व्यापारी-वर्ग धन-उपाजन करने तथा उसे जोड़नेमें सतत प्रयत्नशील हैं, किन्तु उसका जीवन तथा आनन्दके लिये उपयोग करनेमें जागरूक नहीं हैं । कुछ अल्पज्ञ व्यक्ति केवल धन-उपाजनको ही जीवनका चरम लक्ष्य बनाये हुए हैं । धन उनके जीवनपर चढ़ गया है । वह उनकी असंख्य सासारिक चिन्ताओंका कारण बन गया है । गृहस्थ-सम्बन्धी उनका सुख भी विलुप्त हो गया है ।

स्मरण रखिये, धनका उपयोग जीवनके लिये है । जीवन सबसे बड़ा है, महान् है । धनको इतनी स्वतन्त्रता न दीजिये कि वह जीवनके ऊपर चढ़ बैठे और जीवनको चिन्ता, व्यग्रता तथा व्यर्थके कार्योंसे भर दे । जीवन धनसे उच्च स्तरपर है । उसकी उपयोगिता जीवनके विकास एवं परिपुष्टिपर निर्भर है । आपको धन तत्त्वका उतना ही अनुपात चाहिये, जिससे आपकी न्यायपूर्ण आवश्यकताएँ पूर्ण हो सकें और उसका विकास अवरुद्ध न हो जाय । इसके अतिरिक्त संग्रह करने या पूंजीपति बचनेके लिये जीवन-

जैसे महान देवी तत्त्वको विनष्ट न कीजिये। जब साधारणतः आपकी आवश्यकताओंके लिये धन प्राप्त हो जाय, तो आनन्द-प्राप्तिके लिये उसका उपयोग कीजिये।

आनन्द-तत्त्वकी आराधना !

जीवनका प्रधान लक्ष्य आनन्दप्राप्ति है। हमें अधिक-से-अधिक आनन्द, सुख, हँसी-खुशी प्राप्त करना चाहिये। जिस व्यक्तिको आनन्द प्राप्त नहीं हुआ और जो जीवनभर तेलीके बेलकी भाँति संसारका भार ढोता रहा या रुपया-पैसा एकत्रित करता रहा, वह चाहे आर्थिक दृष्टिकोणमें समृद्ध कहा जा सके, किन्तु वास्तवमें उसने जीवनका रस प्राप्त नहीं किया है। आनन्द वह आत्मिक तत्त्व है, जिसे प्राप्त करनेपर मन-बुद्धि सुखी, संतुष्ट हो जाती हैं; संसारका समग्र सुख प्राप्त हो जाता है।

आनन्द क्या है ? आनन्दका सम्बन्ध मनसे है। हमारी पाँच इन्द्रियाँ निरन्तर आनन्द या दुःखको अनुभूति हमारे मनको दिया करती हैं। प्रत्येक इन्द्रिय किसी प्रकारके आनन्द या दुःखसे सम्बन्धित हो सकती है। यदि हम प्रत्येक इन्द्रियको सुखकी प्रतीतिके लिये सचेष्ट रखें, तो हमारे आनन्दका विस्तार हो सकता है।

हमारा आनन्द आन्तरिक है। जो व्यक्ति उसे बाहर ढूँढ़ते फिरते हैं, वे गन्ती पर हैं। बाह्य वस्तुओंसे सम्बन्धित होकर हमारी पञ्च-इन्द्रियाँ जो ज्ञान अन्तर-प्रदेशमें ले जाती हैं, उनके द्वारा मनमें आनन्दकी भावना उत्पन्न होती है। अतः सुखप्राप्तिके लिये मनको नैराश्य, चिन्ता, हीनताकी भावनासे निकालकर सुख, आनन्द

और हंसी-खुशीकी स्थितिमें रखना चाहिये । मन-स्थितिका यह महत्त्वपूर्ण सार है ।

नया जीवन

जिनका लक्ष्य जीवनमें अधिक-से-अधिक प्रसन्नता, आनन्द और सुख-शान्ति है, वे अपनी उसी प्रकारकी मनोदशा बनाकर उसके समीप पहुँचते हैं । मन स्थितिके अनुकूल तत्त्व ही हम वातावरणसे खींचा करते हैं ।

आशावादी दृष्टिकोणकी आवश्यकता

हम जितना अपने-आपकी सासारिक वस्तुओके मोहसे बाँधते हैं, जितनी अधिक अपनी कृत्रिम आवश्यकताओकी अभिवृद्धि करते हैं, उतने ही अधिक चिन्ताओमें निमग्न रहते हैं । अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ हमारे जीवन-सगीतको बेसुरा तथा कर्कश बना देती हैं और हम प्रसन्नताके मोददायी वातावरणको मनमें उत्पन्न नहीं कर पाते । हम छोटी-छोटी बातोंको लेकर झीकते-झुठते रहते हैं । हमारा जीवन जजालसे भरा रहता है । हम रोते, पीटते तथा चिन्ता-विषादमय जीवन व्यतीत करते हैं ।

रोते मत रहिये, मस्त रहिये । आनन्द-तत्त्वसे अधिक-से-अधिक सान्निध्य प्राप्त करते रहिये । आप जिन चीजों या बातोंके लिये रात-दिन चिन्तित रहते हैं, उनसे आपका सम्बन्ध अल्प कालका है । फिर, वयो उनके लिये अपने जीवनको शूलमय किया जाय ?

हमें फूलोंकी तरह हँसते मुसकुराते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिये । प्रकृतिको देखिये, सर्वत्र आनन्दका राज्य है । शीतल-मन्द समीर किस आनन्दमें वह रही है । उद्यानमें पक्षियोंका कलरवः

सुनिये। सरिताओं, नहरों तथा छोटे-बड़े नालोंका जल किस मस्ती से गिरता-बहता है। एक-एक बूंद बिन्नरकर मानो हँस उठती है और कहती है, 'हे संसारवालो ! आनन्दमें खिनखिलाओ ! मुसकराकर जीवन व्यतीत करो। व्यर्थ ही चिन्ताएँ छोड़ो !'

पक्षियोंके पास कितनी पूंजी है ? उन्होंने कितने रूपों किसी बैंकमें जमा किये हैं ? उनके घरमें कितने वर्षोंके लिये खाद्य पदार्थों का सग्रह है ? उनके पास कितनी रजाई, बिछौने, पहिननेके सुन्दर कीमती वस्त्र, कमरे, मोटर, डाड-फानूस है ? किसी प्रकारकी पूंजी न होते हुए भी, कलके लिये भोजन, वस्त्र, मकानकी व्यवस्था न होते हुए भी उनका जीवन कितनी प्रसन्नता और मस्तीसे परिपूर्ण है। वे किस निश्चिन्ततासे मधुर सगी अलापते हैं। मोरको नाचते समय देखिये, किस निश्चिन्ततासे वह विभिन्न नृत्य-मुद्राएँ बनाता है। पंद्रह-बीस मिनटतक चलनेवाला उसका नृत्य-मुद्राएँ बनाता है। पंद्रह-बीस मिनटतक चलनेवाला उसका नृत्य आनन्दसागरमें अवगाहन है। उसे न बाल-बच्चोंकी चिन्ता है, न सासारिक प्रपञ्चकी उलझनें। हमें इन प्राकृतिक जीवोंसे आनन्दविषयक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये—इनके जीवनके आनन्दतत्त्वको ग्रहण करना चाहिये।

आनन्दका संकल्प कीजिये

आइये, अपनी कृत्रिम दुश्चिन्ताओं और दुर्भावपूर्ण कल्पनाओंको सदाके लिये त्यागकर आनन्द-तत्त्वके साधक बनें। जीवनका रस-पान करते चलें। हँसी-खुशीसे अपने जीवनके प्रत्येक रंग-रेशेको रंग लें। स्वयं हँसें, प्रसन्न रहे और अपनी प्रफुल्लता, मस्ती और

आनन्दक' उदारतासे वितरित करें। जगत्को आनन्दमय मानें। यदि हम जीवनविषयक अपना नीचा दृष्टिकोण त्यागकर 'यह जगत् आनन्दमय है'—यह भावना अपने सम्मुख रखें, तो हमारे दुःख, क्लेश और व्यर्थकी चिन्ताओकी अल्पकालमे ही समाप्ति हो जायगी। हमारी चित्तवृत्तियाँ सत्, चित् और आनन्दस्वरूपमे एकाग्र हो जायँगी; हमारे कल्पित दुःख और क्लेशोकी समाप्ति हो जायगी।

जो व्यक्ति अपने सच्चिदानन्द-स्वरूपमे स्थिर हो गया है, वह धन्य है। वह अविद्याके अन्वकारसे निकलकर आनन्द, उत्साह और आशाके प्रकाशमे आ गया है। आनन्दतत्त्वकी आराधनासे मनुष्यका आन्तरिक एव बाह्य जीवन आत्मसंतोषसे परिपूर्ण हो जाता है। उसे यह स्वयं अनुभव होने लगता है कि विकार, भय, चिन्ता, क्रोध, वासनाओसे पीडित जीवनमे आनन्दकी प्राप्ति नहीं हो सकती। भौतिक ऐश्वर्य, रुपया, पैसा, प्रभुत्व प्राप्त होनेमे ही आत्मसतृप्ति नहीं होती।

आइये, आजसे निश्चय करें कि हम सदा-सर्वदा प्रत्येक स्थितिमें प्रत्येक वातावरणमे आनन्द लेंगे, दुनियाके मजे लूटेंगे, क्योंकि हमारे सरोकार आनन्दसे है। हमारा जन्म आनन्दप्राप्तिके लिये ही हुआ है। विषम परिस्थितियाँ हमारे आनन्दमे बाधा उपस्थित नहीं कर सकती! अपना दृष्टिकोण परिवर्तित कर, सात्त्विक आनन्दप्राप्तिके आदर्श सम्मुख रखकर जीवन व्यतीत कीजिये। आप चाहे जिस स्थान या अवस्थामे हों, आशावादी दृष्टिकोण अपनाकर आनन्दम जीवन व्यतीत कर सकते हैं।



मनुष्य जितना अधिक काममें व्यस्त रहता
है, उतना ही अधिक जीवित और
स्वस्थ रहता है !

शतं जीव शरदो वर्धमानः ।

(अथर्ववेद ३ । ११ । ४)

अर्थात् 'सौ वर्षोत्तक उन्नतिशील जीवन जिओ, जीवनशक्तिको
ऐसे समयसे स्वर्च करो कि सौ वर्षोत्तक पूर्ण कर्मशील रह सको ।'

वर्चं प्रा घेहि मे तन्वां सह प्रोओ वयो बलम् ।

(अथर्ववेद १९ । ३७ । २)

अर्थात् 'अपने शरीरको भगवान्‌का दिव्य मन्दिर समझकर उसकी पूरी देख भाल रखो । शरीरमे तेज, साहस, ओज, आयुष्य और बलकी वृद्धि करो ।'

अइमनं तन्वं कृधि ।

(अथर्ववेद १ । २ । २)

अर्थात् 'शरीरको पत्थर-जैसा सुदृढ़ बनाओ । श्रम और तितिक्षासे शरीर मजबूत बनता है ।'

मेरे पड़ोसमे एक सरकारी कर्मचारी पचपन वर्षकी पकी आयुमे सरकारी नौकरीसे रिटायर हुए । वे यह कहा करते थे कि 'सरकारी दफतसे मुक्त होनेपर कोई काम-काज न रहेगा तो बड़े आनन्दसे रहेंगे । बस, स्वास्थ्य-ही-स्वास्थ्य बनायेंगे । शेष जिंदगी मजेदारीसे गुजरेगी तथा कठोर कार्य और नियन्त्रणसे फुर्सत रहेगा ।'

और एक दिन उन्हे पेशान मिनी । कामसे छुट्टी मिल गयी । अब वे सारे समयके खुद मालिक थे । फुरसत-ही-फुर्सत थी ।

उन्हे फुरसत तो मिली, पर मन भारी रहने लगा और स्वास्थ्यको तो मानो जग ही लग गया । दो-चार दिन तो इधर-उधर दूकानों, मित्रनेवाले मित्रोके घर और मुहल्लेमें बैठकर दिन कटे, पर फिर उनका मन न लगा । एक दिन, चार दिन, एक मास, दो मास ! आखिर कहाँतक बैठे रहे ? जिंदगी बड़ी लंबी, पता नही इसकी जड़ कहाँतक चले ? निठल्ले जीवनसे बैठे-बैठे ऊब गये ! बीमार हो गये ! यह बीमारी बढ़ती गयी

और उन्होंने खाट ही पकड़ ली ! डाक्टरों इलाज चलने लगा । जो व्यक्ति कुछ मास पूर्व मजेमें आठ घंटे श्रम करता था, आज वही खटियापर पड़ा डाक्टरको नब्ब दिखा रहा था और मौतकी घड़ियाँ गित रहा था !

खाटपर पड़े-पड़े परमात्माकी कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि 'बेकामका निठल्ला जीवन तो मानो जंग लग-लगकर अकाल-मृत्युको प्राप्त करना है । एक प्रकारकी आत्महत्या है । जबतक शरीर चले तबतक कुछ न-कुछ करना चाहिये ।'

बस, वे अपने पुराने दफ्तर गये । सयोगसे उन्हे उसी दफ्तरमे दैविक मजदूरीपर फिर मामूली-सा काम मिल गया । उन्होंने उसको ले लिया ।

महान् भाश्चर्य ! भगवान्की लीला ! दो-चार दिन तो कठिनाईसे दफ्तर गये, पर तीन-चार दिन बाद शरीरकी मशीन फिर चल निकली । कार्य करनेसे जंग लगे पुर्जे फिर पूर्ववत् काम करने लगे । काममें लगे रहनेसे अब उन्हे इतनी फुरसत ही न थी कि वे बुढ़ापे, कमजोरी या बीमारीकी निरर्थक कायरता-पूर्ण कल्पनावोमें लगे रहें ।

आज वे उसी प्रकार दफ्तरमें जाते हैं । जवानोकी तरह काम करते हैं । पैसा बहुत कम मिलता है, पर उसकी परवा नही करते । प्रतिदिन शिकंजेमें कसी हुई जिदगी आगे चल रही है । सुबह दस बजेसे शाम पांच बजेतक काममें दिन बीत जाता है । उनकी धर्मपत्नी मर चुकी है । घरपर कोई

अपने सेवाकालके बाद भी उसने पूरे साठ सालतक विश्राम-भत्ता पाया था । नाती-पोतीसे भरा-पूरा परिवार छोड़कर जानेवाले इस कर्मचारीका स्वास्थ्य टहलने, घूमने-फिरने और किसी-न-किसी काममें अपनेको व्यस्त रखनेके कारण पूर्णतया सुरक्षित था । जब कभी उससे किसीने उसके स्वास्थ्यके विषयमें पूछा, तो उसने एक ही बात कही, 'मैं कभी निठल्ला नहीं रहता, कुछ-न कुछ करता रहता हूँ । मेरा विश्वास है कि काम करनेसे ही आदमी स्वस्थ और दीर्घजीवी बन सकता है।'

१५६ दर्पकी आयुमें भी घुड़सवारी

मास्को सोवियत सघके अजरबेजान गणराज्यके सबसे बूढ़े शिराली मिसलिमोवने वाकूमें अपना १५९वाँ जन्मदिवस मनाया । वाकूमें उनके सम्मानमें एक समारोह आयोजित किया गया । मिसलिमोवने घरसे वाकूतक ६ मीलकी दूरी कारसे तय करनेसे इन्कार कर दिया । वे कुछ दूर पैदल और फिर घोड़ेपर सवार होकर समारोह-स्थल तक गये । 'तास'के अनुसार इतने वृद्ध होनेपर भी मिसलिमोव बहुत चुस्त हैं । वे पैदल चलने और भेड़ पालनेमें व्यस्त रहते हैं । खाली नहीं बैठते । काममें रुचि है । वे कभी शराब नहीं पीते, न सिगरेट ही; पर वे अधिकतर सब्जियाँ और फल आदि खाते हैं । उनकी पत्नीकी आयु ८५ वर्ष है और उनका सबसे बड़ा पोता ६५ सालका है ।

रूसमें बढ़ती हुई आयु

रूसमें प्रायः लोग लंबी आयु प्राप्त करते हैं । पिछले दिनों समाचार-पत्रोंमें छपा था कि १५८ वर्षीय एक किसान मखमूद इवाजोव, जिन्होंने कृषिप्रदर्शनीमें भाग लिया था, सोवियत सभमें अपनी लंबी आयु और सन्तुलित धार्मिक जीवनके लिये विख्यात हैं । उनके कार्यकी प्रशंसास्वरूप गतवर्ष (सन् १९६५) सोवियत सरकारने उन्हें 'आडर आफ रेड बैनर आफ लेबर' (श्रमके लाल झंडेका पदक) से विभूषित किया है । उनके अनुभव कुछ इस प्रकार हैं—

'आदमीको कुछ-न-कुछ शारीरिक और मानसिक मेहनत करके रहनेसे जिदगीमें रस आता है और शरीरके जीवाङ्ग भलीभाँति काम करते रहते हैं । निष्क्रिय बैठनेसे उनमें जंग लग जाता है और वे समयसे पहले ही वृद्धावस्था धारण कर लेते हैं । जैसे बहते रहनेसे जल स्वच्छ और स्वास्थ्यदायक रहता है, ऐसे ही कार्यसे स्वायु-तन्त्र सक्रिय रहते हैं । जीवाङ्गकी जीवनशक्ति बनाये रहनेके लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात 'काम' है । अनेक लोगोंकी यह घातक गलती है कि वे यह समझते हैं कि बूढ़े व्यक्तिको काम नहीं करना चाहिये, या कम घूमना-फिरना चाहिये । मैं तो अपने अनुभवसे कहता हूँ कि जबतक चले शरीर, मस्तिष्क और आत्मापर कार्यका बोझ डालते रहना चाहिये । सब अवयवोंको अधिक-से-अधिक दिन सक्रिय रखना चाहिये । निठल्ले बैठना शरीर और मन—दोनोंके लिये हानिप्रद है ।'

आयु बढ़नेमें काम निर्णायक भूमिका पाट अदा करता है। यह सुविदित है कि सुव्यवस्थित कामके बन्धन ही आदमी अधिक जी सकता है।

साली बैठनेका दूषित प्रभाव

एक और शरीर-विज्ञान-शास्त्री इवान पत्रोविच पावलोव कहा करते हैं, 'एक कर्क अपना काम करते हुए, जो बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता, सत्तर वर्षतककी उम्रतक ठीक चलता रहता है, परंतु ज्यों ही वह अवकाश ग्रहण करता है और फलतः अपने नित्यप्रतिका ढर्रा छोड़ देता है, उसके जीवाङ्ग काम करनेमें असमर्थ हो जाते हैं और वह जल्दी मर जाता है। वृद्धावस्थामें पूरी तरह हर तरहका काम छोड़ देनेवाले प्रत्येकके साथ आमतौरपर यही होता है। हमें कई ऐसे मामलोंका पता है, जिसमें अपेक्षाकृत स्फूर्तिमान्, प्रसन्नचित्त तथा हृष्ट-पुष्ट पेन्शनपर अवकाश ग्रहण करते हैं, सहसा निर्बल हो गये हैं और बीमार पड़ गये हैं। यही कारण है कि अवकाश ग्रहण करनेके बाद व्यक्तिको कदापि कामकाज करना पूरी तरह नहीं छोड़ देना चाहिये। उसे अवश्य ही कुछ हल्के काम—जैसे बागवानी, संगीत, साहित्यकार्य, धूमना-फिरना, यात्राएँ करना, पालतू पशु पालना, चिड़ियोंको दाना देना, खर नहाना, खुली हवामें निवास करना, छोटे बच्चोंके साथ खेलना या उन्हें पढ़ाना, भक्ति-पूजन करना, मन्दिरोंकी सफाई आदि

करना इत्यादि जीवनदायी कार्य करने चाहिये। कार्य ही जिंदगीकी पहचान है।'

सारा संसार कर्ममय है

वास्तवमें समय संसार कर्ममय है। निष्क्रियता तो साक्षात् मृत्यु है। काम करते रहनेवाला आदमी ही स्वस्थ, स्वाधीन, विकार तथा उद्वेगसे रहित, प्रसन्नचित्त और उदार होता है। कर्मकी पूर्णतामें ही जीवको आनन्द मिलता है।

गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने यही बात इन शब्दोंमें कही है—

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥

(१ । ३)

....

....

....

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धघेदकर्मणः ॥

(३ । ५)

अर्थात् कर्मनिष्ठ न रहकर कोई क्षणभरके लिये भी जीवित नहीं रह सकता। प्रत्येक जीवका प्रकृतिजनित स्वभाव है कि वह कुछ-न-कुछ कर्म करता रहे। यदि कोई इस जीवका अन्य प्रयोजन न भी माने, तो केवल जीवित रहनेके लिये ही कर्म करना आवश्यक है। सारा संसार ही कर्ममय है।

फिर आप क्यों अपने-आपको अधिक आयुका समझकर हाथ-पर हाथ धरे बैठे हैं ? कुछ तो कीजिये ही।

विश्वके संचालकको देखिये। प्रकृतिके कार्य-कलापके समंदे कौन-सा नियम काम कर रहा है ? जीवका क्या लक्षण है ?

जीवित और निर्जीव पदार्थमें क्या भेद है ? वे कौन-से गुण हैं, जिनसे हम जीवितको निर्जीवसे अलग कर सकते हैं ? इस गुणको ठीक-ठीक समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है ।

कर्मणाभि भास्ति देवाः परत्र कर्मणैवेह प्लवते मातरिश्वा ।

अहोरात्रे विदधन् । कर्मणैवातन्द्रितो शश्वदुर्वेत सूर्यः ॥

अर्थात् आप जानते हैं स्वर्गमें देवी-देवता क्यों अक्षय्य ज्योतिसे चमकते रहते हैं ? वायु क्यों रात-दिन डोला करता है ? उसमें क्यों चेतना और स्पन्दन रहता है ? भगवान् सूर्य युग-युगान्तरसे अविरल गतिसे क्यों दिव-रात बनाते रहते हैं ? यह सब प्रकृति, यह संसार, यह समाज, यह महान् विश्व—सब क्यों चल रहे हैं ?

इसका एकमात्र कारण है 'गति' अर्थात् कर्मशीलता । दूसरे शब्दोंमें यह सब दिन-रात, प्रतिपल, प्रतिक्षण कर्ममें लगे रहते हैं । एक मिनट भी नहीं रुकते । कभी आराम नहीं करते । जगत्में सब सचर-अचर कर्मनिरत हैं । सारा विश्व कर्ममय है ।

यह विश्व कर्मक्षेत्र है । आलसियो और निठल्लोके लिये यहाँ कोई स्थान नहीं है । आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक सुख-शान्ति प्राप्त करनेका मार्ग कुछ-न-कुछ कर्म करते रहना है । कर्ममें व्यस्त रहा कीजिये । अवश्य ही कर्म सत् होवा चाहिये ।



बस, तनिक-सी देर हो गयी थी !

भयानक दुर्घटना

रेल बड़ी तीव्र गतिसे सरपट भागी चली जा रही थी। सामने कुछ फासलेपर एक मोड़ था और आगे एक जकधान स्टेशन था, जहाँ दो रेलें एक साथ चक्कर टकराकर चूर-चूर हो सकती थीं। कडकट एक रेलको रोकनेमें तनिक-सा लेट हो गया था, वह समझ रहा था कि दूसरी रेल दूसरी लाइनपर आनेसे पूर्व यह रेल मुख्य लाइनपर आ चुकेगी और दुर्घटना बच जायगी। उफ् ! एकाएक दूसरी लाइनपर भी दूसरी ट्रेन का एजिन सयोगसे ठीक उसी समय

आता दिखायी पड़ा तेज रपतार ! सिग्नल डायन । भागते हुए दोनो
 एंजिन एक क्षणमे भयानक टकराहटके साथ दुर्घटनाग्रस्त
 हो गये । हजारों मुसाफिरोकी करुण चीत्कारसे वातावरण भर गया !
 कित्तवोकी ही जानें गयीं, कितने ही घर बरबाद हो गये । कोई
 बच गया, तो किसीकी टांग-हाथ कट गये । कितने ही बुरी तरह
 घायल हो गये । जान और मालका बहुत बड़ा नुकसान हो गया !

इस सबका क्या कारण था ?

कारण एक व्यक्ति था । यह थी उस व्यक्तिकी थोड़ी-सी
 सापरवाही । तनिक-सी सुस्ती ! उसे सिग्नल देनेमे जरा देर हो गर्न
 ली । उसके क्षणभरके आलस्यने अनेकोके प्राण छि लिये !

सहायक सेना तनिक देरसे पहुँची !

फ्रान्सके महायुद्धकी एक घटना है ।

एक बड़ा युद्ध भयानक रूपसे चल रहा था । सैनिकोके
 दस्ते एकके बाद एक शत्रुपर वायुवेगसे आक्रमण कर रहे थे । आठ
 घंटेतक घमासान मार काट चलती रही । पहाड़ीके दूसरी ओरके
 सैनिक प्राणपणसे रक्षात्मक कार्यवाही कर रहे थे । दोनो सेनाएँ
 पूरा तरह थककर चकनाचूर हो चुकी थी । एक पकड़ और लड़
 लेते तो विजय पूरी हो जाती । एक मजबूत सहायक सेनाको
 तुरंत बुलाया गया था । प्रतिक्षण सहायक सेनाके आनेकी उत्कट
 प्रतीक्षा की जा रही थी । विजेता पक्षको अब विश्वास हो गया था
 कि वे अवश्य जीत जायेंगे । उन्हें अपनी सहायक सेनाके समयपर

पहुँच जानेका पूर्ण विश्वास था। इसलिये उन्होंने अपनी रक्षा करने-वाली रिजर्व फौजको भी आक्रमण करनेवाली फौजमे परिणत कर लिया और पहाड़ोके छिपे स्थानोसे निकल-निकलकर वे शत्रुपर आक्रमण करने लगे थे। उन्हें पता था कि सहायक सेना उनके साथ आ जायगी और विजय उनके हाथमे रहेगी।

किंतु हाय ! सहायक सेना समयपर न पहुँची। उधर उत्सुक आंखे लगी रही कि सहायक सेना अब आयी, अब आयी ! ग्राउची नामक सेनाध्यक्ष समयपर न पहुँचा।

नतीजा क्या हुआ ? क्या आप जानते हैं ?

शाही सेना पराजित हुई। वाटर लूके सुप्रसिद्ध युद्धमें नैपोलियन बुरी तरह पराजित हुआ। वह सेंट हैलिनामे कारावासमें बंदी बना लिया गया और एक बंदीके रूपमे ही मर गया।

यह सब आखिर क्यों हुआ ? नैपोलियन युद्धविद्यामे अति प्रवीण था। उसने अनेक विकट युद्ध जीते थे। युद्ध-सम्बन्धा उसका अनुभव बहुत बढा-चढा था। उसके पराजित होनेमें उसका कोई कसूर नही था।

गलती यह हुई कि उसका एक मार्शल सहायक सेनासहित मददके लिये तनिक देरसे पहुँचा था और एक महान् योद्धाकी पराजयका कारण बना था।

काश, वे जरा जल्दी करते !

व्यापारके क्षेत्रमे एक प्रसिद्ध फर्म दिवालियापनके विह्वल जूझ रही थी। कैलिफोर्नियामें उस फर्मकी बहुत-सी स्थायी पूंजी जमा

थी। उन्हें यह आशा थी कि एक निश्चित अवधिके भीतर वहाँसे रुपया जरूर जा जायगा। यदि वह रुपया आ जायगा, तो उस फर्मकी साख, उसके मालिकोंकी इज्जत और उसकी भावी समृद्धि सब सुरक्षित थी।

किंतु दुर्भाग्यकी चोट ! नियतिका कुटिल चक्र ! एक सप्ताहके बाद दूसरा सप्ताह बीतता गया और वहाँसे सोना न आया।

अन्तमें वह अभागा आखिरी दिन भी आ पहुँचा, जब फर्मको तमाम बड़ी मूल्यवाली हुंडियोंका भुगतान निश्चितरूपसे करना ही था। अब ऋण बढ़कर आखिरी सीमापर पहुँच चुका था, फिर भी आशाके झीनेसे सूत्रमे फर्मके मालिकोंकी इज्जत लटक रही थी। उन्हें उम्मेद थी कि कैलिफोर्नियासे सुरक्षा-फंडमेसे आपत्तिकालकी चढ़ी हुई रकमका भुगतान करनेके लिये जरूर रुपया आयेगा।

सुबह होते ही कैत्रिलग्रामद्वारा जल्दी-से-जल्दी रुपया भेज देनेका जोरदार तकाजा किया गया।

सबको पूर्ण आशा थी कि कोई लापरवाही नहीं होगी और संचित राशि आपत्तिसे पूर्व पहुँच जायगी।

पर दुर्भाग्य ! शोक ! जब स्टीमर आया, तो मालूम हुआ कि रुपया कुछ देरसे पहुँचा था और तबतक यह स्टीमर वहाँसे चल चुका था।

अगला स्टीमर दिवालिया फर्मके लिये चढ़ी रकम डेढ़ गुना रुपया लेकर आया, किंतु हाय ! तबतक फर्म दिवालिया घोषित हो

चुकी थी । तनिक देर हो जानेकी वजहसे उसकी साख और मालिकोंको प्रतिष्ठा पूरी तरह धूल-धूसरित हो चुकी थी ।

कारण यह था कि रुपयेकी सहायता भेजनेवालोंने रुपया जरा देरमें भिजवाया था ? काश, वे तनिक-सी जल्दी करते तो साख, यश और प्रतिष्ठा सब कुछ बच सकती थी !

निर्दोषको फाँसी लग गयी !

एक अपराधीको मनुष्यकी हत्या कर देनेके अपराधमें फाँसीका हुकम हुआ । वह फाँसीके लिये ले जाया जा रहा था । उसने परिस्थितियोंसे विवश होकर एक दुष्ट हत्यारेका सामना किया था । स्थिति ऐसी थी कि या तो वह उसे मारे अथवा उसके छूरेके नीचे प्राण त्याग दे । उस साहसीने दुष्टको परास्त तो कर दिया, किन्तु अब हत्याका अपराध उसके ऊपर था ।

कानून अंधेकी लाठी है । इसकी पहुँचके भीतर जो भी जब कभी आता है, सजा पाता ही है ।

इस व्यक्तिके पक्षमें जनता थी । सैकड़ों व्यक्तियोंने इसको मुक्त कर देने तथा दया दिखानेके लिये प्रार्थनापत्र भेजे थे । जनता उसके पक्षमें थी और सबको पूरी आशा थी कि सजासे एक दिन पूर्व मुक्तिकी आज्ञा जरूर आ जायगी । अपराधीको सजासे छोड़ दिया जायगा । जेलर तक्रको विश्वास था कि कैदीको मुक्त कर दिया जायगा ।

किन्तु प्रतीक्षाके बावजूद प्रातःकाल आ गया । समय भागा

चला जा रहा था और काले मुखवाली मौत अपने विकराल जबड़ खोले अपराधीको भक्षण करने चली आ रही थी ।

अन्तिम क्षण आ पहुँचा । फाँसीकी तैयारियाँ हो रही थी, फिर भी सबको राजाज्ञाके समयपर पहुँच जानेकी आशा थी । मनुष्य आशाके उज्ज्वल प्रकाशके सहारे अन्तिम क्षणतक जीता है ।

शायद राजदूत अपराधीकी मुक्तिका परवाना लाता होगा ! अब आया ! वह आया ! पर कोई भी न आया । अपराधीको फाँसीके तख्तेपर चढ़ा दिया गया । मृत्यु-जैसा काला कपड़ा उसके नेत्रोपर ढक दिया गया । नीचेकी चटकनी दबायी गयी ।

अब मरी हुई लाश छटपटाती हुई लटक रही थी । आत्मा बली गयी थी, निर्जीव शरीर हवामे हिल रहा था । ठीक इसी पीकेपर दूरसे एक घुड़सवार तेज रंपतारसे भागा आता हुआ दिखायी दिया । सबकी आँखें उधर लगी हुई थी ।

वह राजदूत था । वदीकी मुक्तिका आदेश लेकर बदहवास घोड़ेको भगाये चला आ रहा था । उसके हाथमें आज्ञा-पत्र था, जो उसने दूरसे ही ऊँचा उठाकर उत्तेजित भीड़को दिखाया ।

परन्तु हाय ! वह तनिक देरसे पहुँचा था । एक व्यक्तिके प्राण तनिक ही जल्दी करनेसे बच सकते थे । गलती यही हुई कि राजाज्ञा लानेवाला राजदूत तनिक देरसे घटनास्थलपर पहुँचा था ।

ये सब घटनाएँ जीवनके एक महत्त्वपूर्ण सूत्रको स्पष्ट करती हैं और वह यह कि हम समयकी पावन्दीका बेहद ध्यान रखें । कर्तव्य-पूर्तिमे देर और आलस्य कदापि न करें ।

तनिक-सी देरीसे सैकड़ोंकी हानि हो सकती है। व्यक्तिकी जान जा सकती है। वर्षोंकी इज्जत धूलमे मिल सकती है। आनन्द, समृद्धि, सुख-शान्ति गायब हो सकती है।

लोग घमंके शिक्षण, परमार्थके कार्योंको करनेकी सोचते ही रहते हैं, कलपर टालते जाते हैं, यहाँतक कि टालते-टालते वह उत्तम संकल्प मन्द पड़ जाता है।

पाँच मिनटका समय कितना छोटा होता है, पर उसीका सदुपयोग जीवनको बदल सकता है। पिछड़ जाने या देर कर देनेपर भयंकर हानि हो सकती है।

यदि हम कोई अच्छा गुण अपने चरित्रमें विकसित करना चाहते हैं, तो वह समयको पाबंदी (Punctuality) है। हमारा जीवन घड़ीकी सूईपर चलता रहे। हम अपने जीवनको नियमित बनावें, आलस्य न करें। जो कार्य जिस समय होना है, निश्चित रूपसे उसी समय हो। हमे अपने दैनिक जीवनको भी क्रमबद्ध, योजनाबद्ध और निश्चित रूप-रेखाके अनुसार बनाना चाहिये। जीवनका सदुपयोग समयका अधिकाधिक ऊँचे कार्योंमें नियमानुसार व्यय करनेसे ही सम्भव है। संसारके काल-चक्रमे कहीं भी अनियमितता नहीं। लोक और दिक्पाल, पृथ्वी और सूर्य, चन्द्र तथा शेष सब ग्रह-नक्षत्र आदि सभ्यकी गतिसे गतिमान् हैं। समयकी अनियमितता होनेसे सृष्टिका कोई काम नहीं चलता। समस्त सृष्टिक्रममे यही नियम चल रहा है। फिर आप ही क्यों अनियमित रहे ?

हम मानसिक चोर न बनें !

श्रीमती विनोता बोहरा एम० बी० बी० एस० एक भारतीय महिला डाक्टर हैं। वे पिछले दिनों अपने अव्ययनके सिलसिलेमें इजिप्ट (स्विट्जरलैंड) गयी थी। वे पाश्चात्य देशोंके मजदूरोंके विषयमें कह रही थी—

“मैंने देखा कि वहाँ मजदूरोंमें ईमानदारीका भावना बहुत अधिक है। मैंने उन्हें ऐसे स्थानोंमें काम करते देखा है, जहाँ उनपर ऊपरसे निगरानी करनेवाला कोई अफसर या डाँट-फटकार

बतानेवाला कोई ठेकेदार समीप नहीं रहता। वह मजदूर नियत समयपर, चाहे उसे गद्दे खोदनेका ही मामूली काम क्यों न दिया जाय, काम शुरू कर देगा। मन लगाकर पूरे आठ घंटेतक काम करेगा। न एक मिनट कम, न एक मिनट अधिक ! भंगी-तक अपनी मोटरमें बैठकर आता और सड़ककी झाड़ू-बुहारु करके चला जाता है। स्वीडन और नार्वे-जैसे देशोमे ट्रक-ड्राइवरका जीवन-स्तर काफी ऊँचा है; क्योंकि वह ईमानदारीके बलपर हमारे यहाँके मजदूरोकी अपेक्षा बहुत अधिक कमाता है। मैंने यह नोट किया कि उनके यहाँ इतनी अधिक मजदूरी है तो, कामके प्रति उत्साह, सचाई और पक्का व खरा श्रम करनेकी आदत भी है। यदि किसीका पर्स खो जाय, तो वे ऐसी छोटी-सी बातके लिये अपना ईमान खराब नहीं करते, उसे ज्यो-का-त्यो लौटा देते हैं। यहाँ हम 'धर्म-धर्म' चिल्लाते हैं, धर्मकी मनोवृत्ति सिद्ध करनेके लिये ऊपरी लिफाफा धार्मिक बनाये रहते हैं, माथेपर तिलक और गलेमे मालाएँ डालते हैं। उनके यहाँका व्यावहारिक धर्म है। प्रतिदिनके जीवनमें ईमानदारीका धर्म है। मामूली-मामूली-सी बातोके लिये झूठकी आदत उनमें कही वही देखी। हम मन्दिरोंसे निकलते ही घोखा-घड़ी करते हैं। वे ईसाई-धर्मको जीवनमें जीते हैं, धर्मके सिद्धान्तोपर आचरण करते हैं। उनका धर्म प्रैक्टिकल धर्म है। आचरणमे दैनिक उपयोगका धर्म है। किसी देशकी वास्तविक शक्ति उसके इस व्यावहारिक धर्मसे ही नापी जा सकती

है। घमंके व्यावहारिक रूपको ही वे ईश्वरकी पूजा मानते हैं। और ये निष्कर्ष हम सबके लिये आँखें खोल देनेवाले हैं। वास्तवमें कोई आदमी बाहरसे कितना ही ईमानदार और सच्चा क्यों न हो, अगर व्यवहार और दैनिक आचरणमें धार्मिक नहीं है, तो उसे चोर ही कहा जाना चाहिये।

जो मनसे अपने कार्यके प्रति सच्चा नहीं है, वह एक प्रकारका चोर ही है। किसीकी चीजको न चुराना, पर किसीकी वस्तुको न लेनेपर भी यदि मनसे उस वस्तुको पाना चाहता है, उसका अर्थ उस वस्तुके लिये ललचाता है, तो वास्तवमें वह चोरी ही करता है। मुंहसे बुरा न कहते हुए भी अदरसे किसीका बुरा चाहना—पशुता और पाप ही है।

बाह्य दृष्टिसे ऐसा आदमी भले ही दण्डनीय न माना जाय, किंतु वह अपनी आत्माके सम्मुख तो अपराधी है ही और किसी-न-किसी रूपमें उसका दण्ड भी पाता ही है।

जो बाहरी चोर है, वह चोर है; किंतु जो व्यक्ति मनसे चोर है, वह दोहरा चोर है। एक तो वह चोरीकी प्रवृत्ति रखता है, दूसरे ऊपरसे शाह बना हुआ है। दूसरोंको प्रवञ्चित करता रहता है। क्रियात्मक चोर दण्ड पाकर या किसी अन्य कारणसे चोरी करना छोड़ सकता है, किंतु राज-नियमोंसे निरापद मानसिक चोर, सदा-सर्वदा असली चोर ही बना रहता है।



मधुर जीवनके लिये यह सर्वोत्तम उपाय है !

जब मनमें पुरानी दुःखद स्मृतियाँ सजग हो, तो उन्हें भुला देनेमें ही श्रेष्ठता है। अप्रिय बातको भुलाना आवश्यक है। उन्हें भुलाना उतना ही जरूरी है, जितना अच्छी बातका स्मरण करना। जब खेतमे घास-फूस उग आती है, तो आप उसे उखाड़ फेंकते हैं। घृणित, क्रोधी, ईर्ष्यालु, व्यथाजनक स्मृतियाँ उन्हीं कंटकोंकी तरह हैं, जो अन्तःकरणरूपी उद्यानकी पवित्रताको नष्ट करती हैं। वे उत्पादक शक्तिका क्षय कर देती हैं। हम घृणित चिन्ताजनक अनुभूतियोंको पुनः-पुनः यादकर अपने चारों ओर एक मानसिक नरक निर्मित कर उसीमे दुःखी—पीड़ित होते रहते हैं !

बुद्धिमानी इसीमे है कि इन दुःखद प्रसंगोंकी ओरसे मन हटा लिया जाय। जब हम उस ओरसे मनोवृत्ति हटा लेंगे, तो निश्चय ही हमारा इस नरकसे साथ छूट जायगा। विस्मृतिका प्रभाव बड़ा मज्जलदायक है। ज्यो ही हम पीड़ा, दुःख और वेदनाकी स्मृतियों या कल्पित भयोसे अपना सम्बन्ध तोड़ते हैं, त्यो ही हम अन्धकारसे प्रकाशकी ओर चलना प्रारम्भ कर देते हैं। जबतक मनुष्यका मन व्यथा, पीड़ा, रोग, कष्ट, भय आदिसे परिपूर्ण रहता है, तबतक उसका पौरुष प्रकट नहीं होता। उसकी देवी कल्याणकारी शक्ति पगु बनी रहती है।

पं० रामलाल पहाड़ाका मत माननीय है—‘जब-जब आपके मनमे अनिष्ट भाव प्रकट हो, तब-तब उनको हटाना और भुलाना ही बुद्धिमावीका कार्य है। दुर्बलता, दीन-हीनता, भय और कष्टको

भुलाना कठिन है; परंतु ईश्वरका स्मरण सरल है... यदि हम कल्पित बन्धनोको तोड़ डालें, तो ईश्वर सहायता देगा। उसके प्रति मन फेरते ही वह अद्भुत एवं अदृश्य रीतिसे सहायता करता है। हमें इसका कुछ ज्ञान भी नहीं हो पाता।'

अमेरिकाके एक प्रमुख डाक्टर 'मेडिकल टाक' चामक पत्रमें लिखते हैं कि "वर्षोंके अनुभवके बाद मैं इस निर्णयपर पहुँचा हूँ कि दुःख और चिन्ता दूर करनेके लिये 'भूल जाओ' से बढ़कर कोई दवा नहीं है।" अपने लेखमें वे लिखते हैं—

'यदि तुम शरीरसे, मनसे और आचरणसे स्वस्थ होना चाहते हो, तो अस्वस्थताकी सारी बातें भूल जाओ।'

नित्यप्रतिके जीवनमें छोटी-मोटी चिन्ताओंको लेकर झीकते मत रहो। उन्हें भूल जाओ। उन्हें पोसो मत। अपने अत्यक्त या अन्तःस्थलमें पालकर मत रक्खो। उन्हें अंदरसे निकाल फेंको और भुला दो। उन्हें स्मृतिसे मिटा दो।

माना कि किसी 'अपने' ने ही तुम्हें चोट पहुँचायी है। तुम्हारा दिल दुखाया है। सम्भव है, जान-बूझकर उसने ऐसा नहीं किया है, और मान लो कि जान-बूझकर ही उसने ऐसा किया है, तो क्या तुम उसे लेकर मानसिक उधेड़-बुनमें लगे रहोगे? इस चिन्तित मनकी अवस्थासे क्या तुम्हारे मनका बोझ हलका होगा? अरे भाई, उन कष्टदायक अप्रिय प्रसंगोको भुला दो। उधर ध्यान न देकर अच्छे शुभ कार्योंमें मनको केन्द्रीभूत कर दो। पुरानी कटु स्मृतियोंको लेकर चिन्ताओंका जाल मत बुनने लगे। अपनी पीड़ाओं,

दुख-तकलीफोको भूलो । कौन ऐसा है, जिसे दुख-तकलीफें नहीं हैं । भूल जाओ, उधरसे चित्त हटा लो; चिन्तासे आंखे फेरकर आशाकी ओर लगाओ; कटुतासे मन मोड़कर मधुरतासे जोड़ लो ।

दूसरोके प्रति तुम्हारे मनमे घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, दुर्भाव आदिके जो घाव हैं, उनमें भीतर-ही-भीतर मवाद भर रहा है और यह तुम्हारे ही शरीर, मन, प्राणमे भयकर मानसिक विष उत्पन्न कर रहा है । क्यो इस जहरसे आत्म-हत्या करते हो ? जीवनका आनन्द क्यो नहीं लेते ? फिर क्यो न इन तमाम बातोंको अपने दिलसे निकाल फेंको, हृदयसे बहा डालो । तुम देखोगे कि जो जीवनके उज्ज्वल पक्षोपर स्थिर रहनेसे तुम्हारे भीतर ऐसी पवित्रता, ऐसी सफाई आयगी कि तुम्हारा शरीर और मन पूर्णतः स्वस्थ और निर्मल हो जायगा । इन वेदनाओंके विषयमें पुन-पुनः सोचकर क्यो अपने हाथों अपनी हत्या कर रहे हो ? शायद तुम इन बातोंको नहीं जानते । इसीलिये तो कहता हूँ—चिन्ताओंको भूल जाओ, कटु अनुभूतियोंको विस्मृत कर दो ।

७ 'और बड़े-बड़े सकट, विपत्ति, दुखके समय क्या करें ? यदि हमारे ऊपर दुखोका पर्वत टूटा हो, विपत्तिकी बिजली गिर पड़ी हो, किसीने हमारे सत्यानाशकी युक्तियाँ सोची हो और कोई हमारा परम प्रिय व्यक्ति हमे तड़पता हुआ छोड़कर मृत्युके मुखमे समा गया हो—ऐसे अवसरोंपर जब हमारा घाव गहरा और मर्मन्तिक है, हम क्या करें ? क्या उन्हें भी भूल जायें, विस्मृत कर डालें ?' हाँ, हाँ, उन्हें भी भूल जाओ । धीरे-धीरे ही सही,

किंतु विस्मृत कर दो उन्हें भी । इसीमें तुम्हारी भलाई है । भविष्यमें इससे तुम अधिक-से-अधिक सुख पाओगे, शान्ति पाओगे । दुःखकी, चिन्ताकी, बीमारीकी बातें न करो, न सुनो । स्वास्थ्यकी, आनन्द और प्रेमकी, शान्ति और सौहार्दकी बातें करो और उन्हींको सुनो । देखोगे कि तुम स्वास्थ्य-लाभ करोगे, आनन्द-लाभ करोगे, प्रेम पाओगे, शान्ति पाओगे ।

और मैं अपने अनुभवसे कह रहा हूँ, सच मानो कि दुःखोंका भार उतार डालना कतई मुश्किल नहीं है । बड़ा ही आसान है । शुरू-शुरूमें आदत डालनेमें कुछ समय लगेगा; सम्भव है, कुछ कठिनाई भी हो, किंतु आदत पड़ जानेपर बात-की-बातमें तुम बड़ी-से-बड़ी चिन्ताको चुटकियोंपर उड़ा दोगे और इस प्रकार भूल जाने या भुला देनेमें तुम इतने अभ्यस्त हो जाओगे कि जीवनको दुःखमय और विषाक्त कर देनेवाली तमाम बातें तुम्हारे सामने आते ही काफूर हो जायेंगी । यह संसार तुम्हारे लिये आनन्दमयका आनन्दमय प्रतीत होगा और दुःख, अभाव, पीड़ा, कष्ट इत्यादि कोई दुष्ट भाव मनमें न रह जायेंगे ।

भूलना सीखो । यदि शरीरका स्वास्थ्य और मनकी शान्ति अभीष्ट है तो भूलना सीखो । चिन्तासे मुक्ति पानेका सर्वोत्तम उपाय दुःखको भूलना ही है ।

भूतकालको शोकपूर्ण दृष्टिसे न देखो; क्योंकि वह पुनः लौट नहीं सकता । बुद्धिमत्ताके साथ वर्तमान और भविष्यकी उन्नति करो । वही तुम्हारे हाथमें हैं ।



3. हिंदूधर्म उपयोगी जीवन-तत्त्वोंको महत्त्व देता है !

हिंदूधर्ममें उपयोगी कर्मोंको स्थान दिया गया है

ससारमे सैकड़ो धर्म हैं । उनके भिन्न-भिन्न आधार और पृथक्-पृथक् मान्यताएँ हैं । जब हम इन धर्मोंको तुलना सनातन हिंदूधर्मकी विविध मान्यताओसे करते हैं तो एक बड़ी महत्त्वपूर्ण बात पाते हैं । वह यह है कि हिंदूधर्म उपयोगितावादके आधारपर ढा किया गया है । प्राचीन हिंदू विचारको, चिन्तकों, विद्वानों और आचार्योंने अपना-अपना दीर्घ अनुभव, गहन अध्ययन, सूक्ष्म अवलोकन और मौलिक उपयोगी चिन्तन हिंदूधर्ममें भर दिया है, केवल लाभदायक और कल्याणकारी बातोंको धर्ममें स्थान दिया है ।

जहाँ और धर्मोंके तत्त्वों, मान्यताओं और रीति-रिवाजोंका अर्थ और अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता, वहाँ हिंदू धार्मिक मान्यताओंका कोई-न-कोई उपयोगी तात्पर्य है । उसमें कोई-न-कोई लाभदायक तत्त्व छिपा हुआ है ।

यह धर्म केवल बाह्य ढकोसलों और मिथ्या प्रदर्शनको कोई महत्त्व नहीं देता, इसमें सर्वत्र बुद्धि और स्वस्थ चिन्तनको प्रधानता रही है । ऐसी-ऐसी उपयोगी सूक्तियाँ और लाभदायक श्लोक भरे पड़े हैं, जिनसे स्वच्छ मन, स्वस्थ शरीर और समुन्नत समाज बनता है । हमारी प्राचीन पुस्तकों, विशेषतः वेदोंमे परमात्मा और उनकी उपासना, आत्मशक्तिका विकास, चरित्र-निर्माण, सदाचार, मनोनिग्रह, सत्सङ्ग-जैसे वैयक्तिक साधनाके लिये उपयोगी विषयोंसे लेकर समाज और राष्ट्रकी सर्वाङ्गीण उन्नतिको भी ध्यानमे रखा गया है । विवाह,

सुखी गृहस्थजीवन, नारी-गौरव, दोष-निवारण, स्वास्थ्य और आरोग्य, दुर्गुणोका निषेध आदि अनेक ऐसे उपयोगी तत्त्वोंको धर्ममें सम्मिलित किया गया है, जिनसे लाभ-ही-लाभ हैं ।

हिंदूधर्म हर प्रकारसे लाभप्रद जीवन-पद्धति है !

हिंदू मनीषियोंकी यही इच्छा रही है कि वे तत्त्व, कर्म, पूजा-पद्धतियाँ, प्रार्थनाएँ, व्यायाम, रीति-रिवाज, मान्यताएँ, विचार-धाराएँ धर्ममें शामिल की जायें, जिनसे व्यक्ति और समाजकी सामाजिक, वैयक्तिक, आरोग्यसम्बन्धी और आध्यात्मिक—हर प्रकारकी उन्नति जीवनके अन्ततक होती रहे । हिंदूलोग हर दृष्टिसे संसारमें स्वस्थ, दीर्घजीवी, संयमी, समुन्नत और प्रगतिशील रहे । जो बात उन्हें मानवजीवन और समाजके लिये उपयोगी और लाभदायक जाव पड़ी, उसीको धर्मके अदर स्थान दे दिया गया, जिससे हिंदूमात्र उसे निश्चयरूपसे अपना लें और लाभ उठाते रहे । हिंदूधर्मके आचार, सोलह संस्कार, विविध पर्व-त्योहारोमें कुछ-न-कुछ वैज्ञानिक लाभका दृष्टिकोण ही प्रधान रहा है । देवमूर्तियोंमें प्रतीकपद्धतिसे काम लिया गया है । प्रत्येक देवताका कुछ गूढ साकेतिक मतलब रक्खा गया है । अवतारोंका भी साकेतिक अर्थ छिपा हुआ है ।

प्राचीन कालमें हिंदू-पूजापद्धति, वेदोकी सूक्तियों, ऋचाओ, देवी-देवताओ, त्योहारो, मूर्तियों और धर्मग्रन्थोको प्रबुद्ध जनता समझती थी, वैदिक मन्त्र जनताकी जवानपर थे, संस्कृत-जैसी देववाणी हमारी मातृभाषा थी । खेद है कि आज संस्कृत न समझ सकनेसे हमारा सब धार्मिक ज्ञान कुछ इने-गिने विद्वानोकी ही वस्तु

हिंदूधर्म उपयोगी जीवन-तत्त्वोंको महत्त्व देता है ! ३१३

बन गया है । जनता संस्कृतको समझ नहीं पाती । इसलिये व्यर्थके अन्धविश्वास, गलत धारणाएँ, मूढ़ताएँ और मूर्खताएँ धर्मके क्षेत्रमें घुस बैठी हैं जिन्हें जन-मनसे निकालनेकी बड़ी आवश्यकता है ।

हमारा धर्म उपयोगिता और लाभकी दृष्टिसे क्या-क्या कहता है ? किस कर्मकाण्डसे क्या फायदा है ? यह बड़ा लंबा विषय है । यहाँ केवल कुछ आचार, संस्कार और त्योहारोंकी उपयोगितापर विचार किया जा सकता है ।

हिंदूधर्ममें स्वास्थ्य-सम्बन्धी उपयोगी तत्त्व

हिंदूधर्म स्वस्थ शरीरको समस्त धर्मका जड़, आधार मानकर चलता है । स्वस्थ शरीरवाला व्यक्ति ही सही रूपमें धर्मनिष्ठ जीव व्यतीतकर पूरी आयुका सुख-भोग ले सकता और समाजको उससे पूरा लाभ दे सकता है । निर्बल, रोगी, विकृत और अस्वस्थ शरीरवाला व्यक्ति धर्मके निगूढ मर्मको क्या समझेगा ।

इसलिये हमारे यहाँ मनुष्य-जीवनकी सौ वर्षकी मर्यादा बाँध दी गयी है ।

जीवनशक्तिको सँभालकर खर्च करो—

शतं जीव शारदौ वर्धमानः ।

(अथर्ववेद ३ । ११ । ४)

अर्थात् हिंदुओ ! सौ वर्षोंतक उन्नतिशील समृद्धिपूर्ण जीवन जीओ । यह जीवनशक्ति बड़ी सावधानीसे खर्च करनेके लिये आपको दी गयी है । अपनी जीवनशक्तिको ऐसे समय और विवेकसे खर्च करो कि पूरे सौ वर्षोंतक जी सको इस अवधिसे पूर्व तुम्हें विबल नहीं होना चाहिये ।

शरीरको सुदृढ़ बनाओ

स्वयं वर्धसव तन्वं ।

(ऋग्वेद ७ । ८ । ५)

अर्थात् अपने शरीरको निरन्तर बलवान् बनाओ । शक्तिमान् शरीरमे ही बलवान् आत्मा निवास करती है । उसीसे समस्त धर्म-कर्म पूर्ण हो सकते हैं । यदि शरीर बलवान् नहीं है तो वास्तवमे कुछ भी नहीं है । उन्नतिशील जीवनके लिये शारीरिक शक्ति भी बढ़ानेकी अतीव आवश्यकता है, यह कभी न भूलो ।

अश्मानं तन्वं कृषि ।

(अथर्ववेद १ । २ । २)

अर्थात् अपने शरीरको पत्थर-जैसा सुदृढ़ बनाओ । मजबूत शरीर ही धर्मके कठोर जीवनको निभा सकता है । जो निर्बल और निर्वीर्य है, अशक्त और कमजोर है, वह धर्मके मार्गपर गिर पड़ता है । श्रम और तितिक्षासे ही शरीर धर्मके लिये मजबूत बनता है ।

वर्ध आ धेहि मे तन्वां सह ओजो वयो बलम् ।

(अथर्ववेद १६ । ३७ । २)

अर्थात् धर्म चाहते हो, उद्धार और शान्ति चाहते हो, जीवनको सफल करना चाहते हो तो अपने शरीरमे तेज, साहस, ओज, आयुष्य और बलकी वृद्धि करते रहो ।

शरीर ईश्वरका मन्दिर है

आपकी यह देह हाड़-मांसका लोथड़ा नहीं, हेय या घृणाकी वस्तु नहीं, उपेक्षाकी चीज नहीं, प्रत्युत ईश्वरका पवित्र मन्दिर है । आत्माके रूपमे स्वयं ईश्वर इसमे निवास करते हैं । ईश्वरका निवास

हिंदूधर्म उपयोगी जीवन-तत्त्वोंको महत्त्व देता है ! ३१५

नेसे यह परम पवित्र है। इसके पूरे ध्यान और देख-भालकी आवश्यकता है। अपने शरीरको भगवानका पवित्र मन्दिर समझकर उसकी पूर्ण सार-सँभाल, देख-भाल और रक्षाका ध्यान रखो। शरीरकी सुरक्षा हमारे धर्मका प्रथम अङ्ग है।

कुछ लोग केवल शरीरकी ही देख-भाल और शक्ति बढ़ानेमें सदा लगे रहते हैं। यह ठीक नहीं है। केवल शरीर ही बढ़ता रहे, मन-आत्मा और ज्ञानका ध्यान न रहे तो उद्दण्डता आती है। प्रथम उद्दण्डता त्याग देनी चाहिये। इस ओर सावधान करते हुए लिखा गया है—

दृंहस्व मा ह्वाः । (यजुर्वेद १ । ९)

अर्थात् सुदृढ़ तो बनो, पर उद्दण्ड कदापि नहीं। स्वास्थ्यको सुधारो, पर अपनी शारीरिक शक्तिसे निर्बलको न सताओ। पापमें प्रवृत्त न हो जाओ, यह ध्यान रखो।

खान-पानमें सावधानियाँ रखिये

हिंदूधर्ममें भक्ष्य-अभक्ष्यका सर्वाधिक ध्यान रखा गया है। अभक्ष्य पदार्थों (जैसे मासाहार, शराब, अडे, धूम्रपान, वासी पदार्थ, गरिष्ठ, तामसी भोजन, नशेबाजी, मादक पदार्थ, चटोरापन) का पूर्ण निषेध है। कहा है—

विश्वं समन्त्रिणं दह । (ऋग्वेद १ । ३६ । १४)

सर्वभङ्गी (भक्ष्य-अभक्ष्यका विवेक न करनेवाले) लोग रोगोकी अग्निमें जलते हैं। वे पृथ्वीपर ही नरकका दुःख भोगते हैं। भक्ष्य-अभक्ष्यका ध्यान न रखनेवाले मूर्ख लोग बीमार और अल्पायु पाते हैं।

स्वादो पितो मधो पितो वयं त्वा ववृमहे अस्माकमदिता भव ॥
(ऋग्वेद १ । १८७ । २)

अर्थात् हिंदू को ऐसा आहार करना चाहिये जो मधुर रसयुक्त स्वादिष्ट अन्नसे आयुर्वेदकी रीतिसे बनाया गया हो। उन्नतिशील व्यक्तिको वही शाकाहार करना चाहिये, जो रोग नष्टकर आयुबलकी रक्षा करता हो। तीखे, कसैने, वासी-बुसा और मांस आदिका प्रयोग घृणित होता है।

हमारा आहार ऐसा हो, जिससे हमारी बुद्धि, अवस्था और बलमें निरन्तर वृद्धि होती रहे।

सूर्य और वायु भी देवता-तुल्य

हमारे यहाँ ब्राह्म मुहूर्तमें शय्या त्यागकर शौचादिसे निवृत्त हो सूर्यको अर्घ्य देना घर्मका अङ्ग माना गया है। स्वास्थ्य और दीर्घ जीवनके लिये यह अतीव उपकारी काम है। कहा है—

यदद्य सूर उदितेऽनागा मित्रो अर्यमा सुवाति सविता भगः ॥
(सामवेद १३५१)

प्रातःकालीन प्राणदायिनी वायु सूर्योदयके पूर्वतक निर्दोष रहती है। अतः प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर प्राणप्रद वायुका सेवन करना घर्मका अङ्ग है। इससे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है और आरोग्य स्थिर रहता है। घनकी प्राप्ति होती है।

उत्त वात पित्तसि न उत भ्रातोत नः सखा स नो जीवातव कृषि ॥
(सामवेद १८४१)

वायु जीवन है, आरोग्यदाता है। अतः प्रातःकाल उठकर प्राणदायक वायु नियमित सेवन करें। यह पिता, भाई और मित्रके समान सुख देता है।

हिंदूधर्म उपयोगी जीवन-तत्त्वोंको महत्त्व देता है ! ३१७

ब्रह्मचर्यका अत्यधिक महत्त्व रखा गया है
ऋचीते परि वृद्धि नोऽश्मा भवतु नस्तनूः ।
सोमोऽग्निं ब्रवीतु नोऽदितिः शर्म यच्छतु ॥

(यजुर्वेद २६ । ४९)

अर्थात् जिस प्रकार मनुष्य पृथ्वीमें अपना घर बनाकर निवास करता है, उसी प्रकार शरीर भी जीवात्माका घर है । अतः इसे ब्रह्मचर्य, सात्त्विक अन्न, पथ्य और संयमद्वारा सदैव स्वस्थ एवं नीरोग रखे । शरीरको स्वस्थ रखना धर्म है ।

इमं जीवेभ्यः परिधि दधाति संघां नु गावपरोऽग्रथमेतस्म ।

शतं जीवन्तु शरवः पुरुचीरन्तमृत्युं दधतां पर्वतेन ॥

(यजुर्वेद ३५ । १५)

परमात्माने मनुष्यकी आयु सौ वर्षोंसे भी अधिक बनायी है । इसलिये मनुष्य संयम और ब्रह्मचर्यसे रहे और अकालमें ही मृत्युको प्राप्त न हो ।

देवर्दत्तेन मणिना जङ्गिडेन मयोभुवा ।

विष्कन्धं सर्वा रक्षांसि व्ययामे सहासहे ॥

(अथर्ववेद २ । ४ । ४)

मैं व्यायामके द्वारा रक्त-शोषण करनेवाले सभी रोगोंके कीटाणुओंको और बुरे विचारोंको दूर रखूँ और ब्रह्मचर्यके द्वारा अपनी शक्तियोंको अपने शरीरमें बनाये रखूँ । स्वास्थ्य-रक्षाके लिये ब्रह्मचर्य और व्यायाम दोनोंका ही पालन करता रहूँ ।

ब्रह्मचर्यसे वीर्य-रक्षा होती है । यह वीर्य ही जीवन है, वीर्यनाश ही मृत्यु है । एक संतान प्राप्त हो जानेके बाद विवाहितो-

के लिये भी ब्रह्मचर्यका पालन करना उचित माना गया है। वीर्य-रक्षण ही धर्म है। इससे समस्त इन्द्रियाँ वशमे रहती हैं।

प्रातःस्नानका विज्ञान

शरीर-शुद्धिसे मन और आत्माकी शुद्धि होती है। मन ईश्वरमे लगता है। जलके शरीरपर डालनेसे भीतर शान्ति और संतुलन उत्पन्न होता है। भीतर और बाहरके हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप रूप, तेज, बल, शीघ्र, आयु, आरोग्य, लोभहीनता, दुस्वप्ननाश, तप, मेधा—इन दस गुणोका लाभ होता है। स्नानको हिंदुओने सर्वाधिक महत्त्व दिया है। यह बाह्य शुद्धिका साधन है। हमारे यहाँ गङ्गाजी, यमुनाजी, गोदावरी सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु, कावेरी इत्यादिमे स्नान करना धर्मका अङ्ग है। स्नान करते हुए हिंदू भक्त इन सब नदियोंका स्मरण करता है। ये नदियाँ भारतके चारो कोनोपर हैं। इस तरह भारतको अखण्डता और भावात्मक एकताको भी कायम रखनेकी कोशिश की गयी है। इन नदियोंके जलमे रासायनिक गुण भरे पड़े हैं, जिनसे स्वास्थ्य और दीर्घजीवन प्राप्त होता है, बाह्य और अन्तरकी शुद्धि होती है।

तीर्थ-स्थानका विज्ञान

भारतमे अनेक हिंदू तीर्थोंका निधान है। ये तीर्थ हिंदुस्थानके चारो किनारोपर रक्खे गये हैं। कुछ तीर्थ पर्वतीय स्थानोपर हैं। वहाँ प्रकृतिका बडा ही मनोरम और स्वास्थ्यप्रद वातावरण है। इन पर्वतोमे लाभदायक ओषधियाँ और शुद्ध वायु है। सूर्यकी किरणोसे वहाँ पवित्रता आती है। हमारे तीर्थ गङ्गा-यमुना आदि सरिताओके तटपर हैं। गङ्गाजलमें अनेक रासायनिक तत्वोका गुणकारी सम्मिश्रण

हिंदूधर्म उपयोगी जीवन-तत्त्वोंको महत्त्व देता है ! ३१६

है । यह शरीर और स्वास्थ्यके लिये लाभदायक है । इन तीर्थोंपर सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रोंकी गुणकारी किरणें भी रासायनिक प्रभाव डालती हैं । वृद्धावस्थामें तीर्थोंमें घूमने-फिरनेसे खूब टहलना होता है, शुद्ध वायु मिलती है और हलका व्यायाम भी हो जाता है । वृद्धका जीवन सौ वर्षोंका हो जाता है । उसे रहनेको आध्यात्मिक वातावरण मिलता है ।

तुलसीपत्रकी पवित्रता

तुलसीके वृक्षमें स्वास्थ्यरक्षा, बीमारियोंको दूर करने और विषैले कृमियोंके प्रभावको नष्ट करनेके रासायनिक गुण हैं । मलेरिया ज्वरमें यह दूषित कृमियोंको नष्ट करता है । आस-पासका वातावरण शुद्ध करता है । उसकी गन्धसे बीमारियाँ पास नहीं आती । मरणकी निकटतामें तुलसी-मिश्रित गङ्गाजल पिलाया जाता है । इससे मृत्यु-बाधा दूर होनेका विश्वास है । आजके वैज्ञानिक तुलसीके रासायनिक गुणोंपर पर्याप्त खोज कर रहे हैं । डाक्टरोंका निष्कर्ष है कि इस अमृतोपम पौधेके उपयोगसे कफ हटता है, मूत्रावरोध दूर होता है, पाचन-क्रिया दुरुस्त होती है, रक्तशुद्धि होती है । श्वास, निमोनिया, शीत-ज्वर, मूत्र-विकारमें तुलसी अतीव गुणकारी है । इन गुणोंसे जनताको लाभान्वित करनेके लिये चतुर हिंदुओंने इस पौधेको धर्ममें स्थान दिया है ।

श्रीगङ्गाजलकी वैज्ञानिकता

हिंदूजातिने विशेष पर्वोंपर गङ्गा स्नानके लिये जाना आत्मिक शुद्धिका साधन माना है, पर आयुर्वेद और वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे

प्रतीत हुआ है यह स्वच्छ और निर्मल जल, जो ऊँचे-ऊँचे पर्वतोसे आता है, शरीर-पोषणके लिये बड़ा उपयोगी है। गङ्गा-जलमें शारीरिक शक्ति-वृद्धि की अद्भुत शक्ति है, रोगियोंके लिये टानिक-जैसा लाभदायक है। यह बर्फीना जल पीने और स्नान करनेसे शरीरमें ताकत आती है, अजीर्ण रोग, ज्वर, सग्रहणी, तपेदिक, दमा इत्यादि रोग नष्ट हो जाते हैं। मस्तकके समस्त रोगों तथा चर्मरोगोंका नाश होता है। गङ्गाजल चाहे कितने ही दिनों रक्खा रहे, दूषित नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ते।

हिंदूधर्म एक उपयोगी धर्म है

ऊपर कुछ मान्यताएँ दिखायी गयी हैं, जिनसे हिंदूधर्मकी वैज्ञानिकता स्पष्ट हो जाती है। एक नहीं, अनेकों ऐसी मान्यताएँ हैं, जो विशुद्ध वैज्ञानिकतापर आधारित हैं तथा जिनसे आध्यात्मिक लाभके अलावा अनेक स्वास्थ्य, यौवन और सांसारिक प्रत्यक्ष लाभ हैं। प्रातः से सायंतकके निश्चित वैज्ञानिक आचार हैं, जिनके पालन करनेमें लाभ-ही-लाभ है। आहारशुद्धि, मीन-विज्ञान, बाजारु अन्न खानेका निषेध, उपवास एवं एकादशी-व्रत, विशेष तिथियोंमें उपवास, गायका दूध पीनेसे लाभ, घृतदीपक-विज्ञान, शयनके समय दिशाका विचार, परलोक-वाद, अस्पृश्यता-विज्ञान आदि हमारे समग्र विश्वास और मान्यताएँ विशुद्ध वैज्ञानिकतापर आधारित हैं। हमें चाहिये कि पूरे विश्वास और उत्साहके साथ इनका लाभ देखते हुए पालन करें। इनके पालनसे धार्मिक लाभ तो होगा ही, प्रत्यक्ष स्वास्थ्य और सांसारिक लाभ भी अनुभव करेंगे।



आपके हाथों माता लक्ष्मीका अपमान नहीं होना चाहिये

हिंदू-तत्त्वज्ञानी अपनी प्रतीक-पद्धतिके लिये प्रसिद्ध है । उन्होंने देवी-देवताओके रूपमें ऐसे प्रतीक बनाये हैं, जिनसे जन-साधारणको मौलिक विचार और शुभ भावनाएँ सदा ही मिलती रहती हैं । हमारी तीनों देवियाँ सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी हमारे तीन प्रतीक हैं । खेद है कि हम इन प्रतीकोंका अर्थ भूलते जा रहे हैं । सरस्वती ज्ञान, दुर्गा शक्ति और लक्ष्मी धनकी शक्तिकी प्रतीक हैं ।

धनमें पवित्रताका समावेश

देवी लक्ष्मी धनकी शक्तिकी प्रतीक हैं । भारतीय संस्कृतिके अनुसार और हिंदूधर्मके दृष्टिकोणसे लक्ष्मी देवी समाजकी आर्थिक शक्तिकी अधिष्ठात्री हैं । उनकी कृपासे आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त होती है ।

हिंदू बड़े दूरदर्शी होते हैं । जो बात उन्हें उपयोगी प्रतीत होती है, उसे वे धर्मका अङ्ग बनाकर उसमें पवित्रता, शुचिता, देवत्व, सदुपयोग, श्रेष्ठता और सयमके दिव्यगुणोंका समावेश कर देते हैं ।

धनको देवीका स्वरूप देनेका अर्थ है उसमें पवित्रताका समावेश करना । हम धनको समाजके लिये एक पवित्र शक्ति मानते

हैं। समाजको सत्पथपर चलाने रहनेके, पिछड़ोंको आगे बढ़ानेके तथा दैवी कार्योंकी पूर्तिके लिये धनका उपयोग होता रहे, इसलिये उसे देवीका रूप दिया गया है। लक्ष्मीजीकी पूजाका सच्चा अर्थ यह है कि धनका उपयोग हमारे समाज, व्यक्ति तथा देशके शुभ कार्योंमें हो। समाजकी भलाईमें ही वह व्यय हो। तभी धनकी सार्थकता है। यही लक्ष्मी पूजा है।

लक्ष्मीजी भारतीय अर्थ व्यवस्थाकी प्रतीक हैं। पैसेके उपयोगमें जो सावधानियाँ बरतनी चाहिये, वे लक्ष्मीजीकी पूजामें निहित हैं। जो लोग रुपयेका दुरुपयोग करते हैं, वे माता लक्ष्मीजीका प्रत्यक्ष अपमान करते हैं।

धनका सदुपयोग करें

धनको लक्ष्मीजीका रूप स्वीकार करनेपर प्रत्येक सद्गृहस्थ हिंदूको उसका सदुपयोग करना चाहिये। अर्थकी शक्तिका आजके युगमें हम पग-पगपर अनुभव करते हैं। उसका सदुपयोग कर हम जनता-जनार्दनकी सर्वाधिक सेवा कर सकते हैं। भारतीय शास्त्रकारोंके कुछ आधारभूत जीवन सिद्धान्त स्मरण रखने चाहिये। धन सत्य, न्याय और पर-हितका ध्यान रखते हुए पवित्र साधनोंसे कमाया जाय और उसका जनताके हितमें व्यय किया जाय—

उतो रयिः पूणतो नोपदस्यति ।

(ऋग्वेद १० । ११७ । १)

अर्थात् दान देनेवाले सत्पुरुषकी सम्पदा घटती नहीं, सदा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है।

आपके हाथों माता लक्ष्मीका अपमान नहीं होना चाहिये ३२३

सत्कार्योंमें लगाया धन बैकमे जमा पूंजीके समान सुरक्षित है। धर्मशालाएँ, पुस्तकालय, प्याऊ, वृक्ष लगाना, स्कूल बनवाना, धर्मार्थ चिकित्सालयोकी स्थापना, जानवरोंके लिये जलका प्रबन्ध करना, ग्रामोंकी सफाईका प्रबन्ध, कुशाग्रबुद्धि छात्रोंकी शिक्षाका उचित प्रबन्ध करना—ये सब माता लक्ष्मीकी आराधना और सेवाके अचूक उपाय हैं। ये सत्कार्य समाजको ऊँचा उठानेवाले हैं। अपनी रुचि और आर्थिक सुविधाके अनुसार दान और सेवाका रूप स्थिर करना चाहिये।

जो धन पिछड़े हुए व्यक्तियोंके उत्थानमें लगता है, वह पूजाके समान फलदायी है। धन संग्रहके लिये नहीं, समाजकी सेवामे व्यय होना चाहिये। कहा गया है—

अदित्सन्तं दापयतु प्रजानन् ।

(अथर्ववेद ३।२०।८)

अर्थात् कजूसोको भी निरन्तर दान देनेकी ही प्रेरणा देते रहिये।

स्वयं सत्कार्य करना ही यथेष्ट नहीं है। वह तो आपका कर्तव्य है ही; आपके आसपास जितने मित्र हैं, उनको भी धनको पवित्र कार्योंमें लगानेकी प्रेरणा देनी चाहिये। उन अल्पबुद्धि कजूसोको समझाइये कि यह धन आपका नहीं, बल्कि सारे समाजका है। धन व्यर्थ ही जमा करते जानेका नहीं, सदुपयोग करनेका माध्यम है। उससे आप, आपकी संतान, आपका परिवार, आपका पड़ोस, प्रान्त, देश और समस्त देश लाभ उठा सकता है।

अभावग्रस्त और पीड़ितोंके सेवाकार्यमें उसका व्यय होना चाहिये ।

सुपात्र-कुपात्रका सदा ध्यान रखिये

किंतु सहायता सुपात्रकी ही होनी चाहिये । आपने यदि कुपात्रकी सहायता की तो वह समाजमें उत्पात कर सकता है । खूब परखकर अच्छी वृत्तियोवालेकी सेवा करनी चाहिये । शास्त्रोंमें कहा है—

रयि घत्त दाशुषे मत्यवि ।

(अथर्ववेद)

अर्थात् दानमें सदा विवेकसे काम लो और सत्पात्रोंको ही दान करो ।

आप जब सहायता करने निकलें तो पात्र-कुपात्रका सावधानी-पूर्वक विवेक करें । धैर्यपूर्वक सोचें-विचारें । जो सद्वृत्तियोवाले सुपात्र हैं, उन्नतिशील हैं, केवल उन्हीको दान दें । कुपात्रोंको दिया दान दाताको नरकमें ले जाता है ।

न पापत्वाय रासीय ।

(अथर्ववेद २० । ८२ । १)

अर्थात् कुपात्रोंको दान मत दीजिये । सर्पोंको दूध पिलानेकी भाँति कुपात्रतामें और भी वृद्धि न कीजिये ।

दत्तान्मा यूपम् ।

(अथर्ववेद ६ । १२३ । ४)

अर्थात् दान देनेकी दिव्य और उपयोगी परम्परा बंद नहीं होनी चाहिये । माता लक्ष्मी कहती हैं कि आपके पास ज्ञान, बल,

आपके हाथों माता लक्ष्मीका अपमान नहीं होना चाहिये ३२५

योग्यता अथवा धन जो कुछ भी है समाज और पीड़ित व्यक्तियोंको देनेके लिये है, उसे दूसरोंके हितमें सम्पूर्ण जीवन लगाते रहिये ।

ध्यानसे देखिये कि किस सद्वृत्तियोंवाले व्यक्तिको आपकी आर्थिक सहायताकी आवश्यकता है । अपने नामके विज्ञापनकी परवाह मत कीजिये । सर्वश्रेष्ठ आर्थिक सहायता वह है, जिसमें दाताका नाम नहीं बताया जाता ।

यह धन सारे समाजका है

कस्यस्विद्धनम् । (यजुर्वेद ४० । १)

अर्थात् याद रखिये, आपके पास जो धन है, उसपर केवल आपका ही अधिकार नहीं है, वह धन तो सम्पूर्ण राष्ट्रका है और सामूहिक हितमें ही व्यय होना चाहिये ।

माता लक्ष्मीका सदेश है कि धनपर कब्जा करके मत बैठो । परिवार, समाज और राष्ट्रके हितके लिये उसका सदुपयोग करते रहो ।

व्यापारमें धार्मिक दृष्टिकोण ही रक्षिये

न स्तेय मद्भि ।

(अथर्ववेद १४ । १ । ५७)

अर्थात् चोरीका धन कभी भी कार्यमें मत लीजिये । जो न्यायोचित नहीं है, जिसमें ईमानदारी और श्रम नहीं लगा है, उसे त्याग दीजिये ।

इमां मात्रां भिमीमहे यथापरं न मासातं ।

(अथर्ववेद १८ । १ । ३८)

अर्थात् माता लक्ष्मीका सदेश है कि आप वस्तुस्थिति एवं नाप-तौलसे गड़बड़ी न कीजिये । अपने व्यापारमें नाप-तौल पूरा दिया कीजिये । व्यापारमें किसी भी प्रकारकी बेईमानी हो, वह व्यापारको जडमूलसे नष्ट कर देती है ।

पापका व्यापार थोड़े दिन तो चमकता दीखता है, परं अन्ततः वह गाँठकी पूंजी भी नष्ट कर देता है । माता लक्ष्मी कहती है—

प्र पतेतः पापि लक्ष्मि ।

(अथर्ववेद ७ । ११५ । १)

अर्थात् पापकी कमाई छोड़ दीजिये । कठोर श्रम, अध्यवसाय और पुण्यभाव, सेवाभाव रखकर कमाया धन ही मनुष्यके पास ठहरता है ।

सचाई तथा पसीनेकी पुण्य कमाईसे ही मनुष्य सुखी और मानसिक दृष्टिसे तृप्त बनता है ।

धनका उपयोग सद्गुणोंकी वृद्धिके लिये किया जाय

सद्गुण और लक्ष्मी— इनका परस्पर योग है । मनमें ईर्ष्या, द्रोह, द्वेष, लोभके भाव रखनेवालेका व्यापार नष्ट हो जाता है ।

भारतीय ऋषियोने धनकी ईमानदारी, उचित साधनों और सेवाभावको बहुत महत्त्व दिया है । कहा है—

रसन्तां पुण्या लक्ष्मीः ।

(अथर्ववेद ७ । ११५ । ४)

अर्थात् यह आजमाया हुआ नुस्खा है कि ईमानदारीसे

आपके हाथों माता लक्ष्मीका अपमान नहीं होना चाहिये ३२७

कमाया हुआ धन ही मनुष्यके पास ठहरकर उसे स्थायी लाभ पहुँचाता है। बेईमानीकी कमाईसे कोई फूलता-फलता नहीं है।

देवो वार्यं वनते ।

अर्थात् धन उन्हीके पास ठहरता है, जो सद्गुणी नागरिक हैं, अन्यथा दूसरी पाठीमें दुराचारी सतानके द्वारा वह नष्ट कर दिया जाता है। अपनी सतानको सद्गुणी न बनाया तो विपुल सम्पदा भी स्वल्प कालमें नष्ट हो जाती है।

भारतीय मनीषियोने सदा उत्तम और पवित्र साधनोसे कमाये हुए धनको ही मान्यता दी है और धर्मके अन्तर्गत उसे स्थान दिया है। व्यापारमें धार्मिक दृष्टि रखनेसे गुप्त देवी सहायताका विधान रहा है। अनैतिक साधनोसे कमाये हुए धनसे कभी स्थायी लाभ नहीं दिखायी दिया है। आनेवाली पीढीने उसे समाप्त कर दिया है। इसलिये धनका उपयोग सद्गुणोंके विकासमें ही होना चाहिये।

साधनोंकी पवित्रताका सदा ध्यान रखिये

माता लक्ष्मी हमें धनकी पवित्रता, साधनोका औचित्य तथा अन्तःकरणकी शुद्धिका सदेश देती हैं। मनुष्य धनके पीछे अन्धा न हो जाय, छल, कपट, दम्भ, द्वेष, पाखण्ड, झूठ, चोरी, अन्याय आदि अनैतिक उपायोका प्रयोग न करे, असुरताकी गदगोंमें न फँस जाय,—यही दृष्टिकोण सदा रहना चाहिये।

आज धनकी अपवित्रता, लालच, झूठ-फरेबके कारण भाई-भाईका व्यवहार छलपूर्ण है, मालिक नौकरमें नहीं पटती, ग्राहक

और दूकानदारके सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। ये सब आर्थिक कारणोंकी स्वार्थमयी वीतिके कारण हैं; अतः ये सम्बन्ध मधुर बनने चाहिये।

अर्थ भी धनका महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। परमात्माकी एक शक्ति है। माभवताकी सेवा और सार्थकताका साधन है। इस सम्पदाका उपयोग मनुष्यकी महानताके विकासके लिये होना चाहिये।

ऋणसे मुक्तिका संदेश

जहाँ एक ओर पापकी कमाईसे सावधाव किया गया है, वहाँ वहीं ऋणग्रस्त होनेसे भी सचेत किया गया है। हम जितना कुछ धर्मके साधनोंसे कमायें, उसीमें अपना निर्वाह करें। व्यर्थके दिखावे, फैशनपरस्ती, अपव्यय, षाडम्बर, नशाबाजी, सिनेमा, सजावट आदि ऋण होनेके समस्त कार्योंसे बचते रहे।

हम अपनी जिह्वापर लगाम रखें। नियम और संयमसे जीवन-निर्वाह करें। शास्त्रकारोंकी सलाह दें—

अनूणो भवामि । (अथर्ववेद ६ । ११७ । १)

अर्थात् अपनी आमदनीमेंसे ही खर्च चलाओ। किसीके ऋणी मत रहो। किसी भी अवस्थामें अपनी आर्थिक स्थितिसे बाहर खर्च मत करो।

अनूणा स्याम । (अथर्ववेद ६ । ११७ । ३)

अर्थात् मनुष्यो। संसारमें प्रसन्न और यशस्वी रहनेके लिये कर्जदार मत बनो। ऐसे काम मत करो जिससे ऋण लेना पड़े।

सर्वान् पथो अनूणा आ क्षियेम् ।

(अथर्ववेद ६ । ११७ । ३)

आपके हाथों माता लक्ष्मीका अग्रमान नहीं होना चाहिये ३२६

अर्थात् जो ऋणमुक्त है, उसकी उन्नति होती है । ऋणग्रस्त व्यक्ति दिन-दिन धूलता जाता है ।

घनका मद आसुरी माया है !

मूर्ख, अल्पज्ञ और अभिमानी पापियोंके हाथमें इकट्ठा हो जानेसे घन पतनका कारण बन जाता है । उधरसे सावधान रहना चाहिये ।

लक्ष्मीजीको कुछ दिनोंके लिये असुरोंने अपने अधिकारमें कर लिया था । इसलिये घनपर आसुरी छाप है । दुष्ट और अपात्रोंके हाथोंमें इकट्ठा होकर घन आसुरी कार्योंमें लगता है और विकृत हो जाता है । विलासी, काम-लोलुप, विषयासक्त, अविवेकी पुरुष घनके द्वारा अपवित्र, गदे और अधार्मिक कार्य करते हैं, जो सर्वथा त्याग्य हैं । लक्ष्मीजी इन कार्योंसे अप्रसन्न होती हैं ।

मूर्ख कुकर्मी व्यक्तियोंके पास आकर इसका दुरुपयोग कैसे किया जाता है, इसका उल्लेख 'कादम्बरी'में इस प्रकार किया गया है । इनसे सदा सावधान रहना और बचना चाहिये —

यथा यथा इयं दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जलमलिनमेव कर्म केवलमुद्भमति । अनया कथमपि देववशेन परिगृह्यता विवज्जवा भवन्ति राजानः, सर्वाविनयाविषठाभतां च गच्छन्ति । तेषां दाक्षिण्यं प्रक्षाल्यते, हृदयं मलिनो भवति, सत्यं वादित्वा अपह्लियते, गुणाश्चोत्सार्यन्ते । केचित्सम्पत्तिः प्रलोभ्यमाना रागावेशेन बाध्यमाना विह्वलतामुपयान्ति । आसन्नमृत्युव इव चशुजनमपि नाभिजानन्ति ।

अर्थात् 'कुसंस्कारी पापी और विलासी पुरुषोंके पास ज्यो-ज्यो धन बढ़ता है, त्यो-त्यो वह आधार्मिक, गदे और दूषित कार्योंमें लगता है। वह कुविचारोंको उत्पन्न करता है जैसे दीपककी लौ केवल काली-काली कालिख ही उगलती है।'

'इसके किसी प्रकार अभाग्यवश पकड लिये जानेपर (अर्थात् लक्ष्मीजीके बुरे प्रभाव पड़ जानेपर) राजातक वेसुध हो जाते हैं और मूर्खताओ तथा कुकर्मोंके निवासस्थान बन जाते हैं। उनकी उदारता धुल जाती है, हृदय मलिन हो जाता है, सत्यवादिता दूर हो जाती है और सद्गुण भाग जाते हैं।'

'कुछ लोग रुपयेके लालचमें पडकर विकारो (वासनाओं, कुविचारो, हिंसादि क्रूर कर्मों, व्यभिचारकी दूषित योजनाओ) के आक्रमणसे विवश होकर वेसुध हो जाते हैं। वे मरणासन्न लोगोंके समान अपने मित्रोंको नहीं पहचानते।'

इस प्रकार धनकी त्रुटियोंसे सदा सतर्क रहना चाहिये। आगे कहा गया है—

मिथ्यामाहात्म्यगर्वनिभंराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः,
 नाभिवाद्यस्त्यभिवादानाहन्ति, नाम्युत्तिष्ठन्ति गुरुन् ।
 जरावैकल्यप्रलपितमिति पश्यन्ति बृहज्जनोपदेशम् ।
 आत्मप्रज्ञापरिभव इत्यसूर्यान्त सचिवोपदेशाय, कुर्वन्ति
 हितवादिने । सर्वथा तमभिनन्दन्ति तमालपन्ति, तं पार्श्वे कुर्वन्ति,
 तस्मै ददति, तस्य वचनं शृण्वन्ति, तं बहु मन्यन्ते
 योऽहनिशमुपरचिताञ्जलिरधिदेवतामिव विगतान्यकर्तव्यः स्तोत्रि
 यो वा माहात्म्यमुद्भावयति ।

आपके हाथो माता लक्ष्मीका अपमान नहीं होना चाहिये ३३१

अर्थात् 'कृसम्कारी और कुविचारी घनीलोग झूठे बडप्पनके घमडमे भरकर देवताओको नमस्कार नही करते ।

जिन्हे प्रणाम करना चाहिये, उन्हे प्रणाम नही करते और बडोकी देखकर उनके सम्मानके लिये नही उठते ।

विद्वान् वृद्धोके उपदेशको समझते हैं कि बुढापेकी निर्बलताके कारण बक-झक कर रहे हैं ।

मन्त्रीके उपदेशसे अप्रसन्न होते हैं और समझते हैं कि यह अपनी बुद्धिको हार है ।

वे घनके मदमे इतने चूर रहते हैं कि भलाईकी बात कहने-वालेपर भी क्रोध करते हैं ।

जो रात-दिन हाथ जोड़ रहते और झूठी प्रशंसा करते हैं और अग्ने कर्तव्य छोडकर उनकी इष्टदेवताके समान स्तुति करते हैं या जो उनके बडप्पनकी घोषणा करते हैं, वे उन्हीकी बात सुनते हैं, उन्हीका आदर करते हैं और उन्हीका अपने साथ रखते हैं ।'

उपर्युक्त सभी दुर्गुणोमे लिप्त रहनेसे माता लक्ष्मीका अपमान होता है । हमे चाहिये कि हम इन दुर्गुणोसे सदा-सर्वदा सावधान रहे । हमारे घनसे कोई ऐसा दुष्कर्म नही होना चाहिये, जिससे माता लक्ष्मी अपमानत हो ।

लक्ष्मीजी इन स्यानोमें निवास करती हैं !

का त्व केन च कार्येण सम्प्राप्ता चारुहासिनि ।

कुतश्चागम्यते सुभ्रु गन्तव्य क्व च ते शुभे ॥

इन्द्रने लक्ष्मीसे पूछा कि 'हे सुभ्रू ! तुम कौन हो ? और किस कार्यसे और कहाँसे आती हो ? और कहाँ जाओगी ?'

साह वं पङ्कजे जाता सूर्यरश्मिविबोधिते ।

भूत्यर्थं सर्वभूतानां पद्मा श्राः पद्ममालिनी ॥

अह लक्ष्मीरहं भूतिः श्रीश्चाह बलसूदन ।

अहं श्रद्धा च मेधा च सन्नतिर्विजितिः स्थितिः ॥

अहं धृतिरहं सिद्धिरहं तद्भूतिरेव च ।

अह स्वाहा स्वधा चैव सम्मतिर्नियतिः स्मृतिः ॥

'सूर्यके तेजसे विकसित कमलमे सब प्राणियोंके हितार्थ मैं प्रकट हुई और मुझे पद्मा, पद्ममालिनी, लक्ष्मी, भूति, श्री भी कहते हैं । मैं ही श्रद्धा, मेधा, विनय, मर्यादा, धैर्य, सिद्धि, अणिमादि) स्वाहा, स्वधा और स्मृति भी हूँ ।'

राजां विजयमानानां सेनाग्रेषु ध्वजेषु च ।

निवासे धर्मशीलानां विषयेषु परेषु च ॥

जितकाशिन शूरे च सग्रामेष्वनिर्वतिनि ।

निवसामि मनुष्येन्द्रे मदव बलसूदन ॥

धर्मनित्ये महाबुद्धौ ब्रह्मण्ये सत्यवादिनि ।

प्रश्रिते दानशीले च सदैव निवासाम्यहम् ॥

'विजय प्राप्त करते हुए राजाओके ध्वजोंपर और सेनाओंके अग्रभागमें तथा धर्मशील पुरुषोंके स्थानमें, देशों तथा नगरोंमें और सग्रामसे न हटनेवाले विजयशील शूरोमें तथा सदा धर्मत्मा, महाबुद्धि, ब्रह्मण्य और सत्यवादी पुरुषोंमें तथा नम्र और दानशील पुरुषोंमें मैं सदा ही रहा करती हूँ ।'

धर्मचरणद्वारा उपार्जित धन ही समृद्धि देता है !

आज हम महँगाईका स्वर ऊँचा कर रहे हैं। प्रत्येक विभागमें आय और नौकरीका वेतन बढ़ानेकी जोरदार माँगें प्रस्तुत की जा रही हैं। हम जमानेको दोष देते हैं और सरकारको महँगाईका अपराधी ठहराते हैं। हम अपनी आर्थिक मुसीबतका कारण बाहरी मानते हैं, पर हमें देखना चाहिये कि बहुत-से मामलोंमें हम स्वयं भी आर्थिक कष्टोंके जिम्मेदार हैं।

सिनेमावाले घड़ाघड़ कमा रहे हैं; बाजारमें पान-सिगरेटकी ढेर-की-ढेर दुकानें खुलती और अच्छी आमदनी दे रही हैं; अंग्रेजी

भरावकी दुकाने पर्याप्त पनप रही हैं; चाट-पकौड़ी खूब विक्रती है। फैशनेबिल वस्तुओंकी दुकानोंकी विक्री तजीसे चढी है। सौन्दर्य-प्रसाधनोंकी विक्री अच्छी है। ये तथा इमी प्रकारके विनासकी वस्तुएं बेचनेवाले मालामाल हो रहे हैं।

फिर काहेकी महँगाई! यदि महँगाई होती तो कौन उपर्युक्त वस्तुओंको खरीदता?

हम 'महँगाई' कहकर केवल अपनी शौकीनीपर बढे हुए खर्चोंकी शिकायत करते हैं। बाहरी टीपटाप और घमक-दमक कायम रखनेमे कठिनता पात हैं। दिखावा करते नही थकते। फिर बेईमानी और मुफ्तकी कमाईसे ये बढे हुए अनुचित खर्च पूर्ण करना चाहते हैं। सर्वत्र हमी दोषी हैं। हमारी कृत्रिम आवश्यकताएँ बहुत बढ गयी हैं।

वेदोमे आर्थिक समस्याओंका हल

वेदोमे शास्त्रमन्थनका नवनीत पाया जाता है। हमारे मनीषियोने थोड़ेसे शब्दोमे हमारी समस्त आर्थिक कठिनाइयोका हल उपस्थित कर दिया है। आजके सदभमे ये विचार हमारे बड़े-सहायक हो सकते हैं। देखिये वेदोमे क्या लिखा है—

अग्निनारयिमश्नष्टत् पोषमेव दिवेदिवे। यशसं धीरष्ठमम् ॥

(ऋग्वेद १।१।३)

अर्थात् सच्ची और स्थायी समृद्धिके लिये यह जरूरी है कि हम ईश्वरके बनाये नियमोसे ही ईमानदारीके श्रमसे अपनी जीविका उपार्जित करें। बेईमानीका घन सदा हमसे दूर ही रहे। अनुचित

धर्माचरणद्वारा उपाजित धन ही समृद्धि देता है ? ३३५

रीतियो (जैसे रिश्वत, धोखा, बेईमानी, ठगी, चोरी, काना बाजार, मिलावट, झूठ-फरेब या और अनैतिक रीतियो) से कमाया धन हम कदापि अपन पास न रखें। सदा अमीर बने रहनेके लिये धर्म (नैतिक उपायो)से ही जीविका कमाये और जो कुछ मिले उसे धर्म से (पूर्ण समय और मितव्ययतापूर्वक) खर्च करें।

प्राता रत्नं प्रातारित्वा दधाति त द्विकित्वात् प्रतिगृह्णाति धत्ते । तेन प्रजां वर्धयमान आयू रायस्पोषण सचते सुवीरः ।

(ऋग्वेद १ । १२५ । १)

अर्थात् (यह अनुभवसिद्ध बात है कि) 'जो निरालस्यपूर्वक धर्माचरणद्वारा धन उपाजित करता है, उसकी रक्षा और उपभोग करता है तथा दूसरोंके हितमें भी उसी प्रकार लगाता है, वह धर्माचारी व्यक्ति इस ससारमें सदैव सुखी रहता है।'

ईमानदारीके धनसे मनमें पूर्ण सतोष और शान्ति रहती है। किसीको यह भय नहीं रहता कि उनकी शिकायत हो जायगी अथवा मुकदमा इत्यादि चल जायगा। प्रत्येक पैसा, जिसमें खरी मेहनत लगी है, तृप्ति देता है। अनैतिक उपायोवाला धन सदा मनपर तनाव रखता है।

अग्ने नम सुपथा राये अस्मान विश्वनिदेश वयुनात्रि विद्वान् ।

युयोध्यमज्जहुराणमेनो मूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम् ॥

(ऋग्वेद १ । १८६ । १)

अर्थात् हम (आधुनिक समय जीवनमें धृसे हुए) कुटिल

कूटेव्रीहो त्यागकर सदैव अच्छे मार्गमें चनकर धन-धान्यकी प्राप्ति करें ।

याद रखिये—

ये तथा देवोत्तिकं मन्थमानाः पापा भद्रनुपजोवन्ति पञ्चाः ।

न दूह्ये ष्णु ददासि वामं वृहस्पते चयस इत्पियारुम् ॥

(ऋग्वेद १ । १९० । ५)

अर्थात् जो मनुष्य ईश्वर-आराधना और शुभ कर्म नहीं करते, वे स्वभावतः बुद्धिहीन होते हैं । इसीलिये वे स्वतः ही धनसे वञ्चित बने रहते हैं ।

पर ऋणा साधीरघ मत् कृतानि,

माहं राजन्नन्यकृतेन भोजम् ।

अभ्युष्टा इष्णु स्रयसीरूवास,

आ नो जीवान् वरुण तासु शाधि ॥

(ऋग्वेद २ । २५ । ९)

‘हे परमात्मन् ! मुझे शक्ति दो, ताकि मैं पितृ-ऋण तथा ऋषि-ऋण चुका सकूँ । (सयोगसे विषम परिस्थितिवश यदि कुछ ऋण ले लूँ, उसको भी अपने श्रम और संयमसे जल्दी-से-जल्दी चुका दूँ ।) हे ईश्वर ! मैं औरकी कमाई कभी न खाऊँ । मैं अपनी ही ईमानदारी और सच्चे मेहनतकी जीविकापर ही सदा-सर्वदा जीवित रहूँ । मैं दूसरेकी कमाईपर कभी निर्वाह न करूँ; क्योंकि यह एक पाप है । असत्य व्यवहार है । अनैतिकता है । खुद अपनी ही धर्मपूर्वक अर्जित कमाईपर जिंदा रहूँ । मेरा जीवन धर्मसे सदा भली प्रकार अनुशासित रहे ।’

धर्मचरणद्वारा उपार्जित धन ही समृद्धि देता है ! ३३७

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर । कृतस्य कार्यस्य
चेह स्फार्ति समावह ॥

(अथर्ववेद ३ । २४ । ५)

अर्थात् मनुष्य विद्या, बुद्धि, धर्म, गुण आदि सद्बृत्तियों और भौतिक साधनोंके द्वारा ही उत्साहपूर्वक अपनी जीविका कमाये । (अनैतिक और गर्हित साधनों, झूठ-फरेब और बेईमानीसे हरगिज एक पैसा भी न लें) फिर इस पवित्र धनको समाजके लोककल्याणकारी कार्योंमें (जैसे धर्मशालाएँ, कुएँ, हरे वृक्ष लगवाने, गरीबोंको दान देनेमें, पिछड़े हुओंको उठाने, सत्साहित्य खरीदने, चिकित्सालयोंमें गरीबोंके लिये दवाई दिलाने, अंधे, कोढ़ी, लँगड़े, लूले, अपाहिजों तथा पीड़ितोंके सहायतार्थ) खर्च करें । धन वही धन्य है, जो विलासमें नहीं, लोक-उपकारी कामोंमें व्यय होता है ।

एक स्थानपर कहा गया है—

यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावद्दहमीशीय । स्तोतार भिद् दिधिषेय
रदावसो न पापत्वाय रासीय ।

(ऋग्वेद ७ । ३२ । १८)

अर्थात् उचित रीतिसे कमाया हुआ धन सत्कार्योंमें लगनेसे मनुष्यको इस जीवनमें सुख और संतोष, आन्तरिक शान्ति और संतुलन देता है तथा मरनेपर सद्गति प्रदान करता है । जो धनको पापके कामोंमें (जैसे विलास, फैशनपरस्ती, शराब, गाँजा, सिगरेट, व्यभिचार, थोथे टोपटाप, आडम्बर, कुटिल कुटेवो, स्वार्थ, व्यसव

म० जी० फू० २२—

इत्यादिमे) लगाता है, वह माता लक्ष्मीका अपमान करता है । उसका नाश होता है ।

इस रे यहाँ अने नैक माधनोको मदा हेय माना गया है और उनकी सगुण निन्दा की गयी है । केवल धनकी अधिकतासे कोई सम्माननीय नही समझा जाता । अनेनिक धन तो चोरो, डकैतो, लुटेरों, हत्यारो, वेष्याओ इत्यादिक पास भी बहुतायतसे होता है । रिश्वत और सग्कारी गवनसे लोग मालामाल हो गये हैं । सैकड़ोपर घोखाइही और गवनके मुकदमे चले हैं । ऐसा अनेनिक धन व्यर्थ ही नही, अनथकारी है । हिंदू धर्मकी दृष्टिसे हेय और त्याज्य है । हिंदू-विचारकोका तो यह मत है—

न कुण्डुना मर्षो विन्दते षणु न खेषन्त रयिनंशत् ।

सुशक्रिन्मधस्न् तुभ्य सावतं देष्णं यत् पार्ये दिवि ।,

(ऋग्वेद ७ । ३२ । २१)

अर्थात् धन, पद, श्री और समृद्धिका प्राप्ति न्यायपूर्ण आचरणसे होती है । अधर्मसे कमाया धन कमानेवालेकी इज्जत, सम्मान, यश और प्रतिष्ठाके लिये विनाशकारी होता है ।

मोषु वरुण मृण्मयं गृहं राजन्नहं गमम् । मृच्चा सुक्ष्म मृच्च्य ॥

(ऋग्वेद ७ । ६६ । १)

मनुष्यको चाहिये कि अथक सच्चे परिश्रम और निरन्तर पुरुषार्थद्वारा ही अपनी आर्थिक स्थितिको सुदृढ बनाये ताकि सारा समाज समुन्नत हो, ईमानदारी और परिश्रमकी ओर अग्रसर हो ।



आपके हाथों दानकी परंपरा चलती रहे !

भारतीय सस्कृति परमार्थ और परोपकारको प्रचुर महत्त्व देती है। जब अपनी सात्त्विक आवश्यकताओकी पूर्ति हो जाय, तो लोक-कल्याणके लिये दूसरोकी उन्नतिके लिये दान देना चाहिये। प्राचीन कालमे ऐसे निःस्वार्थी लोक-हित-निरत ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, पुरोहित, योगी, सन्यासी होते थे, जो अपना समस्त जीवन लोक-हितके लिये दे डालते थे। सदा दूसरोकी सेवा-सहायता करते रहते थे। कुछ विद्यादान, पठन-पाठनमे ही आयु व्यतीत करते थे। उद्देश-द्वारा जनताकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सहयोग, सुख, सुविधा, विवेक, धर्मपरायणता आदि सद्गुणोको बढ़ानेका प्रयत्न किया करते थे। मानवीय स्वभावमे जो सत् तत्त्व है, उसीकी वृद्धिमे वे अपने अधिकांश दिन व्यतीत करते थे। ये ज्ञानी उदार महात्मा अपने-आपमे जीवित-कल्याणकी सस्थाएँ थे, यज्ञरूप थे। जब ये जनताकी इतनी सेवा करते थे तो जनता भी अपना कर्तव्य समझकर इनके भाजन, निवास, वस्त्र, सतनके पालन-पोषणका प्रबन्ध करती थी। जैसे लोक-हितकारी सस्थाएँ आज भी सावंजनिक ढंसे चलायी जाती है, उसी प्रकार ये ऋषि, मुनि, ब्राह्मण भी दान, पुण्य, भिक्षा आदिद्वारा निर्वाह करते थे। प्राचीन भारतीय ऋषि-मुनियोका

व्यक्तिव इतना उच्च, पवित्र और प्रवृत्ति इतनी सात्त्विक होती थी कि उनके सम्बन्धमें किसी प्रकारके सदेहकी कल्पनातक नहीं की जा सकती थी; क्योंकि उन्हें पैसा देकर जनता उसके सदुपयोगके विषयमें निश्चित रहती थी। हिसाब जाँचनेकी आवश्यकता तक न समझती थी। इस प्रकार हमारे पुरोहित, विद्यादान देनेवाले ब्राह्मण, मुनि, ऋषि दान-दक्षिणाद्वारा जनताकी सर्वतोमुखी उत्थतिका प्रबन्ध किया करते थे। दानद्वारा उनके जीवनकी आवश्यकताएँ पूरी करनेका विधान उचित था, जो परमार्थ और लोक-हित, जनताकी सेवा-सहायतामें इतना तन्मय हो जाय कि अपने व्यक्तिगत लाभकी बात सोच ही न सके, उसके भरण-पोषणकी चिन्ता जनताको करनी ही चाहिये।

इस प्रकार दान देनेकी, परिपाटी चली। कालान्तरमें उस व्यक्तिको भी दान दिया जाने लगा जो अपंग, अंधा, लँगड़ा, लूला, अपाहिज या हर प्रकारसे लाचार हो, जीविका उपार्जन न कर सके। उन्हें भिक्षा ग्रहण करनी भी चाहिये; क्योंकि जीवन धारण करनेके लिये अन्य कोई साधन ही शेष नहीं रहता। इस प्रकार दो रूपोंमें दूसरोंको देनेकी प्रणाली प्रचलित रही है। १—मुनियों, ब्राह्मणों, पुरोहितों, आचार्यों, संन्यासियोंको दी जानेवाली आर्थिक सहायताका नाम रक्खा गया 'दान'। २—अपंग, लँगड़े, लूले, कुछ भी कार्य न कर सकनेवाले व्यक्तियोंको दी जानेवाली सहायताको 'भिक्षा' कहा गया। दान और भिक्षा दोनोंका ही तात्पर्य दूसरेकी सहायता करना है। पुण्य, परोपकार, सत्कार्य, लोक-कल्याण, सुख-शान्तिकी वृद्धि,

3 सात्त्विकताका उन्नयन तथा समष्टिकी—जनताकी सेवाके लिये ही इन दोनोका उपयोग होना चाहिये ।

दूसरोंको देनेका क्या तात्पर्य है ? भारतीय ज्ञानपरम्परा और कुछ नहीं, उधार देनेकी एक वैज्ञानिक पद्धति है । जो कुछ हम दूसरोंको देते हैं, वह हमारी रक्षित पूंजीकी तरह जमा हो जाता है । अच्छा दान वह है जो अभावग्रस्तोंको दिया जाता है । बिना जरूरतमन्दको देना कुछ विशेष महत्त्व नहीं रखता । कुपात्रोंको धन देना व्यर्थ है । जिसका पेट भरा हुआ हो, उसे और भोजन कराया जाय तो वह बीमार पड़ेगा और अपने साय दाताको भी अधोगतिके लिये घसीटेगा । भारतीय संस्कृतिके अनुसार दान देना बहुत ही उत्तम धर्म कार्य है । जो अपनी रोटी दूसरोको बाँटकर खाता है, उसको किसी बातकी कमी नहीं रहेगी । जो अपने पैसेको जोड़-जोड़कर जमीनमे गाड़ते हैं, उन पाषाण-हृदयोंको कैसे पता लगे कि दान देनेमे कितना आत्मसतोष, कितनी मानसिक तृप्ति मिलती है ! आत्मा प्रफुल्ल हो जाती है । मृत्यु बड़ी बुरी लगती है, पर मौतसे बुरी बात यह है कि कोई व्यक्ति दूसरेको दुखी देखे और उसकी किसी प्रकार भी सहायता करनेमें अपने-आपको असमर्थ पावे । हिंदूशास्त्र एक स्वरमे कहते हैं कि मनुष्य-जीवनमे परोपकार ही सार है । हर्षे जितना भी सम्भव हो, सदैव परोपकारमें रत रहना चाहिये । किंतु यह दान अभिमान, दम्भ, कीर्तिके लिये नहीं, आत्मकल्याणके लिये ही होना चाहिये । मेरे कारण दूसरोका भला हुआ है, यह सोचना उचित नहीं है । दान देनेसे स्वयं हमारी

ही भलाई होती है। हमे संयमका पाठ मिलता है। यदि आप दान न भी दें, तब भी संसारका काम तो चलता ही रहेगा। परमात्मा इतना विपुल भंडार लुटा रहे हैं कि हमारी छोटी-सी सहायताके बिना भी जनताका कार्य चल ही जायगा। आप यदि न देगे, तो कोई भिखारी भूखा नहीं मर जायगा। किसी प्रकार उसके भोजनका प्रबन्ध हो ही जायगा; किंतु आपके हाथसे दूसरोंके उपकारको करनेका एक अवसर जाता रहेगा। आपकी उपकार-भावना कुण्ठित हो जायगी। दानसे जो मानसिक उन्नति होती, आत्माको जो शक्ति प्राप्त होती, वह दान लेनेवालेको नहीं, बरं देनेवालेको प्राप्त होती है। दूसरोंका उपकार करना मानो एक प्रकारसे अपना ही कल्याण करना है। किसीको थोडा-सा पैसा देकर भला हम उसका कितना भला कर सकते हैं। किंतु उसकी अपेक्षा हम अपना भला हजार गुना कर लेते हैं। हमारी उदारताका विकास हो जाता है। आनन्द-स्रोत खुल जाता है।

दान आत्माका दिव्य गुण है। दानशीलताकी सात्त्विक भावना जिस पुरुषके अन्तःकरणमे प्रवेश करती है, उसे उदार बना देती है। उसे प्रकाशका पुञ्ज बना देती है। दान रुपये-पैसे या रोटी-भोजन-कपड़ेका ही नहीं, श्रमका भी हो सकता है। सच्चा दानी लोक-उपकारको प्रमुखता देता है। वह दधीचिकी तरह अपनी हड्डियाँ लोक-उपकारके लिये दान दे देता है। व्यासजीकी तरह अपनी आयु सद्ग्रन्थोंकी रचनामे लगा देता है। द्रोणाचार्यकी तरह शस्त्र-विद्याका प्रचार करता है। पाणिनिकी तरह व्याकरण

बनाता है, बुद्धकी तरह प्रेम-धर्मका उपदेश देता है । इस प्रकार सच्चा दानी समय और देशकी आवश्यकताओंके अनुसार अपनी बुद्धि, योग्यता, कला, प्रतिभा-शक्तियोंका दान करता रहता है ।

यह तो दान देनेवालेके पक्षका विवेचन हुआ । अब लेनेवालेके पक्षको देखिये । भिक्षावृत्ति या दान लेना एक बड़ा उत्तरदायित्व है, जिसका भार उठानेका साहस बहुत कम व्यक्तियोंमें होता है । शास्त्रकारोंने भिक्षाकी उपमा अग्निसे दी है । जैसे अग्निका प्रयोग बड़ी सावधानीसे करना चाहिये अन्यथा वह बड़ी हानि और उत्पात कर सकती है; इसी प्रकार भिक्षा या दान लेनेसे पूर्व खूब सोच-समझ लेना चाहिये । जिससे आप कुछ भी दान लेते हैं, उसको अपने श्रम या ऋद्धिद्वारा दुगुने रूपमें लौटानेको प्रस्तुत रहना चाहिये । अपनी आवश्यकताएँ बहुत ही कम रखनी चाहिये । दाताकी सेवा, सहायता, कठिनाइयाँ हल करनेका उद्योग करना चाहिये या सद्भावना और आशीर्वादके रूपमें बहुमूल्य उपदेश देते रहना चाहिये ।

भिक्षाके दो प्रयोजन हैं—एक तो यह कि दान देनेसे देने-वालेको त्यागका, परोपकारका—आत्म-सतोष प्राप्त होता है । दूसरा यह कि उन ऋषिकल्प ब्राह्मणोंको अपने अभिमान और अहंकारके परिमार्जन करते रहनेका अवसर प्राप्त होता है । प्राचीन कालमें लोक-सेवक, परोपकारी तथा महात्मा अहम्मन्यता उत्पन्न न होने देनेके लिये भिक्षुककी तुच्छ स्थिति ग्रहण करते थे । ऐसे भिक्षुकोको दाव देते हुए देनेवाले अपना मान अनुभव करते थे और लेनेवाले

निरभिमान बनते थे। उससे उन दोनोंके बीच सुदृढ़ सौहार्द बढ़ता था। भिक्षावृत्ति करनेवालेकी अपेक्षा देनेवालेको ही अधिक लाभ रहता था। इस परमार्थकी भावनासे ब्रह्मजीवी महात्माओंके लिये भिक्षाका विधान किया गया था। यथार्थमें यह भिक्षा उचित भी थी, शास्त्रसम्मत भी।

आजकल दान-वृत्तिसे अनुचित लाभ उठानेवाले अनेक अकर्मण्य भिखमगे, ठग, दृष्ट व्यक्ति लोगोंको ठगते-फिरते हैं। वे स्वयं तो परिश्रम करना नहीं चाहते, मुफ्तका माल उडाना चाहते हैं। पिछले वर्ष भिखारियोंकी सख्या ५६ लाखके लगभग पहुँच गयी थी। इसमें कष्ट-पीड़ितोंकी सख्या तो अल्प है, अधिकतर तो वे ही व्यक्ति हैं, जो दूसरोंके श्रमका अनुचित लाभ उठाते हैं; धर्मके नामपर नाना प्रकारके आडम्बर, घृणित मायाचार और असत्य व्यवहार कर भिक्षावृत्ति करते हैं। इससे समाजमें विषैला, अनिष्टकारी वातावरण फैलता है। ऐसा करनेसे झूठ, पाखण्ड, ढोंग, नशेवाजी फैलती है। अतः हमारा यह कर्त्तव्य है कि धर्मके नामपर मुफ्तका माल उडानेवाले इन ठगोंसे सावधान रहे।

सत्पात्रको, जखरतमन्दको, अपंग, अपाहिज, कुछ काम न कर सकनेवाले बीमारको अवश्य दान करें। जितना सम्भव हो, जैसे सम्भव हो सहायता करें। हमारे यहाँ कहा गया है—

‘दानशूरो विशिष्यते’

‘दानवीर पुरुष ही अन्य सब पुरुषोंसे विशिष्ट है।’



आप देवत्वकी ओर बढ़ें !

मानसिक देवासुर-संग्राम—हमारे मनमे प्रायः दो भावनाओंका निरन्तर संघर्ष चला करता है—बुराई और अच्छाईकी हलचल, सत्-असत्का द्वन्द्व, देवासुरका संग्राम । पुराणोंमें देवासुर-संग्रामका वर्णन पग-पगपर किया गया है । प्रत्येक पुराणमें किसी-न-किसी बहाने किन्ही देवताओ और किन्ही असुरोके युद्धके प्रसङ्ग बार-बार वर्णन किये गये हैं । यह क्या है ?

वास्तवमे यह एक प्रकारका प्रतीक है । प्रतीकरूपमें यह दशनिकी चेष्टा की गयी है कि मनुष्यकी सत् तथा दुष्प्रवृत्तियोंका संघर्ष, यह देवासुर-संग्राम अनादि कालसे चल रहा है और अनन्त कालतक चलना रहेगा । कोई इससे बचा नहीं है । सत् और असत्की समस्या शाश्वत है ।

गीतामे जित धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रका वर्णन है और महाभारतमे धर्म और अधर्मका पक्ष प्रतिपादन करनेवाली कौरव-पाण्डव सेनाओंका वर्णन हुआ है, वह भी केवल उस शस्त्र-युद्धतक सीमित नहीं है बर हमारे नित्यप्रति अन्तःकरणमे निरन्तर होते रहनेवाले देवासुर, सत्-असत्, दुष्प्रवृत्तियो तथा सत्-प्रवृत्तियोमे चलनेवाले निरन्तर संग्रामका ही प्रतीकात्मक चित्रण है ।

हमारे शास्त्रकार सद्ज्ञानको जनना-जनार्दनतक पहुँचानेमें सिद्धहस्त थे । उन्होने अनेक पौराणिक कथाओंका एक गूढ़ अर्थ भी रक्खा है । यह गूढ़ अर्थ विवेकशील व्यक्ति आसानीसे

समझ सकता है और उसमें निहित व्यापक भाव हृदयङ्गम कर सकना है। अनेक धार्मिक कथाओंमें दो विपक्षी पक्ष हैं—एक अनैतिक और उद्दण्ड, दूसरा पूर्ण नैतिक और अनुशासित; एक धार्मिक तो दूसरा अधार्मिक; एक सुरों अर्थात् देवताओंका तो दूसरा असुरों अर्थात् राक्षसोंका। इन दोनों शुभ-अशुभ वृत्तियोंका संघर्ष ही रामायण तथा महाभारतमें चित्रित हुआ है। दोनोंका भाव मननीय है।

रामायणमें वर्णित रीछ-वानरोंका रामसेना तथा रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाद-जैसे राक्षसोंकी असुरसेना, दोनोंका निरन्तर युद्ध और अन्ततः रामकी विजय दास्तवमें हमारी भीतरी मनःस्थितिका ही प्रतीकात्मक चित्रण है। महाभारतमें पाण्डवोंका पक्ष सत्य, नीति, ईमानदारों, आस्तिकताका पक्ष है तो झूठ, कपट, हिंसा, अनैति, वैईमानोंका पक्ष कौरवोंका है। इन दोनोंके लड़े संघर्षके उपरान्त हम सत्य और दैवी-पक्षकी सफलता पाते हैं।

अध्यात्मरामायणमें इस देवासुर-संग्रामका निरूपण अधिक स्पष्ट रूपसे हुआ है। भगवान्का प्रत्येक अवतार ससार और समाजमें झकट्टे हुए पापको नाश करने तथा पुण्य और देवत्वकी स्थापनाके लिये, देवताओंकी रक्षा और असुरोंके संहारके लिये अवतरित होता है। ऐसा अवतार समय-समयपर हमसे अनेकोंके अन्तःकरणमें अवतरित होते हुए देखा भी जाता है।

पाप और पुण्यका यह द्वन्द्व

मनुष्यके भीतर पाप और पुण्य दोनों प्रकारके अच्छे-बुरे

प्रबल संस्कार बीजरूपमें छिपे हुए हैं। जब हम गंदगी, झूठ, कपट, ईर्ष्या, हिंसाकी ओर झुकते हैं और निर्बलोपर अत्याचार करते हैं या दूसरोका शोषण करते हैं तो हमारा पशुत्व अथवा राक्षसत्व ही प्रबल रहता है। दूसरी ओर जब हम प्रेम, न्याय, सत्य और विवेकसे अपनेको सयमित रखते हैं तो हमारा देवत्व उभरता है। राक्षसत्व तथा देवत्व हमारे मन, मस्तिष्क और चरित्रकी दो प्रचण्ड शक्तियाँ हैं। यह पाप और पुण्यकी प्रवृत्तियाँ हमारे मनके दो पक्ष हैं। दो पहलू हैं। इनमें एक तामसिक काला पहलू है तो दूसरा शरद्-चन्द्रिकाके समान उज्ज्वल शुभ्र सात्त्विक।

हर मनुष्यमे पाप और असुरताके कुछ कुसंस्कार पाये जाते हैं। कुछमे ये तत्व कुछ विशेष कालतक तीव्र रहते हैं, बादमे दबकर सुसंस्कृत हो जाते हैं। चौरासी लाख निम्न-कोटिकी पशु और राक्षसत्वकी योनियोमे कई जन्मो, लाखो वर्षोतक भ्रमण करनेकी अवधिमे ये राक्षसी तत्व हमारी आत्माके चारो ओर चिपटे रहते हैं। अपने सचित पुण्योके अनुपातमे धीरे-धीरे वे पाशविक कुप्रवृत्तियाँ कम होती जाती हैं। फिर भी कुछमे ये मानव-जीवनतकमे प्रबल बने रहते हैं। देवासुरसंग्राम चलता रहता है। पाप और असत्यकी पाशविक शक्तियाँ द्वन्द्व मचाती और मनुष्यकी शान्ति भग करती रहती हैं।

कुछ मनुष्योंमे असुर-बुद्धि और असुर-प्रवृत्ति बड़ी बलवती होती है। जब उनमे पाशविक प्रवृत्तिकी प्रबलता बढ़ती है तो वे ऐसे-ऐसे दूष्कृत्य, पापाचार, हिंसात्मक और प्रमादपूर्ण कार्यकर बैठते

हैं, जो रावण-जैसे अमुरोंकी स्मृति सजग करते हैं । वे तुच्छ मनोविकारोके वशमें होकर मनमानेगंदे कार्य कर बैठते हैं ।

असुर-बुद्धिका प्रकोप दो रूपोमे विशेषरूपसे देखा जाता है—(१) कामवासनाका अनियन्त्रित ताण्डव, (२) क्रोधका भयकर विस्फोट । इनके अतिरिक्त राक्षसोंमे मानसिक उत्तेजना, मद, ईर्ष्या, आवेश इत्यादि मनोविकारोका बड़ा निर्लज्ज प्रदर्शन देखा जाता है । मानसिक उत्तेजना या क्षणिक आवेशमें राक्षस प्रवृत्तिवाले व्यक्ति ऐसे अविवेकपूर्ण कार्य कर बैठते हैं, जिनके बड़े भयकर दूष्परिणाम निकलते हैं ।

असुर-बुद्धिवाले व्यक्तिसे समाजमे विष फैलता है, क्योंकि उनके अनुकरणसे अन्य व्यक्तियोंके भी क्रुसस्कार ही जागते और समग्र समाजमे फैलते है । अनैतिकताकी अभिवृद्धि होने लगती है, वातावरणमे उच्छृङ्खलता छा जाती है, गुण्डागर्दी और उद्दण्डताका प्रदर्शन बड़े पैमानेपर होने लगता है ।

आज अपने समाजमे हम जो फूट, असहयोग, अलगाव, अनुदारता, शोषण, स्वार्थपरता, हिंसा, छीना-छपटी, सकीर्णता और अपहरणकी दुष्प्रवृत्तियाँ फैलते देख रहे हैं, वह असुरताकी कालिमा ही है ।

असुर बहुत प्रबल हैं

असुर और देवता दोनोकी ही शकल-सूरत मनुष्यो-जैसी होती है; वे अपनी आन्तरिक भावनाओंकी विभिन्नतासे ही राक्षस या देवता बनते हैं । क्रोध, द्रोह, कलह और उपद्रव फैलानेवाले

तत्वोंको असुर तत्त्व कहते हैं । जो व्यक्ति समाज या विश्वमें ऐसे स्वार्थ, कलह, हिंसा और विध्वंसके कुत्सित तत्त्व फैलाते हैं; छल, कपट, दम्भ और अत्याचारमे सहायता देते हैं; ईर्ष्या-द्वेष और घृणाकी कालिमासे वातावरणको दूषित करते हैं—वे मनुष्यरूपमे भी वास्तवमे राक्षस ही हैं । उनकी आकृति, हाथ, पाँव, मुँह, चेहरा या मस्तिष्क बाहरसे देखनेमें आदमी-जैसा प्रतीत होता है किंतु वस्तुतः वे राक्षस ही हैं । उनका मन सदा वासनाकी पाशविक तथा राक्षसी प्रवृत्तियोंकी ओर ही दौड़ा करता है । वे कटु भाषण और कटु व्यवहार करते हैं ।

आसुरी भोजन

असुरका भोजन तामसी और राजसी होता है । उसमे भक्ष्य-अभक्ष्यका विवेक नहीं होता । मास, मदिरा, अण्डे, मादकपदार्थ, प्याज, लहसुन इत्यादि अभक्ष्य उत्तेजक पदार्थोंका वे नित्य ही उपयोग करते हैं । इस तामसी भोजनसे उनकी पशुवृत्तियाँ सदा ही उनपर छायाँ रहती हैं ।

दुष्ट प्रकृतिका एक कारण राजसिक भोजन भी है । अधिक चटनी, अचार, खट्टे, गरिष्ठ, तरह तरहको वनस्पतिसे बनी मिठाइयाँ, हींग, लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, मास, अंडे, मछली, चाय, गाँजा, भाँग, चरस, अफीम, शराब, चण्डू, वीड़ी, पान, सिगरेट, तम्बाकू, सोडा, लेमन इत्यादि सब उत्तेजक खाद्य पदार्थ राजसिक हैं । मनुष्यकी उत्तेजना और वासनाको प्रदीप्त करनेवाले हैं ।

तामसी आहार इससे भी गिरा हुआ होता है । इसमे वासी—जूंठे

रसहीन, दुर्गन्धित, गले हुए, अधिक तेल और घीसे बने हुए पदार्थ, मांस-मदिरा तथा नशेकी चीजोंके विशेष प्रयोग सम्मिलित हैं। इन सभी पदार्थोंके सेवनसे मनुष्य क्रोधी, वासनाप्रिय, अधर्मी, हिंसक, लालची, आलसी और पापी हो जाता है। ऐसे राक्षसी आहारसे मन लालची, कामी, क्रोधी और उत्तेजक रहता है।

आसुरी प्रवृत्तियाँ

मनुष्यमे जो निकृष्ट भाव है, वही उसका असुरभाव है। यह गुप्तरूपसे उसके गुप्त मनमे रहता है तथा नाना विनोने, अश्लील, गिरे हुए कुत्सित रूपोमे प्रकट होता है।

आज हम समाजमे भिन्न-भिन्न प्रकारकी अश्लीलता, नशेवाजी, बेईमानी और बुराइयाँ देख रहे हैं। लोग तनिक-तनिक-सी बातके लिये अशान्त, उत्तेजित और उपद्रवी हो उठते हैं। जरा-सी बात-पर झतराते हैं। गाली-गलौज और झगडा करते हैं। आवेश और उत्तेजनामे आकर मार-पीट कर बैठते हैं। आत्महत्याएँ प्राय ऐसी ही उद्विग्न अवस्थामे होती हैं। ये सब आवेशकी भयंकर प्रतिक्रियाएँ हैं। आज हम प्रतिदिन आत्महत्याओके, मारपीट, मुकदमेवाजीके दुःखद समाचार पढते रहने है, छोटी-छोटी वाते विकराल रूप धारण कर रही हैं। राजनीति दलवन्दीका अखाड़ा बन गयी है।

आज रोग, शोक और चिन्ताएँ बडी भारी सख्यामे दिखायी देती हैं। हृदयके रोगोसे बहुतसे लोग जवानीमें मर रहे हैं। हृदय-रोगोका एक प्रमुख कारण मनुष्यका निरन्तर चिन्तित रहना है। गाँवोकी अपेक्षा शहरोमे मानसिक बुराइयाँ अधिक हैं। फालतू

सोचते-सोचते लोगोंको पागलपन अधिक होता है । क्रोध और ईर्ष्याका उन्माद बुरी तरह देखा जा रहा है ।

यह कलह और संघर्ष बढ़ानेवाली वृत्ति ही आसुरी प्रवृत्ति है । यही हमारे गुप्त मनमें बैठी हुई राक्षसी वृत्ति है । जबतक इस असुरताकी एक भी चिनगारी मौजूद है, तबतक सुख, शान्ति और संतुलन मिलना कठिन है । आसुरी प्रवृत्तियाँ ही घरेलू झगड़े, लबी बीमारी, दुर्घ्यवहार, गैर कानूनी गर्भ, सामाजिक कलङ्क, अपमान गरीबी, प्रतिशोध और उन्माद-जैसी दुःखद बीमारियोंके कारण हैं । दुर्विचार ही असुरत्व है । वासना प्रत्यक्ष विष है ।

हम देवत्वकी ओर बढ़ें

संसारमें जितने मनुष्यरूपी जीव हैं, उन्हे हम गुण, कर्म और स्वभावके अनुसार तीन वर्गोंमें विभाजित करते हैं—(१) देवता, (२) मनुष्य और (३) राक्षस । इन तीनोंका रग-रूप मनुष्य-जैसा ही होता है, पर इनके गुण, कर्म और स्वभाव पृथक्-पृथक् होते हैं । राक्षस वे हैं जो विचार, जीवन, लक्ष्य और भोजन इत्यादिकी दृष्टिसे गिरे हुए हैं । वे मास-भक्षण करते हैं, दीन-हीन उत्तेजक वासनापूर्ण विचार रखते हैं, दृष्टिकोण भी त्रुटिपूर्ण रखते हैं । राक्षस सदा अपना ही सकुचित स्वार्थ देखता है । 'मैं सब कुछ ले लूँ । मुझे हर प्रकारका लाभ रहे, वासनाओं और इच्छाओंकी हर प्रकार तृप्ति होती रहे, दूसरेसे कोई प्रयोजन नहीं है ।'—यह विचारधारा राक्षसवृत्तिके व्यक्तिकी होती है । यह दृष्टिकोण नितान्त अशुद्ध है ।

मनुष्य वह है जो हानि-लाभ, उदार-अनुदार, अपना और

पराया, स्व तथा पर—इन दोनों पक्षोंको देखता है। जहाँ वह एक ओर प्रेम और उदारताकी भावनाएँ मनमे पालता है, वहाँ दूसरी ओर ईर्ष्या, द्वेष और घृणा इत्यादिका भी अनुभव करता है। मनुष्य कमजोरियोका पुतला है। वह हानि-लाभ देखता है और तात्कालिक लाभके वशीभूत हो प्रायः गलती कर बैठता है। उसका स्वार्थ उससे कुछ-का-कुछ करा देता है। अशुद्ध दृष्टिकाण होनेपर मनुष्यके विचार और कार्य अति अनर्थपूर्ण हो जात है। मनुष्य सासारिकताके नीचे स्तरपर ही विचरण करते रहते हैं। घर-परिवारको सासारिक और आर्थिक समस्याओमे ही जीवन-जैसे बहुमूल्य दैवी वरदानको नष्ट कर देते हैं।

देवभाव महान् है

देवभाव ही सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। देवभावको धारण करनेसे मनुष्य धन्य हो जाता है। ससारमे जो स्थिति कल्पनाद्वारा शुद्ध और अमरत्व देनेवाली समझी गयी है, वह देव-भावमें समाविष्ट है।

देवभावनामे ईश्वरत्वकी पवित्रता है। हमारी आदर्शकी कल्पनामे ईश्वर सर्वोच्च उच्च शक्तिप्रोका पुञ्ज है। मनुष्यमे जितने उच्च गुण हैं—प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, सहानुभूति, साहस, वैर्य, उदारता—उन सभीका आदिबोत ईश्वर है। देवता उसीका अंश है। देवत्व ईश्वरीय शक्तिका तेज और दैवी विभूतिका पवित्रतम अंश है।

देवत्वकी भावना अमरताकी भावना है। देवता इम हाड़-मांसके क्षणभंगुर शरीरको कोई महत्व नहीं देने। यह पार्थिव शरीर अल्पकालमे ही नष्ट हो जानेवाला है। शरीरका जन्म होता है,

वह बढ़ता है, किंतु जल्दी ही नष्ट भी होता है, पर आत्मा अजर-अमर-शाश्वत है। ईश्वरका अंश है। देवत्वकी भावना आत्माके महत्त्वकी भावना है। अपनेको अविनाशी आत्मा मान लेनेसे, आत्म-साक्षात्कार कर लेनेसे शरीरको मृत्युके कष्टोका अनुभव नहीं होता। अपनेको देवता माननेवाला मनुष्य सदा आत्मदृष्टिसे ही देखता है। वह सदा यही मानता है कि मैं आत्मा हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप अविनाशी, अविच्छिन्न, अभेद्य, अशेष है। मेरी आत्माका किसी भी प्रकार क्षय नहीं हो सकता।

देवत्वकी उच्च मनोभूमिमें निवास करनेवाला मनुष्य यह मानता है कि वह अदर-बाहरसे पवित्र है, शुद्ध है। असुरता या दानवत्वका कोई भी आक्राण उसपर नहीं हो सकता।

देवत्वकी क्या नीति है ?

देवत्वकी आराधना करनेवाला तुच्छ सांसारिक दृष्टिकोण त्याग-कर सब कुछ उच्च परमार्थके दृष्टिकोणसे देखता है। वह शुद्ध सात्विकताको अपने मन, वचन और कर्मसे अनाता है। क्षणिक सुखो, सासारिक आकर्षणो और भौतिक प्रलोभनोमें उसे कोई रुचि नहीं होती। वह उन उच्च गुणोंको धारण और उत्तरोत्तर विकसित करता है, जिनसे लोकोपकार होता है।

समस्त सत् प्रवृत्तियोंका केन्द्र

देवत्वका भाव ही मनुष्यकी समस्त सत्प्रवृत्तियोंका केन्द्र एवं समस्त ईश्वरीय दिव्य शक्तियोंका उद्गमस्थल है। जीवकी आन्तरिक अभिलाषा यही होती है कि वह स्वयं समुन्नत होता हुआ

अन्ततः ईश्वरमें ही विलीन हो जाय । हमारी आत्मा परमात्माका ही तो रूप है । सत्-चित्-आनन्दस्वरूप आत्माके गुणोंका विकास करते हुए हम अपनी आध्यात्मिक उन्नतिकी योजना तैयार कर सकते हैं ।

वास्तवमें हम आत्माके दिव्य गुणोंका जितना चिन्तन और मनन करते हैं, उतने उन देवपुरुषोंके सत्संगमें रहते हैं जो अपनी आध्यात्मिक उन्नतिके कारण उच्चतम स्थितिमें पहुँचे हैं, उतना ही ईश्वरके निकट पहुँचते हैं । मनुष्यके जीवनका चरम लक्ष्य ही परमात्माके रूपमें विकसित हो जाना है । हमारी शुभ प्रवृत्तियाँ ईश्वरीय गुणोंका विकास करनेवाली हैं ।

आपमें देवत्व छिपा हुआ है !

निश्चय मानिये आपके इस सुर-दुर्लभ शरीरमें देवत्वकी छाया मौजूद है । यह योनि असख्य योनियोंमें मारे-मारे फिरनेके पश्चात् आपको प्राप्त हुई है । इस शरीरमें आये हुए जीवको एक छलाँग मारनेकी जरूरत है । इस प्रयत्नद्वारा वह ईश्वरत्वकी जिम्मेदारी निभानेके योग्य बन सकता है ।

दैवी प्रवृत्तियोंवाले ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जो आज भी प्रकाश-स्तम्भ हैं । शिवि, दधीचि, हरिश्चन्द्र, मोरध्वज, प्रह्लाद, बुद्ध, गांधी आदि मनुष्यकी देह पाकर भी देवता ही थे । उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती । ये अमर पुरुष सदा देवकोटिमें ही गिने जायेंगे । ये सदा मानवताको उच्चतम ज्ञान, भक्ति, सेवा, त्याग, उदारताका सदेश देते रहेंगे ।

आस्तिक भाव

ईश्वरमें अखण्ड विश्वास, ईश्वरीय सत्ताके प्रति श्रद्धाभाव इस ससाररूपी सागरको पार करनेके लिये नौकाकी तरह सुदृढ़ आधार है। दैवी भावना आस्तिकतापर ही आधारित आध्यात्मिक प्रक्रिया है। संसारमें विजयी वही होता है, जो भौतिक आधारोंके अतिरिक्त ईश्वरकी सत्ता और आध्यात्मिक सहायतामें भी विश्वास रखता है। आस्तिक भाव एक आधार है। ईश्वरीय शक्तियोंमें विश्वासके भरोसे संसारके बड़े-बड़े कष्ट दूर होते हैं।

एक विद्वान्के शब्दोंमें हम कहेंगे, 'प्रायः सभी धर्मोंमें ईश्वरकी सर्वव्यापक, परम शक्तिमान् सत्ताको अपनी श्रद्धा और विश्वासका आधार बनाया गया है। जब मनुष्य ईश्वरकी व्यापक शक्तिशाली सत्तासे अपने आपको जुड़ा हुआ पाता है तो उसकी शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वह मनके समस्त द्वन्द्व, सासारिक क्लेश, भौतिक परेशानियोंमें रहकर भी संतुलित होकर आगे बढ़ता है।

'ईश्वरपर दृढ़ विश्वास और अटल आस्था मनुष्यको मानसिक संतुलन और शक्ति-प्रदान करती है।

'अपनेको ईश्वरीय सत्तासे संयुक्त करनेके लिये शरणागति, आत्म-निवेदन एवं प्रार्थनाओंको धर्मका रचनात्मक रूप माना गया है। चिन्तन, मनन, धारणा, ध्यान, समाधि आदि प्रक्रियाओंका आयोजन ईश्वरीय सत्तासे एकीभूत होनेके लिये, शक्तिप्रेरणा पानेके लिये, मानसिक संतुलन प्राप्त करनेके लिये हुआ है।'

उपर्युक्त शब्दोंमें आस्तिक भावका महत्त्व स्पष्ट होता है।

आस्तिक भावको त्रिकसित कर मनुष्य आध्यात्मिक संसारकी सर्वोच्च शक्तियोंसे तादात्म्य प्राप्त करता है। व्यर्थके क्षुद्र सांसारिक झझटोंसे बचकर अन्तर्मुखी होता है।

इसी भावपर हमारा सनातनधर्म टिका है। प्रार्थनाके माध्यमसे हम इस शक्ति-भण्डारसे अपना निकट सम्पर्क स्थापितकर लाभ उठाते हैं। ईश्वर-पूजन कर लेनेके उपरान्त हम मनमें असीम शान्ति और तृप्तिका अनुभव करते हैं। मनका समस्त तनाव दूर हो जाता है। ससारके सब महान् विचारकोने आस्तिकताको अपना-पर बल दिया है। आप भी इसे धारण करें और दैवी-भावनासे लाभ उठावें।

श्रद्धाभाव

ईश्वरके नाना रूप हैं। देवताओंके रूपमें नाना मूर्तियाँ और अनेक चित्र हैं, भगवान्के असंख्य मन्दिर हैं। इन मूर्तियों और इन चित्रोंमें, इन मन्दिरोंमें श्रद्धाका भाव जगानेसे ही भगवान्का निवास होता है। श्रद्धा-जैसे उच्च भावमें ही ईश्वरका अस्तित्व है। भावमें ही भगवान् हैं। हम पूर्ण श्रद्धापूर्वक जिम मूर्तिमें भगवान्की प्रतिष्ठा करते हैं, वही उनके दर्शन होते हैं। विश्वासके एक ही केन्द्र-बिन्दुके चारों ओर एकत्र होना श्रद्धा है।

एक प्रसिद्ध विचारकके शब्दोंमें, 'ईश्वर-विश्वासके लिये श्रद्धाका महत्त्वपूर्ण स्थान है। भौतिक जीवन तथा शारीरिक क्षेत्रमें प्रेमकी सीमा होती है। जब यही प्रेम आन्तरिक अथवा आत्मिक क्षेत्रमें काम करने लगता है तो उसे श्रद्धा कहते हैं।'

श्रद्धाके माध्यमसे ही उस विराट् ईश्वरकी अनुभूति सम्भव है। श्रद्धा समस्त जीवन-नैयाके चप्पू ईश्वरके हाथोमे सौंप देती है।

जिसका जीवन प्रभुके हाथोमे है, उसे क्या भय ! जो प्रभुका हाथ पकड़ लेता है, वह निर्भय हो जाता है। उसके सम्पूर्ण जीवनमे प्रभुका प्रकाश भर जाता है।

श्रद्धा हमारे जीवनको एक ऐसे सुदृढ विश्वाससे भर देती है, जो सदा हमारे साथ रहता है और कवचकी तरह सहायता करता चलता है। श्रद्धासे ही परमात्म-तत्त्वसे मेल सम्भव है। ईश्वरमें विश्वासकर हम अपने देवी गुणोको खोलते हैं और क्षुद्र, असुरता और पशुत्वसे ऊँचे उठते हैं।

देवताओंके ये गुण आप विकसित करे—

१. सत्यका भाव

देवभावको जाग्रत् करनेके लिये प्रथम स्थाव सत्यका है। सत्य ईश्वरका रूप है, असत्य असुरत्व है। देव-पुरुष सदा सत्यको ही ढूँढते और ग्रहण करते हैं। सदा सच बोलते हैं, सत्यको ही जीवनयात्राका आधार बनाते हैं, झूठको पास भी फटकने नहीं देते।

महर्षि वेदव्यासने सत्यको देवी गुणोमे सर्वप्रथम स्थान दिया है। वे लिखते हैं कि सत्यमे सब उच्च देवी तत्त्व शामिल हैं। सत्यमें न्याय होता है। सत्यमें प्रेम-निहित है। सत्यमे अहिंसा और अस्तेय आदिका समावेश हो जाता है। महात्मा गाँधी तो सत्यके इतने पुजारी थे कि प्रायः कहा करते थे, 'सत्यको जान लेनेके बाद कुछ बाकी वही रह जाता। भला सूर्यके प्रकाशको किसे बताना पड़ता।

है। सत्य स्वयं प्रकाशमान है और स्वयंसिद्ध है। मनुष्यका उद्धार इसीमें है कि वह सत्यके विविध रूपोंको अच्छी तरह जान ले और रोजानाकी जिदगीमें उतारनेकी भरपूर कोशिश करे। देवत्वकी ओर बढ़नेका यह सबसे अच्छा उपाय है।

सत्य देवी भावनाका अङ्ग है। 'सत्य' शब्दका उच्चारण करते ही जिह्वाका बड़ी शान्ति मिलती है, विचार करते ही मस्तिष्क शीतल हो जाता है, हृदयङ्गम करनेसे कलेजा ठंडक अनुभव करता है। झूठके मायावी प्रपञ्चोमें उलझकर ईश्वरका अमर राजकुमार—यह मनुष्य—मानवतासे पतित होकर पशु हो गया है—सत्यकी अवहेलना करनेका अभिशाप भोगत रहा है। प्रभुकी त्रिगुणमयी लीलामें सर्वत्र सत्य ही है। जीवनके कण-कणकी एक ही व्यास है—'सत्य'। हमारा जीवन इसलिये है कि अखिल सत्य-तत्त्वमें विचरण करते हुए हम अमृतका पान करें।

श्रुति कहती है 'असतो मा सद्गमय' असत्यसे हम सत्यकी ओर चले। हमारे जीवनका सारा कार्यक्रम, सारी सफलता, सारा उद्देश्य जिस एक शब्दमें छिपा हुआ है—वह सत्य है।

बन्धुओ ! असत्य, झूठ, कपट, मिथ्याचारके सब रूप छोड़कर सत्यकी ओर चलिये।

जैसे गायका बछड़ा गोमाताके स्तनोंका पान करता हुआ दूध ही प्राप्त करता है, वैसे चारों वेदोंका अनुशीलन करनेपर सत्यरूपी दूधसे बढ़कर पवित्र कोई दूसरी चीज कही नहीं मिलती। स्वर्गसुखकी सीढ़ी सत्य है, जैसे सागरको पार करनेके लिये पोत।

चेदोंमें सत्यका ही प्रतिपादन है। परम फल सत्य ही कहा है। तप, धर्म और सयम—ये सब सत्यमें ही प्रतिष्ठित हैं।

२. न्यायका भाव

मनुष्योंके अंदर छिपे हुए पशुत्व और राक्षसत्वके कारण ही भिन्न-भिन्न प्रकारके अन्यायकी सृष्टि होती है। एक मनुष्य दूसरे-पर इक्ष राक्षसत्वके कारण ही अत्याचार करता है।

अन्याय आन्तरिक अन्धकारसे उत्पन्न होता है। पशुको न्याय और अन्यायका कोई विवेक नहीं होता। हमारे समाजमें इस अधमताके कारण ही घर-परिवार, बिगादरी, जाति, संस्थाओंमें अन्याय फैले हुए हैं। मूर्ख बलवान्, समझदार निर्बलपर मनमानी कर रहे हैं। इस पशुत्वका निवारण तभी हो सकता है, जब हम हर प्रकारसे न्याय नामक दैवी-भावको धारण करें।

अन्याय पाप और अधर्मसे उत्पन्न होता है। कमजोरी होनेसे दूसरेको अन्याय करनेका बढ़ावा मिलता है। संसारमें बड़े-बड़े हिंसक पशु मौजूद हैं, पर हमारी बढ़ी हुई शक्ति होनेसे वे हमपर हावी नहीं हो पाते। अतः हमें सशक्त बनकर अन्यायका निवारण करना चाहिये। संसारसे अन्याय दूर करनेके लिये मानसिक, आर्थिक और शारीरिक बलका संग्रह कीजिये। संसारसे पाप, अन्याय, अधर्मको दूर करनेके लिये स्वयं भगवान्को बार-बार अवतार लेना पड़ता है—यह सदा याद रखें।

यदि आपको दूसरे सताते हैं, आपपर अन्याय करते हैं, तो आप बलवान् बननेका कार्य प्रारम्भ कर दीजिये। मत सोचिये कि आप साधनहीन या अकेले हैं।

साथ ही, सबल होनेपर दूसरोंपर अन्याय करनेकी बात कभी मत सोचिये। अधर्म या पापसे सशक्त या सम्पत्तिशाली बननेकी अपेक्षा यह उत्तम है कि आप श्रेष्ठ आचरणसे न्यायका पालन करते रहें। सावाच, किसीपर अन्यायका हाथ कभी न उठे।।

न्यायका पक्ष ही अन्ततः विजयी होता है। न्याय ही धर्म है।

३. उदारताका भाव

उदारता एक दैवी गुण है। देवताओंका स्वभाव सदा उदार होता है। वै जाति-पाति, वर्ण, स्थिति या सुन्दर-असुन्दरका विवेक किये बिना सबको एकभावसे सहायता और सहयोग देते हैं। संकुचितता उनके पास फटक रही सकती।

संकुचितता हमारी आत्माका गुण वहीं है। आत्मा उदार है। उसमें कोई सीमा-बन्धन नहीं है। जब हम आत्मभावसे देखते हैं तो सब जीव अपने ही अपने नजर आते हैं। जब हम अपनेको आत्माके भावसे देखते हैं तो सबको परमात्माका अंश माननेके कारण अपनी ही मित्र, सुहृद्, परिवारका सदस्य और भाई-बन्धु पाते हैं। सबमें एक ही आत्माका अस्तित्व पाते हैं। इस दृष्टिसे आंतरिक ऐक्य, प्रेम और सहयोग सब उदारता नामक महान् गुणमे ही आ जाते हैं। जो व्यापक दृष्टिसे उदारताको धारण करता है, उसके लिये समस्त विश्व ही अपना है, एककी हानि सबकी हानि है, एकका लाभ सबका लाभ है। उदारतासे हम सामूहिक उन्नतिमें प्रयत्नशील होते हैं।

दैवीभावसे एकताका तकाजा है कि आप अपनेको शरीर नहीं

आत्मा मानकर चलें और उन गुणों—सत्य, न्याय, प्रेम, विवेक, उदारता इत्यादिको धारण करें, जो आपकी असली सम्पत्ति है।

अपने अन्तःकरणका अध्ययन कीजिये और मालूम कीजिये कि ऐसे कितने तुच्छ कार्य हैं, जो आत्मा—जैसे शुद्ध सात्त्विक तत्त्वके अनुकूल नहीं हैं।

अन्तरात्मा स्वीकार करे, वही करना चाहिये। जो कार्य आत्माके गौरवके अनुकूल नहीं हैं, उन्हें भाजसे ही छोड़ना प्रारम्भ कर दीजिये।

आपकी आत्मा सत्य और असत्य, उचित और अनुचित, भले और बुरेका निर्णय करनेवाली देवी कसौटी है। उलझनके समय वही दूधका दूध और पानीका पानी कर देती है। जिस विचार या क्रायके करनेमें आपको अंदरसे आनन्द, प्रसन्नता या गर्वका अनुभव होता है, उसे विकसित करनेमें कदापि विसम्बन्ध मत कीजिये, चाहे प्रत्यक्ष रूपमें अभी आपको कोई सांसारिक घाटा दिखायी देता हो—यही आत्मज्ञानका सीधा मार्ग है।

‘मेरे जीवन तथा कार्योंमें देवी तत्त्व अवश्य प्रकट होगा। मैं अपने जीवनको निखार रहा हूँ और इस प्रकार ईश्वरत्वके पास जा रहा हूँ।’ यह विचार दृढतापूर्वक जमाइये।

हमारी आत्मा ईश्वरका प्रतिबिम्ब है। वस्तुतः उसमें वह दिव्य शक्ति है, जिसके प्रभावसे दिव्य बुद्धि प्रेरित होती है। इस आत्माको सपन्नना, उसके गुणोंको विकसित करवा, भादेशोंका पालन करवा हमारा चरम लक्ष्य होना चाहिये।

दया, क्षमा और दण्डका यथार्थ उपयोग सीखिये

भारतीय संस्कृतिमें मनुष्यके बल्याणके अनेक विधान हैं । हिंदू धर्मके ऋषि-मुनियोंने मानवजीवनके प्रत्येक पहलूपर गम्भीरतासे विचारकर शास्त्रोंकी परम्पराएँ निश्चित की हैं । हमारी संस्कृति अधमसे अधम और पतितसे पतितके उद्धार और कल्याणकी कामनासे परिपूर्ण है । चाहे कोई कितना ही क्यों न गिर गया हो, समाजने उसे कितना ही पतित क्यों न मान लिया हो, उसके लिये भी हिंदूधर्म नयी आशा और नये उत्साहका आह्लादकारी संदेश लिये हुए है । दया, क्षमा और दण्ड—इन तीनोंके उचित उपयोगसे ही यह सम्भव होता है । अतः इनका मर्म ठीक प्रकारसे समझ लेना चाहिये ।

दया आपका मनुष्योचित धर्म है । जो कष्टमें है, सहायताके लिये कराह रहा है, वह आपकी दयाका पात्र है । जो आपसे दुर्बल है, कम आयुके है, गिरी हुई स्थितिमें है, उनपर निश्चय ही दया करनी चाहिये । दया आपका कर्तव्य है । दूसरीकी सेवा करना ही अपनी सेवा करना है । पूर्ण मनुष्यत्व केवल साहस और वीरतासे ही नहीं बनता, उसमें दया-जैसे कोमल भावकी बहुत आवश्यकता है ।

दया ही वह दिव्य गुण है, जिसके द्वारा ईश्वर आपसे अपने बन्धुओंकी सहायता चाहता है । रोगियोंका रोग दूर करने,

दारिद्र्यको दारिद्र्यमे उबारने, दुखियोका दुख दूर करने और मानवताकी रक्षाके लिये दया एक महत्त्वपूर्ण सद्गुण है। इसे धारण करनेका प्रयत्न करना चाहिये। आपकी दयाका दायरा बढ़ता रहना चाहिये। उसमे मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी-कीट-पतंग इत्यादि भी सम्मिलित रहे।

लेकिन दयाकी भी एक मर्यादा है। जो व्यक्ति एक बार या दो बार आपकी दयासे लाभ उठाकर ऊँचा नहीं उठता या उन्नति नहीं करता, वह मनुष्य नहीं, पत्थर है। हम आज समाजमें देखते हैं कि अनेक भिखारियोने दयाको आड़मे भिक्षा-वृत्तिको एक पेशा बना लिया है। यह दयाका अनुचित उपयोग है। इसी प्रकारके और भी अन्य अनेक उदाहरण मिल जायेंगे, जिनसे बचना होगा।

क्षमा हमारी दयाका एक और अङ्ग है। जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है या अपकार, हानि, कष्टका साधन बनना है, उसे मरमें सच्चा पश्चात्ताप उदय होनेपर क्षमा कर देना चाहिये। प्रायः अनेक दुष्ट क्षमा किये जानेपर गलत मार्गसे बचकर उन्नतिके मार्गपर चलने लगते हैं। मानव-जीवन बहुमूल्य है। अतः एक दो बार कसूरवारको भी क्षमा देकर उसकी उन्नतिका साधन उपस्थित करना चाहिये। हमारे समाजमे आज अनेक अपेक्षित जातियाँ, दुखी, पिछड़े हुए मानव पड़े हुए हैं, जो हमारी दया चाहते हैं।

समाज मनुष्योके समूह हैं। इसमे आगे-बागे चलने और

पिछड़े हुए सभी प्रकारके सदस्य हैं। प्रेम तथा दयाका पारस्परिक व्यवहार कायम रहनेसे ही हमारा समाज ठीक स्तरपर रह सकेगा। सहकार मनुष्यकी आत्माका धर्म है। क्षमा करनेसे मनुष्यकी सुधारका एक नवीन अवसर प्राप्त होता है।

दण्ड हमारी सस्कृतिकी अन्तिम सीमा है। दुष्टका दमन होना चाहिये। यदि लोककल्याणके लिये दुष्टको नीतिका साधारण नियम भङ्ग करके भी दण्ड देना पड़े, तब भी वह त्याज्य नहीं है। मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीको छलसे बालीका वध करना पड़ा था। बाली दुष्ट था, उचित-अनुचितका विवेक खो बैठा था और वासनाजन्य अत्याचारोसे प्रजा काँप उठी थी। सामने आकर उससे युद्ध करनेवाला और उसे मार डालनेवाला कोई भी न था। सामने आकर युद्ध करनेवालेकी आधी शक्ति स्वयं बालीमें आ जाती थी। इसलिये श्रीरामचन्द्रजीने उसके सामने व आकर वृक्षोके पीछेसे उसका वध किया था। राष्ट्रहिनकी दृष्टिसे यह उचित था। यद्यपि साधारण युद्धके नियम भङ्ग करके यह कार्य हुआ था। दुष्टको दण्ड दिया ही गया, चाहे वह जिस प्रकार हो।

इसी प्रकार कौरव-पाण्डव-युद्धमें कुलगुरु द्रोणाचार्यने पाण्डवोकी सेनाका वडा सहार किया। पाण्डव यह देखकर बड़े डरे। यदि कौरव जीत जाते, तो भारतमें अनौति और अत्याचारका बोलवाला हो जाता। अतः श्रीकृष्णजीने अश्वत्थामा नाम एक हाथीको मरवा दिया। द्रोणाचार्यके पुत्रका नाम भी अश्वत्थामा

था। युद्धमें जब द्रोणने श्रीकृष्णके मुखसे सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वे घबरा गये। इसी अवसरपर उनको मार डाला गया। छलसे द्रोण न मारे जाते, तो कौरव जीत जाते और अनीतिकी विजय हो जाती।

बिहारमे जरासंध नामक एक अत्यधिक अत्याचारी राजा राज्य करता था। उसने छोटे-छोटे ८० राजाओंके राज्योंको छीन लिया था और बहुत-से राजाओकी स्त्रियोको हरकर अपने महलोमे रखे हुए था। दुष्ट जरासंधके पास शक्ति बहुत थी और उससे मुकाबिला करनेकी सामर्थ्य किसीमे न थी। इसलिये श्रीकृष्णजीने अर्जुन और भीमके साथ स्वयं ब्राह्मणवेष बनाकर जरासंधके अन्त पुरमे पहुँच वहाँ अपने-आपको ब्राह्मण कहा और उसीके महलोमें भीमसे जरासंधका मल्लयुद्ध कराकर उसका वध कराया था। इसी प्रकार कर्णने छलसे अर्जुनके पुत्रको मारा तो श्रीकृष्णने उसका भी बदला लिया था।

इस प्रकार समय-समयपर संसारसे अत्याचार और दुष्टताके निवारण तथा मानवके सत्य, प्रेम, न्यायकी रक्षाके लिये भारतीय सस्कृतिमे दण्डका विधान रहा है। छलसे, कूटनीतिसे या छिपकर भी दुष्टको राष्ट्र और धर्मके हितके लिये दण्ड देनेमे अधर्म नहीं है। अनेक दृष्टोको, अनेक राक्षसोको इसी प्रकार दण्ड (दमन) दिये गये और उसीके फलस्वरूप हमारी सस्कृति आज जीवित है। 'शठे शाठ्य समाचरेत्'की नीतिके पालनके

कारण ही हमारी सस्कृति आजके उच्च गौरवशाली पदपर आसीन है।

दया, क्षमा और दण्ड—तीनोंका त्रिवेकपूर्ण उपयोग ही मानव-जीवनमे प्रभुक्त होना चाहिये। प्रयोगमे बड़ी वृद्धिमत्ताकी आवश्यकता है। जो निर्बल हैं, पीडित हैं, आपकी प्रेरणा चाहते हैं, उन्हें दयाकर क्षमा कर देना ही धर्म है। जिस प्रकार ईश्वरके नियम और दया सबके लिये हैं, उसी प्रकार आपकी दया और क्षमा मनुष्यमात्रके लिये होनी चाहिये। आपकी क्षमासे ही सकता है, वे जीवनका नवीन मार्ग अपना लें और उच्च उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगें। चाहे आप किसी देशमे, किसी नगर, ग्राम या परिस्थितिमें हों, यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, जो आपकी दयासे ऊंचा उठ सकता है, तो उसके पुराने दोषोंको क्षमा कीजिये। क्षमाभाव स्वयं आपके हृदयमे भी शान्ति और सतुलन उत्पन्न करनेवाला है, आनन्ददायक शुभ भाव है, आध्यात्मिक सुखकी वृद्धि करनेवाला है। जिसे अक्षय सुख चाहिये उसे शत्रुना तथा ईर्ष्या-द्वेष-भावसे मुक्त रहना चाहिये। क्षमा और दया आपको इन दुष्ट भावोंसे मुक्त कर देंगे।

दण्डका प्रयोग बहुत ही सोच-समझकर कीजिये। सावधान ! व्यक्तिगत द्वेषवश किसीपर अन्याय करना एक प्रकारकी ऐसी दुबारी तलवार है, जो निबलको तो घायल करती ही है, सबलको भी मछूता नहीं छोड़ती।



आत्मसंयमसे मनुष्य देवता बनता है

भारतीय संस्कृतिके अनुसार व्यक्तिका दृष्टिकोण ऊँचा रहना चाहिये । हमारे यहाँ अन्तरात्माको प्रधानता दी गयी है । हिंदू तत्त्वदर्शियोंने संसारके व्यवहार, वस्तुओं और व्यक्तिगत जीवन-यापनके ढंग और मूलभूत सिद्धान्तोंपर पारमार्थिक दृष्टिकोणसे विचार किया है । क्षुद्र सासारिक सुखोपभोगसे ऊँचा उठकर, वासनाजन्य इन्द्रियसम्बन्धी साधारण सुखोंसे ऊपर उठकर आत्म-भाव विकसित कर पारमार्थिक रूपसे जीवन-यापनको प्रधानता दी गयी है । नैतिकताकी रक्षाको दृष्टिमें रखकर हमारे यहाँ मान्यताएँ निर्धारित की गयी हैं ।

भारतीय ऋषियोंने खोज की थी कि मनुष्यकी चिरन्तन अभिलाषा, सुख-शान्तिकी उपलब्धि इस बाह्य संसार या प्रकृतिकी

भौतिक सामग्रीसे, वासना या इन्द्रियोंके विषयोंको तृप्त करनेसे नहीं हो सकती। पार्थिव संसार हमारी तृष्णाओंको बढ़ानेवाला है। एकके बाद एक नयी-नयी सांसारिक वस्तुओंकी इच्छाएँ निरन्तर उत्पन्न होती रहती हैं। एक वासना पूरी नहीं हो पाती, कि नयी वासना उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य अगर धन संग्रह करता है, अनियन्त्रित काम-क्रीड़ासे सुख ढूँढता है, लूट-खसोट और स्वार्थ-साधनसे दूसरोंको ठगता है। घोखा-धड़ी, छल-प्रपञ्च, नाना प्रकारके षड्यन्त्र करता है। विलासिता, नशेबाजी, ईर्ष्या-द्वेषमें प्रवृत्त होता है, पर स्थायी सुख और आनन्द नहीं पाता। एक प्रकारकी मृगतृष्णा मात्रमे अपना जीवन नष्ट कर देता है। उल्टे उसकी दृष्ट वृत्तियाँ और भी उत्तंजित हो उठती हैं। जितना-जितना मनुष्य सुखको सप्सारकी बाहरी वस्तुओंमें मानता है, उतना ही उसका व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन अतृप्त, कण्टकाकीर्ण दुखी, असंतुष्ट और उलझनभरा होता जाता है। हिंदू तत्त्ववेत्ताओंने इस त्रुटिको देखकर ही यह निष्कर्ष निकला था कि स्वार्थपरता और सांसारिक भोग कदापि स्थायी आनन्द नहीं दे सकते। हमारे स्थायी सुखोंका केन्द्र भौतिक सुख-सामग्री न होकर आन्तरिक श्रेष्ठता है। आन्तरिक शुद्धिके लिये हमारे यहाँ नाना विधानोंका ऋप रक्खा गया है। त्याग, बलिदान और समय—वे उपाय हैं, जिनसे आन्तरिक शुद्धिमे प्रचुर सहायता मिलती है।

भारतीय सस्कृतिमे अपनी इन्द्रियोंके ऊपर कठोर नियन्त्रणका विधान है। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं और इन्द्रियोंके ऊपर

वियन्त्रण कर सकेगा, वही वास्तवमें दूसरोके सेवा कार्यमें हाथ बँटा सकता है। जिससे स्वयं अपना शरीर, इच्छाएँ, वासनाएँ, आदतें ही नहीं सँभलती, वह क्या तो अपना हित करेगा, और क्या लोकहित करेगा।

‘हरन्ति दोषजातानि नरमिन्द्रियकिङ्करम् ।’

(महाभारत)

‘जो मनुष्य इन्द्रियों (और अपने मनोविकारो) का दास है, उसे दोष अपनी ओर खींच लेते हैं।’

‘बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ।’

(मनु० २। २। २। ५)

‘इन्द्रियां बहुत बलवान् हैं। ये विद्वान्को भी अपनी ओर बलात् खींच लेती हैं।’

अतः भारतीय संस्कृतिने सदा अपने साथ कड़ाईके व्यवहारकी सराहना की है। यदि हम अपनी कुप्रवृत्तियोंको नियन्त्रित न करेंगे, तो हमारी समस्त शक्तियोंका अपव्यय हो जायगा। आदर्श भारतीय वह है जो दम, दान एवं यम—इन तीनोंका पालन करता है। इन तीनोंमें भी विशेषतः दम (अर्थात् इन्द्रिय-दमन) भारतीय तत्त्वदर्शी पुरुषोंका सवातन-धर्म है। इन्द्रिय-दमन आत्मतेज और पुरुषार्थको बढ़ानेवाला है। दम तेजको बढ़ाता है। दम परम पवित्र और उत्तम है। अपनी शक्तियाँ बढ़ाकर दमसे पुरुष पापरहित एवं तेजस्वी होता है। ससारमें जो कुछ नियम, धर्म, शुभकर्म अथवा सम्पूर्ण यज्ञोंके फल हैं, उन सबकी अपेक्षा

दमका महत्त्व अधिक है ; दमके बिना दानखपी क्रिया की यथावत् श्रुद्धि नहीं हो सकती । अतः दमसे ही यज्ञ और दमसे ही दानकी प्रवृत्ति होती है ।

जिस व्यक्तिने इन्द्रियदमन और मनोनिग्रहद्वारा अपनेको वशमें नहीं किया है, उसके वैराग्य धारणकर वनमें रहनेसे क्या लाभ ? तथा जिसने मन और इन्द्रियोंका भलीभाँति दमन किया है, उसको घर छोड़कर किसी जगल या बाधममें रहनेकी क्या जरूरत ?

जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ निवास करता है, उसके लिये वही स्थान वन एवं महान् आश्रम है । जो उत्तम नील और आचरणमें रत है, जिसने अपनी इन्द्रियोंको काबूमें कर लिया है तथा जो सरल भावसे रहता है, उसको आश्रमोंसे क्या प्रयोजन ? विषयासक्त मनुष्योंसे वनमें भी दोष बन आते हैं तथा घरमें रहकर भी पाँचों इन्द्रियोंपर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया जाय, तो वही तपस्या है ।

जो सदा शुभकर्ममें प्रवृत्त होता है, उस नीतराग पुरुषके लिये घर ही तपोवन है । जो एकान्तमें रहकर दृढ़तापूर्वक नियमोंका पालन करता है, इन्द्रियोंकी आसक्तिसे दूर हटता है, अध्यात्मतत्त्वके चिन्तनमें लगता है, वही भारतीय सस्कृतिका फल है ।

एक ओर जहाँ भारतीय सस्कृति इन्द्रियसयमका उपदेश देती है, दूसरी ओर वह दूसरोंके प्रति अधिक-से-अधिक सदाश

होनेका आग्रह करती है। सच्चे भारतीयको सेवा, सहयोग और सहायताके लिये प्रभुत रहना चाहिये।

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यज्ञानं तु दुर्करम् ।

यद् भूतहितमत्यन्तमेतत् सत्यं ब्रवीम्यहम् ॥

(महाभारत)

अर्थात् सबसे बढकर कल्याण करनेवाला सत्यका कथन है, परंतु सत्यका ज्ञान तो बहुत ही कठिन है। इसलिये सुगम रूपसे उसीको मैं सत्य कहता, हूँ जो प्राणियोंके लिये अधिकतया हितकर हो,।'

आत्मोत्कर्षं न मार्गेत परेषां परिनिश्चय ।

स्वगुणैरेव मार्गेत विप्रबवं पृथग् चनात् ॥

दूसरोकी निन्दासे अपनी उन्नतिको कभी न देखे। अपने सदगुणोंसे ही दूसरे मनुष्योंकी जो उन्नति चाहे, वही सच्चा भारतीय है। भारतीय संस्कृतिके उपासक सदा विबलों, अपनी शरणमें आये हूयों तथा अतिथियोंके सहायक होते हैं।

भारतमें सदा दूसरोके साथ उदारताका व्यवहार रहा है। जो लोग बाहरसे मारनेके लिये आये, जिन्होंने विष दिया, जिन्होंने आगमें जलाया, जिन्होंने हाथियोंसे रौंदवाया और जिन्होंने साँपोसे डँसवाया, उन सबके प्रति भी भारतीय संस्कृति उदार रही है। हमने सबमे भगवान्को देखा है। हाथीमें विष्णु, सर्पमें विष्णु, जलमें विष्णु और अग्निमें भी भगवान् विष्णुको देखा है तो फिर अन्य पशुओं और मनुष्योंकी तो बहुत ऊँची बात है। हम प्राणी-मात्रको प्यार करनेवाले उदार जातिके रहे हैं।



गायत्री और गौका महत्त्व

गायत्री भारतीय संस्कृतिका सनातन एव अजादि मन्त्र है ।

पुराणोमें कहा गया है—

‘सृष्टिकर्ता ब्रह्माको आकाशवाणीद्वारा गायत्री-मन्त्र प्राप्त हुआ था । इसीकी साधनाका तप करनेपर उन्हे सृष्टिनिर्माणकी शक्ति प्राप्त हुई थी । गायत्रीके चार चरणोंका ध्याख्यास्वरूप ही ब्रह्माजीने चार मुखोसे वेदोका वर्णन किया । गायत्रीको वेद-माता कहते हैं । चारो वेद गायत्रीकी व्याख्यामात्र हैं ।’

गायत्रीके २४ अक्षरोमे वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, उपनिषद् आदिकी शिक्षाएँ दी गयी हैं, जिनसे मनुष्य व्यक्तिगत, सामाजिक और पारमार्थिक सुख-शान्ति प्राप्त कर सकता है । गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं कहा है—‘गायत्री छन्दसामहम्’ अथत् ‘गायत्री-मन्त्र में स्वयं ही हूँ ।’

गायत्री सर्वश्रेष्ठ भारतीय मन्त्र है, जिससे उसे आयु, विद्या, संतानप्राप्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्मतेज प्रदान करनेवाली कहा गया है । गायत्रीकी साधनाद्वारा हमारी आत्मापर जमे हुए मल-दिक्षेप हट जाते हैं और आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है । अनेक ऋद्धि-सिद्धियाँ प्रकट होने लगती हैं । गायत्री-मन्त्रकी उपासना

आरम्भ करते ही मनुष्यके आन्तरिक क्षेत्रमें आत्मिक बल बढ़ता है, दुर्भाव नष्ट हो जाता है। सयम, नम्रता, उत्साह, स्फूर्ति, श्रमशीलता, मधुरता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उदारता, प्रेम, सतोष, शान्ति, सेवाभाव, आत्मीयता आदि सद्गुणोंकी मात्रा दिनोदिन बढ़ने लगती है। गायत्रीको हमारे यहाँ भूलोककी कामधेनु कहा गया है; क्योंकि यह आत्माकी क्षुधा-पिपासाएँ शान्त करती है। गायत्रीको सुधा भी कहा गया है, क्योंकि यह जन्म और मृत्युके चक्रसे छुड़ाकर सच्चा अमृत प्रदान करनेकी शक्तिसे परिपूर्ण है। गायत्री-उपासनासे प्रमुखत आध्यात्मिक उन्नति होती है, यही लाभ प्रमुख है। आत्म-कल्याण और सुख शान्तिकी दिशामें अग्रसर होनेमें गायत्री सहायक है।

गोमाता भारतीय सस्कृतिकी ज्वलन्त प्रतीक है। प्राचीन आर्योंने गायको 'मातेव रक्षति' अर्थात् यह माता हमारी रक्षा करे, कहा है। योगेश्वर श्रीकृष्णने गायकी सेवाद्वारा वह प्रशस्त पथ दिखाया था, जिससे हम उस आदर्शको जीवनमें ग्रहण कर सकें। ऋग्वेद और अथर्ववेदमें गोमाताके महत्त्वका प्रतिपादन करते हुए अनेक उपयोगी सिद्धान्त-वाक्य कहे गये हैं, जो यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

माता रुद्राणां दुःखिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः ।
प्र नु वोच विकितुषे जनाय मा गामनागामविति वधिष्ट ॥

(ऋग्वेद ८ । १०१ । १५)

'गाय रुद्रोंकी माता, वसुओंकी पुत्री, अदितिपुत्रीकी बहिन और घृत-रूपी अमृतका खजाना है। प्रत्येक विचारशील पुरुषको चाहिये कि निरपराध और अवध्य गायका वध न करे।'

यदि नो षां हंसि यद्यत्नं यदि पूरुषम् ।

तं त्वा सीसेन विध्यामी यथा नोऽसौ अवीरहा ॥

(अथर्ववेद १ । १६ । ४)

‘यदि तू हमारी गौ, घोडे तथा पुरुषकी हत्या करता है तो हम सीसेकी गोलीसे तुझे वीध देगे, जिससे तू हमारे वीरोंका वध न कर सके ।’

यूयं गावो मेदयथा कृशं बिदश्वीरं चित् कृणुथा सुप्रतीकम् ।

भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वो वय उच्यते सभासु ॥

(अथर्ववेद ४ । २१ । ६)

‘गौओ ! तुम कृश शरीरवाले व्यक्तिको हृष्ट-पुष्ट कर देती हो एव तेजोहीनको देखनेमें सुन्दर बना देती हो । इतना ही नहीं, तुम अपने गङ्गलमय शब्दोंसे हमारे घरोंको मङ्गलमय बना देती हो । इसीसे सभाओंमें तुम्हारे ही महान् यशका गान होता है ।’

गौसे असंख्य लाभ हैं । गोधनकी उपयोगिताको हिंदुओंने समझकर ही उसको इतना ऊँचा स्थान प्रदान किया है । भारत-जैसे कृषि-प्रधान देशके लिये गोपालन और गोरक्षण धर्म है । गोमाता-से मानवसमाजको जो असंख्य लाभ हैं, उनसे मानवजाति सदैव ऋणी रहेगी । गोवंशका ह्रास आर्थिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियोंसे राष्ट्र और समाजके लिये हानिकर है । प्रत्येक गाँव और शहरमें गोशालाओंकी वृद्धिके प्रयत्न होने चाहिये, जिससे दूध, घी, खाद और हृष्ट-पुष्ट बैलोंकी प्राप्ति होती रहे । भारतमें गोपालन, गोरक्षण सनातनधर्म है ।



जीवनका अमृत

जीवनका ज्ञान ही मनुष्यके जीवनको सही कण्टकविहीन मार्गपर चलानेवाला अमृत है। जिम व्यक्तिके पास जीवन-सम्बन्धी ज्ञान, सुख-दुख, हानि-लाभ, अच्छाई-बुराई, पाप-पुण्य, उतार-चढ़ावका ज्ञान अधिक है, वही दूसरेसे आगे निकलता है और सफल कहा जाता है।

जीवनका ज्ञान दो प्रकारसे प्राप्त होता है। मनुष्य स्वयं जीवन जीता है। तरह-तरहकी गलतियाँ करता है। प्रत्येक गलतीके लिये सजा पाता है, सफलताके लिये प्रशंसाका पात्र बनता है। इस मृदुता और कटुतासे उसका जीवन-सम्बन्धी अनुभव मिलता है। इस अनुभवके आधारपर ही वह जीवनमे आनेवाले संकटो और विषम परिस्थितियोको पार करता है। बिना अनुभवका कच्चा आदमी पग-पगपर गिरता है और सजा पाता है। यह अनुभव ही मनुष्यके जीवनका निचोड है।

लेकिन अनुभवद्वारा शिक्षा-प्राप्तिका यह मार्ग बड़ा लम्बा और जटिल है। कई व्यक्ति बार-बार गलती करते हैं, फिर भी अनुभव नहीं प्राप्त करते, न उससे लाभ उठाते हैं। जो व्यक्ति केवल अनुभवोके आधारपर आगे बढ़ते हैं, वे लाभ तो उठाते हैं, पर यह अनुभव बड़ी देरमे वृद्ध हो जानेपर प्राप्त होता है। कोई-कोई अनुभव तो महोनो और वर्षोंमें प्राप्त होता है। कभी-कभी ऐसी बड़ी हानि उठानी पड़ती है, जिसका मूल्य जीवनभर चुकावा पड़ता है। एक गलत बातका बड़ा हानिकारक प्रभाव हो सकता है।

हमारे प्रकारका ज्ञान पुस्तकोमे सचित, युगयुगोसे रक्षित, उत्तम मनोमुग्धकारी शैलीमे लिखित अनुभवोसे प्राप्त होता है, यदि हम जीवनमे प्राप्त अपने निजी अनुभवोपर ही निर्भर रहें, तो आधा जीवन इन्ही प्रयोगो तथा उपयोगी नियमोको समझने और उपयोगमे लानेके तरीकोमे लग सकता है; क्योंकि जीवनका प्रत्येक सूत्र बड़ी भारी कीमतपर मिनता है।

जीवन एक बड़ी पुस्तक है। इसमे प्रत्येक दिन एक-एक पृष्ठकी तरह है; प्रत्येक पक्ति पक्तिपर नये रहस्य प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन जीवन एक-दो दिन या एक-दो वर्षका न होकर वर्षोंका है। पूरे रहस्य हमे तभी प्राप्त होने हैं, जब हमारा पूरा जीवन ही समाप्त हो जाता है; फिर उन अनुभवो, निष्कर्षों, बहुमूल्य सूत्रो और उपयोगी जीवन-नियमोंको काममें लानेके लिये जीवनकी सासँही शेषनही बचती।

इसलिये जितनी जल्दी हमें जीवनके सच्चे अनुभव, लाभदायक नियम और फायदेकी बातें कहींसे प्राप्त हो जायें तथा जितनी जल्दी हम उन नियमोका प्रयोग करने लगें, उतनी जल्दी हम श्रेष्ठ जीवनका निर्माण कर सकते हैं।

जिस-जिस व्यक्तिने जीवनके सम्बन्धमें जो-जो अनुभवपूर्ण बात लिखी है, वह उन्हें अपने दैनिक जीवनमें धारण करता है। उनके बलपर आगे बढ़ता है। वह उन नियमोसे लाभ उठाता है, जिनपर चलकर महान् व्यक्तियोने यश, प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त की थी।

प्रत्येक अच्छी पुस्तक जीवनका निचोड़ होती है

‘जिसे आप पुस्तक कहते हैं, वह कागजकी सूखी, निष्प्राण

नि स्पन्द, मरी हुई चीज नहीं है। पुस्तक तथा मासिकपत्र जीते-जागते जीवनकी हलचल हैं।

‘पुस्तको तथा समाचारपत्रोके शब्द-शब्दमे अनुभवकी अमरता है; जीवन-पथकी कठिनाइयोके हल हैं; तरुकी शीतलता है; अमर विश्वास और महकते प्राण हैं; हृदयके सुरभित सुमन खिले हुए हैं और धरतीको स्वर्ग बनानेवाले स्वर्ण-सूत्र हैं। उनमे आशाका शरच्चन्द्र हँस रहा है, तो उल्लासकी रजत रश्मियाँ छिटक रही हैं।

पुस्तकोकी दुनियामे बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हैं, ससारके बड़े-बड़े विचारक, कवि, लेखक, नेता जीवित हैं। वे हमारी सहायताके लिये प्रतिपल तैयार हैं, वे दिनको दिन और रातको रात नहीं समझते। हम जब चाहे, जहाँ चाहे पुस्तकोमे बैठे हुए अपने उन गुरुओं तथा मित्रोको साथ ले जा सकते हैं।

पुस्तकोके पृष्ठोमे एक सदा सजा रहनेवाला जीवित संसार है। इस मरणशील दुनियामे यह हाड़-मासका नश्वर शरीर पता नहीं, कब नष्ट हो जाय, पर जो अनुभव पुस्तकोमे लिखे हैं, दीर्घ कालतक अक्षय रहनेवाले हैं।

पुस्तकोमे संसारमें दुनियाकी सब समस्याओको हल करनेके तरीके हैं। मानवजीवन और समाजके निगूढतम रहस्योके निचोड़ भरे हैं।

सच मानिये, जो ज्ञान आप पचास वर्ष जीवित रहकर प्राप्त करते, वह पुस्तको, समाचारपत्रो इत्यादिके माध्यमसे आसानीसे प्राप्त कर सकते हैं। इनमे जीवनका निगूढतम रहस्य भरा पड़ा है और हमारे लिये संचित है।

जो ज्ञान आपको पचास वर्षोंके लम्बे जीवनको जीकर प्राप्त होता, वह अच्छी पुस्तकोंके द्वारा आपको जीवनके आरम्भमें ही, बल्कि आज ही या जब आप चाहे प्राप्त हो सकता है।

जिस घरमें पुस्तकोंका निवास है, उसमें अनेक विद्वानों, विचारों तथा महात्माओंका निवास है। आप अपनी अलमारीमें असंख्य समझदार मनुष्योंको साथ रखे हुए हैं।

ऋषि तिखुवल्लुवरके शब्दोंमें, 'विद्वान् पुरुष सुगन्धित पुष्पोके समान हैं। वे जहाँ जाते हैं, अपने साथ मधुर सुगन्धका आनन्द ले जाते हैं। उनका सभी जगह घर है और सभी जगह स्वदेश है।

'विद्या धन है। अन्य वस्तुएँ तो उसकी समतामें बहुत ही तुच्छ हैं। यह ऐसा धन है, जो अगले जन्मोतक मनुष्यकी पीढ़ियोतक परिवारमें सस्कारोंके रूपमें साथ रहता है।'

विद्याद्वारा सस्कारित की हुई बुद्धि आगामी जन्ममें क्रमशः उन्नति ही करती जाती है और उसका जीवन उच्चतम बनते हुए पूर्णतातक पहुँच जाता है।

कुएँको जितना खोदा जाय, उससेसे उतना ही अधिक जल प्राप्त होता जाता है, इसी प्रकार जितना स्वाध्याय, पठन-पाठन, लेखन इत्यादि किया जाय; मनुष्य उतना ही ज्ञानवान् बनता जाता है।

मनुष्य क्या है? विश्व क्या है? ईश्वर, आत्मा और जीव क्या है? मनुष्य-जीवनके वाद क्या होता है? सर्वोत्तम जीवन कैसे व्यतीत किया जा सकता है? इन्हे वे ही जान सकते हैं, जिन्होंने बड़े-बड़े विचारकोंके ग्रन्थोंका गम्भीरतासे अध्ययन किया है, विद्या पढ़ी है।

आश्चर्य होता है, ऐसी अनुपम सम्पत्तिको उपार्जन करनेमें न जाने क्यों लोग आलस्य करते हैं ?

आयुका कोई प्रश्न नहीं है। अध्ययन कभी भी, किसी भी उम्रमें किया जा सकता है चाहे मनुष्य बुढ़ा हो जाय, मरनेके लिये चारपाईपर पड़ा हो, तो भी विद्या प्राप्त करनेमें उसे उत्साहित होना चाहिये। ज्ञान तो जन्म-जन्मान्तरोतक साथ रहनेवाली दिव्य सम्पत्ति है। जो पढा-लिखा है, वही नेत्रवान् है। जिसने विद्या नहीं पढ़ी, वह अन्धा है। उसके माथेमें तो दो गड्ढे मात्र हैं, नेत्र नहीं। नेत्र तो ज्ञानके होते हैं।

आपका मित्र सम्भव है, आपका साथ छोड़कर चला जाय किंतु पुस्तकरूपी सत्सङ्ग सदा-सर्वदा आपके लिये खुला हुआ है।

यदि स्वाध्यायद्वारा प्राप्त उपयोगी ज्ञानको जीवनमें उतारा जाय, तो जीवनकी अनेक मूर्खताओंसे सहज ही बचा जा सकता है।

पुस्तकोष सचित विचारोंने ससारमें बड़ी-बड़ी क्रान्तियाँ उत्पन्न कर दी हैं। उन्हें निष्प्राण समझना बड़ी भारी भूल है। उनमें महती शक्ति भरी हुई है। वे उतनी ही स्फूर्तिमान् होती हैं, जितने उनके लेखक। जिस प्रकार एक शीशीमें कोई अतीव गुणकारी ओषधि जीवनमें उपयोगके लिये सँभालकर रक्खी जाती है, उसी प्रकार एक अच्छी पुस्तकमें एक महान् आत्माके जीवनका सार-तत्त्व भरा होता है। उसीकी जिदगीके निचोड़से हम अधिक-से-अधिक लाभ उठा सकते हैं।

कवि मिल्टनके शब्द स्मरण रखिये—

‘एक श्रेष्ठ पुस्तक एक महान् आत्माकी बहुमूल्य रक्तकी बूंदोंकी तरह है, जो शाश्वत उपयोगकी वस्तु है, पथ-निर्देशक है। उसमे जीवनका सर्वोत्तम रस, अनुभवोका निचोड़ भावी पीढ़ीके लिये मौजूद रहता है।’

यह मानवजीवन अति दुर्लभ है, बार-बार नहीं मिलता। इस जीवनके अनुभव हम दूसरे नये जीवनमें काममें नहीं ला सकते। पता नहीं अगले जन्ममें हमें यह सुरदुर्लभ जीवन प्राप्त हो या न हो। इसलिये स्वयं अपने अनुभवोके पकनेकी प्रतीक्षा किये बिना हमें पुस्तकोके स्वाध्यायद्वारा अधिकतम लाभ उठाना चाहिये।

आप अवकाशके क्षणोको व्यर्थ ही सिनेमा, क्लबो, व्यर्थकी बातचीत, ताश-चौपड, गप्पबाजी, चुहल तथा बेमत्तलवकी बातोंमे नष्ट कर देते हैं। ये मनोरञ्जनके साधन स्वस्थ नहीं हैं। स्वाध्याय-का साधन स्वस्थ और गुणकारी है।

स्वाध्यायसे आप अपनी गुप्त शक्तियोंका विकास करते हैं और समुन्नत आत्माओके सन्सङ्गमे रहते हैं। वे आपको पवित्र कल्पनाएँ और विचारकी नयी दिशाएँ देते हैं।

स्वाध्याय हमारे दैनिक जीवनका एक अङ्ग होना चाहिये। कहा भी है—

सर्वस्य लोचनं शास्त्रम् । (हितो० प्र० १०)

वास्तवमें सबकी आँख शास्त्र है।

विद्या स्फीयते ज्ञानम् । (महाभारत)

विद्यासे अनुभव बढ़ता है।



संसारका वह अद्भुत ग्रन्थ, जो कभी पुराना नहीं पड़ा !

संसारका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रन्थ है—गीता । इस ग्रन्थरत्नकी लाखों प्रतियाँ बिकी हैं और आज भी उसी तीव्र गतिसे संसारके असंख्य व्यक्ति इस पुस्तकको पढ़ते और सबसे प्रिय ग्रन्थ मानते हैं । कारण यह है कि मानव ज्ञान, अध्यात्म, नीति, धर्म-कर्तव्य, वेद-शास्त्र - सबका सार, संक्षेपमें इस छोटे-से ग्रन्थमें आ गया है । यह महाभारतका सबसे महत्त्वपूर्ण निचोड़ है ।

विश्वकी समस्याएँ सदा जटिल रही हैं, किंतु सूत्ररूपमें उन सबका समाधान गीतामें मिल जाता है । केवल उसे ठीक तरह समझनेवाला चाहिये । देशी और विदेशी असंख्य विद्वानोंने गीतापर पचासो भाष्य और व्याख्याएँ लिखी, संकडो विस्तृत और सूक्ष्म टीकाएँ हुईं, अनेक भाषाओंमें अनुवाद किये गये और सहस्रो संस्करण प्रकाशित किये गये । कदाचित् संसारमें ऐसी कोई भाषा नहीं है, जिसमें गीताका अनुवाद न हो ! विदेशियोंने भी गीताको सराहा है और उसे भारतीय दर्शनका सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ कहा है ।

अमेरिकाका प्रसिद्ध दार्शनिक इमर्सन अंग्रेजी-विचारक और निबन्धकार कालियलसे भेंट करने गया ।

‘क्या आप मुझे अपने हाथसे कोई ग्रन्थ भेंट करेंगे ? मैं वह उपहार चाहता हूँ, जो आप को सबसे प्रिय है तथा जिससे आपने सबसे अधिक प्रेरणा पायी है ?’—इमर्सनने कहा ।

कार्लायल बोले—‘आप वह भेंट चाहते हैं, जिससे मैंने जीवनमें सबसे अधिक मार्गदर्शन, प्रकाश और प्रेरणा पायी है ।’

वह कुछ देर सोचते रहे । अपनी पुस्तकसे भरी खचाखच लाइब्रेरीके सामने टहलते रहे ।

फिर एक छोटी-सी पुस्तक भेंट करते हुए बोले—

‘यह लीजिये, मेरा प्रिय धर्म ग्रन्थ ।’

इमर्सनने उस पुस्तकको ले लिया और उसका नाम देखा— यह था अंग्रेजीमें ‘श्रीमद्भगवद्गीता’का अनुवाद ।

कार्लायल बोले, ‘यह भारतका दुनियाको, और मेरा आपको सबसे प्रिय उपहार है । इस पुस्तकमें सूक्ति-रूपमें ससारका समस्त अव्यात्म, मानव-मात्रका कल्याण, हर परिस्थितिमें मार्गदर्शन आ गया है ।’

इमर्सनने कहा, ‘यह तो बहुत छोटी-सी पुस्तक है ।’

कार्लायल—‘हाँ, सूक्तियोंका सग्रह है । मानव-ज्ञान-विज्ञान और अध्यात्मका निचोड़ है । वस, इससे अधिक नहीं चाहिये । इस एक ही पुस्तकसे सांसारिक और पारलौकिक कल्याण हो सकता है । इसका संदेश कभी पुराना नहीं पड़ता ।’

इमर्सनने गीताको मस्तकसे लगाया ! यह भेंट उसके जीवनका

संसारका वह अद्भुत ग्रन्थ, जो कभी पुराना नहीं पड़ा ! ३८३

मोड़ बन गयी और उसने इमर्सनको नयी जीवन-दृष्टि दी । इमर्सनने लिखा है, 'मैं नित्य गीताके पवित्र जलमें स्नान करता हूँ । वर्तमान युगके ग्रन्थोंमें गीता सबसे बढकर है । जिस युगमें यह लिखी गयी होगी, वह कोई अलौकिक युग होगा ।'

जर्मन विद्वान् श्लेगल गीताको पढ़कर भाववेशमें आ गया था । शोपेनहर और मेजनीकी विचारधारापर भी गीताके अध्यात्मका पूरा प्रभाव है ।

मुसल्मानोंमें बुखाराका शाहजादा अध्यात्म और उच्च-जीवनका बड़ा प्रेमी था । उसने धर्मकी संकुचितता छोड़कर सस्कृतका भी अध्ययन किया था । मुसल्मानोंसे पहले उनने गीताकी ओर इस्लाम-जगत्का ध्यान आकषित किया था ।

अलवेरूनीने कहा था,—'गीता दुनियाका बेहतररीन इल्मी तोहफा है । इस एक किताबमें दुनियाके सारे फिरकोका निचोड़ पेश कर दिया गया है ।'

मुगलकालकी बात है—

सम्राट् अकबर विद्याका प्रेमी था । उसे पता चला कि श्रीमद्भगवद्गीता वैदिक धर्मका सार है, तो उसने फैजीको गीताका अनुवाद फारसी भाषामे करनेकी आज्ञा दी । मुसल्मान बादशाहोंमेंसे जिस-जिसने इसे पढ़ा, वह मुग्ध हो गया । शिकोहने इसका वाम 'सिर्दे-अकबर' रक्खा । अकबरकी यह प्रिय पुस्तक रही । इस पुस्तककी भूमिकामें फैजीने लिखा था—

‘गीता मनुष्यका सच्चा आध्यात्मिक आनन्द देनेवाली है। यह पुस्तक सचाईका मार्ग बतानेवाली, असख्य उपदेशोंसे भर हुई, गहरे आध्यात्मिक भेदोंको खोलनेवाली, मानवको सब ससारकी आत्माओंमें एकता दिखानेवाली मनुष्योंमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी व्यासजीकी रचना है, जिसको प्रशंसा करना मेरी वाणी और लेखनी बाहर है।’

वास्तवमें यह अनुभव एकका नहीं, अनेकका है।

सब उपनिषदें गौडकी तरह हैं, गीता अमृत-रूपी दूध और दुहनेवाले स्वयं भगवान् श्रीकृष्णजी हैं।

यदि भारतका समस्त साहित्य नष्ट हो गया होता और केवल गीता ही रह गयी होती, तो भी ससारको आर्यजातिके गौरवका याद दिलानेके लिये यह पर्याप्त थी।

गीता भारतीय संस्कृतिका प्रतीक है। वैदिक धर्ममें जो सर्वश्रेष्ठ विचारधारा, मूल-तत्त्व, दृष्टिकोण, मानव-जीवनके उत्थानके सारमर्म हैं, उन सबका एक ही स्थानपर समावेश इसी ग्रन्थरत्न मिलता है।

श्रीमद्भगवद्गीता वैदिक धर्म और संस्कृतिका निचोड़ प्रस्तुत करनेवाला आध्यात्मिक ग्रन्थ है। किंतु देशकी आधुनिक परिस्थितिमें गीता हमारे लिये विशेष उपयोगी है।

आज देशके बीच सकीर्णता, छोटे-छोटे झगड़े, संकुचित दृष्टि, रंग, वर्ण, जाति, धर्मका भेद-भाव और कर्तव्यविमुखता फैल गयी।

संसारका वह प्रदुत ग्रन्थ, जो कभी पुराना नहीं पड़ा ! ३८५

मानव मानवके बीच खाई बढ़ती चली जा रही है। भाग्य-वादिता, निष्क्रियता और अवसादपूर्ण दुर्व्यवस्थासे देश परेशान है। एक प्रकारकी कायरता और हीनता की भावना देशभरमें व्याप्त हो गयी है।

महाभारतका युद्ध होनेसे पूर्व युद्ध-क्षेत्रमें अर्जुनकी जो स्थिति थी, आज देशके सम्मुख उससे कहीं विषम द्विधामयी स्थिति है। 'हम युद्ध करें या न करें ? युद्धमें हमारा क्या दृष्टिकोण रहे ?'

गीताके जिस महान् कर्तव्य और कर्तव्यमार्गके दर्शनने अर्जुनको युद्धके लिये तैयार किया था और अन्तमें विजयी बनाया था, वही गीताका कर्मयोगात्मक सदेश देशको आगे बढ़ाकर संसारके 'रोड्ट्री'में सबसे प्रागे खड़ा कर सकता है।

गीतासे आशाका, हानि-लाभकी क्षुद्र भावनासे ऊपर उठकर कर्तव्य-पालनका सदेश है।

गीतामें कर्म करनेका सदेश है। कर्मके पीछे सात्त्विकता और निष्कामता भी आवश्यक है। संसारमें 'श्रीकृष्णार्पणमस्तु'की आवश्यकता है।

'श्रीकृष्णार्पणमस्तु'की भावनावाला व्यक्ति यह मानता है कि सब काम मेरे लिये वही हैं, भगवान्के लिये हैं, विश्वकी रक्षा और स्थितिके लिये हैं और इसी कारण वे भगवान्को प्रसन्न करने-वाले हैं—गीतामें विश्वास करनेवाले साधककी यह भावना उसके लौकिक कर्मोंको पारमार्थिक बना देती है।

भगवद्वर्षण—गीताका प्रेरक आदर्श

प्रभुको आत्मार्पण करता हुआ मनुष्य जब अपनी समस्त मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक शक्तियोंको समेटकर भगवान्के चरणोंमें रख देता है, तब मानवकी पुरानी प्रवृत्तियाँ, जो सासारिक भोगोंमें लिप्त थी, वे अब एक नवीन दिशाकी ओर, नीचेसे ऊँचाईकी ओर, सासारिकतासे देवत्वकी ओर उठने लगती हैं। नये आत्मिक मनोरथोंकी पूर्तिके लिये उसमें दैवीशक्तियोंका सम्पर्क होता है, आत्मार्पण करनेवालेमें नया जीवन आ जाता है।

वृत्तियोंको समर्पित कीजिये और फिर अपने सब कार्योंको, अपनी शक्तियों तथा इच्छाओंको भगवान्के समर्पित कर दीजिये। वही व्यक्ति लोक-कल्याणके कार्योंमें पूर्ण सफल रहा है, जिसने अपना सब कुछ भगवान्को सौंप दिया।

अपना सब कुछ ईश्वरको सौंप देना, ईश्वरका दासानुदास या अङ्ग बचकर आत्मिक शक्ति एकत्र करना—आत्मशुद्धिकी यह साधना

हमारे देशमें प्राचीन कालसे चली आयी है। गीतामें भगवान्ने आत्मशुद्धिका अनुष्ठान निम्न शब्दोंमें बताया है—

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

(१८ । ६२)

‘हे भारत ! सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही अनन्य शरणको प्राप्त हो । उस परमात्माकी कृपासे ही परम शान्तिको और सनातन परमधामको प्राप्त होगा ।’

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।

बुद्धियोगमुपाधित्य मच्चित्तः सततं भव ॥

‘सब कर्मोंको मनसे मुझमें अनन्य भावसे अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्बुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगको अवलम्बन करके निरन्तर मुझमें चित्त स्थिर करनेवाला बन ।’

हमारे पास अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है ईश्वरका ही है । हम अपने लिये नहीं, वरं सब कुछ ईश्वरकी सेवाके लिये ही करते हैं—इस भावनासे कार्य करनेपर मनुष्य असंख्य शक्तिर्षा प्राप्त करता है । इसीसे कविने सत्य कहा है—

मेरा मुझपै कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर ।

तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर ॥

हे भगवन् ! मेरा कुछ नहीं है । यह शरीर तथा सब कुछ तुम्हारा है । तुम्हारी चोज संसार और समाजकी सेवाके रूपमें तुम्हारी सेवामें लगे और फिर तुम्हारे पास वापस पहुँच जाय, इसमें मेरा क्या लगता है । यह तो तुमको अर्पित ही है ।’

झूठी भूख छोड़िये

झूठी भूख वह क्षुधा है, जो कृत्रिमरूपसे हमारे मनमें उत्पन्न होती है। पेटकी भूख नहीं है, पर मनको नाना वस्तुओं, वासनाओं और आवश्यकता पूर्तिकी भूख रहनी है। मथुराके चौबे झूठी भूखके लिये प्रसिद्ध हैं। कहने हैं—बिना भूख खाकर वे बीमार पड़ते थे, कड़वी दवाई लेते थे, बड़े-बड़े उपवास करते थे और बड़ी परेशानी के पश्चात् स्वस्थ होते थे। अतः झूठी भूखसे सावधान हो जाना चाहिये।

भौतिकवाद एक प्रकारकी झूठी भूखके समान है। जैसे झूठी भूखमें व्यर्थकी लालसा और मानसिक अतृप्ति होती है, वैसे ही भौतिकवादकी झूठी भूखमें निरन्तर नये-नये आमोद-प्रमोद, वासना-तृप्ति, इच्छाएँ व्यर्थ हैं, सत्य नहीं। मनुष्यको इनकी वस्तुतः आवश्यकता नहीं होती। अपने अज्ञानवश वह बरबस इनकी जरूरत अनुभव करता है। इनकी पूर्तिमें वह ज्यो-ज्यो अधिकाधिक लिप्त होता जाता है, त्यो-त्यो वे अग्निमें पड़े घीकी तरह और उद्दीप्त होती हैं।

मनुष्यको चाहिये कि वह जाग्रत् होकर अपने आत्म-स्वरूपको पहचाने। आत्मज्ञानसे ही आत्म कल्याण प्राप्त होता है—

दर्शनं ह्यात्मनः कृत्वा जानीयाद् त्मगौरवम् ।

ज्ञात्वा तु तत्तदात्मानं पूर्णोन्नतिपथं नयेत् ॥

‘अर्थात् हम आत्माको देखे, आत्माको जानें, उसके महान् गौरवको पहिचानें और आत्मोन्नतिके मार्गपर चलें।’

हमें अपने कार्य ऐसे ऊँचे रखने चाहिये जो आत्माके महान् गौरवके अनुकूल हो। अतः हममेंसे प्रत्येकका उत्तरदायित्व महान् है। बिना आध्यात्मिक व्यवहारके हमारा जीवन ऐसा ही है, जैसा

बिना अंकुशके हाथीका । बिना अंकुशका हाथी जिधर चला जाय, उसे कोई रोकनेवाला नहीं है । आध्यात्मिकता हमें दूसरोंके प्रति आत्माके सद्गुणोंसे पूर्ण व्यवहार करना सिखाती है और हमें उच्च जीवचके लिये प्रेरित करती है ।

आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरोंमें उसी आत्माके दर्शन करता है, जो स्वयं उसके हृदयमें विराजमान है । वह अपना प्रेम, कृपा और सहानुभूति दूसरोंपर उँडेलता चलता है । उसके आत्मभावका दायरा अति विस्तृत रहता है, जिसमें न केवल मनुष्य, प्रत्युत अन्य जीव भी सम्मिलित होते हैं ।

अध्यात्म हमारी झूठी भूखको दूरकर सच्ची और सात्त्विक भूखको जन्म देता है । हमारी वासनाओंको दग्ध करता है और सात्त्विकताको उत्पन्न करता है । वह हमें पवित्रताकी ओर उन्मुख करता है ।

जब हम 'झूठी भूख छोड़िये' का नारा लगाते हैं, तो हम यह कहना चाहते हैं कि व्यर्थकी कृत्रिम जरूरतों, इच्छाओं, वासनाओंको छोड़िये । अनुचित भोजनकी भूख, बढिया वस्त्रोंकी चाह, आलीशान मकानकी भूख, विलासी जीवनकी, निरंकुश अधिकारकी तथा मनमाने धनकी भूख—ये सभी प्रकारकी भूख आपके व्यक्तित्वके लिये अनावश्यक हैं । इनमें फँस जाना अनुचित है । आप भौतिकवादके मायाजालसे बचे रहें और सब प्रकार झूठी भूखको मारते रहे । झूठे बनावटी जीवनसे मुक्त रहे और सरल सादा व्यवहार रखें ।

झूठी भूख अनावश्यक तृष्णा है । अतः इसके माया-जालसे दूर रहना ही सफल रहनेका साधन है । आध्यात्मिकता ही इसे दूर कर सकती है ।

स्वर्ग और मुक्तिका सुख यही प्राप्त हो सकता है

भारतीय दर्शनके छ विभागोमे 'योग' हिंदुओंकी और भारतकी विश्वको एक महान् देन है। ससारकी अन्यान्य शुष्क विचारधाराओसे यह भिन्न है; क्योंकि यह क्रियात्मक या (प्राॅक्टिकल) है। योग अपने-आपमे एक विज्ञान है। इसे हम चाहे तो 'पौरस्त्य मनोविज्ञान' भी कह सकते है। भारतीय सस्कृतिमे रुचि रखनेवाले योगको बड़े आदरकी दृष्टिसे देखते हैं, क्योंकि यह आध्यात्मिक चमत्कारोसे परिपूर्ण है। योगका प्रारम्भ महर्षि पतञ्जलिने किया था। उनके अनुसार योग वह विद्या है, जिससे मनुष्य अपने मनको पूर्ण वशमें कर ईश्वरीय आत्मामे अपने-आपको लय कर सकता है।

'योग' शब्दका अर्थ है 'मिलन' या 'जुड़ना'। दो बिछुडे हुए व्यक्तियोंका मिटन भी कितना सुखद होता है। परस्पर एक दूसरेसे जुडकर हम दृढ और मजबूत बनते हैं। आन्तरिक आह्लादका अनुभव करते हैं। हमारी आत्माको मुख मिलता है। मनुष्यके अन्तस्तलमे जो शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य, सत्, चित्, आनन्द, शिव-सुन्दर, अजर-अमर है, वह आत्मा ही है। इस आत्माका सर्वाधार नित्य सत्य परमात्मा-विश्वात्मासे घनिष्ठ या अभिन्न सम्बन्ध है। योग-साधनाद्वारा आत्माका जब परमात्मासे मिलन होता है, तो बिछुड़ी हुई माता और छोटी स्तनपान करनेवाली कन्याके मिलनेसे मनकी जो दशा होती

है, वही आनन्ददायक अनुभूति हमें प्राप्त होती है। सच तो यह है कि उस आनन्दकी कही कोई उपमा ही नहीं है।

आत्मासे परमात्माके मिलनकी जो अनुभूति होती है, वह सर्वाधिक आनन्द और शाश्वत शान्ति देनेवाली है। भक्त ईश्वरकी आराधना और अन्तत मिलनके द्वारा जो सुख प्राप्त करते हैं, वह अनिर्वचनीय है।

योग वह विद्या है, जिसके द्वारा स्वर्ग और मुक्तिका सुख यही प्राप्त हो जाता है। अनेक साधक अपनी भौतिक सम्पदाओमें लात मारकर, आत्मिक साधनाओ (यम नियम, ध्यान, धारणा आदि) में तल्लीन होते हैं, क्योंकि भौतिक सुखकी अपेक्षा आत्मिक सुखको ही वे प्रधानता देते हैं। योगियोने विश्वात्मासे मिलनेके अपने अनुभव लेखबद्ध किये हैं। अतः योगका चमत्कार जानने और अनुभव करनेके लिये यह आवश्यक है कि जिज्ञासु स्वाध्याय करे तथा आत्मवादियो, योगियो एव विद्वानोके सत्सङ्गद्वारा योगविद्याको भली प्रकार समझें। आजकल तो केवल आसन और प्राणायाममात्र ही करना योग मान लिया गया है, पर वे तो शरीरके स्वास्थ्यके लिये गौण योगिक साधन हैं, प्रधान तो मनोयोग और आत्मयोग है। योगशास्त्रके अध्ययनमें पर्याप्त उत्साह सद्गुरुका प्राप्त और दीर्घकालीन अभ्यास—ये आवश्यकताएँ योगसाधनाके लिये जरूरी हैं।

योगके कई रूप हैं, जैसे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग और राजयोग। यम नियम वे साधन हैं, जिनके बिना कोई योग-मार्गपर

प्रवृत्त नहीं हो सकता । योगी श्रीअरविन्दने 'आत्मसमर्पण'पर बहुत बल दिया है ।

योग-साधना क्या है ? मानव-अन्तस्तलमें जो शुद्ध-बुद्ध-चैतन्य अमर सत्ता है, वही परमात्मा है । मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारके चतुष्टयसे युक्त चेतनको जीव या जीवात्मा कहते हैं । यह परमात्मासे भिन्न भी है और अभिन्न भी है । इसे द्वैत भी कह सकते हैं, अद्वैत भी । अग्निसे ही अग्निकी चिनगारी निकलती है । चिनगारीको अग्निसे अलग कहा जा सकता है । पर अग्नि बिना चिनगारीका कोई अस्तित्व नहीं, अतः वह अग्निका ही अङ्ग है, यह अद्वैत है । परमात्मा अग्नि है और जीव चिनगारी है । दोनों अलग भी हैं और एक भी । उपनिषदोंमें इन्हे एक वृक्षपर बैठे हुए दो पक्षियोंकी उपमा दी गयी है । गीतामें इन दोनोंका अस्तित्व स्वीकार करते हुए एकको 'क्षर' कहा गया है, दूसरेको 'अक्षर' ।

भ्रमसे, अज्ञान या मायासे दोनों (जीव और परमात्मा) की नित्य एकता पृथक्तामें बदल जाती है । वही दुःख और शोकका कारण है ।

जहाँ जीवात्मा और परमात्माका एकीकरण होता है, वहाँ जीवकी इच्छा, रुचि एवं कार्यप्रणाली सब विश्वात्माकी इच्छा, रुचि, प्रणालीके अनुसार हो जाती है, तब वहाँ अपार दिव्य आनन्दका स्रोत उमड़ता रहता है । आत्मिक एकता न होनेसे मनुष्यके मन क्षेत्रमें घोर अशान्ति मची रहती है । इस अव्यवस्थाके संतापसे उसका अन्तर्लोक दावानलकी तरह घबकता रहता है । मनुष्यके पास भौतिक सुख-

साधन कितने ही क्यों न हों, उसके अन्त करणको तनिक भी शान्ति उपलब्ध नहीं होती। अनेक धन-दौलतके स्वामी, सेठ, पूंजोपति, बड़े-बड़े उच्चाधिकारी भाँति-भाँतिकी चिन्ताओ, आवेशो और सतापों से घिरे रहते हैं। इससे प्रकट है कि धन-दौलत या अधिकारसे कोई भी व्यक्ति जीवनका सच्चा और स्थायी आनन्द या सुख प्राप्त नहीं कर सकता।

इसी प्रकार अनेक ऐसे भी व्यक्ति हैं, जिनके पास रुपया-पैसा या अन्य भौतिक सम्पदाएँ-सुविधाएँ नहीं हैं, फिर भी वे खूब मस्त रहते हैं। सुखकी नीद सोते हैं और अपने चारो ओर आनन्द देखते हैं। इससे प्रकट है कि धन-दौलतके या अन्यान्य साधनो-के न होनेसे सच्चे सुखमें कोई कमी नहीं आती। अमीरोंका भी दुखी रहना और गरीबोंका भी सुखी होना इस बातका प्रमाण है कि सुखका वास्तविक स्थान बाहर नहीं है, बाहरकी वस्तुओमें नहीं है।

आत्मिक एकतामें, दोनोके मिलनमें ही सुख है। इसको यौगिक शब्दावलीमें जीवात्मा और परमात्माका मिलन कह सकते हैं। इस मिलनका ही दूसरा नाम 'योग' है। जीवात्मा और परमात्माके मिलनसे दोनोके योगसे एक ऐसे आनन्दका आविर्भाव होता है, जिसकी तुलना ससारके अन्य किसी भी सुखसे नहीं की जा सकती। इसी सुखको परमानन्द, जीवन्मुक्ति, ब्रह्म-निर्वाण, आत्मोपलब्धि, प्रभुदर्शन आदि नामोंसे पुकारा जाता है।

मनुष्यके मनका वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है। वह आत्माका ही एक उपकरण, औजार या यन्त्र है। आत्माकी कार्य-पद्धति-

को सुसंचालित करके, चरितार्थ करके स्थूल रूप देनेके लिये मनका अस्तित्व है। इसका वास्तविक कार्य है कि वह आत्माकी इच्छा एवं रुचिके अनुसार विचारधारा एवं कार्य प्रणालीको अपनावे। इस उचित एवं स्वाभाविक मार्गपर यदि मनकी यात्रा चलता रहे, तो मानव-प्राणी जीवनके सच्चे सुखका रसास्वादन करता है। पर दुर्भाग्यकी बात है कि आज हमसे अधिकशक्ति वह स्थिति उपलब्ध नहीं है। आत्मा सत्-प्रधान है। उसकी इच्छा एवं रुचि सात्त्विकताकी दिशामें होती है। जीवनकी हर घड़ी सात्त्विकतासे सराबोर हो, हर विचार और कार्य सात्त्विकतासे परिपूर्ण हो, यह आत्माकी मांग है।

पर माया या अविद्याके कुचक्रमें फँसकर हम दूसरी ओर चल देते हैं। रज और तममें प्रवृत्ति दौड़ती है। इस काय विधिको निरन्तर प्रोत्साहन मिलनेसे वह इतनी प्रबल हो जाती है कि आत्माकी पुकारके स्थानपर मन ही कामना या तृष्णा ही प्रधानता प्राप्त कर लेती है।

इस दुष्प्रवृत्तिसे छुटकारा पाकर आत्मानुगत होनेपर ही आनन्द प्राप्त हो सकता है। इसीकी कार्य-पद्धतिको योग-साधना कहते हैं। यह योग-साधना प्रत्येक उच्च प्रवृत्तियों-वाले साधकके जीवनका नित्यकर्म होना चाहिये। भारतीय सस्कृतिके अनुसार सच्ची सुख-शान्तिका आधार योग-साधना ही है। योगके द्वारा सासारिक सघर्षसे व्यथित मनुष्य अन्तर्मुखी होकर आत्माके निकट बैठता है, तो उसे अमित शान्तिका अनुभव होता है।

उपर्युक्त पंक्तियोसे भारतीय योगपद्धतिकी महत्तापर कुछ प्रकाश पडता है। योग पूर्विय दृष्टिकोणका मनोविज्ञान है। इसके अनुसार मनुष्यको अपनी सारी वासनाओंको मिटा कर परमात्मामें स्थित हो जाना चाहिये। इसके विपरीत पाश्चात्य मनोविज्ञान यह कहता है कि वासनाको खोल देना चाहिये। भारतीय मनोविज्ञान—यह योगपद्धति श्रेष्ठ है; क्योंकि इससे मनुष्यकी रुचि और प्रवृत्ति ऊँची रहती है। सात्त्विकता तथा देवत्वको विकसित होनेका प्रचुर अवसर मिलता है। योगसाधनाका प्रथम लाभ तो यह होता है कि मन शुद्ध हो जाता है। दूसरा लाभ मनकी शान्ति और एकाग्रता है। निरन्तर ध्यान और चिन्तन करनेसे एकाग्रताकी वृद्धि हांती है। आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ती हैं। आजकलकी पाश्चात्य मनोविज्ञानकी प्रणालियाँ जैसे साइकोथैरेपी, मेस्मेरिज्म, थाटरीडिंग, क्लेरोवेन्स आदि सभी योगद्वारा सम्भव हैं।

आज योग-विद्याके सही दृष्टिकोणको निखारनेकी अतीव आवश्यकता है। आसन और प्राणायाममात्र ही करना आजकल योग हो गया है। पर वास्तविक महत्व आन्तरिक साधनाका ही है। उस समय योगी मृगछाला इसलिये पहनते थे कि वह आसानीसे मरे पड़े हुए मृगोसे भिन्न जाती थी। आजकल बन्दूककी गोलीसे मरे हुए जानवरकी खाल होती है, यह निन्दनीय है। अब चिमटेकी आवश्यकता नहीं रह गयी है। योगिराज अरविन्द, महात्मा गांधीजी, स्वामी दयानन्दजी, स्वामी शिबानन्दजी आदिकी तरहका सीधा-सादा जीवन ही उपयुक्त है।



विलासिताकी नाना वस्तुएँ बन चुकी हैं, किंतु इसमें तनिक भी शान्ति या तृप्ति नहीं ।

जबतक कोई मनुष्य या राष्ट्र ईश्वरमें विश्वास नहीं रखता, तबतक उसे कोई स्थायी विचारका आधार नहीं मिलता । अध्यात्म हमें एक दृढ़ आधार प्रदान करता है । अध्यात्मवादी जिस कार्यको हाथमें लेता है, वह दैवीशक्तिसे स्वयं ही पूर्ण होता है । भौतिकवादी सांसारिक उद्योगोंसे कार्य पूर्ण करना चाहता है, किंतु ये कार्य पूरे होकर भी शान्ति नहीं देते । भौतिकवादीको तुच्छ लाभ दीखता है; वह उसीमें मर जाता है । उस बेचारेको इतनी दूरदर्शिता नहीं कि यह जान ले कि ये सांसारिक वस्तुएँ एक क्षणमें विलुप्त हो सकती हैं ।

आजका युग क्यों असंतुष्ट है ? इसका कारण यह है कि उसके सोचने, समझने, रहने और टिके रहनेका आधार अस्थायी और क्षणभंगुर है । यदि वह अध्यात्मवादको अपना ले तो उसे शान्ति और सामर्थ्य मिल सकता है ।

जिस व्यक्तिमें दैवी सम्पदाके छब्बीस लक्षण पाये जाते हो, वह आध्यात्मिक व्यक्ति कहला सकता है । वे गुण हैं—अभय, अस्त-करणकी शुद्धि, सत्-असत्का विवेक [ज्ञान], दान, जितेन्द्रियता, यज्ञ, स्वाध्याय, स्वधर्म-पालन, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, अनिन्दा, दया, अलोभ, नम्रता, लज्जा, अचञ्चलता, गम्भीरता [तेज], क्षमा, धैर्य, शौच, अद्रोह और मानकी

इच्छा न होना । इन क्षिभूति गोसे पूर्ण व्यक्तिको 'मानव' कहते हैं । वह सत्वगुणप्रधान होता है ।

इसके विपरीत भौतिकवादी व्यक्तियोंके आसुरी गुण होते हैं । इन व्यक्तियोंमें दम्भ होता है । वे कहते कुछ है, करने कुछ है । उनका पाखण्ड पग-नगपर हमारे सम्मुख आता है । दुःख है कि आज जो व्यक्ति अपनेको अव्यात्मवादी कहते हैं, उनमें अधिकांशमें उपर्युक्त दैवी सम्पदाके गुण नहीं पाये जाते । उनमें दर्प होता है । वे किसोके सामने सिर नहीं नवाते । अहङ्कारसे परिपूर्ण रहते हैं । तीनों गुणों (सत्व, रज, तम) के अनुसार अहङ्कारकी भी तीव्र अवस्थाएँ हो सकती हैं । यह सब अभिमान त्याज्य है । जिन व्यक्तियोंमें क्रोध, कठोरता और अज्ञान है, आजके युगमें इस प्रकारके व्यक्ति प्रायः पाये जाते हैं और वे ही अशान्तिके मूल कारण हैं ।

आस्तिकता हमें ईश्वरपर श्रद्धा सिखाती है । हमें चाहिये कि परमेश्वरको चार हाथ-पाँवोंवाला कोई भौतिक प्राणी न समझें । ईश्वर एक परम सत्य तत्त्व है । जैसे वायु एक तत्त्व है । वैज्ञानिकोंने वायुके अनेक उपभाग किये हैं—आक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि और उसके हर एक भागको भी स्थूल रूपसे वायु ही कहेंगे । वैसे ही एक तत्त्व, जो सर्वत्र ओतप्रोत है, जो सबके भीतर है तथा जिसके भीतर सब कुछ है, वह परमेश्वर है । यह

तत्त्व सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है। परमेश्वर हमारे ऋषि-मुनियोंकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस शक्तिके तीन रूप हैं--१—उत्पादन करनेवाला, २—पोषण करनेवाला, ३—नाश करनेवाला। भारतीय सस्कृतिमे ये तीन शक्तियाँ तीन नामोसे प्रचलित हैं—ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। कोई उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकता।

आज हमें अध्यात्मकी अतीव आवश्यकता है। विषयोकी भोगेच्छा विषयोके भोगसे कभी शान्त होनेवाली नहीं है, प्रत्युत और भी बढ़ जानेवाली है। त्याग और सधमसे ही मन शुद्ध होता है और बुद्धि ज्ञानसे। जितेन्द्रिय पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, विषयोम फँसा हुआ मनुष्य दुर्गतिकी प्राप्त होता है।

दूसरोके अनुशासनकी अपेक्षा आत्मानुशासनका विशेष महत्त्व है। हमारी आत्म-बुद्धि हमें सत्यके मार्गको और प्रेरित कर सकती है। सत्य मार्गसे ही पृथ्वी स्थिर है, सत्यसे ही सब स्थिर हैं। सत्यका ग्रहण और पापका परित्याग करनेको हमें सदैव प्रस्तुत रहना चाहिये।

मानव-जीवन सासारिक क्षणिक भोग-विलासके लिये नहीं बना है। जीवनका एकमात्र कर्तव्य आत्माका साक्षात्कार करना है।

जी, मेरी उम्र अस्सी नहीं, सिर्फ चार साल है !

राजा नौशेरवाँ कही जा रहे थे । उन्हे सदा लोगोंसे बातचीत कर नयी-नयी बातें जाननेकी बड़ी इच्छा रहती थी । संयोगसे उन्हें रास्तेमें एक सफेद दाढ़ीवाला वृद्ध मिला । वृद्ध कुछ धार्मिक वृत्तिका आदमी था । दोनोंमें मेल हो गया । अब बातोका सिलसिला चला ।

प्रश्न उपजा कि बातें किस विषयपर चलें ? राजनीति, अस्त्र-शास्त्र, धर्म, दर्शन—आखिर किस समस्यापर बातचीत की जाय ? पता नहीं, यह वृद्ध किस विषयमे दिलचस्पी लेगा ?

सोचते-सोचते नौशेरवाँने बातोका सिलसिला शुरू करनेके ख्यालसे वृद्धसे पूछा,—‘बड़े मियाँ ! तुम्हारी उम्र क्या होगी ?’

वृद्ध बिल्कुल सफेद बालोवाला बूढ़ा था । उँह पोपला, चेहरेपर झुर्रियाँ, आँखें गड्ढोमें गड़ी हुई । कमर कुछ झुकी-सी, कांपते अवयव और हिलता शरीर ! बूढ़ा सवाल सुनकर कुछ देर चुप रहा । फिर उसने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया—

‘श्रीमन् ! मेरी उम्र सिर्फ चार सालकी है !

उत्तर अटपटा था । यह मौतके मुँहमें लटका हुआ बूढ़ा और उम्र सिर्फ चार साल ! कैसी आश्चर्यमय उक्ति ! कैसा सफेद झूठ ! कभी न माननेको बात थी । राजा नाराज हो गये, पर अपने गुस्सेको दबा दिखावटी आदरसहित बोले—

‘इस बुढ़ापेमें इतना झूठ ! बड़े मियाँ, क्यों फिजूल बनते हो । तुम्हारी यह निडाल हालत, ये हिलते हुए अङ्ग, यह दूष-जैसे सफेद बाल साफ जाहिर करते हैं कि तुम्हारी उम्र अस्सी सालसे किसी हालतमे कम नहीं होनी चाहिये । मुझसे पहेलियाँ

जी, मेरी उम्र अस्सी नहीं, सिर्फ चार साल है !

४०१

मत बुझाओ । कहिये, मेरा अंदाज कहाँ तक सच है ? आदमीकी उम्रका अंदाजा मैं गलत नहीं लगाता हूँ ।’

बूढ़ा कुछ चकित, कुछ भयभीत दिखायी दे रहा था । उसके मुँहसे थोड़ी देर तक कुछ शब्द न निकले । वह उत्तरको स्पष्ट न कर सका ।

राजाने फिर पूछा, ‘मुझे अपनी बात फिरसे कहो, मैं समझा नहीं ।’

अब बूढ़ा कुछ गरम पड़ा और अपनी बात स्पष्ट करनेकी नीयतसे बोला—

‘श्रीमन् ! मैं सच अर्ज करता हूँ । दरअसल मैं चार सालका ही हूँ ।’

राजा अब गम्भीर हो गया । सोचने लगा, ‘बातमे कुछ गहराई प्रतीत होती है ।’

बोले, ‘बड़े मियाँ, अपनी बातको साफ करो ।’

बूढ़ा बोला, ‘श्रीमान्का अनुमान गलत नहीं है; बात यो है कि इन अस्सी सालोंमेंसे ७६ साल तो मैंने यों ही खराब कर दिये हैं ।’

‘खराब कर दिये हैं ।’ सो कैसे हो सकता है ? क्या तुमने इन वर्षोंमें अपना और अपने परिवारका पालन-पोषण नहीं किया है ?

‘श्रीमन् ! ये ७६ साल मैंने इसी काममें बरबाद कर दिये हैं । इनमें मैंने बच्चोंको जन्म दिया । फिर मैं उन्हें पालने-पोसने और उन्हें कामपर लगाने, उचकी शादियाँ करनेमें लगा रहा । ७६ सालकी उम्रतक अपना और अपने बाल-बच्चोका पेट पालचा ही अपना मुख्य काम समझता रहा । बाकी कुछ नहीं ।’

राजा बोला, ‘फिर ये साल खराब हुए कैसे कहते हो ?’

म० जी० फू० २६—

‘खराब ही समझिये । इस लंबे अर्सेमें मैंने न कोई नेकी कमायी, न किसी निर्धनकी सहायता की, न कोई परोपकारका काम ही किया । जानवरकी जिंदगी जीना रहा । मेरा कीमती जीवन खाने-पीनेमें ही बीत गया ।

‘पिछले चार सालोंसे यह बात समझमें आयी है कि इस लंबी-चौड़ी दुनियामें, जहाँ असंख्य दुखी आदमी और निम्न कोटिके जीव रहते हैं, हमलाग सिर्फ अपने ही लिये पैदा नहीं हुए हैं, परंतु दूसरोका भी हमपर कोई हक है । उनका भो इमें कुछ भला, कुछ सेवा, कुछ परोपकार करना है । उन्हें अपने ज्ञान पूंजीसे, अपनी शक्ति या बुद्धिसे, अपने मनसे और तनसे कुछ आगे बढ़ाना है । आदमीकी श्रेष्ठता तो इसमें है कि मनुष्य परिवारको सीमित रखे और थोड़ेसे साधनोंमें सतुष्ट रहे । इस समाज जो दूसरे लोग भयानक कष्टों, अभाव, पीड़ा और निराशासे ग्रसित हैं, उनकी कुछ सहायता करने हुए आत्म-सोप और आत्म-सुनका नाभ ले । दूसरोकी तृष्णीमें अपनी खुशी प्रकट करना और उन्हें आदिक शुभ लाभनाए भेंट करना सामाजिक सत्प्रवृत्तियोंका एक महत्वपूर्ण अङ्ग है । सम्यता और माहित्य भी इस बातका तकाजा करने हैं कि आदमीका जन्म दूसरोका उपकार करनेके लिये है । उमें अनेसे नीच, दीन, हीन, दुर्बल, रोगी, अभावग्रस्त, निराश व्यक्तियोंकी चिन्ता बन पड़े, सेवा-सहायता करनी चाहिये । यह अकल मुझे पिछले चार सालसे ही आयी है । उपलिये अपनी असनी उन्न में चार मान ही मानता हूँ । बाकी सब फजूल है ।’

बृद्धता यह उत्तर मुन नोंगेरवां विचारमें पड़ गया । उसे

अनुभव हुआ कि इस दृष्टिसे तो वह भी कपूरवार था और उसने भी सही अर्थोंमें अभी जीना शुरू नहीं किया था ।

अपने निजी जीवनमें कोई आदमी कितना भी धनी, स्वस्थ, विद्वान्, सम्पन्न और संतुष्ट क्यों न हो, उसे इससे केवल भौतिक सुख-सुविधाएँ ही मिल सकती हैं । वह अपना और अपने परिवारका ही हित देख सकता है, किंतु यह दायरा अति सीमित है । सभी पशु अपने शरीर और अपने परिवारका हित चाहते हैं; पर यह एक मनुष्यका—मनुष्यका जीवन नहीं है । अधिक बच्चोंको जन्म देना और सारी उम्र उन्हें पालने-पोसनेमें ही समाप्त कर देना जानवरके जीवनसे बेहतर नहीं है ।

यह समझदारीका चिह्न नहीं कि सारी क्षमता और प्रतिभा केवल उपार्जन और उपयोगमें ही खर्च होती रहे ।

अपनेको अधिकाधिक पवित्र बनाते हुए विश्वमानवकी जनता जनार्दनकी सेवा और नैतिक उत्थानके लिये हम अपना उत्सर्ग करते रहे, तो इसी धरतीपर हम स्वर्ग उतार सकते हैं—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मान्येवनुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥

(यजुर्वेद ४० । ६)

अर्थात् जो सम्पूर्ण प्राणियोंके दुःख-सुख और हानि-लाभको ऐसे देखता है, जैसे अपने दुःख-सुखको देखता है, उसकी सभी द्विविधाएँ मिट जाती हैं । वह सभी जीवोंमें एक परमात्माकी ही मूर्ति देखकर सबकी सेवा करता है । जो समाजकी भगवान्क रूप देखकर उनके उत्थानके लिये काम करता है, उसीका जीवन धन्य है ।



भारत सरकार द्वारा
उपलब्ध कराये गये
रियायती मूल्य के
कागज पर मुद्रित ।

